

प्रकाशक—

श्रीमन्त शेठ सिताबराय लक्ष्मीचन्द्र,
जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालय
अमरावती (बरार)



मुद्रक—

टी. एम्. पाटील
मैनेजर

सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती.

THE
ṢAṬKHANDĀGAMA

OF
PUṢPADANTA AND BHŪTABALI
WITH
THE COMMENTARY DHAVALĀ OF VĪRASENA

VOL. VIII
BANDHA-SWĀMITVA-VICAYA

Edited

with introduction, translation, indexes and notes

BY

Dr. HIRALAL JAIN, M. A., LL. B., D. Litt.,
C. P. Educational Service, Nagpur-Mahavidyalaya, Nagpur.

ASSISTED BY

Pandit Balchandra Siddhānta Shāstrī.

with the cooperation of

Pandit DEVAKINANDAN
Siddhānta Shāstrī

*

Dr. A. N. UPADHYE
M. A., D. LITT.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jaina Sāhitya Uddhārakā Fund Kāryālaya,
AMRAOTI (Berar).

1947.

Price rupees ten only.

Published by—

**Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jaina Sahitya Uddharaka Fund Kāryālaya.
AMRAOTI [Berar].**



Printed by—

**T. M. Patil, Manager,
Saraswati Printing Press,
AMRAOTI (Berar).**

विषय-सूची

			पृष्ठ
१	प्राक्कथन	१
	१		
	प्रस्तावना		
	Introduction		
१	विषय-परिचय	१
२	बन्ध-स्वामित्व-विचयकी विषय-सूची	९
३	शुद्धि-पत्र	१७
	२		
	मूल, अनुवाद और टिप्पण बन्ध-स्वामित्व-विचय		१-३९८
१	ओष्ठकी अपेक्षा बन्धस्वामित्व	१
२	आदेशकी " "	९३
	३		
	परिशिष्ट		
१	बन्ध-स्वामित्व-विचय-सूत्रपाठ	१
२	अवतरण-गाथा-सूची	२१
३	न्यायोक्तियाँ	"
४	ग्रन्थोल्लेख	२२
५	पारिभाषिक शब्द-सूची	"

प्राक्-कथन



षट्खण्डागम सातवें भाग खुदाबन्धके प्रकाशित होनेके दो वर्ष पश्चात् यह आठवां भाग बन्धस्वामित्व-विचय पाठकोंके हाथ पहुंच रहा है । इस भागके साथ षट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्ड पूर्णतः विद्वत्संसारके सम्मुख उपस्थित हो गये । कागज, मुद्रण व व्यवस्थादि सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों व असुविधाओंके होते हुए भी यह कार्य गतिशील बना ही रहा है, इसका श्रेय ग्रन्थमालाके संस्थापक श्रीमन्त सेठजी व अन्य अधिकारी, मेरे सहयोगी पं. बालचन्द्रजी शास्त्री तथा सरस्वती प्रेसके मैनेजर श्रीयुत टी. एम्. पाटीलको है जो इस कार्यको विशेष रुचि और अपनत्वके साथ निवाहते जा रहे हैं । इन सबका मैं हृदयसे अनुगृहीत हूँ । उन्हींके सहयोगके बलपर आगेका कार्य भी समुचित रूपसे चलता रहेगा, ऐसी आशा है । नवें भागका मुद्रण प्रारम्भ हो गया है ।

नागपुर महाविद्यालय, नागपुर
७-९-१९४७

}

हीरालाल

प्रस्तावना

INTRODUCTION.

The present volume contains the complete third part (Khanda) of the Satkhaṇḍāgama. It is called Bandha-sāmitta-vicaya which means ' Quest of those who bind the Karmas '. Out of the 148 varieties of Karmas, it is only 120 that are capable of being produced directly by the soul. The author of the Sūtras has mentioned, in the form of questions and answers, the spiritual stages (Gunasthānas) and the detailed conditions of life and existence (Mārganasthānas) in which specified Karmas may be forged, Fortytwo Sūtras are devoted to the Gunasthāna treatment, and the rest 282 to the Mārganā-sthāna. The commentator has enlarged the scope of the treatment of the subject by raising twentythree questions and answering them in relation to all the Karmas. In this way, good many details about the Karma Siddhānta have been exposed, and the whole work is very important for a thorough study of Jaina Philosophy.

विषय-परिचय

इस खण्डका नाम बन्धस्वामित्व-विचय है, जिसका अर्थ है बन्धके स्वामित्वका विचय अर्थात् विचारणा, मीमांसा या परीक्षा। तदनुसार यहाँ यह विवेचन किया गया है कि कौनसा कर्मबन्ध किस किस गुणस्थानमे व मार्गणास्थानमे सम्भव है। इस खण्डकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई है —

कृति आदि चौबीस अनुयोगद्वारोमे छठवें अनुयोगद्वारका नाम बन्धन है। बन्धनके चार भेद हैं—बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान। बन्धविधान चार प्रकारका है—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इनमें प्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है—मूळ प्रकृतिबन्ध और उत्तर प्रकृतिबन्ध। सत्प्ररूपणा पृष्ठ १२७ के अनुसार उत्तर प्रकृतिबन्ध भी दो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध और अर्वागाढउत्तरप्रकृतिबन्ध। एकैकोत्तरप्रकृतिबन्धके समुक्तीर्तनादि चौबीस अनुयोगद्वार हैं जिनमें बारहवां अनुयोगद्वार बन्धस्वामित्व-विचय है।

इस खण्डमें ३२४ सूत्र हैं। प्रथम ४२ सूत्रोंमें ओष अर्थात् केवल गुणस्थानानुसार प्ररूपण है, और शेष सूत्रोंमें आदेश अर्थात् मार्गणानुसार गुणस्थानोंका प्ररूपण किया गया है। सूत्रोंमें प्रश्नोत्तर क्रमसे केवल यह बतलाया गया है कि कौन कौन प्रकृतियां किन किन गुणस्थानोंमें बन्धको प्राप्त होती है। किन्तु ध्वजाकारने सूत्रोंको देशामर्शक मानकर बन्धव्युच्छेद आदि सम्बन्धी तेवीस प्रश्न और उठाये हैं और उनका समाधान करके बन्धोदयव्युच्छेद, स्वोदय-परोदय, सान्तर-निलन्तर, सप्रलय-अप्रत्यय, गति-संयोग व गति-स्वामित्व, बन्धविधान, बन्ध-व्युच्छित्तिस्थान, सादि-अनादि व ध्रुव-अध्रुव बन्धोंकी व्यवस्थाका स्पष्टीकरण कर दिया है, जिससे विषय सर्वांगपूर्ण प्ररूपित हो गया है। इस प्ररूपणाकी कुछ विशेष व्यवस्थायें इस प्रकार हैं—

सान्तरबन्धी—एक समय बंधकर द्वितीय समयमें जिनका बन्ध विश्रान्त हो जाता है वे सान्तरबन्धी प्रकृतियां हैं। वे ३४ हैं— असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, एकेन्द्रियादि ४ जाति, समचतुरस्रसंस्थानको छोड़ शेष ५ संस्थान, वज्रर्षमनाराच-संहननको छोड़ शेष ५ संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आताप, उद्यौत, अप्रशस्तविह्वयोगति, स्वावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशोकीर्ति।

निरन्तरबन्धी— जो प्रकृतियां जघन्यसे भी अन्तर्मुहूर्त काल तक निरन्तर रूपसे बंधती हैं वे निरन्तरबन्धी हैं। वे ५४ हैं— ध्रुवबन्धी ४७ (देखिये पृ. ३), आयु ४, तीर्थंकर, आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग।

सान्तर-निरन्तरबन्धी— जो जघन्यसे एक समय और उत्कर्षतः एक समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तके आगे भी बंधती रहती हैं वे सान्तर-निरन्तरबन्धी प्रकृतियां हैं। वे ३२ हैं— सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक-शरीर, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, बज्रर्षभ-संहनन, तिर्यग्ल्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, प्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, नीचगोत्र और ऊंचगोत्र।

गतिसंयुक्त— प्रश्नके उत्तरमें यह बतलाया गया है कि विवक्षित प्रकृतिके बन्धके साथ चार गतियोंमें कौनसी गतियोंका बन्ध होता है। जैसे— मिथ्यादृष्टि जीव ५ ज्ञानावरणको चारों गतियोंके साथ, उच्चगोत्रको मनुष्य व देवगतिके साथ, तथा यशकीर्तिको नरकगतिके बिना शेष ३ गतियोंसे संयुक्त बांधता है।

गतिस्वामित्वमें विवक्षित प्रकृतियोंको बांधनेवाले कौन कौनसी गतियोंके जीव हैं, यह प्ररूपित किया गया है। जैसे— ५ ज्ञानावरणको मिथ्यादृष्टिसे असंयत गुणस्थान तक चारों गतियोंके, संयतासंयत तिर्यच व मनुष्य गतिके, तथा प्रमत्तादि उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगतिके ही जीव बांधते हैं।

अध्वानमें विवक्षित प्रकृतिका बन्ध किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक होता है, यह प्रगट किया गया है। जैसे— ५ ज्ञानावरणका बन्ध मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक होता है।

सादि बन्ध— विवक्षित प्रकृतिके बन्धका एक वार व्युच्छेद हो जानेपर जो उपशमश्रेणीसे भ्रष्ट हुए जीवके पुनः उसका बन्ध प्रारम्भ हो जाता है वह सादि बन्ध है। जैसे— उपशान्त-कषाय गुणस्थानसे भ्रष्ट होकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके ५ ज्ञानावरणका बन्ध।

अनादि बन्ध— विवक्षित कर्मके बन्धके व्युच्छिन्निस्थानको नहीं प्राप्त हुए जीवके जो उसका बन्ध होता है वह अनादि बन्ध कहा जाता है। जैसे— अपने बन्धव्युच्छिन्नि-स्थान रूप सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयसे नीचे सर्वत्र ५ ज्ञानावरणका बन्ध।

ध्रुव बन्ध—अमन्य जीवोंके जो ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध होता है वह अनादि-अनन्त होनेसे ध्रुव बन्ध कहलाता है ।

ध्रुवबन्धी प्रकृतियां ४७ हैं— ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, मय, लुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तराय ।

अध्रुव बन्ध—मन्य जीवोंके जो कर्मबन्ध होता है वह विनश्यर होनेसे अध्रुव बन्ध है ।

अध्रुवबन्धी प्रकृतियां—ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंसे शेष ७३ प्रकृतियां अध्रुवबन्धी हैं ।

इनमें ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार तथा शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध ही होता है ।

उक्त व्यवस्थायें यथासम्भव आगेकी तालिकाओंमें स्पष्ट की गई हैं—

बन्धोदय-तालिका

संख्या	प्रकृति	स्वोदयबन्धी आदि	सान्तरबन्धी आदि	बन्ध किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक	उदय किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक	पृष्ठ
१-५	ज्ञानावरण ५	स्वो- बन्धी	निरन्तरबन्धी	१-१०	१-१२	७
६-९	चक्षुदर्शनावरणादि ४	"	"	"	"	"
१०-११	निद्रा, प्रचला	स्व-परो.	"	१-८	"	३५
१२-१४	निद्रानिद्रादि ३	"	"	१-२	१-६	३०
१५	सातावेदनीय	"	सा. निर.	१-१३	१-१४	३८
१६	असातावेदनीय	"	सान्तरबन्धी	१-६	"	४०
१७	मिथ्यात्व	स्वो.	नि.	१	१	४२
१८-२१	अनन्तानुबन्धी ४	स्व-परो.	"	१-२	१-२	३०
२२-२५	अप्रत्याख्यानावरण ४	"	"	१-४	१-४	४६
२६-२९	प्रत्याख्यानावरण ४	"	"	१-५	१-५	५०
३०-३३	संज्वलनक्रोधादि ३	"	"	१-९	१-९	५२, ५५
३३	संज्वलनेलोम	"	"	"	१-१०	५८

संख्या	महृति	स्वोदयबन्धी आदि	सान्तरबन्धी आदि	बन्ध किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक	उदय किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक	पृष्ठ
३४-३५	हास्य, रति	स्व-परो.	सा. निर.	१-८	१-८	९५
३६-३७	भरति, शोक	"	सा.	१-६	"	४०
३८-३९	भय, जुगुप्सा	"	नि.	१-८	"	५९
४०	नपुंसकवेद	"	सा.	१	१-९	४२
४१	छोवेद	"	"	१-२	"	३०
४२	पुरुषवेद	"	सा. नि.	१-९	"	५२
४३	नारकायु	परो.	नि.	१	१-४	४२
४४	तिर्यगायु	स्व-परो.	"	१-२	१-५	३०
४५	मनुष्यायु	"	"	१, २, ४	१-१४	६१
४६	देवायु	परो.	"	१-७ (३को छोड़)	१-४	६४
४७	नरकगति	"	सा.	१	"	४२
४८	तिर्यगति	स्व-परो.	सा. नि.	१-२	१-५	३०
४९	मनुष्यगति	"	"	१-४	१-१४	४६
५०	दिवगति	परो.	"	१-८	१-४	६६
५१-५४	एकेन्द्रियादि ४ जाति	स्व-परो.	सा.	१	१	४२
५५	पंचेन्द्रिय जाति	"	सा. नि.	१-८	१-१४	६६
५६	औदारिकशरीर	"	"	१-४	१-१३	४६
५७	वैक्रियिकशरीर	परो.	"	१-८	१-४	६६
५८	आहारकशरीर	"	नि.	७-८	६	७१
५९	तैजसशरीर	स्वो.	"	१-८	१-१३	६६
६०	कार्मणशरीर	"	"	"	"	"
६१	औदारिकअंगोपांग	स्व-परो.	सा. नि.	१-४	"	४६
६२	वैक्रियिकअंगोपांग	परो.	"	१-८	१-४	६६
६३	आहारकअंगोपांग	"	नि.	७-८	६	७१

६४	निर्माण	स्वो.	नि.	१-८	१-१३	६६
६५	समचतुरस्रसंस्थान	स्व-परो.	सा. नि.	"	"	"
६६	न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान	"	सा.	१-२	"	३०
६७	स्वातिसंस्थान	"	"	"	"	"
६८	कुञ्जकसंस्थान	स्व-परो.	सा.	१-२	१-१३	३०
६९	वामनसंस्थान	"	"	"	"	"
७०	हुण्डकसंस्थान	"	"	१	"	४२
७१	वज्रवृषमनाराचसंहनन	"	सा. नि.	१-४	"	४६
७२	वज्रनाराचसंहनन	"	सा.	१-२	१-११	३०
७३	नाराचसंहनन	"	"	"	"	"
७४	अर्धनाराचसंहनन	"	"	"	१-७	"
७५	कीर्णितसंहनन	"	"	"	"	"
७६	असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन	"	"	१	"	४२
७७	स्पर्श	स्वो.	नि.	१-८	१-१३	६६
७८	रस	"	"	"	"	"
७९	गन्ध	"	"	"	"	"
८०	वर्ण	"	"	"	"	"
८१	नरकगत्यानुपूर्वी	परो.	सा.	१	१, २, ४	४३
८२	तिर्यग्गत्यानुपूर्वी	स्व-परो.	सा. नि.	१-२	"	३०
८३	मनुष्यगत्यानुपूर्वी	"	"	१-४	"	४६
८४	देवगत्यानुपूर्वी	परो.	"	१-८	"	६६
८५	अगुरुलघु	स्वो.	नि.	"	१-१३	"
८६	उपघात	स्व-परो.	"	"	"	"
८७	परघात	"	सा. नि.	"	"	"
८८	आताप	"	सा.	१	१	४२
८९	उच्योत.	"	"	१-२	१-५	३०
९०	उच्छ्वास-	"	सा. नि.	१-८	१-१३	६६
९१	प्रवास्त्रविह्वयोगति	"	"	"	"	"

संख्या	प्रकृति	स्वोदयबन्धी भादि	सान्करबन्धी भादि	बन्ध किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक	उदय किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक	पृष्ठ
९२	अप्रशस्तविहायोगति	स्व-परो.	सा.	१-२	१-१३	३०
९३	प्रत्येकशरीर	"	सा. नि.	१-८	"	६६
९४	साधारणशरीर	"	सा.	१	१	४२
९५	त्रस	"	सा. नि.	१-८	१-१४	६६
९६	स्थावर	"	सा.	१	१	४२
९७	सुमग	"	सा. नि.	१-८	१-१४	६६
९८	दुर्मग	"	सा.	१-२	१-४	३०
९९	सुस्वर	"	सा. नि.	१-८	१-१३	६६
१००	दुस्वर	"	सा.	१-२	"	३०
१०१	शुभ	स्वो.	सा. नि.	१-८	"	६६
१०२	अशुभ	"	सा.	१-६	"	४०
१०३	बादर	स्व-परो.	सा. नि.	१-८	१-१४	६६
१०४	सूक्ष्म	"	सा.	१	१	४२
१०५	पर्याप्त	"	सा. नि.	१-८	१-१४	६६
१०६	अपर्याप्त	"	सा.	१	१	४२
१०७	स्थिर	स्वो.	सा. नि.	१-८	१-१३	६६
१०८	अस्थिर	"	सा.	१-६	"	४०
१०९	आदेय	स्व-परो.	सा. नि.	१-८	१-१४	६६
११०	अनादेय	"	सा.	१-२	१-४	३०
१११	यशकीर्ति	"	सा. नि.	१-१०	१-१४	७
११२	अयशकीर्ति	"	सा.	१-६	१-४	४०
११३	तीर्थकर	परो.	नि.	४-८	१३-१४	७३
११४	उच्चगोत्र	स्व-परो.	सा. नि.	१-१०	१-१४	७
११५	नीचगोत्र	"	"	१-२	१-५	३०
१६-२०	अन्तरास्य ५	स्वो.	नि.	१-१०	१-१२	७

प्रत्यय-तालिका (पृ. १९-२४)

गुणस्थान	मिथ्यात्व ५	भविष्यति १२	कषाय २५	योग १५	समस्त ५७
मिथ्यात्व	५	१२	२५	१३ आहारद्विकसे रहित	५५
सासादन	...	"	"	"	९०
मिश्र	"	२१ अनन्तानुबन्धिचतुष्कसे रहित	१० आ. द्विक, औ. मि., वै. मि. व कार्मणसे रहित	४३
असंयत	"	"	१३ आहारद्विकसे रहित	४६
देशसंयत	११ असंयत- यम रहित	१७ अप्रत्याख्यानचतुष्कसे रहित	९ आ. द्विक, औ. मि., वै. द्वि. व कार्मणसे रहित	३७
प्रमत्त	१३ प्रत्याख्यानचतुष्कसे रहित	११ आहारद्विकसे सहित उपर्युक्त	२४
अप्रमत्त	"	९ आहारद्विकसे रहित उपर्युक्त	२२
अपूर्वकरण	"	"	"
अनिवृत्ति- करण भा. १	७ नोकषाय ६ से हीन	"	१६
भा. २	६ नपुंसकवेदसे हीन	"	१५

गुणस्थान	सिध्दाख्य ५	अभिरति १२	कथाय २५	योग ३५	समस्त ५७
अनिवृत्ति- करण भा. ३	५ खीधदसे हीन	९ आ. द्विक, औ. मि., वै. द्वि. व. कार्मणसे रहित	१४
भा. ४	४ पुरुषवेदसे हीन	"	१३
भा. ५	३ संखलनक्रोधसे हीन	"	१२
भा. ६	२ संखलनमानसे हीन	"	११
भा. ७	१ संखलनमायासे हीन	"	१०
सूक्ष्मसाम्प- राय	"	"	"
उपशान्त- कथाय	"	९
क्षीणमोह	"	८
सयोग- केवली	७ सत्य व अनुभय मन और वचन, औ. द्विक., कार्मण	७
अयोग- केवली

विषय-सूची

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
१	ध्वलाकारका मंगलाचरण		१	१४ भुवबन्धी प्रकृतियोंका निर्देश	१७
२	बन्ध-स्वामित्व-विचयका दो प्रकारसे निर्देश		"	१५ निरन्तरबन्ध और भुवबन्धमें विशेषता	"
३	बन्ध-स्वामित्व-विचयका अवतार	२	२	१६ मूल और उत्तर प्रत्ययोंकी विस्तृत प्ररूपणा	१९
४	बन्ध व मोक्षका स्वरूप		३	१७ गतिसंयोगादिविषयक प्रश्नोंका उत्तर	२८
५	बन्ध-स्वामित्व-विचयका निरुक्त्यर्थ		"	१८ निद्रानिद्रादिक पञ्चीस प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	३०
६	ओघसे बन्ध-स्वामित्व-विचयके चौदह जीवसमासोंका निर्देश		४	१९ निद्रा और प्रचला प्रकृतिके बंध-स्वामित्व आदिका विचार	३१
७	चौदह गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्ध व्युच्छेदकी प्रतिज्ञा		५	२० सातावेदनीयके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	३८
८	व्युच्छेदके भेद और उनका निरुक्त्यर्थ		"	२१ असातावेदनीय आदि छह प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	४०-
	ओघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्व	७-९२	७	२२ मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	४२
९	पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धकोंकी प्ररूपणामें तेईस प्रश्नोंका उद्भावन		९	२३ अपत्याख्यानावरणीय आदि नौ प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	४६
१०	प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छिप्ति		११	२४ प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बन्ध स्वामित्व आदिका विचार	५०
११	प्रकृतियोंके बन्धोदयकी पूर्वापरता		१२	२५ पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	५२
१२	पांच ज्ञानावरणीयादिकोके बंधके स्वामी व उसके व्युच्छेदस्थानकी प्ररूपणा करते हुए उन तेईस प्रश्नोंका उत्तर		१६	२६ संज्वलन मान और मायाके बन्ध-स्वामित्व आदिका विचार	५५
१३	सान्तर, निरन्तर और सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका निर्देश				

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
२७	संज्वलन लोभके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	५८	४१	तीर्थकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्वका विचार	१०३
२८	हास्य, रति, भय और जुगुप्साके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	५९	४२	प्रथम तीन पृथिवियोंमें बन्धस्वामित्वका विचार	१०४
२९	मनुष्यायुके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	६१	४३	चतुर्थ, पंचम और छठी पृथिवीमें बन्धस्वामित्व आदिका विचार	१०५
३०	देवायुके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	६४	४४	सातवीं पृथिवीमें ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	"
३१	देवगति आदि संचाईस प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	६६	४५	सातवीं पृथिवीमें निद्रानिद्रा आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१०९
३२	आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांगके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	७१	४६	सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्व आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१११
३३	तीर्थकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	७३		तिर्यग्गतिमें—	
३४	तीर्थकर प्रकृतिके विशेष कारणोंकी आशंका	७६	४७	तिर्यच्च, पंचेन्द्रिय तिर्यच्च, पंचेन्द्रिय तिर्यच्च पर्याप्त और, पंचेन्द्रिय तिर्यच्च योनिमतियोंमें ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	११२
३५	तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके सोलह कारणोंकी प्ररूपणा	७८	४८	निद्रानिद्रा आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	११९
३६	तीर्थकर प्रकृतिके उदयका माहात्म्य	९१	४९	मिथ्यात्व आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१२३
	आदेशकी अपेक्षा बन्धस्वामित्व गतिमार्गणा ९३-३९८		५०	अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बन्धस्वामित्वका विचार	१२५
३७	नरकगतिमें ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	९३	५१	देवायुके बन्धस्वामित्वका विचार	१२६
३८	निद्रानिद्रादिके बन्धस्वामित्वका विचार	९८	५२	पंचेन्द्रिय तिर्यच्च अपर्याप्तोंमें ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१२७
३९	मिथ्यात्व आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१०२		मनुष्यगतिमें—	
४०	मनुष्यायुके बन्धस्वामित्वका विचार	१०२	५३	मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें बोधके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	१३०

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
५४	मनुष्य अपर्याप्तोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान बन्ध-स्वामित्वकी प्ररूपणा	१३४	६६	मनुष्यायुके बन्धस्वामित्वका विचार	१५४
	देवगतिमें—		६७	तीर्थकर प्रकृतिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	"
५५	देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	१३७	६८	अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१५५
५६	निद्रानिद्रा आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	१४१		इन्द्रियमार्गणा	
५७	मिथ्यात्व आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	१४३	६९	एकेन्द्रिय, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, विकलत्रय पर्याप्त अपर्याप्त, तथा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	१५८
५८	मनुष्यायुके बन्धस्वामित्वका विचार	१४४	७०	पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वके विचारमें बन्धक आदि विषयक तर्हिस प्रश्नोंके एकद्विसंयोगादि भंगोंकी प्ररूपणा	१७०
५९	तीर्थकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्व आदिका विचार	१४५	७१	उक्त जीवोंमें निद्रानिद्रा आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१७४
६०	भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें कुछ विशेषताके साथ सामान्य देवोंके समान बन्धस्वामित्व आदिकी प्ररूपणा	१४६	७२	निद्रा और प्रचलाके बन्ध-स्वामित्वका विचार	१७७
६१	सौघर्म और ईशान कल्पवासी देवोंमें सामान्य देवोंके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	१४७	७३	सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	"
६२	सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें प्रथम पृथिवीस्थ नारकियोंके समान बन्ध-स्वामित्वकी प्ररूपणा	१४८	७४	असातावेदनीय आदि छह प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्वका विचार	१७८
६३	आनत कल्पसे लेकर नौ द्रैवेयक तक पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१४९	७५	मिथ्यात्व आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१८०
६४	निद्रानिद्रा आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	१५२	७६	अप्रत्यास्थानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	१८२
६५	मिथ्यात्व आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	१५३			

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
७७	प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बन्ध- स्वामित्वका विचार	१८४	योगमार्गणा	
७८	पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधके बन्धस्वामित्वका विचार	"	८९ पांच मनोयोगी, पांच चचनयोगी और काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्वकी ओघके समान प्ररूपणा	२०१
७९	संज्वलन मान और मायाके बन्धस्वामित्वका विचार	१८५	९० उक्त जीवोंमें सातावेदनीय विष- यक बन्धस्वामित्वकी कुछ विशेषता	२०२
८०	संज्वलन लोभके बन्धस्वामित्वका विचार	"	९१ औदारिककाययोगियोंमें मनुष्य- गतिके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	२०३
८१	हास्य, रति, भय और जुगुप्साके बन्धस्वामित्वका विचार	१८६	९२ उक्त जीवोंमें सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वकी मनोयोगियोंके समान प्ररूपणा	२०५
८२	मनुष्यायुके बन्धस्वामित्वका विचार	"	९३ औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध- स्वामित्वका विचार	"
८३	देवायुके बन्धस्वामित्वका विचार	१८७	९४ निद्रानिद्रा आदिके बन्ध- स्वामित्वका विचार	२०९
८४	देवगति आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	"	९५ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	२१२
८५	आहारकशरीर और आहारक अंगोपांगके बन्धस्वामित्वका विचार	१९१	९६ मिथ्यत्व आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	२१३
८६	तीर्थकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्वका विचार	"	९७ देवचतुष्कके बन्धस्वामित्वका विचार	२१४
	कायमार्गणा		९८ वैक्रियिककाययोगियोंमें देव- गतिके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	२१५
८७	पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद जीव बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त अपर्याप्तोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	१९२	९९ वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें देव- गतिके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	२२२
८८	तेजकायिक व वायुकायिक बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्तोंमें कुछ विशेषताके साथ पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंके समान बन्ध- स्वामित्वकी प्ररूपणा	१९९	१०० उक्त जीवोंमें तिर्यंगायु और मनुष्यायुके बन्धाभावकी विशेषता	२२९

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
१०१	आहारक व आहारकमिश्र काय-योगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	२२९	११४	हास्य व रतिसे लेकर तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा	२५४
१०२	कार्मणकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	२३२	११५	अपगतवेदियोंमें पांच ज्ञाना-वरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	२६४
१०३	निद्रानिद्रा आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	२३७	११६	सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	२६५
१०४	सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	२३८	११७	संज्वलनक्रोधके बन्धस्वामित्वका विचार	२६६
१०५	मिथ्यात्व आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	२३९	११८	संज्वलन मान और मायाके बन्धस्वामित्वका विचार	२६७
१०६	देवगति आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	२४१	११९	संज्वलनलोभके बन्धस्वामित्वका विचार	२६८
वेदमार्गीणा			कषायमार्गीणा		
१०७	स्त्री, पुरुष और नपुंसकवेदियोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	२४२	१२०	क्रोधकषायी जीवोंमें पांच ज्ञाना-वरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	२६९
१०८	निद्रानिद्रा आदि द्विस्थानिक प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्वकी ओघके समान प्ररूपणा	२४५	१२१	द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	२७२
१०९	निद्रा और प्रचलाकी ओघके समान प्ररूपणा	२४८	१२२	निद्रासे लेकर प्रत्याख्यानावरण-चतुष्क तक ओघके समान प्ररूपणा	२७४
११०	असातावेदनीयकी ओघके समान प्ररूपणा	२४९	१२३	पुरुषवेदादिकी ओघके समान प्ररूपणा	२७५
१११	मिथ्यात्व आदिक एकस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	"	१२४	हास्य व रतिसे लेकर तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा	"
११२	अप्रत्याख्यानावरणकी ओघके समान प्ररूपणा	२५१	१२५	मानकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	"
११३	प्रत्याख्यानावरणकी ओघके समान प्ररूपणा	२५४	१२६	द्विस्थानिक आदि प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	२७६

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
१२७	हास्य रति आदिकी ओघके समान प्ररूपणा	२७७	१४० मनःपर्ययज्ञानियोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	२९५
१२८	मायाकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	"	१४१ निद्रा और प्रचलाके बन्ध-स्वामित्वका विचार	"
१२९	द्विस्थानिक आदिकी ओघके समान प्ररूपणा	"	१४२ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	२९६
१३०	हास्य-रति आदिकी ओघके समान प्ररूपणा	२७८	१४३ शेष प्रकृतियोंकी कुछ विशेषताके साथ ओघके समान प्ररूपणा	"
१३१	लोभकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	"	१४४ केचलज्ञानियोंमें सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	२९७
१३२	शेष प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	"	संयममार्गणा	
१३३	अकषायी जीवोंमें सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	"	१४५ संयत जीवोंमें मनःपर्ययज्ञानियोंके समान बन्ध-स्वामित्वकी प्ररूपणा	२९८
	ज्ञानमार्गणा		१४६ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वमें कुछ विशेषता	"
१३४	मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी और विभंगज्ञानियोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	२७९	१४७ सामाधिकछेदोपस्थापनशुद्धि-संयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	"
१३५	एकस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	२८५	१४८ शेष प्रकृतियोंके बन्ध-स्वामित्वकी मनःपर्ययज्ञानियोंके समान प्ररूपणा	३००
१३६	आभिनियोगिक, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	२८६	१४९ परिहारशुद्धिसंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	३०३
१३७	निद्रा व प्रचलाकी ओघके समान प्ररूपणा	२८७	१५० असातावेदनीय आदिके बन्ध-स्वामित्वका विचार	३०५
१३८	सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	२८८	१५१ देवायुके बन्धस्वामित्वका विचार	३०६
१३९	शेष प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	२८९	१५२ आहारशरीर और आहार-शरीरान्गोपांगके बन्धस्वामित्वका विचार	३०७

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
१५३	सूक्ष्मसाम्परायिक संयतांमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३०८	१६५ तेज और पद्मलेइयावालोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३३३
१५४	यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोमें सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	३०९	१६६ द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	३३७
१५५	संयतासंयतोमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३१०	१६७ असातावेदनीयकी ओघके समान प्ररूपणा	३३९
१५६	असंयत जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३१२	१६८ मिथ्यात्व आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३४०
१५७	द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	३१७	१६९ अप्रत्याख्यानावरणकी ओघके समान प्ररूपणा	३४१
१५८	एकस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके समान प्ररूपणा	"	१७० प्रत्याख्यानावरणकी ओघके समान प्ररूपणा	३४३
१५९	मनुष्यायु और देवायुके बन्धस्वामित्वका विचार	"	१७१ मनुष्यायुकी ओघके समान प्ररूपणा	"
१६०	तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्वका विचार	३१८	१७२ देवायुकी ओघके समान प्ररूपणा	३४४
	दर्शनमार्गणा		१७३ आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांगके बन्धस्वामित्वका विचार	"
१६१	चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	"	१७४ तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्वका विचार	३४५
१६२	सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वमें कुछ विशेषता	३१९	१७५ पद्मलेइयावालोंमें मिथ्यात्व-दण्डककी नारकियोंके समान प्ररूपणा	३४६
१६३	अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधि-ज्ञानियों और केवलदर्शनी जीवोंमें केवलज्ञानियोंके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	"	१७६ शुक्ललेइयावालोंमें तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा	"
	लेइयामार्गणा		१७७ उक्त जीवोंमें सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वकी मनोयोगियोंके समान प्ररूपणा	३५६
१६४	कृष्ण, नील और कापोत लेइयावालोंमें असंयतोके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	३२०	१७८ द्विस्थानिक और एकस्थानिक प्रकृतियोंकी नवप्रैवेकविमान वासी देवोंके समान प्ररूपणा	"

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
	भ्रम्यमार्गिणा		१९१	सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका विचार	३७५
१७९	भ्रम्य जीवोंमें ओषधके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	३५८	१९२	असातावेदनीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३७६
१८०	अभ्रम्य जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३५९	१९३	अप्रत्याख्यानवरणीयकी अचधिज्ञानियोंके समान प्ररूपणा	"
	सम्यत्त्वमार्गिणा		१९४	उक्त जीवोंमें आयुके बन्धका अभाव	३७७
१८१	सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनिवोधिक-ज्ञानियोंके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	३६३	१९५	प्रत्याख्यानवरणचतुष्कके बन्धस्वामित्वका विचार	"
१८२	सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वमें कुछ विशेषता	३६४	१९६	पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधके बन्धस्वामित्वका विचार	"
१८३	वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	"	१९७	संज्वलन मान और मायोके बन्धस्वामित्वका विचार	३७८
१८४	असातावेदनीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३६७	१९८	संज्वलनलोभके बन्धस्वामित्वका विचार	"
१८५	अप्रत्याख्यानवरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	३६९	१९९	हास्य, रति, भय और जुगुप्साके बन्धस्वामित्वका विचार	३७९
१८६	प्रत्याख्यानवरणचतुष्कके बन्धस्वामित्वका विचार	३७०	२००	देवगति आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	"
१८७	देवायुके बन्धस्वामित्वका विचार	३७१	२०१	आहारकशरीर और आहारकशरीररंगोपांगके बन्धस्वामित्वका विचार	३८०
१८८	आहारकशरीर और आहारकशरीररंगोपांगके बन्धस्वामित्वका विचार	३७२	२०२	सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी मति-ज्ञानियोंके समान प्ररूपणा	"
१८९	उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें पांच ज्ञानावरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार	"	२०३	सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंकी असंयतोंके समान प्ररूपणा	३८३
१९०	निद्रा और प्रचलाके बन्धस्वामित्वका विचार	३७४	२०४	मिथ्यादृष्टियोंकी अभ्रम्य जीवोंके समान प्ररूपणा	३८६
			२०५	संज्ञी जीवोंमें ओषधके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	"

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ क्रम नं.	विषय	पृष्ठ
२०६	सातावेदनीयके बन्धस्वामित्व- की चक्षुदर्शनी जीवोंके समान प्ररूपणा	३८७	२०८ आहारक जीवोंमें ओघके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	३९०
२०७	असंही जीवोंमें अमव्योंके समान बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा	”	२०९ अनाहारक जीवोंमें कार्मण काययोगियोंके समान बन्ध- स्वामित्वकी प्ररूपणा	३९१

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पं.	अशुद्ध	शुद्ध
८	१८	किस गुणस्थान तक	किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक
९	४	उववसो	उवपसो
१३	७	वोच्छिज्जदि	वोच्छिज्जदि
१५	६	बज्जति	बज्जति
”	११	बंधमाणाणि ।	बंधमाणाणि
”	१२	बंधति	बंधति
”	२५-२६	दश प्रकृतियां तथा दर्शनावरणकी ... स्वोदयसे ही बंधती हैं,	दश प्रकृतियों तथा दर्शनावरणकी चार ही प्रकृतियोंको बांधनेवाले सब गुणस्थान स्वोदयसे ही बांधते हैं,
१६	६	पुच्छणं पडिवण्णं ।	पुच्छणं पडिवण्णं बुच्चदे ।
”	२१	ये तीन प्रश्न प्राप्त होते हैं ।	इन तीन प्रश्नोंका उत्तर कहते हैं ।
१८	८	इथि	इत्थि
”	२३	अशुभ, पांच	अशुभ पांच
”	२४	विहायोगति स्यावर	विहायोगति तथा स्यावर
२४	८	दु बावीसा	दुबावीसा
२५	२०	हैं	हैं
३२	७	उदयवोच्छेदो	उदयवोच्छेदादो
३५	५	कदि गदियां	कदिगदियां
३८	३	बुच्चदे	बुच्चदे

पृष्ठ	पं.	अशुद्ध	शुद्ध
४३	११	णिरयगहृपाओग्गाणुपुत्रि	णिरयगहृ-णिरयगहृपाओग्गाणुपुत्रि
"	२६	नारकायु और	नारकायु, नरकगति और
४९	७	धुचबंधो ।	धुचबंधो
"	१७-२१	सर्वे काल.....क्यों नहीं पाया जाता ?	शंका — सर्वे काल.....औदारिकशरीरका ध्रुव बन्ध और अनारिक बन्ध भी क्यों नहीं पाया जाता ?
"	२३	अनादि रूपसे ध्रुव बन्धका	अनादि एवं ध्रुव बन्धका
५०	४	बंधा ॥ २० ॥	बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२०॥
"	१५	बन्धक है ॥ २० ॥	बन्धक है । ये बन्धक है, शेष अबन्धक है ॥ २० ॥
५२	५	दुविहाभावादो	धुवियाभावादो ^१
"	१८	दो प्रकारके बन्धका	ध्रुव बन्धका
"	२५	x x x	१ प्रतिशु दुविहाभावादो इति पाठः ।
५४	६	गयपञ्चओ	सगपञ्चओ ^१
"	२०	गतप्रलय है, अर्थात् उसका प्रलय ऊपर बतला ही चुके हैं,	स्वनिमित्तक है,
"	२३	अनुभागोदयसे अथवा अनन्तगुण-हानिसे हीन	अनुभागोदयकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन
"	३०	x x x	१ प्रतिशु ' गयपञ्चओ ' इति पाठः ।
५५	२०	क्योंकि, वहां	क्योंकि, [मिथ्यात्व और सासादन गुण-स्थानमें]
७८	१४	अन्तर्दीपक	अन्तर्दीपक
९१	१०	लोकस्स	लोकस्स
"	"	अरुचणिज्जा वंदणिज्जा	अरुचणिज्जा पूजणिज्जा वंदणिज्जा
"	१५	अर्चनीय, वंदनीय,	अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय,
९२	१९	पांच मृष्टियो अर्थात् अंगोंसे	पांच मृष्टियों अर्थात् पांच अंगों द्वारा भूमिस्पर्शसे
९९	४	बंधो	बंधो
१०४	२२	द्वितीय दण्डकमें (!)	द्वितीय दण्डक अर्थात् निद्रानिद्रा आदि द्विस्थानिक प्रकृतियोंमें

शृङ्खला	पं.	अशुद्ध	शुद्ध
१०६	३	जसकित्ति-णिमिण	जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण
"	१६	यशकीर्ति, निर्माण	यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण
११३	११	अत्थगदीप	अत्थ गदीप
"	२५	अर्थगतिसे	इस गतिमें
१२१	९	उप्पण्णाणं सणक्कुमारोदि ^१	उप्पण्णाणं, ओरालियसररीरअंगोवंगस्स सणक्कुमारोदि ^१
१२१	२४	जीवोंके, और सनत्कुमारोदि	जीवोंके उपर्युक्त प्रकृतियोंका, तथा औदारिकशरीरोंगोपांगका सनत्कुमारोदि
"	"	मी इनका निरन्तर	मी निरन्तर
१२२	७	मणुस्साउ-मणुसगइपाओग्गाणु-पुव्वीओ	मणुस्साउ- [मणुसगइ-] मणुसगइ-पाओग्गाणुपुव्वीओ
"	८	तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीओ	तिरिक्खाउ- [तिरिक्खगइ-] तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीओ
"	२१	मनुष्यायु एवं	मनुष्यायु, [मनुष्यगति] एवं
"	२२	तिर्यगायु, तिर्यग्गतिप्रयोग्यानु-पूर्वी	तिर्यगायु, [तिर्यग्गति], तिर्यग्गति-प्रयोग्यानुपूर्वी
१२७	७	पज्जत्त-पत्तेय	पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय
"	१९	पर्याप्त, प्रत्येक	पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक
१३०	३	धुवबंधित्तादो । × × ×	धुवबंधित्तादो । अवसेसाणं सादि-अद्दुओ, अद्दुवबंधित्तादो ।
"	१५	धुवबन्धी हैं । × × ×	धुवबन्धी हैं । शेष प्रकृतियोंका सादि और अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।
१३४	११	णवदंसणा-सोलसकसाय-	णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-
१३६	९	[तिर्यग्गइ-तिर्यग्गइपाओग्गाणु-पुव्वी-]	[तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणु-पुव्वी-]
१४२	८	णिमिण-पंचंतराइयाणं	णिमिण-उच्चगोद-पंचंतराइयाणं
"	२०	निर्माण और	निर्माण, उच्चगोत्र और
१६०	१०	सादासाद	सादासाद
१७३	१२	पविक्ख	पडियक्ख

पृष्ठ	पं	अशुद्ध	शुद्ध
१७४	१	सांतर-णिरंतरो ।	सांतर-णिरंतरो,
१९४	५	आदेज्ज-जसकित्ति	आदेज्ज- [अणादेज्ज-] जसकित्ति
"	१७	आदेय, यशकीर्ति	आदेय, [अनादेय], यशकीर्ति
१९७	३	अत्यगईए	अत्य गईए
"	१७	अर्यापत्तिसे	इस पर्यायमें
१९९	५	पज्जत्तापज्जाणं	पज्जत्तापज्जत्ताणं
२३४	८	मिच्छइट्ठीसु	मिच्छाइट्ठीसु
२७८	११	॥ १०५ ॥	॥ २०५ ॥
३१०	२	रदि-सोग	रदि-अरदि-सोग
"	१५	रति, शोक	रति, अरति, शोक
३१६	२४	नरकगति	नरकगति
३५८	४	वेच्छिज्जदि	वोच्छिज्जदि
३६७	१०	जसकित्तिणामाणं	अजसकित्तिणामाणं
"	२७	अयशकीर्ति	अयशकीर्ति
३८०	१	असंजसम्मादिट्ठिप्पहुडि	असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि
"	१२	मदिणाणिभंगो	मदिअणाणिभंगो ^१
"	२३	गतिअज्ञानियोके	मतिअज्ञानियोके
"	२४	× × ×	१ प्रतिपु मदिणाणिभंगो इति पाठः ।



सिरि-भगवंत-पुष्पदंत-भूदबलि-पणीदो

छत्रखंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धबला-टीका-समण्णिदो
तस्स तदियखंडो

बंधसामित्तविचओ

साहूवज्जाइरिए अरहंते वंदिऊण^१ सिद्धे वि ।
जे पंच लोगवाले^२ वोच्छं बंधस्स सामित्तं ॥

जो सो बंधसामित्तविचओ णाम तस्स इमो दुविहो णिद्देसो
ओघेण आदेसेण य ॥ १ ॥

कियइमिदं सुत्तं वुच्चदे ? संबंधामिहेर्यं-पओजणपदुप्पायणइं । जो सो बंधसामित्तविचओ

साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत और सिद्ध, ये जो पंच लोकपाल अर्थात् लोकोत्तम परमेष्ठी हैं उनको नमस्कार करके बंधके स्वामित्वको कहते हैं ।

जो बंधस्वामित्तविचय है उसका यह निर्देश ओघ और आदेशकी अपेक्षासे दो प्रकार है ॥ १ ॥

शंका—यह सूत्र क्यों कहा जाता है ?

समाधान—सम्बन्ध. अभिधेय और प्रयोजनके बतलानेके लिये उक्त सूत्र कहा गया है ।

जो वह बंधस्वामित्तविचय है' इससे सम्बन्ध कहा गया है । वह इस प्रकार

१ प्रतिपु 'वदिऊण' इति पाठ ।

२ अ-आप्तयो 'लोकवाले' इति पाठ ।

३ प्रतिपु 'संबंधामिहिय-' इति पाठ ।

णामेति एदेण संबंधो कहिदो । तं जहा— कदि-वेदणादिचदुवीसअणिओगद्दारेसु तत्थ बंधण-
मिदि छट्ठमणिओगद्दारं । तं चउव्विहं वंधो बंधगा बंधणिज्जं बंधविहाणमिदि । तत्थ बंधो णाम
जीवस्स कम्माणं च संबंधं णयमस्सिदूणं परूवेदि । बंधगो त्ति अहियारो एक्कारसअणिओगद्दारेहि
बंधगे परूवेदि । बंधणिज्जं णाम अहियारो तेवीसवग्गणाहि बंधजेग्गामबंधजेग्गं च पोग्गलद्वं
परूवेदि । जं तं बंधविहाणं तं चउव्विहं पयडि-डिदि-अणुभाग-पदेसबंधो चेदि । तत्थ
पयडिबंधो दुविहो मूलपयडिबंधो उत्तरपयडिबंधो चेदि । जो सो मूलपयडिबंधो सो दुविहो
एगेगमूलपयडिबंधो अब्बोगाढमूलपयडिबंधो चेदि । जो सो अब्बोगाढमूलपयडिबंधो सो दुविहो
भुजगारबंधो पयडिद्वणबंधो चेदि । तत्थ उत्तरपयडिबंधस्स समुक्कित्ताणो चदुवीसअणिओग-
द्दाराणि भवंति । तेसु चदुवीसअणिओगद्दारेसु बंधसामित्तं णाम अणिओगद्दारं । तस्सेव बंध-
सामित्तविचओ त्ति सण्णा । जो सो बंधसामित्तविचओ बंधण-बंधविहाणप्पसिद्धो [सो]
पवाहसरूवेण अणाइणहणो । जो सो त्ति वयणेण जेण सो संभालिदो तेण एसो णिदोसो
संबंधपरूवओ । एसो चेव अभिहेयपरूवओ वि । तं जहा— जीव-कम्माणं मिच्छत्तासंजम-
कसाय-जेगेहि एयत्तपरिणामो बंधो । उतं च—

हे— कृति, वेदना आदि चौवीस अनुयोगद्दारोंमें बन्धन नामक जो छटा अनुयोगद्दार है वह
चार प्रकार है— बंध, बंधक, बन्धनीय और बन्धविधान । उनमें बन्ध नामक अधिकार
जीव और कर्मोंके सम्बन्धका नयकी अपेक्षा करके निरूपण करता है । बन्धक अधिकार
ग्यारह अनुयोगद्दारोंसे बन्धकोंका निरूपण करता है । बन्धनीय नामक अधिकार तेईस
वर्गणाओंसे बन्धयोग्य और अबन्धयोग्य पुद्गल द्रव्यका प्ररूपण करता है । जो बन्ध-
विधान है वह चार प्रकार है— प्रकृतिबंध, स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध ।
उनमें प्रकृतिबन्ध दो प्रकार है— मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबंध । जो मूलप्रकृतिबन्ध
है वह दो प्रकार है— एक-एकमूलप्रकृतिबन्ध और अब्बोगाढमूलप्रकृतिबन्ध । जो
अब्बोगाढमूलप्रकृतिबन्ध है वह दो प्रकार है— भुजगारबंध और प्रकृतिस्थानबन्ध ।
इनमें उत्तरप्रकृतिबन्धके समुत्कीर्तन करनेवाले चौवीस अनुयोगद्दार हैं । उन चौवीस
अनुयोगद्दारोंमें बन्धस्वामित्व नामक अनुयोगद्दार है । उसका ही नाम बन्धस्वामित्वविचय
है । जो बन्धस्वामित्वविचय बन्धन अनुयोगद्दारके अन्तर्गत बन्धविधान अधिकारके भीतर
प्रसिद्ध है वह प्रवाहरूपसे अनादिनिधन है । ' जो सो ' इस वचनसे चूंकि उसका स्मरण
कराया गया है इत्थालिये यह निर्देश सम्यन्धका निरूपक है, और यही अभिधेयका भी
निरूपक है । वह इस प्रकार है— जीव और कर्मोंका मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और
योगोंसे जो एकत्व परिणाम होता है उसे बन्ध कहते हैं । कहा भी है—

बंधेण य संजोगो पोगगलदव्वेण होइ जीवस्स ।

बंधो पुण विण्णेओ बंधविओओ पमोक्खो' दु ॥ १ ॥

एदस्स बंधस्स सामित्तं बंधसामित्तं, तस्स विचओ [बंधसामित्तविचओ, विचओ] विचारणा मीमांसा परिक्खा इदि एयट्ठे । तस्स बंधसामित्तविचयस्स इमो दुविहो गिद्देसो त्ति जेणेदं सुत्तं देसामासियं तेणेत्थ पबोजणं पि परूवेदव्वं । किमइमेत्थ बंधस्स सामित्तं उच्चदे ? संत-दव्व-खेत-फोसण-कालंतर-भावप्पावहुव-गइरागइबंधगत्तेण अवगयाणं चोइसगुणट्ठाणाणं अणवगदे बंधविसेसे बंधगत्तं बंधकारणगइरागईओ च सम्मं ण णव्वंति त्ति काउण चोइसगुणट्ठाणाणि अहिकिच्च अप्पाउआणमणुगहट्ठं बंधविसेसो उच्चदे । तस्स गिद्देसो दुविहो ओघादेसमेएण । तिविहो किण्ण होदि ? ण, वयणपओगो हि णाम परट्ठे । ण च परो वि दुणयवदिरित्तो अत्थि जेण तिविहा एयविहा वा परूवणा होज्ज त्ति । ओघणिद्देसो दव्वट्टियणयाणुगहकरो, इयरो वि पज्जवट्टियणयस्स ।

जीवका पुद्गल द्रव्यसे जो बन्ध सहित संयोग होता है उसे बन्ध और बन्धके वियोगको मोक्ष जानना चाहिये ॥ १ ॥

इस बन्धका जो स्वामित्व है वह बन्धस्वामित्व है । उसका जो विचय है वह बन्धस्वामित्वविचय है । विचय, विचारणा, मीमांसा और परीक्षा, ये संमानार्थक शब्द हैं । 'जस बन्धस्वामित्वविचयका यह दो प्रकारका निर्देश है' चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है इस लिये यहां प्रयोजन भी कहना चाहिये ।

शंका—यहां बन्धके स्वामित्वको किस लिये कहा जाता है ?

समाधान—संख, द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व और गत्यागति बन्धक रूपसे जाने गये चौदह गुणस्थानोंके बन्धविशेषके अज्ञात होनेपर बन्धकत्व व बन्धनिमित्तक गति-आगतिका भले प्रकारं ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा जानकर चौदह गुणस्थानोंका अधिकार करके अल्पायु शिष्योंके अनुग्रहके लिये बन्धविशेष कहा जाता है । उसका निर्देश ओघ और आदेशके भेदसे दो प्रकार है ।

शंका—वह निर्देश तीन प्रकारका क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं होता, क्योंकि वचनका प्रयोग परके लिये होता है, और पर भी दो नयोंको छोड़कर है नहीं जिससे तीन प्रकार या एक प्रकार प्ररूपणा होसके ।

ओघनिर्देश द्रव्यार्थिक नयवालोंका और इतर अर्थात् आदेशनिर्देश पर्यायार्थिक नयवालोंका अनुग्रहकर्ता है ।

ओघेण बंधसामित्तविचयस्स चोदसजीवसमासाणि णादव्वाणि
भवन्ति ॥ २ ॥

‘ जहा उद्देशो तहा णिद्देशो ’ त्ति जाणावणद्धमोघेणेत्ति उच्चं । बंधसामित्तविचयस्सेत्ति संबंधे छट्ठी दट्टव्वा । अधवा, बंधसामित्तविचये इदि विसयलक्खणसत्तमीए छट्ठीणिद्देशो कायव्वो । पुव्वमवगया चेव चोदसजीवसमासा, पुणो ते एत्थ किमट्ठं परूविज्जते ? ण एस दोसो, विस्तरणालुअसिस्ससंमालणद्धत्तादो ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी
संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपइट्टुवसमा
खवा अणियट्ठिवादरसांपराइयपइट्टुवसमा खवा सुहुमसांपराइयपइट्टु-
उवसमा खवा उवसंतकसायवीयरागछट्टुमत्था खीणकसायवीयरायछट्टु-
मत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवली ॥ ३ ॥

ओघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्तविचयके चौदह जीवसमास जानने योग्य हैं ॥ २ ॥

‘ जैसा उद्देश वैसा निर्देश होता है ’ इसके ज्ञापनार्थ ‘ ओघसे ’ घेसा कहा है । ‘ बन्धस्वामित्तविचयके ’ यह सम्बन्धमें षष्ठी विभक्ति जानना चाहिये । अथवा ‘ बन्धस्वामित्तविचयमें ’ इस प्रकार विषयाधिकरण लक्षण सप्तमी विभक्तिके स्थानमें षष्ठी विभक्तिका निर्देश करना चाहिये ।

शंका—चौदह जीवसमास पूर्वमें जाने ही जा चुके हैं, फिर उनकी यहां प्ररूपणा किसलिये की जाती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कथन विस्मरणशील शिष्योंके स्मरण करानेके लिये है ।

मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक, अनिवृत्तिवादरसाम्प्रायिक-प्रविष्ट उपशमक व क्षपक, सूक्ष्मसाम्प्रायिकप्रविष्ट उवशमक व क्षपक, उपशान्तकषाय वीतरागछट्टुमत्थ, क्षीणकषाय वीतरागछट्टुमत्थ, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये चौदह जीवसमास हैं ॥ ३ ॥

एदस्स सुचस्स अत्यो जहा जीवङ्गणे वित्थरेण परुविदो तहा एत्थ परुवेदंभो, विसेसाभावादो । एवं चोद्दसण्हं जीवसमासाणं सरुवं संभालिय वंधसामित्तपरुवणङ्गमुत्तरसुच्चं मणदि—

एदसिं चोद्दसण्हं जीवसमासाणं पर्यायवंधवोच्छेदो कादब्भो भवेदि ॥ ४ ॥

जदि जीवसमासाणं पर्यायवंधवोच्छेदो चेव उच्चदि तो एदस्स गंधस्स वंधसामित्त-विचयसण्णा कवं घड्दे ? ण एस दोसो, एदम्मि गुणङ्गणे एदसिं पर्यायवंधवोच्छेदो होदि चि कहिंदि हेड्डिल्लरुणङ्गणाणि तासिं पर्यायवंधवोच्छेदो चि सिद्धीदो । किं च वोच्छेदो दुविहो उत्पादाणुच्छेदो अणुत्पादाणुच्छेदो चेदि । उत्पादः सत्त्वं, अनुच्छेदो विनाशः अभावः नीरूपिता इति यावत् । उत्पाद एव अनुच्छेदः उत्पादानुच्छेदः, भाव एव अभाव इति यावत् । एसो दन्वडियणयव्वहारो । ण च एसो एयेतेण चप्पलओ, उत्तरकाले अप्पिदपज्जायस्स

इस सूत्रका अर्थ जैसे जीवस्थानमें विस्तारसे कहा गया है वैसे ही यहां भी कहना चाहिये. क्योंकि, जीवस्थानसे यहां कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार चौदह जीवसमासोंके स्वरूपका स्मरण कराकर बन्धस्वामित्वके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

इन चौदह जीवसमासोंके प्रकृतिबन्धव्युच्छेदका कथन करने योग्य है ॥ ४ ॥

शंका—यदि यहां जीवसमासोंका प्रकृतिबन्धव्युच्छेद ही कहा जाता है तो फिर इस ग्रन्थका 'बन्धस्वामित्व' यह नाम कैसे घटित होगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है. क्योंकि, इस गुणस्थानमें इतनी प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेद होता है, ऐसा कहनेपर उससे नीचेके गुणस्थान उन प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी हैं, यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है । दूसरी बात यह है कि व्युच्छेद दो प्रकारका है—उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद । उत्पादका अर्थ सत्त्व और अनुच्छेदका अर्थ विनाश, अभाव अथवा नीरूपीपना है । 'उत्पाद ही अनुच्छेद उत्पादानुच्छेद' (इस प्रकार यहां कर्मधारय समास है) । उक्त कथनका अभिप्राय भावको ही अभाव बतलाना है । यह द्रव्यार्थिक नयके आश्रित व्यवहार है । और यह एकान्त रूपसे अर्थात् सर्वथा मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि, उत्तरकालमे विवक्षित पर्यायके विनाशसे विशिष्ट द्रव्य पूर्व

विणासेण विसिद्धद्वस्स पुव्विल्लकाले वि उवलंभादो । द्व्वद्वियणयम्मि संताणं पज्जायाणं कधमभावो ? को भणदि तेसिं तत्थाभावो' चि, किंतु ते तत्थ अप्पहाणा अविवक्खिया अणप्पिया इदि तेसिं दव्वत्तमेव ण तत्थ पज्जायत्तं । कधमत्थियवसेण अदव्वाणं पज्जायाणं दव्वत्तं ? ण, दव्वदो एयंतेण तेसिं पुधभूदाणमणुवलंभादो, दव्वसहावाणं चेवुवलंभा । जदि एवं तो भावस्स दुचरिमादिसु समएसु चरिमसमए इव अभावववहारो किण्ण कीरंदे ? ण एस दोसो, दुचरिमादीणं चरिमसमयस्सेव अभावेण सह पच्चासत्तीए अभावादो । दव्वद्वियस्स कधमभावववहारो ? ण एस दोसो, 'यदस्ति न तद् द्वयमतिलंघ्य वर्त्तत' इति दो वि णए अविलंबिऊण द्विदणोगमणयस्स भावाभावववहारविरोहाभावादो । अनुत्पादः असत्वं, अनुच्छेदो

कालमें भी पाया जाता है ।

शंका—द्रव्यार्थिक नयमें विद्यमान पर्यायोंका अभाव कैसे होता है ?

समाधान—यह कौन कहता है कि उनका वहां अभाव होता है, किन्तु वे वहां अप्रधान, अविचक्षित अथवा अनर्पित हैं, इसलिये उनके द्रव्यपना ही है, पर्यायपना वहां नहीं है ।

शंका—द्रव्यार्थिक नयके वशसे द्रव्यसे भिन्न पर्यायोंके द्रव्यत्व कैसे सम्भव है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, पर्यायें द्रव्यसे सर्वथा भिन्न नहीं पायी जातीं, किन्तु द्रव्यस्वरूप ही वे उपलब्ध होती हैं ।

शंका—यदि ऐसा है तो फिर पदार्थके अन्तिम समयके समान द्विचरमादि समयोंमें भी अभावका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्विचरमादिक समयोंके अन्तिम समयके समान अभावके साथ प्रत्यासत्ति नहीं है ।

शंका—द्रव्यार्थिककी अपेक्षा पर्यायोंमें अभावका व्यवहार कैसे होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, 'जो है' वह दोनोंका अतिक्रमण कर नहीं रहता' इस लिये दोनों नयोंका आश्रयकर स्थित नैगमनयके भाव व अभाव रूप व्यवहारमें कोई विरोध नहीं है ।

अनुत्पादका अर्थ असत्त्व और अनुच्छेदका अर्थ विनाश है । अनुत्पाद ही अनुच्छेद

विनाशः, अनुत्पाद एव अनुच्छेदः (अनुत्पादानुच्छेदः) असतः अभाव इति यावत्, सतः असत्त्वविरोधात् । एसो पञ्जवद्वियणयव्वहरो । एत्थ पुण उप्पादानुच्छेदमस्सिदूण जेण सुत्तकारेण अभावव्वहरो कदो तेण मावो चैव पयडिबंधस्स परूविदो । तेणेदस्स गंथस्स बंधसामित्तविचयसण्णा घड्ढि ति ।

**पंचणं णाणावरणीयाणं चटुण्हं दंसणावरणीयाणं जसकित्ति-
उच्चागोद-पंचण्हमंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥५॥**

बंधो बंधो ति णिणं होदि । पयडिसमुक्कित्तणाए णाणावरणादीणं सरूवं परूविद-
मिदि णेह परूविज्जदे, पउणरुत्तियादो । को बंधो को अबंधो ति णिहेसादो एदं पुच्छा-
सुत्तमासंक्रियसुत्तं वा । किं मिच्छाइड्डी बंधो किं सासणसम्माइड्डी किं सम्मामिच्छाइड्डी किं
असंजदसम्माइड्डी एवं गंतूण किं अजोगी किं सिद्धो बंधो ति तेणेवं पुच्छा कायव्वा । एदं
देसामासियसुत्तं । किं बंधो पुच्चं वोच्छिज्जदि किमुदओ पुच्चं वोच्छिज्जदि किं दो वि समं
वोच्छिज्जंति, किं सोदएण एदासिं बंधो किं परोदएण किं स-परोदएण, किं सांतरो बंधो किं

अर्थात् असत्का अभाव होता है, क्योंकि सत्के असत्त्वका विरोध है । यह पर्यायार्थिक
नयके आश्रित व्यवहार है । यहाँपर चूंकि सूत्रकारने उत्पादानुच्छेदका आश्रय करके ही
अभावका व्यवहार किया है, इसलिये प्रकृतिबन्धका सद्भाव ही निरूपित किया गया है ।
इस प्रकार इस ग्रन्थका ' बन्धस्वामित्वविचय ' नाम संगत ही है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय,
इनका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक है ? ॥ ५ ॥

' बन्ध ' शब्दसे यहाँ बन्धकका अभिप्राय प्रकट किया गया है । चूंकि प्रकृतिसमु-
त्कीर्तन चूलिकामें ज्ञानावरणादिकोंका स्वरूप कहा जा चुका है, अत एव अब उनका स्वरूप
यहाँ नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसा करनेसे पुनरुक्ति दोष आवेगा ।
' कौन बन्धक और कौन अबन्धक ' इस निर्देशसे यह पृच्छासूत्र अथवा आशंकासूत्र है,
ऐसा समझना चाहिये । इसीलिये क्या मिथ्यादृष्टि बन्धक है, क्या सासादनसम्यग्दृष्टि
बन्धक है, क्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि बन्धक है, क्या असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक है, इस प्रकार
जाकर क्या अयोगी बन्धक है, क्या सिद्ध जीव बन्धक है, ऐसा यहाँ प्रश्न करना
चाहिये । यह देशामर्शक सूत्र है । इसलिये यहाँ क्या बन्धकी पूर्वमें व्युच्छित्ति होती
है (१) क्या उदयकी पूर्वमें व्युच्छित्ति है (२) या दोनोंकी साथ ही व्युच्छित्ति होती
है (३) क्या अपने उदयके साथ इनका बन्ध होता है (४) क्या पर प्रकृतियोंके उदयके
साथ इनका बन्ध होता है (५) या अपने व पर दोनोंके उदयसे इनका बन्ध होता है (६)

णिरंतरो बंधो किं सांतरणिरंतरो, किं सपच्चओ किमपच्चओ, किं गइसंजुत्तो किमगइसंजुत्तो, कदिगदिया सामिणो असामिणो, किं वा चंचद्धानं, किं चरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि किं पढमसमए किमपढमअचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि, किं सादिगो बंधो किं अणादिओ, किं धुवो किमद्धुवो चि, तेणेदाओ तेवीसपुच्छओ पुव्विल्लपुच्छए अंतम्भूदाओ त्ति दठव्वाओ । एत्थुवउज्जंतीओ आरिसगाहांओ—

बंधो बंधविही पुण सामित्तद्धान पच्चयविही य ।
 एदे पंचणिओगा मग्गणठाणेषु मग्गेज्जा' ॥ २ ॥
 बंधोदय पुव्वं वा समं व णियएण कत्तस व परेण ।
 अण्णदरत्सुदएण व सांतरविगयंतरं का च ॥ ३ ॥
 पच्चय-सामित्तविही संजुत्तद्धानएण तह चैय ।
 सामित्तं णेयव्वं पयडीण ठाणमासेज्ज ॥ ४ ॥
 बंधोदय पुव्वं वा समं व स-परोदए तद्दुमएण ।
 सातर णिरंतरं वा चरिमेदर सादिआदीया ॥ ५ ॥

क्या सान्तर बन्ध होता है (७) क्या निरन्तर बन्ध होता है (८) या सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है (९) क्या सनिमित्तक बन्ध होता है (१०) या अनिमित्तक (११) क्या गतिसंयुक्त बन्ध होता है (१२) या गतिसंयोगसे रहित (१३) कितनी गतिवाले जीव स्वामी हैं (१४) और कितनी गतिवाले स्वामी नहीं हैं (१५) बन्धाध्वान कितना है अर्थात् बन्धकी सीमा किस गुणस्थान तक है (१६) क्या अन्तिम समयमें बन्धकी व्युच्छिन्ति होती है (१७) क्या प्रथम समयमें बन्धकी व्युच्छिन्ति होती है (१८) या बीचके समयमें (१९) बन्ध क्या सादि है (२०) या क्या अनादि (२१) क्या ध्रुव बन्ध होता है (२२) या अध्रुव (२३) ये तेईस प्रश्न पूर्वोक्त प्रश्नके अन्तर्गत हैं, ऐसा जानना चाहिये । यहाँ उपयुक्त आर्ष गाथाएँ—

बन्ध, बन्धविधि, बन्धस्वामित्व, अध्वान अर्थात् बन्धसीमा और प्रत्ययविधि, ये पांच नियोग मार्गणास्थानोंमें खोजने योग्य हैं ॥ २ ॥

बन्ध पूर्वमें है, उदय पूर्वमें हैं, या दोनों साथ हैं, किस कर्मका बन्ध निजके उदयके साथ होता है, किसका परके साथ, और किसका अन्यतरके उदयके साथ, कौन प्रकृति सान्तरबन्धवाली है, और कौन निरन्तरबन्धवाली, प्रत्ययविधि, स्वामित्वविधि, तथा गति-संयुक्त बन्धाध्वानके साथ प्रकृतियोंके स्थानका आश्रयकर स्वामित्व जानना चाहिये ॥३-४॥

बन्ध पूर्वमें, उदय पूर्वमें या दोनों साथ होते हैं, वह बन्ध खोदयसे परोदयसे या दोनोंके उदयसे होता है, उक्त बन्ध सान्तर है या निरन्तर, वह अन्तिम समयमें होता है या इतर समयमें, तथा वह सादि है या अनादि है ॥ ५ ॥

एत्थ एदासु पुच्छासु विसमपुच्छाणमत्थो वुच्चदे । तं जहा— वंशवोच्छेदो एत्थेव सुत्तसिद्धो तित्तिं मोत्तूण पयडीणमुदयवोच्छेदं ताव वत्तइस्सामो । मिच्छत्त-एईदिय-वीईदिय-तीईदिय-चउरिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं दसण्हं पयडीणं मिच्छइडिस्स चरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदो । एसो महाकम्मपयडिपाहुडउववसो । चुण्णिंसुत्तं कत्ताराणमुवएसेण पंचणणं पयडीणमुदयवोच्छेदो, चदुजादि-थावराणं सासणसम्मादिडिडिह उदयवोच्छेदव्युवगमादो । अणंताणुवंशिकोह-माण-माया-लोहाणं सासणसम्माइडिचरिमसमए उदयवोच्छेदो । सम्मा-मिच्छत्तस्स सम्मामिच्छाइडिडिह उदयवोच्छेदो । अपच्चक्खाणावरणकोह-माण-माया-लोह-णिरयाउ-देवाउ-णिरयगइ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-चत्तारिआणुपुत्वि-दुभग-अणादेज्ज-अजसकित्तीणं सत्तारसण्णमेदासिं पयडीणं असंजदसम्मादिडिडिह उदयवोच्छेदो । पच्चक्खाणा-वरणकोह-माण-माया-लोह-तिरिक्ख्वाउ-तिरिक्ख्वाइ-उज्जेव-णीचागोदाणमद्वणं पयडीणं संजदा-संजदम्मि उदयवोच्छेदो । णिद्वाणिहा-पयलापयला-थीणगिद्धि-आहारसरीरदुगाणं पंचणणं पयडीणं

इन प्रश्नोंमें विषम प्रश्नोंका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— चूंकि बन्ध-व्युच्छेद यहां ही सूत्रसे सिद्ध है अत एव उसको छोड़कर प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदको कहते हैं। मिथ्यात्व, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन दश प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद मिथ्यादृष्टि गुण-स्थानके अन्तिम समयमें होता है। यह महाकर्मप्रकृतिप्राभूतका उपदेश है। चूर्णिसूत्रोंके कर्ता यतिवृषभचार्यके उपदेशसे मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें पांच प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद होता है, क्योंकि, चार जाति और स्थावर प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें माना गया है। अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया और लोभका उदयव्युच्छेद सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। सम्यग्मिथ्यात्वका उदयव्युच्छेद सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होता है। अप्रत्याख्यान्त-वरण क्रोध, मान, माया, लोभ, नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, चार आनुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयशकीर्ति, इन सत्तर-प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें होता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, उद्योत और नीच गोत्र, इन आठ प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद संयतासंयतगुणस्थानमें होता है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानशुद्धि, आहारशरीर और आहारशरीरांगोपांग, इन पांच प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद प्रमत्तसंयत

१ प्रतिशु 'णमिज्जणक्काराण-' इति पाठः ।

२ मिच्छे 'मिच्छादावं' सुहुमाति य सासणे अणेइदी । थावरविचलं मिस्से मिस्स च य उदयवोच्छिण्णा ॥ गो. क. २६५.

३ अयदे विदियकसाया वेगव्वियक्कक णिरय-देवाउ । मंथुय-तिरियाणुपुत्ती दुभगणादेव्ज अज्जसय ॥ गो. क. २६६.

क. नं. २.

पमतसंजदमि उदयवोच्छेदो^१ । अद्वणारायण-खीलिय-असंपत्तसेवद्वसरीरसंधडण-वेदगसम्मत्ताणं चदुण्हं पयडीणं आपमतसंजदमि उदयवोच्छेदो । हस्त-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुञ्छणं छणं पयडीणमपुव्वकरणमि उदयवोच्छेदो । इत्थि-णलुंसय-पुरिसवेद-कोह-माण-मायासंजलणाणं छणं पयडीणमणियट्ठिभिह उदयवोच्छेदो । लोभसंजलणस्स एकस्स चैव सुहुमसांपराइयचरिमसमयमि उदयवोच्छेदो । वज्जणारायण-णारायणसरीरसंधडणाणं दोणं पयडीणं उवसंतकसायमि उदयवोच्छेदो^२ । णिहा-पयलाणं दोण्हं पि खीणकसायदुचरिमसमयमि उदयवोच्छेदो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं चोदसणं पयडीणं खीणकसायचरिमसमयमि उदयवोच्छेदो^३ । ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिसहवइर-णारायणसरीरसंधडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-दोविहायगदि-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुस्सर-दुस्सर-णिमिणाणमेगुणतीसपयडीणं सजोगिकेवलिभिह उदय-

गुणस्थानमें होता है । अर्धनाराच, क्रीलित, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन और चेदकसम्यक्त्व इन चार प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होता है । हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन छह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अपूर्वकरण गुणस्थानमें होता है । स्त्री, नपुंसक और पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध, मान और माया, इन छह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होता है । केवल एक संज्वलन लोभका उदयव्युच्छेद सूक्ष्मसाम्प्रयायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है । वज्रनाराच और नाराच शरीरसंहनन, इन दो प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद उपशान्तकपाय गुणस्थानमें होता है । निद्रा और प्रचला दोनों प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद क्षीणकपाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें होता है । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चौदह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद क्षीणकपाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है । औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपभनाराच-संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुकलघुक, उपघात, परघात, उच्छ्वास, दो विहायो-गंतियां, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर और निर्माण, इन उनतीस प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद सयोगिकेवली गुणस्थानमें होता है । दो वेदनीय, मनुष्यायु,

१ देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोव-णीच-तिरियगदी । छट्टे आहारदुग धीणतिय उदयवोच्छिण्णा ॥ गो. क. २६७.

२ अपमत्ते सम्मत अतिमतियसहदी यऽपुव्वभिह । छच्चेव णोकसाया अणियट्ठोभागभागेणु ॥ वेदतिय कोह-माण मायासजलणमेव द्दुहमते । द्दुहमो लोहो सते वज्जणाराय-णाराय ॥ गो. क. २६८-२६९

३ खीणकसायदुचरिमे णिहा पयला य उदयवोच्छिण्णा । णाणतरायदसय दसणचत्तारि चरिसभिह ॥ गो. क. २७०.

वोच्छेदो' । देवेदणीय-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-पंचिदियजादि-तस-वादर-पञ्जत-सुभग-आदेज्ज-जसगित्ति-तित्थयर-उच्चगोदाणं तेरसण्हं पयडीणमजोगिकेवल्लिम्हि उदयवोच्छेदो' । एत्थ उवसंहारगाहा—

दस चदुरिगि सत्तारस अट्ट य तह पंच चैव चउरो य ।

छच्छन्नक एग दुग दुग चोइस उगुतीस तेरसुदयविही' ॥ ६ ॥

एवमुदयवोच्छेदं परूविय कासिं पयडीणं बंधो उदए फिट्ठे वि होदि, कासिं पयडीणं बंधे फिट्ठे वि उदओ होदि, कासिं बंधोदया समं वोच्छिज्जति ति वुच्चदे । तं जहा— देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरर-वेउव्वियअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-आहारदुग-अजसकितीण-मट्टणं पयडीणं पढममुदओ वोच्छिज्जदि पच्छा बंधो । एत्थ उवसंहारगाहा—

देवाउ-देवचउक्काहारदुअं च अजसमट्टण्हं ।

पढममुदओ विणस्सदि पच्छा बंधो मुणयेव्वो ॥ ७ ॥

मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, तीर्थकर और उच्चगोत्र, इन तेरह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अयोगिकेवली गुणस्थानमें होता है । यहां उपसंहारगाथा—

दश, चार, एक, सत्तरह, आठ, पांच, चार, छह, छह, एक, दो, दो, चौदह, उनतीस और तेरह, (इस प्रकार क्रमशः मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंमें उदयव्युच्छिन्न प्रकृतियोंकी संख्या है) ॥ ६ ॥

इस प्रकार उदयव्युच्छेदको कहकर अब किन प्रकृतियोंका वन्ध उदयके नष्ट होनेपर भी होता है, किन प्रकृतियोंका उदय वन्धके नष्ट होनेपर भी होता है, और किन प्रकृतियोंका वन्ध व उदय दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, इस बातको कहते हैं । वह इस प्रकार है— देवायु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानु-पूर्वी, आहारकशरीर, आहारकआंगोपांग और अयशकीर्ति, इन आठ प्रकृतियोंका प्रथम उदयका विच्छेद होता है, पश्चात् वन्धका । यहां उपसंहारगाथा—

देवायु, देवचतुष्क अर्थात् देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक-आंगोपांग, तथा आहारकशरीर, आहारक आंगोपांग एवं अयशकीर्ति, इन आठ प्रकृतियोंका पहिले उदय नष्ट होता है, पश्चात् वन्ध, पेसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥

१ तदियेक्कवज्ज-णिमिण धिर-सुह-सर-गदि-उराल-तेजदुगं । सठाण वण्णायुरुचक्क-पत्तेय जोगिम्हि ॥ गो क २७१.

२ तदियेक्क मणुवगदी पचिदिय-सुभग-तस-तिगादेज्ज । जस-तित्थ मणुवाक उच्च च अजोगिचरिमन्हि ॥ गो. क. २७२. ३ गो क २६३.

४ देवचउक्काहारदुगज्जसदेवाग्गाण सो पच्छा । गो क. ४००

मिच्छत्-अणताणुबंधिचउक्क-अपच्चक्खाणावरणचउक्क-पच्चक्खाणावरणचउक्क-तिणिण-
संजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ-एइंदिय-चीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-मणुसगइ-
पाओगगणुपुब्बि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं एकत्तीसपयडीणं बंधोदया समं वोच्छि-
ज्जति । एत्थ उवसंहारगाहाओ—

मिच्छत्-भय-दुगुंछा-हस्स-रदि-पुरिस-थावरादावा ।

सुहुमं जाइचउक्कं साहारणयं अपज्जत्त ॥ ८ ॥

पण्णरत्त कसाया विणुं लेहेणेक्केण आणुपुब्बी य ।

मणुंसार्णं एदासिं समगं बंधोदवुच्छेदो ॥ ९ ॥

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-दोवियणीय-लोहसंजलण-इत्थि-णतुंसयवेद-अरइ-सोग-
णिरयाउ-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-णिरयगइ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-पंचिंदियजाइ-ओरालिय-तेजा-
कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-छसंडघण-वण्णचउक्क-णिरयगइ-तिरिक्खगइपाओ-
ग्गाणुपुब्बि-अगुरुअलहुअचउक्क-उज्जोव-दोविहायगइ-तसं-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा-
सुह-सुभग-दुसग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज जसगिति-पिमिण-तित्थयर-णीचुच्चगोद-पंच-

मिथ्यात्व, चार अनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण,
तीन संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि-
न्द्रियजाति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन
प्रकृतीस प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं । यहां उपसंहारगाथायें—

मिथ्यात्व, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, पुरुषवेद, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, पकेन्द्रिय
आदि चार जाति, साधारण, अपर्याप्त, संज्वलनलोभके विना पन्द्रह कपाय और मनुष्य-
गत्यानुपूर्वी, इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेद और उदयव्युच्छेद साथ ही होता है ॥८-९॥

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, दो वेदनीय, संज्वलनलोभ, स्त्रीवेद, नपुंसक-
वेद, अरति, शोक, नारकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु, नरकगति, तिर्यगति, मनुष्यगति, पंचे-
न्द्रियजाति, औदारिक, तैजस और कामेण शरीर, छह संस्थान; औदारिकशरीरांगोपांग, छह
संहनन, वर्णादिक चार, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार,
उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, चादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग,
दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, नीचगोत्र, उच्चगोत्र

१ अप्रती 'दुग्गणमेगिदिय-' इति पाठः ।

२ मिच्छत्तादावण णराणु-थावरचउक्काण । पण्णरत्ताय-भयदुग-हस्सदु-चउजाइ-पुरिसवेदाणं । सम-
नेक्कत्तीसाणं सेत्तिगत्तीदाण पुब्बं तु ॥ गौ. क. ४००-४०१.

तराइयाणमेगासीदिपयडीणं पडमं वंधो वोच्छिज्जदि, पच्छा उदओ । एत्थ उवसंहारगाहा-

पुव्वुत्तन्नेसाओ एगासीदीं हवति पयडीओ ।

ताणं वंधुच्छेदो पुवं पच्छोदउच्छेदो ॥ १० ॥

सेसाणं जहावसरमत्थं भणिस्सामो ।

मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उवसमा
खवा वंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्वाए चरिमसमयं गंतूण वंधो
वोच्छिजदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ६ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुव्वदे । तं जहा— 'मिच्छाद्विप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइय-
खवा' ति एदेण त्रयणेण अद्धानं जाणाविदं । 'एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ति' एदेण
वंधस्स सामित्तं जाणाविदं । 'सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्वाए चरिमसमयं गंतूण वंधो वोच्छि-
जदि' ति एदेण वि 'किं चरिमसमए वंधो वोच्छिज्जदि ति' पुच्छाए पढम-[अपढम-]
अचरिमपडिसेहसुहेण पडिउत्तरो दिण्णो । अवसेसाणं पुच्छाणं ण परिच्छेओ कदो । तेणेदं

और पांच अन्तराय, इन इक्यासी प्रकृतियोंका पहिले बन्ध नष्ट होता है, पश्चात् उदय ।
यहां उपसंहारजाया—

पूर्वांक्त प्रकृतियोंसे शेष जो इक्यासी प्रकृतियां रहती हैं उनका बन्धव्युच्छेद
पहिले और उदयव्युच्छेद पश्चात् होता है ॥ १० ॥

शेष प्रश्नोंका अर्थ यथावसर कहेंगे—

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत उपशामक व क्षपक तक उपर्युक्त
ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके बन्धक हैं । सूक्ष्मसाम्परायिककालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध
व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ ६ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— 'मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्प-
रायिक क्षपक तक' इस बचनसे बन्धाध्वान् क्षापित किया है । 'ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक
हैं' इससे बन्धका स्वामित्व क्षापित किया है । 'सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम
समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है' इससे भी 'क्या चरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न
होता ?' इस प्रश्नका प्रथम और [अप्रथम-] अचरम समयके प्रतिषेधमुखसे प्रत्युत्तर
दिया गया है । शेष प्रश्नोंका निर्णय यहां सूत्रमें नहीं किया गया । इसीलिये यह देशामर्शक

देसामासियसुत्तं, तम्हा एत्थ लीणत्थाणं परूवणं कस्सामो । तं जहा— किं बंधो पुव्वं वोच्छिज्जदि, किमुदओ पुव्वं वोच्छिज्जदि, किं दो वि समं वोच्छिज्जंति, एदासिं तिण्णं पुच्छणं वुत्तो वुच्चदे । एदासिं सोलसण्णं पयडीणं बंधो पुव्वं वोच्छिज्जदि सुहुमसांपराइयचरिमसमए, उदओ पच्छा वोच्छिज्जदि; पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं खीणकसाय-चरिमसमए, जसकित्ति उच्चागोदाणमजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेददंसणादे । किं सोदएण, किं परोदएण, किं सोदयपरोदएण एदासिं बंधो ति पुच्छमस्सिदूण वुच्चदे । एत्थ ताव एदेण संबंधेण सोदएण परोदएण सोदय-परोदएण बज्झमाणपयडिपरूवणं कस्सामो । तं जहा— गिरयाउ-देवाउ-गिरयगइ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-आहारसरीर-वेउव्विय-आहारसरीरंगोवंग-गिरयगइ-देवगइ-पाओग्माणुपुव्वि-तित्थयरमिदि एदाओ एक्कारसपयडीओ परोदएण वज्झंति । एत्थ उव-संहारगाहा—

तित्थयर-गिरय-देवाउअ-वेउव्वियछक्क दो वि आहारा ।

एक्कारसपयडीणं बंधो हु परोदए वुत्तो ॥ ११ ॥

पंचणाणावरणीय- [चउदंसणावरणीय-] मिच्छत्त-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउवक्कं अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयमिदि एदाओ सत्तवीसपयडीओ सोदएण

सूत्र है और देशामर्शक होनेसे यहां लीन अर्थात् अन्तर्निहित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— क्या बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, क्या उदय पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, या क्या दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं ? इन तीन प्रश्नोंका उत्तर कहते हैं— इन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध उदयव्युच्छित्तिसे पहिले सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें व्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात् उदयकी व्युच्छित्ति होती है; क्योंकि पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चौदह प्रकृतियोंका क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें, तथा यशकीर्ति व उच्चगोत्र इन दो प्रकृतियोंका अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें उदयव्युच्छेद देखा जाता है । 'क्या खोदयसे, क्या परोदयसे, या क्या खोदय-परोदयसे इनका बन्ध होता है ?' इस प्रश्नका आश्रयकर उत्तर कहते हैं । अब यहां पहिले इस सम्बन्धसे खोदय, परोदय और खोदय-परोदयसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका निरूपण करते हैं । वह इस प्रकार है— नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारक-शरीर, वैक्रियिकशरीरंगोपांग, आहारकशरीरंगोपांग, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थकर, ये ग्यारह प्रकृतियां परोदयसे बंधती हैं । यहां उपसंहारगाथा—

तीर्थकर, नारकायु, देवायु, वैक्रियिकशरीरादि छह और दोनों आहारक, इन ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे कहा गया है ॥ ११ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, [चार दर्शनावरणीय], मिथ्यात्व, तैजस और कामर्षण शरीर, ऋणादिक चार, अगुरुकलशुक, स्थिर, आस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, ये

वज्जति । पंचदंसणावरणीय-दोवेदणीय-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खाइ-मणुस्सगइ-एइंदिय वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-ओरालियसरीर छ-संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइपाओग्माणुपुच्चि-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाव-उज्जोव-दोविहायगादि-तस-थावर-वादर-सुहुम-पज्जत-अपज्जत-पत्तेय-साधारण-सरीर-सुमग-दुमग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णीसुचचागोदमिदि एदाओ वासीदिपयडीओ सोदय-परोदएण वज्जति । एत्थ उवसंहारगाहाओ—

णाणतराय-दंसण-थिरादिचउ-तेजकम्मदेहाइं ।

णिमिणं अगुरुवल्लुअं वण्णचउत्तक च मिच्छत्तं ॥ १२ ॥

सत्तावीसेदाओ वज्जंति हु सोदएण पयडीओ ।

सोदय-परोदएण वि बज्जतवसेसियाओ दु ॥ १३ ॥

एत्थ णाणावरणंतराइयदसपयडीओ दंसणावरणस्स चत्तारि पयडीओ चैव बंधमाणाणि । सव्वगुणट्टाणाणि सोदएण चैव बंधति, मिच्छाइडिप्पहुडि जाव खीणकसाया त्ति एदासिं णिरंतरोदयादो सोदएण बज्जमाणपयडीणमव्भंतरे पादादो वा । जसकित्तिं मिच्छाइडिप्पहुडि

सत्ताईस प्रकृतियां स्वोदयसे बंधती हैं । पांच दर्शनावरणीय, दो वेदनीय सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगति, अस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, सुमग, दुर्मग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्र, य व्यासी प्रकृतियां स्वोदय-परोदय दोनों प्रकारसे बंधती हैं । यहां उपसंहारगाथायें—

पांच ज्ञानावरण, पांच अन्तराय, दर्शनावरण चार, स्थिर आदिक चार, तैजस और कार्मण शरीर, निर्माण, अगुरुकलशुक, वर्णादिक चार और मिथ्यात्व, ये सत्ताईस प्रकृतियां तो स्वोदयसे बंधती हैं और शेष प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं ॥ १२-१३ ॥

यहां ज्ञानावरण व अन्तरायकी दश प्रकृतियां तथा दर्शनावरणकी चार ही प्रकृतियां बंधनेवाली हैं । ये अपने बन्ध योग्य सब गुणस्थानोंमें स्वोदयसे ही बंधती हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान तक इनका निरन्तर उदय रहता है, अथवा इनका पतन स्वोदयसे बंधनेवाली प्रकृतियोंके भीतर है । यशकीर्ति प्रकृतिको मिथ्यादृष्टिसे

१ सर-णिस्माज्ज तिव्व वेणुवियल्लवक्कहारमिदि वेसिं । परउदयेण य बघो मिच्छ सुहुमस्स घादोओ ॥ तेजइण वण्णचउ थिर-सुहउणलशुक-णिमिणं-धुंउदया । सोदयवघा सेसा वासीदा उमयवघाओ ॥ गो क. ४०२-४०३.

जाव असंजदसम्माइडि ति सोदएण वि परोदएण वि वंधति, एदेसु दोणं एककरस्सुदय-
चादो । उवरिमा सोदएण चैव वंधंति, संजदासंजदप्पहुडिउवरिमेसु गुणङ्काणेषु अजसकित्ति-
उदयाभावादो । उच्चागोदं मिच्छाइडि प्पहुडि जाव संजदासंजदा ति एदे सोदएण परोदएण
वि वञ्जंति, एत्थ दोणं गोदाणमुदयसंभावादो । उवरिमा पुण सोदएण चैव वंधंति, तत्थ
णीचागोदस्सुदयाभावादो । तम्हा' जसकित्ति-उच्चागोदाणि सोदय-परोदयबंधा इदि सिद्धं ।

एदासिं बंधो किं सांतरो किं गिरंतरो किं सांतर-निरंतरो ति एदासिं पुच्छणं पडिवण्णं ।
एत्थ एदेण अत्थसंबंधेण ताव सांतर-गिरंतर-सांतरगिरंतरेण चञ्जमाणपयडीओ जाणवेमो ।
तं जहा— पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुग्गंआउचउक्क-
आहार-तेजा-कम्मइयसरीर-आहारसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-
त्तिथयर-पंचंतराइयमिदि एदाओ चउवण्णं पयडीओ गिरंतरं चञ्जंति । तत्थ उवसंहारगाहा—
सत्तेताल धुवाओ नित्थयाराहार-आउचत्तरि ।

चउवण्णं पयडीओ चञ्जति गिरंतरं सव्वा' ॥ १४ ॥

लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदयसे भी बांधते हैं और परोदयसे भी बांधते हैं, क्योंकि,
इन गुणस्थानोंमें यशस्कीर्ति और अयशस्कीर्तिसे किसी एकका उदय रहता है । असंयत-
सम्यग्दृष्टिसे ऊपरके गुणस्थानवर्ती जीव स्वोदयसे ही बांधते हैं, क्योंकि, संयतासंयतसे
लेकर उपरिम गुणस्थानोंमें अयशस्कीर्तिका उदय नहीं रहता । उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टिसे
लेकर संयतासंयत तकके जीव स्वोदयसे और परोदयसे भी बांधते हैं, क्योंकि, यहां दोनों
गोत्रोंका उदय सम्भव है । परन्तु इससे ऊपरके जीव स्वोदयसे ही बांधते हैं, क्योंकि,
वहां नीचगोत्रका उदय नहीं रहता । इस कारण यशस्कीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियों
स्वोदय-परोदयसे बंधनेवाली हैं, यह सिद्ध होता है ।

अब ' उक्त सोलह प्रकृतियोंका वन्ध क्या सान्तर है, क्या निरन्तर है, और क्या
सान्तर-निरन्तर है ? ' ये तीन प्रश्न प्राप्त होते हैं । यहां इस अर्थसम्बन्धसे पहिले सान्तर,
निरन्तर और सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका बोध कराते हैं । वह इस
प्रकार है—पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, दुग्गुप्ता
आयु चार, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, आहारकशरीरअंगोपांग, वर्ण, गन्ध,
रस, स्पर्श, अगुरुकलबुक्क, उपघात, निर्माण, तीर्थकर और पांच अन्तराय, ये चौवन
प्रकृतियां-निरंतर बंधती हैं । यहां उपसंहारगाथा—

सैंतालीस धुवप्रकृतियां, तीर्थकर, आहारकशरीर, आहारकशरीरअंगोपांग और
चार आयु, ये सब चौवन प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं ॥ १४ ॥

काओ धुववंधियपयडीओ ? एदाओ चैव आउचउक्क-तित्थयराहारदुयविरहिदाओ ।
एदासिं परूवणगाहाओ—

णाणतरायदसव दंसण णव मिच्छ सोलस कसाया ।

भयकम्म दुगुच्छा वि य तेजा कम्मं च वण्णवद् ॥ १५ ॥

अगुरुअलङ्क-उवघाद णिमिण णामं च होनि सगदा ।

वंधो चउक्कियप्पो धुववधीण पयडिवंधो ॥ १६ ॥

गिरंतरवंधस धुववंधस को विसैसो ? जिस्से पयडीए पचओ जत्थं कत्थ वि जीवे
अणादि-धुवभावेण लम्भइ सा धुववंधपयडी । जिस्से पयडीए पचओ णियमेण सादि-अद्धओ
अंतोमुहुत्तादिकालावड्ढई सा गिरंतरवंधपयडी । जिस्से जिस्से पयडीए अद्धाक्खएण वंधवोच्छेदो
संभवइ सा सांतरवंधपयडी । असादावेदणीय-इत्थि-णउंसयवेद-अरइ-सोग-णिरयगइ-जाइचउक्क-
हेट्ठिमंपंचसंठाण-पंचसंघडण-णिरयगइपाओग्गाणुपुञ्चि-आदाहुज्जोव-अपसत्थविहायगइ-थावर-

शंका—धुववन्धी प्रकृतियां कौनसी हैं ?

समाधान—चार आयु, तीर्थकर और दो आहारसे रहित ये उपर्युक्त प्रकृतियां ही
धुवप्रकृतियां हैं । इन प्रकृतियोंकी निरूपक गाथायें—

ज्ञानावरण और अंतरायकी दशा, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भयकर्म
जुगुप्सा, तैजस और कर्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुकलधु, उपघात और निर्माण
नामकर्म, ये सैंतालिस धुववन्धी प्रकृतियां हैं । इनका प्रकृतिवन्ध सादि, अनादि, अच एवं
अधुव रूपसे चार प्रकारका होता है ॥ १५-१६ ॥

शंका—निरंतरवंध और धुवबंधमें क्या भेद है ?

समाधान—जिस प्रकृतिका प्रत्यय जिस किसी भी जीवमें अनादि एवं धुव भावसे
पाया जाता है वह धुवबंधप्रकृति है, और जिस प्रकृतिका प्रत्यय नियमसे सादि एवं अधुव
तथा अन्तर्मुहूर्त आदि काल तक अवस्थित रहनेवाला है वह निरन्तरवन्धप्रकृति है ।

जिस जिस प्रकृतिका कालक्षयसे वन्धव्युच्छेद सम्भव है वह सान्तरवन्धप्रकृति
है । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, जाति चार, अवस्तन
पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अग्रशस्तविहायो-

१ वादिनि-मिच्छ-कसाया मय-तेजसुर-ग-णिमिण-वण्णवलो । सचेतालधुवाण चडुधा सेसाणयं तु दुधा ॥
यो क. १२४.

२ प्रतिदु 'पवोञ्जत्य' इति पाठः ।

३ प्रतिदु 'पचओ' इति पाठ ।

सुहृम-अपञ्जत्-साधारण-अधिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणाएज्ज-अजसकित्ती एदाओ चोत्तीसपय-डीओ सांतरं वज्झंति । अवसेसाओ वत्तीस पयडीओ सांतर-णिरंतरं वज्झंति । तासिं णामणिहेसो कीरेदे । तं जहा— सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-देवगइ-पंचिदिय-जादि-ओरालिय-वेउव्वियसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वज्जरिह-वइरणारायणसरीरसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-परघादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-वादर-पञ्जत्-पत्तेयसरीर-धिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णीचुच्चागोद-मिदि सांतर-णिरंतरेण वज्झमाणपयडीओ^१ । एत्थ उवसंहारगाहाओ—

इयि-णउंसयवेदा जाइउक्कं असाद-णिरयदुगं ।

आदाउग्गेवारइ-सोगासुह-पंचसंठाणा ॥ १७ ॥

पंचासुहसघडणा विहायगइ अप्पसत्थिया अण्णे ।

धावर-सुहुमासुहदस चोत्तीसिह सांतरा वंधा ॥ १८ ॥

गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्सर, अनादेय और अयशकीर्ति। ये चौत्तीस प्रकृतियां सान्तर रूपसे बंधती हैं। शेष वत्तीस प्रकृतियां सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधती हैं। उनका नामनिर्देश किया जाता है। वह इस प्रकार है—सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीररंगोपांग, वैक्रियिकशरीररंगोपांग, वज्रयभवज्जनाराचशरीरसंहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्र, ये सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधनेवाली प्रकृतियां हैं। यहां उपसंहारगाथायें—

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, जाति चार, असातावेदनीय, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानु-पूर्वी, आताप, उद्योत, अरति, शोक, अशुभ, पांच संस्थान, पांच अशुभ संहनन, अप्रशस्त विहायोगति स्थावर, सूक्ष्म एवं अशुभ आदि अन्य दश, इस प्रकार ये चौत्तीस प्रकृतियां यहां सान्तर बन्धवाली हैं ॥ १७-१८ ॥

१ गिरयदुग-जाइउक्क संहदि-संठाणपपपपंगं ॥ दुग्गमणादावदुग धावरदसग अनादसदित्थी । अरदी-सोगं वेदे सातरा हाति चोचीसा ॥ गो. क्र. ४०४-४०५

२ प्रतिवु 'सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज' इति पाठः ।

३ सुस्सर-तिरिगोराळिय-वेउव्वियदुग-मत्तयगदि-वज्जं । परघादु-समचउरं पंचिदिय तसदस साद ॥ हस्स-रदि-पुरिस-गोदइ सप्यडिवक्खन्नि सांतरा हांति । षट्ठे पुण पडिवक्खे गिरतरा हांति वत्तीसा ॥ गो. क्र. ४०६-४०७.

सांतरगिरंतरेण य वत्तीसत्रसेसियाओ पयडीओ ।

वञ्जति पच्चयागं दुपयाराणं वसगयाओ ॥ १९ ॥

एत्थ पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयपयडीओ गिरंतरं वञ्जति, धुव-बंधित्तादो । जसकित्ती सांतर-गिरंतरं वञ्जदि' । कुदो ? मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमतो ति सांतर-गिरंतरं वञ्जइ, पडिवक्खअजसकित्तीए वंधसंभवादो । उवरि गिरंतरं वञ्जइ जसकित्ती, पडिवक्खपयडीए वंधाभावादो । तेण जसकित्ती वंधेण सांतर-गिरंतरा । उच्चागोदं मिच्छाइडि-सासणसम्माइडिणो सांतरं वंधंति, पडिवक्खपयडीए तत्थ वंधसंभवादो । उवरिमा पुण गिरंतरं वंधंति, पडिवक्खपयडीए तत्थ वंधाभावादो । भोगभूसीसु पुण सच्चगुणङ्गाणजीवा उच्चागोदं चैव गिरंतरं वंधंति, तत्थ पञ्जत्तकाले देवगइं मोत्तुण अण्णगइणं वंधाभावादो । तेण उच्चागोदं पि वंधेण सांतर-गिरंतरं ।

एदासिं पयडीणं किं सपच्चओ वंधो किमपच्चओ ति पुच्छिदे उच्चदे— सपच्चगो वंधो, ण णिक्कारणो । एत्थ ताव पच्चयपरूवणा कीरदे । तं जहा— मिच्छत्तासंजम-कसाय-

शेष वत्तीस प्रकृतियां मूल व उत्तर भेद रूप दो प्रकार प्रत्ययोंके वशीभूत होकर सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधती हैं ॥ १९ ॥

यहां पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय प्रकृतियां निरन्तर बंधती हैं, क्योंकि, ये प्रकृतियां ध्रुवबन्धी हैं । यशकीर्तिको जीव सान्तर-निरन्तर रूपसे बांधते हैं । इसका कारण यह है कि मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक यह प्रकृति सान्तर-निरन्तर बंधती है, क्योंकि, यहां इसकी प्रतिपक्षी अयशकीर्तिका बन्ध सम्भव है । प्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर यशकीर्ति प्रकृति निरन्तर बंधती है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । इसीलिये यशकीर्ति बन्धसे सान्तर-निरन्तर है । उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सान्तर बांधते हैं, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध सम्भव है । परन्तु उपरितन गुणस्थानवर्ती जीव उसे निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध नहीं रहता । तथा भोगभूमियोंमें सर्व गुणस्थानवर्ती जीव केवल उच्चगोत्रको ही निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, वहां पर्याप्तकालमें देवगतिको छोड़कर अन्य गतियोंका बन्ध नहीं होता । इसलिये उच्चगोत्र भी बन्धसे सान्तर-निरन्तर है ।

' इन प्रकृतियोंका क्या सप्रत्यय अर्थात् सकारण बंध होता है या क्या अप्रत्यय अर्थात् अकारण बन्ध होता है ? ' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— इन प्रकृतियोंका बन्ध सकारण होता है, अकारण नहीं । यहां पहिले प्रत्ययोंकी प्ररूपणा की जाती है । वह इस

जोगा इदि एदे चत्तारि मूलपञ्चया । संपदि उत्तरपञ्चयपरूवणं कस्सामो मिच्छाइट्ठिआदि-
गुणद्वारेणुसु दोएदणं— मिच्छत्तं पंचविहं एयंतण्णाण-विवरीय-वेणइय-संसइयमिच्छत्तमिदि । तत्थ
अत्थि चैव, णत्थि चैव; एगमेव, अणेगमेव; सावयवं चैव, णिरवयवं चैव; णिच्चमेव, अणिच्च-
मेव; इच्चाइओ एयंताहिणिवेसो एयंतमिच्छत्तं । विचारिज्जमाणे जीवाजीवादिपयत्था ण संति
णिच्चाणिच्चवियप्पेहि, तदो सच्चमण्णाणमेव, णाणं णत्थि ति अहिणिवेसो अण्णाणमिच्छत्तं ।
हिंसालियवयण-चोच्च-मेहुण-परिग्गह-राग-दोस-मोहण्णाणेहि चैव णिच्चुई होइ ति अहिणिवेसो
विवरीयमिच्छत्तं । अइहिय-पारत्तियसुहाइं सच्चइं पि विणयादो चैव, ण णाण-दंसण-तवोव-
वासकिल्लेसोहिंतो ति अहिणिवेसो वेणइयमिच्छत्तं । सच्चत्थ संदहो चैव णिच्छओ णत्थि ति

प्रकार है— मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार मूल प्रत्यय हैं । अब उत्तर
प्रत्ययोंका निरूपण मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें लाकर करते हैं— एकान्त, अज्ञान,
विपरीत, वैनायिक और सांशयिक मिथ्यात्वके भेदसे मिथ्यात्व पांच प्रकार है । इनमें सत्
ही है, असत् ही है; एक ही है, अनेक ही है, सावयव ही है, निरवयव ही है; नित्य ही
है, अनित्य ही है; इत्यादिक एकान्त अभिनिवेशको एकान्तमिथ्यात्व कहते हैं । नित्यानित्य
विकल्पोंसे विचार करनेपर जीवाजीवादि पदार्थ नहीं हैं, अत एव सय अज्ञान ही है, ज्ञान
नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको अज्ञानमिथ्यात्व कहते हैं । हिंसा, अलौकिक वचन, चौथे, मैथुन,
परिग्रह, राग, द्वेष, मोह और अज्ञान, इनसे ही मुक्ति होती है, ऐसा अभिनिवेश विपरीत-
मिथ्यात्व कहलाता है । ऐहिक एवं पारलौकिक सुख सभी विनयसे ही प्राप्त होते हैं, न
कि ज्ञान, दर्शन, तप और उपवास जनित क्लेशोंसे, ऐसे अभिनिवेशका नाम वैनायिक
मिथ्यात्व है । सर्वत्र संदेह ही है, निश्चय नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको संशयमिथ्यात्व कहते

१ अग्रतो ' दोएदण ' इति पाठ ।

२ तत्र इदमेव इत्यमेवेति धर्मिधर्मयोः अभिनिवेश एकान्त । स सि ८, १, त रा. ८, १, २८.
यत्रामिसविवेश. स्यादत्यन्त धर्मिधर्मयो । इदमेवेत्यमेवेति तदेकान्तिकमुच्यते ॥ त सा ५, १.

३ हिताहितपरीक्षाविरहोऽज्ञानिकत्वम् । स सि ८, १ त रा ८, १, २८ हिताहितविवेकस्य यत्रालगत-
दर्शनम् । यथा पञ्चवधो धर्मस्तदाज्ञानिकमुच्यते ॥ त सा ५, ७

४ पुरुष एवेद सर्वमिति वा, नित्यमेवेति [वा अनित्यमेवेति वा], सग्रन्थो निर्ग्रन्थ, केवली कलहाहारी, स्त्री
सिद्धवतीत्येवमादि विपर्यय । स. सि ८, १. पुरुष एवेद सर्वमिति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति, सग्रन्थो निर्ग्रन्थ,
केवली कलहाहारी, स्त्री सिद्धवतीत्येवमादिर्विपर्ययः । त रा १, ८, २८. सग्रन्थोऽपि च निर्ग्रन्थो ब्राह्महारी च केवली
स्त्रिवेदविधा यत्र विपरीत हि तत्स्मृतम् ॥ त सा ५, ६.

५ सर्वदेवताना सर्वसमयाना च समदर्शनं वैनायिकम् । स सि ८, १, त रा ८, १, २८. सर्वेषामपि
देवानां समयाना तथैव च । यत्र स्यात् समदर्शनं तत्रैव वैनायिक हि तत् ॥ त सा ५, ८.

अहिणिविसो संसयमिच्छत्तं । एवमेदे मिच्छत्तपच्चया पंच । ५ ।

असंजमपच्चओ दुविहो इंदियासंजम-पाणासंजमभेएण । तत्थ इंदियासंजमो छव्विहो परिस-रस-रूव-गंध-सह-गोइंदियासंजमभेएण । पाणासंजमो वि छव्विहो पुढवि-आउ-तेउ-वाउ-वणप्फदि-तसासंजमभेएण । असंजमसव्वसमासो वारस । १२ । कसायपच्चओ पंचवीसविहो सोलसकसाय-गवणोकसायभेएण । कसायपच्चयसमासो एसो । २५ । जोरापच्चओ तिविहो मण-वचि-कायजोगभेएण । सच्च-मोस-सच्चमोस-असच्चमोसभेएण चउव्विहो मणजोगो । वचिजोगो वि चउव्विहो सच्च-मोस-सच्चमोस-असच्चमोसभेएण । कायजोगो सत्तविहो ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-आहार-आहारमिस्स-कम्मइयकाय-जोगभेएण । एदेसि सव्वसमासो पण्णारस । १५ । सव्वपच्चयसमासो सत्तावण्ण

हैं । इस प्रकार ये मिथ्यात्व प्रत्यय पांच (५) हैं ।

असंयम प्रत्यय इन्द्रियासंयम और प्राण्यसंयमके भेदसे दो प्रकार हैं । उनमें इन्द्रियासंयम स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, शब्द और नोइन्द्रिय जनित असंयमके भेदसे छह प्रकार हैं । प्राण्यसंयम भी पृथिवी, अप, तेज, वायु, वनस्पति और व्रस जीवोंकी विराधनासे उत्पन्न असंयमके भेदसे छह प्रकार हैं । सब असंयम मिलकर वारह (१२) होते हैं ।

कपायप्रत्यय सोलह कपाय और नौ नोकपायके भेदसे पच्चीस प्रकार हैं । यह कपाय प्रत्ययोंका योग पच्चीस (२५) हुआ ।

योगप्रत्यय मन, वचन और काय योगके भेदसे तीन प्रकार हैं । मनोयोग चार प्रकार हैं— सत्यमनोयोग, मृपामनोयोग, सत्य-मृपामनोयोग और असत्य-मृपामनोयोग । वचनयोग भी सत्यवचनयोग, मृपावचनयोग, सत्य-मृपावचनयोग और असत्य-मृपावचनयोग भेदसे चार प्रकार हैं । काययोग औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक-मिश्र, आहारक, आहारकमिश्र, और कर्मण काययोगके भेदसे सात प्रकार हैं । इनका सर्वयोग पन्द्रह (१५) होता है । सब प्रत्ययोंका योग सत्तावन (५७) हुआ ।

१ सम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्राणि किं मोक्षमार्गं स्याद्वा नवेत्सन्त्यतरपक्षापरिग्रह संशय । त सि ८, १. सम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गं किं स्याद्वा न वेति मतिद्वैत संशय । त रा ८, १, २८, किं वा भवेत्त वा जैने धर्मोऽहिंसादिलक्षण । इति यत्र मतिद्वैय भवेत् साक्षयिक हि तत् । त सा ५, ५

२ अप्रतौ 'सच्चमोस असच्चमोस ससच्चमोस सदसच्चमोसभेएण चउव्विहो मणजोगो । वचिजोगो वि चउव्विहो सच्चमोस सच्चमोस ससच्चमोस सदसच्चमोसभेएण', अप्रतौ 'सच्चमोस असच्चमोस सच्चमोस सच्चमोस असच्चमोस असच्चमोसभेएण चउव्विहो वि मण-वचिजोगो' इति पाठ ।

[५७] । एत्थ आहारदुग्मवणिदे मिच्छाइड्डिपडिवद्धपच्चया पंचवंचास हेंति [५५] । एदेहि पच्चएहि मिच्छाइड्डी सुत्तुत्तसोलसपयडीओ वंधदि । एत्थ पंचमिच्छत्तपच्चयेसु अवणिदेसु पंचासपच्चया हेंति [५०] । एदेहि पच्चएहि सासणसम्माइड्डी सुत्तुत्तसोलसपयडीओ वंधदि । पंचासपच्चएसु ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-अणंताणुवंधिचउक्केसु अवणिदेसु तेदालं पच्चया हेंति [४३] । एदेहि पच्चएहि सम्मामिच्छाइड्डी सोलसपयडीओ वंधदि । तेदालपच्चएसु ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चएसु पक्खित्तसु छादालं पच्चया [४६] । एदेहि पच्चएहि असंजदसम्माइड्डी अप्पिदसोलसपयडीओ वंधदि । एदेसु असंजदसम्माइड्डी-पच्चएसु अपच्चक्खाणचउक्क-ओरालियमिस्स-वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-तसासंजमेसु अवणिदेसु सत्तत्तीसपच्चया हेंति [३७] । एदेहि पच्चएहि संजदासंजदो अप्पिदसोलसपयडीओ वंधदि । एदेसु संजदासंजदस्स सत्तत्तीसपच्चएसु पच्चक्खाणचउक्क एककारस-असंजमपच्चएसु अवणिदेसु अवसेसा चावीस, तत्थ आहारदुगे पक्खित्ते चउवीस पच्चया हेंति [२४] । एदेहि पच्चएहि पमत्तसंजदो अप्पिदसोलसपयडीओ वंधदि । एदेसु चउवीस-पच्चएसु आहारदुग्मवणिदे चावीस पच्चया हेंति [२२] । एदेहि पच्चएहि अप्पमत्तसंजदा

इनमेंसे आहारक और आहारकमिश्रको अलग करदेनेपर मिथ्यादृष्टिसे सम्यक् प्रत्यय पचवन (५५) होते हैं । इन प्रत्ययोंसे मिथ्यादृष्टि सूत्रोक्त सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । इनमेंसे पांच मिथ्यात्वप्रत्ययोंको अलग करदेनेपर पचास (५०) प्रत्यय होते हैं । इन प्रत्ययोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि सूत्रोक्त सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । इन पचास प्रत्ययोंमेंसे औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र, कार्मण और चार अनन्तानुबन्धी प्रत्ययोंको अलग करदेनेपर तेतालीस प्रत्यय होते हैं (४३) । इन प्रत्ययोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । तेतालीस प्रत्ययोंमें औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको मिलादेनेपर छयालीस प्रत्यय होते हैं (४६) । इन प्रत्ययोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । इन असंयतसम्यग्दृष्टिके प्रत्ययोंमेंसे चार अप्रत्याख्यानावरण, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, कार्मण और त्रसासंयम, इन नौ प्रत्ययोंको कम करदेनेपर सैंतीस प्रत्यय होते हैं (३७) । इन प्रत्ययोंसे संयतासंयत विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । इन संयतासंयतके सैंतीस प्रत्ययोंमेंसे चार प्रत्याख्यान और ग्यारह असंयम प्रत्ययोंको कम करदेनेपर शेष बाईस रहते हैं, उनमें आहारक और आहारकमिश्रको मिला देनेपर चौवीस प्रत्यय होते हैं (२४) । इन प्रत्ययोंसे प्रमत्तसंयत विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । इन चौवीस प्रत्ययोंमेंसे आहारक-मिश्रको कम करदेनेपर बाईस प्रत्यय होते हैं (२२) । इन प्रत्ययोंसे अप्रमत्तसंयत और

अपुञ्चकरणपइड्डुवसमा^१ खवा च अपिदसोलसपयडीओ बंधति । एदेसु चैव छण्णोकसाएसु
 अवाणिदेसु सोलस होंति । १६ । एदेहि पचएहि पढमअणियट्ठी सोलस पयडीओ बंधदि । एत्थ
 णडुंसयवेदे अवाणिदे पण्णारस होंति । १५ । एदेहि पचचएहि विदियअणियट्ठी अपिदपयडीओ
 बंधदि । एदेसु इत्थियेदे अवाणिदे चोइस होंति । १४ । एदेहि पचचएहि तदियअणियट्ठी
 अपिदपयडीओ बंधदि । एत्थ पुरिसवेदे अवाणिदे तेरह होंति । १३ । एदेहि पचचएहि
 चउत्थअणियट्ठी अपिदपयडीओ बंधदि । पुणो एत्थ कोधसंजलणे अवाणिदे चारस होंति
 । १२ । एदेहि वारसपचचएहि पंचमअणियट्ठी अपिदपयडीओ बंधदि । पुणो एत्थ माण-
 संजलणे अवाणिदे एकवारस होंति । ११ । एदेहि पचचएहि छट्ठअणियट्ठी अपिदपयडीओ
 बंधदि । एदेहिंतो मायासंजलणे अवाणिदे दस होंति । १० । एदेहि पचचएहि सत्तमअणियट्ठी
 अपिदपयडीओ बंधदि । एदेहि चैव दसहि पचचएहि सुहुमसंपराइयो^२ वि अपिदसोलसपयडीओ
 बंधदि । दससु लोभसंजलणे अवाणिदे णव होंति । ९ । एदे उवसंतकसाय-खीणकसाएहि
 षड्ढमाणपयडीणं पचचया । एदेहिंतो मच्चिम्मदो-दोमणवचिजेगे अवाणिय ओरालियमिस्स-

अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशामक एवं क्षपक जीव विवाक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधते हैं ।
 इन्हीं प्रत्ययोंमेंसे छह नोकषायोंको अलग करदेनेपर सोलह होते हैं (१६) । इन प्रत्ययोंसे
 प्रथम अनिवृत्तिकरण सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । इनमेंसे नपुंसकवेदको अलग कर-
 देनेपर पन्द्रह होते हैं (१५) । इन प्रत्ययोंसे द्वितीय अनिवृत्तिकरण विवाक्षित प्रकृतियोंको
 बांधता है । इनमेंसे ख्राविदको कम करदेनेपर चौदह होते हैं (१४) । इन प्रत्ययोंसे तृतीय
 अनिवृत्तिकरण विवाक्षित प्रकृतियोंको बांधता है । इनमेंसे पुदपवेदको अलग करदेनेपर
 तेरह होते हैं (१३) । इन प्रत्ययोंसे चतुर्थ अनिवृत्तिकरण विवाक्षित प्रकृतियोंको बांधता
 है । पुनः इनमेंसे कोधसंज्वलनको अलग करदेनेपर बारह होते हैं (१२) । इन बारह
 प्रत्ययोंसे पंचम अनिवृत्तिकरण विवाक्षित प्रकृतियोंको बांधता है । पुनः इनमेंसे मानसंज्व-
 लको कम करदेनेपर ग्यारह होते हैं (११) । इन प्रत्ययोंसे छठा अनिवृत्तिकरण विवाक्षित
 प्रकृतियोंको बांधता है । इनमेंसे मायासंज्वलनको अलग करदेनेपर दश होते हैं (१०) । इन
 प्रत्ययोंसे सप्तम अनिवृत्तिकरण विवाक्षित प्रकृतियोंको बांधता है । इन्हीं दश प्रत्ययोंसे
 सूक्ष्मसात्पर्यायिक भी विवाक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । इन दश प्रत्ययोंमेंसे
 लोभसंज्वलनको अलग करदेनेपर नौ प्रत्यय होते हैं (९) । ये नौ उपशान्तकषाय और
 खीणकषाय जीवोंके द्वारा बांधी जानेवाली प्रकृतियोंके प्रत्यय हैं । इनमेंसे मध्यम

१ अमर्तौ 'अपुञ्चकरणपइड्डुवसमा' इति पाठः ।

२ प्रतिबु 'सापराइया' इति पाठः ।

कम्मइयकायजोगेसु पक्खित्तेसु सत्तं होति । ७ । एदेहि सच्चहि पच्चएहि सजोगिजिणो बंधदि । एत्थ उवसंहारगाहाओ —

चदुपच्चइगो बंधो पढमे उवरिमतिए तिपच्चइओ ।

मिस्सगन्निदिओ उवरिमदुगं च सेसेगदेसम्हि^१ ॥ २० ॥

उवरिल्लपंचए पुण दुपच्चओ जोगपच्चओ तिण्णं ।

सामण्णपच्चया खल्ल अट्टण्णं होति कम्माणं^२ ॥ २१ ॥

पणवण्णा इर वण्णा तिदाळ छादाळ सत्ततीसा य ।

चदुवीस दु बावीसा सोलस एगूण जाव णव सत्तं^३ ॥ २२ ॥

संपधि एगसमइयउत्तरुत्तरपच्चए^४ चोदसजीवसमासेसु भणिस्सामो । तं जहा—

दो दो अर्थात् मृषा और सत्यमृषा मन और वचन योगोंको अलग करके औदारिकमिश्र व कार्मण काययोगको मिला देनेपर सात होते हैं (७) । इन सात प्रत्ययोंसे सयोगी जिन [एक सातावेदनीयको] बांधते हैं । यहां उपसंहारगाथायें—

प्रथम गुणस्थानमें चारों प्रत्ययोंसे बन्ध होता है । इससे ऊपर तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वको छोड़कर शेष तीन प्रत्ययसंयुक्त बन्ध होता है । देशसंयत गुणस्थानमें मिश्ररूप अर्थात् विरताविरतरूप द्वितीय प्रत्यय और कषाय व योग ये शेष दोनों उपरिम प्रत्यय रहते हैं । इसके ऊपर पांच गुणस्थानोंमें कषाय और योग इन दो प्रत्ययोंके निमित्तसे बन्ध होता है । पुनः उपशान्तमोहादि तीन गुणस्थानोंमें केवल योगनिमित्तक बन्ध होता है । इस प्रकार गुणस्थान क्रमसे आठ क्रमोंके ये सामान्य प्रत्यय हैं ॥ २०-२१ ॥

पचवन^५, पचास^६, तेतालीस^७, छयालीस^८, सैतीस^९, चौबीस^{१०}, दो बार वाईस^{११}, सोलह^{१२} और इसके आगे नौ तक एक एक कम अर्थात् पन्द्रह, चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दश, दश^{१३}, नौ^{१४}, नौ^{१५} और सात^{१६}, इस प्रकार क्रमसे मिथ्यात्वादि अपूर्वकरण तक आठ गुणस्थानोंमें, अनिवृत्तिकरणके सात भागोंमें तथा सूक्ष्मसाम्परायादि सयोग-केवली तक शेष गुणस्थानोंमें बन्धप्रत्ययोंकी संख्या है ॥ २२ ॥

अब एक समयमें होनेवाले उत्तरोत्तर प्रत्ययोंको चौदह जीवसमासोंमें कहते हैं ।

१ अप्रतौ ' उवरिमतिएवपच्चइओ', काप्रतौ ' उवरिमतिए चव पच्चइओ' इति पाठ ।

२ अप्रतौ ' सेसेगदेसेहि', काप्रतौ ' देसेकदेसेहि' इति पाठ । चदुपच्चइगो वधो पढमे णतरतिगे तिपच्चइगो । मिस्सगन्निदिय उवरिमदुग च देसककदेसम्हि ॥ गो क ७८७.

३ गो क ७८८.

४ पणवण्णा पण्णासा तिदाळ छादाळ सत्ततीसा य । चदुवीसा बावीसा बावीसयपुञ्जकरणो ति ॥ थूले सोलसपहुदो एगूण जाव होदि दस ठाण । सहुमादिदु दस णवय जोगिम्हि सत्तेवा ॥ गो. क.७८९=७९०.

५ अप्रतौ ' -पच्चएहि' इति पाठ ।

तत्थ ताव मिच्छइडिस्स जहण्णेण दस पचचया । पंचसु मिच्छत्तेसु एक्को । एक्केण इंदिएण एक्कं कायं जहण्णेण विराहेदि [ति] दोणिण असंजमपचचया । अणंताणुवंधिचउक्कं विसंजोयि मिच्छत्तं गयस्स आवलियमेत्तकालमणंताणुवंधिचउक्कस्सुदयाभावादो वारससु कसाएसु तिणिण कसायपचचया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स रदि-अरदि-सोगदोसु जुगलेसु एक्कदरं जुगलं । दससु जोगेसु एक्को जोगो । एवमेदे सव्वे वि जहण्णेण दस पचचया । १० । पंचसु मिच्छत्तेसु एक्को । एक्केण इंदिएण छकाए विराहेदि ति सत्त असंजमपचचया । सोलसेसु कसाएसु चत्तारि कसायपचचया । ४ । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स-रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु एक्कं जुगलं । भय-दुगुंछाओ दोणिण । तेरसेसु जोगपचएसु एक्को । एवमेदे सव्वे वि अट्टारस होंति । १८ । एवमेदेहि दस-अट्टारसजहणुक्कस्सपचचएहि मिच्छा-इडी अप्पिदसोलसपयडीओ वंधइ ।

एक्केणिदिएण एक्कं कायं विराहेदि ति दोअसंजमपचचया । सोलसेसु कसाएसु चत्तारि कसायपचचया । तिसु वेदेसु एक्को वेदपचचओ । हस्स-रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु एक्कदरं जुगलं । तेरससु जोगेसु एक्को । एवं जहण्णेण सासणस्स दस पचया होंति । १० । उक्कसेण सत्तरस पचचया होंति, मिच्छत्तस्सुदयाभावादो । १७ । एवमेदेहि जहणुक्कस्स-

वह इस प्रकार है- उनमे मिथ्यादृष्टिके जघन्यसे दश प्रत्यय होते हैं । पांच मिथ्यात्वोंमेंसे एक; मिथ्यादृष्टि एक इन्द्रियसे एक कायकी जघन्यसे विराधना करता है, इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय: अनन्तानुबन्धिचतुष्टयका विसंयोजन करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके आवलीमात्र काल तक अनन्तानुबन्धिचतुष्टयका उदय न रहनेसे वारह कपायोंमें तीन कपाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य-रति और अरति-शोक इन-दो युगलोंमेंसे एक युगल, तथा दश योगोंमें एक योग, इस प्रकार ये सब ही जघन्यसे दश प्रत्यय होते हैं (१०) । पांच मिथ्यात्वोंमें एक, एक इन्द्रियसे छह कायकी विराधना करता है, अतः सात असंयम प्रत्यय, सोलह कपायोंमें चार कपाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमें एक युगल, भय व जुगुप्सा दो, तेरह योग प्रत्ययोंमेंसे एक, इस प्रकार ये सभी अट्टारह होते हैं (१८) । इस प्रकार इन जघन्य दश और उत्कृष्ट अट्टारह प्रत्ययोंसे मिथ्यादृष्टि जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है ।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, सोलह कपायोंमें चार कपाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक वेद प्रत्यय, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमें एक युगल, तेरह योगोंमें एक योग, इस प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टिके जघन्यसे दश (१०) और उत्कर्षसे सत्तरह प्रत्यय होते हैं: क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका उदय नहीं रहता (१७) । इस प्रकार क्रमसे इन जघन्य और उत्कृष्ट दश व सत्तरह प्रत्ययोंसे

दस-सत्तारसपच्चएहि सासनसम्मादिट्ठी अप्पिदसोलसपयडीओ बंधदि ।

एक्केणिदिण्ण एकं कायं विराहेदि त्ति दो असंजमपच्चया । अणंताणुबन्धि-चट्टुककवदिरित्तबारसकसाएसु तिण्णि कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु एकं । दससु जोगेसु एक्को । एवमेदे सव्वे वि णव होंति । ९ । एक्केणिदिण्ण छक्काए विराहेदि त्ति सत्त असंजमपच्चया । अणंताणुबंधिविरिहदबारसकसाएसु तिण्णि कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु एक्कयरं जुगलं । दो भय-दुगुंछओ । दससु जोगेसु एक्को । एवमेदे सोलस पच्चया । १६ । एदेहि जहणुक्कस्सणव सोलसपच्चएहि सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी च अप्पिदसोलसपयडीओ बंधदि ।

एक्केणिदिण्ण एकं कायं विराहेदि त्ति दो असंजमपच्चया । अणंताणुबंधि-अप-चक्खणानुचउक्कविरिहदअट्टकसाएसु दो कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स-रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु एकं । णवजोगेसु एक्को । एवमेदे अट्ट । ८ । एक्केणिदिण्ण पंचकाए विराहेदि त्ति छअसंजमपच्चया । दो कसायपच्चया । एक्को वेदपच्चओ । हस्स-रदि-अरदि-सोग-

सासादनसम्यग्दष्टि विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है ।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, अनन्तानुबन्धिचतुष्टयको छोड़कर शेष बारह कषायोंमें तीन कषाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक, दश योगोंमेंसे एक, इस प्रकार ये सभी नौ प्रत्यय होते हैं (९) । एक इन्द्रियसे छह कायोंकी विराधना करता है इस प्रकार सात असंयम प्रत्यय, अनन्तानुबन्धीसे रहित बारह कषायोंमें तीन कषाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमें एक युगल, भय और जुगुप्सा ये दो, दश योगोंमें एक, इस प्रकार ये सोलह प्रत्यय होते हैं (१६) । इन जघन्य और उत्कृष्ट नौ और सोलह प्रत्ययोंसे सम्यग्निध्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है ।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, अनन्तानुबन्धिचतुष्टय और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्टयसे रहित आठ कषायोंमें दो कषाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमें एक, नौ योगोंमें एक, इस प्रकार ये आठ प्रत्यय होते हैं (८) । एक इन्द्रियसे पांच कायोंकी विराधना करता है इस प्रकार छह असंयम प्रत्यय, दो कषाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक, भय और जुगुप्सा, तथा नौ योगोंमेंसे एक, इस

दोणहं जुगलणमेक्कदरं । भय-दुगुंछओ । णवजोगेसु एक्को । एवमेदे चोइस । १४ । एदेहि जहणुक्कस्सअट्ठ-चोइसपच्चएहि संजदासंजदो अप्पिदसोलसपयडीओ वंधदि ।

चदुसंजलणेसु एक्को कसायपच्चओ । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोणहं जुगलणमेक्कदरं । णवसु जोगेसु एक्को । एवमेदे पंच जहण्णेण पच्चया । ५ । एक्को कसायपच्चओ । एक्को वेदपच्चओ । हस्स रदि-अरदि-सोगदोणं जुगलणमेक्कदरं । भयदुगुंछओ । णवसु जोगेसु एक्को । एवमेदे सत्तुक्कस्सपच्चया । ७ । एवमेदेहि जहणुक्कस्सपंच-सत्त-पच्चएहि पमतसंजदो अप्पमतसंजदो अपुव्वकरणो च अप्पिदपयडीओ वंधदि ।

एक्को संजलणकसाओ । एक्को जोगो । एवमेदे जहण्णेण दो पच्चया । २ । उक्कस्सेण तिण्णि वेदेण सह । ३ । एदेहि जहणुक्कस्सदो-तिण्णिपच्चएहि अणियट्ठी अप्पिदसोलसपयडीओ वंधदि ।

लोभकसाओ एक्को । [एक्को] जोगपच्चओ । एवमेदेहि जहण्णेण उक्कस्सेण वि दोहि पच्चएहि सुहुमसांपराइओ अप्पिदपयडीओ वंधदि । उवरि उवसंतकसाओ खीणकसाओ सजोगी च एक्केण चैव जोगेण वंधति । एत्थ उवसंहारगाहा—

प्रकार ये चौदह प्रत्यय हैं । इन जघन्य और उत्कृष्ट आठ व चौदह प्रत्ययोंसे संयतासंयत जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है ।

चार संज्वलनोंमेंसे एक कषाय प्रत्यय, तीन वेदोंमेंसे एक, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक, तथा नौ योगोंमेंसे एक, इस प्रकार जघन्यसे ये पांच प्रत्यय हैं (५) । एक कषाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक युगल, भय और जुगुप्सा, तथा नौ योगोंमेंसे एक, इस प्रकार ये सात उत्कृष्ट प्रत्यय हैं (७) । इस प्रकार इन जघन्य और उत्कृष्ट पांच व सात प्रत्ययोंसे प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित प्रकृतियोंको बांधता है ।

एक संज्वलनकषाय और एक योग इस प्रकार ये जघन्यसे दो प्रत्यय (२), तथा उत्कर्षसे वेदके साथ तीन (३), इस प्रकार इन जघन्य और उत्कृष्ट दो व तीन प्रत्ययोंसे अनिष्टुत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है । लोभकषाय एक और एक योग प्रत्यय, इस प्रकार इन जघन्य व उत्कर्षसे भी दो प्रत्ययोंसे सूक्ष्मसाम्प-रायिक जीव विवक्षित प्रकृतियोंको बांधता है । इससे ऊपर उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और सयोगिकैवली केवल एक योगसे ही बन्धक है । यहां उपसंहारगाथा—

दस अट्टारस दसयं सत्तरह णव सोलसं च दोण्णं तु ।

अट्ट य चोइस पणयं सत्त ति ए ट्ट ति ट्टु एयमेयं च' ॥ २३ ॥

किंगइसंजुतो ? एदिस्से पुच्छाए चोइसजीवसमासपडिबद्धो उत्तरो वुच्चदे । तं जहा— मिच्छाइट्ठी चट्टुगदिसंजुत्तं वंधदि । णवरि उच्चागोदं णिरय-तिरिक्खगइं मोत्तूण दुगदिसंजुत्तं वंधदि । जसकित्तिं णिरयगदिं मोत्तूण तिगदिसंजुत्तं वंधदि । सासणो चोइस-पयडीओ णिरयगइं मोत्तूण तिगदिसंजुत्तं वंधदि । उच्चागोदं णिरय-तिरिक्खगइंओ मोत्तूण दुगदिसंजुत्तं वंधदि । जसकित्तिं पुण णिरयगइं मोत्तूण तिगइसंजुत्तं वंधदि । सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी' च सोलसपयडीओ णिरयगइ-तिरिक्खगइंओ मोत्तूण दुगइसंजुत्तं वंधदि । संजदासंजदप्पहुडि जाव अपुच्चकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण ट्ठिदा त्ति अप्पिदसोलसपयडीओ देवगदिसंजुत्तं वंधंति । उवरिमा अगदिसंजुत्तं वंधंति ।

कदिगदीया सामिणो ? एदिस्से पुच्छाए परिहारो वुच्चदे— मिच्छादिट्ठी चट्टुगदिया

मिथ्यात्व गुणस्थानमें दश व अटारह, सासादनमें दश व सत्तरह, दो गुणस्थानोंमें अर्थात् मिश्र और अधिरतसम्यग्दृष्टिमें नौ व सोलह, संयतासंयतमें आठ और चौदह, प्रमत्तसंयतादिक तीनमें पांच व सात, अनिवृत्तिकरणमें दो व तीन, सूक्ष्म-साम्परायमें दो, तथा उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय एवं सयोगिकेवली गुणस्थानोंमें एकमात्र, इस प्रकार एक जीवके एक समयमें जघन्य व उत्कृष्ट बन्धप्रत्यय पाये जाते हैं ॥ २३ ॥

‘कौनसी गतिसे संयुक्त बन्धक है ?’ इस प्रश्नका चौदह जीवसमासोंसे सम्बद्ध उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है—मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियोंसे संयुक्त उक्त प्रकृतियोंका बन्धक है। विशेष इतना है कि उच्चगोत्रको नरकगति और तिर्यग्गतिको छोड़कर शेष दो गतियोंसे संयुक्त बांधता है। यशकीर्तिको नरकगतिको छोड़कर तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है। सासादन गुणस्थानमें चौदह प्रकृतियोंको नरकगतिको छोड़ तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है, उच्चगोत्रको नरक व तिर्यग्गतिको छोड़ शेष दो गतियोंसे संयुक्त बांधता है। किन्तु यशकीर्तिको नरकगतिको छोड़ शेष तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव सोलह प्रकृतियोंको नरकगति व तिर्यग्गतिको छोड़ दो गतिसंयुक्त बांधते हैं। संयतासंयतसे लेकर अपूर्वकरण-कालके संब्यात बहुभाग जाकर स्थित जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको देवगतिसंयुक्त बांधते हैं। इससे ऊपरके जीव अगतिसंयुक्त बांधते हैं।

‘उक्त प्रकृतियोंके कितने गतिवाले जीव स्वामी होते हैं ?’ इस प्रश्नका परिहार कहते हैं—मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या-

सामिणो । सासणसम्माइड्डी सम्मामिच्छाइड्डी असंजदसम्माइड्ढिणो वि चटुगदिया सामिणो । दुगदिसंजदासंजदा सामिणो । उवरिमा मणुसगदिया चेव । अद्धणं सुत्तसिद्धं । पढम-अपढमचरिम-चरिमसमयबंधवोच्छेदपुच्छाविसयपरूवणा वि सुत्तसिद्धा चेव ।

किं सादियो किमणादियो किं ध्रुवो किमद्भुवो बंधो त्ति एदिस्से पुच्छाप वुच्चदे—
चोहसपयडीणं बंधो मिच्छाइड्ढिस्स सादियो, उवसमसेडिभिह बंधवोच्छेदं कादूण हेड्डा ओदरिय बंधस्सादिं करिय पडिवण्णमिच्छत्ताणं सादियबंधवत्तंभादो । अणादिगो, उवसम-सेडिमणारूढमिच्छादिड्ढिजीवाणं बंधस्स आदीए अभावादो । ध्रुवो बंधो, अभवियमिच्छादिड्ढीणं बंधस्स वोच्छेदाभावादो । अद्भुवो, उवसम-खवगसेडिं चडणपाओगमिच्छाइड्ढिबंधस्स ध्रुवत्ता-भावादो । जसकित्ति-उच्चागोदाणं पि एवं चेव । णवरि अणादि-ध्रुवबंधा णत्थि, अजसकित्ति-णीचागोदाणं पडिवक्खणं संभवादो । सच्चगुणट्टाणेसु सेसेसु चोहसध्रुवपयडीओ सादि-अणादि-अद्भुवमिदि तिहि वियपेहि वज्झंति । ध्रुवभंगो णत्थि, तेसिं भवियाणं णियमेण बंधवोच्छेद-

दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि भी चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं । दो गतियोंके संयतासंयत जीव स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगतिके ही जीव स्वामी हैं । बन्धाध्वान सूत्रसे सिद्ध है । प्रथम, अप्रथम-अचरम और चरम समयमें होनेवाले बन्धव्युच्छेद-सम्बन्धी प्रश्नाविषयक प्ररूपणा भी सूत्रसिद्ध ही है ।

अब 'क्या सादिक बन्ध होता है, क्या अनादिक बन्ध होता, क्या ध्रुव बन्ध होता है, या क्या अध्रुव बन्ध होता है?' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— चौदह प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिके सादिक होता है, क्योंकि, उपशमश्रेणीमें बन्धव्युच्छेद करके पुनः नीचे उतरकर बन्धका प्रारम्भ करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवोंके सादिक बन्ध पाया जाता है । अनादिक बन्ध होता है, क्योंकि, उपशमश्रेणीपर नहीं चढ़े हुए मिथ्यादृष्टि जीवोंके बन्धके आदिका अभाव है । ध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, अभव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंके बन्धका कभी व्युच्छेद नहीं होता । अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, उपशम और क्षपक श्रेणीपर चढ़नेके योग्य मिथ्यादृष्टि जीवोंका बन्ध ध्रुव नहीं होता । यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका भी मिथ्यादृष्टिके इसी प्रकार ही बन्ध होता है । विशेष इतना है कि इन दोनों प्रकृतियोंका उसके अनादि और ध्रुव बन्ध नहीं होता, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्षभूत अयशकीर्ति और नीच गोत्रका बन्ध सम्भव है । शेष सब गुणस्थानोंमें चौदह ध्रुवप्रकृतियां सादि, अनादि और अध्रुव इन तीन विकल्पोंसे बंधती हैं । वहां ध्रुव भंग नहीं है, क्योंकि, उन भव्य जीवोंके

संभवादो । जसकित्ति-उच्चगोदाणं पुण बंधो सव्वगुणङ्गाणेषु सादि-अद्भुवो चैव ।

**णिदाणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोह-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुंवि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-
अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ ७ ॥**

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं च । तेण किं मिच्छाइड्डी बंधओ किं सासणसम्माइड्डी बंधओ किं सम्मामिच्छाइड्डी बंधओ एवं गंतूण किमजोगी किं सिद्धो बंधओ, किमेदेसिं कम्माणं बंधो पुवं वोच्छिज्जदि, किमुदओ, किं दो वि समं वोच्छिज्जति, एदाओ किं सोदएण वज्झंति किं परोदएण, किं सोदय-परोदएण, किं सांतरं वज्झंति, किं णिरंतरं वज्झंति, किं सांतर-णिरंतरं वज्झंति, किं पच्चएहि वज्झंति, किं पच्चएहि विणा वज्झंति, किं गइसंजुत्तं वज्झंति, किमगइ-संजुत्तं वज्झंति, कदिगदिया एदेसिं बंधसामिणो होंति, कदिगदिया ण होंति, किं वा बंधद्वाणं, किं चरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि, किं पढमसमए, किमपढम-अचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि,

नियमसे बन्धव्युच्छेद सम्भव है । परन्तु यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका बन्ध सर्व गुणस्थानोंमें सादि और अधुव ही होता है ।

निदानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुचन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यगगति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहयोगति, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक ? ॥ ७ ॥

यह पृच्छसूत्र भी देशामर्शक है । अतएव क्या मिथ्यादृष्टि बन्धक है, क्या सासा-दनसम्यग्दृष्टि बन्धक है, क्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि बन्धक है, इस प्रकार जाकर क्या अयोगी बन्धक हैं, क्या सिद्ध बन्धक है, क्या इन कर्मोंका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, क्या उद्यय पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, क्या दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, ये प्रकृतियां क्या स्वोद्यसे बंधती हैं, क्या परोद्यसे बंधती हैं, क्या स्वोद्य-परोद्यसे बंधती हैं; क्या सान्तर बंधती हैं, क्या निरन्तर बंधती हैं, क्या सान्तर-निरन्तर बंधती हैं; क्या प्रत्ययोंसे बंधती हैं, क्या विना प्रत्ययोंके बंधती है; क्या गतिसंयुक्त बंधती हैं, क्या अगतिसंयुक्त बंधती है; इन कर्मोंके बन्धके स्वामी किन गतियोंवाले होते हैं व किन गतियोंवाले नहीं होते; बन्धाध्वान कितना है; क्या चरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्या प्रथम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्या अप्रथम-अचरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है;

किमेदासिं सादिओ बंधो, किमणादिओ, किं धुवो, किमद्धुवो बंधो त्ति एदाओ पुच्छाओ एत्थ कादव्वाओ । एदासिं पुच्छाणमुत्तरपरूवणइमुत्तरसुत्तं भणदि—

भिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ८ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्तद्वाणपरूवणदारेण पुच्छासुत्तुद्धिइसव्वत्थपरूवणादो । सामित्तमद्वाणं च सुत्तादो चेव णव्वदि त्ति ण तेसिमत्थो वुच्चदे । किमेदासिं बंधो पुवं वोच्छिज्जे, किमुदओ पुवं वोच्छिज्जे, एदस्सत्थो वुच्चदे— थीणगिद्धितियस्स पुवं बंधो वोच्छिणो, पच्छा उदयस्स वोच्छेदो, सासणसम्मादिट्ठिचरिमसमए बंधे फिट्ठे संते पच्छा उवरि गंतूण पमत्तसंजदम्मि उदयवोच्छेदोवलंभादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं फिट्ठति, सासणसम्माइट्ठिचरिमसमए एदेसिं बंधोदयाणं जुगवं वोच्छेददंसणादो । इत्थिवेदस्स पुवं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिणो, सासणम्मि बंधे वोच्छिणे पच्छा उवरि गंतूण अणियट्ठिम्ह उदयवोच्छेदादो । एवं तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्जि-उज्जोव-

क्या इन प्रकृतियोंका सादिक बन्ध है, क्या अनादिक बन्ध है, क्या ध्रुव बन्ध है, या क्या अध्रुव बन्ध है, इस प्रकार ये प्रश्न यहां करना चाहिये । इन प्रश्नोंका उत्तर कहनेके लिये अगला सूत्र कहते हैं—

उपर्युक्त प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं ॥ ८ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि, बन्धके स्वामित्व और अध्वानकी प्ररूपणा द्वारा वह पृच्छासूत्रमें उद्दिष्ट सब अर्थोंका निरूपण करता है । बन्धस्वामित्व और अध्वान कृत्तिक सूत्रसे ही जाना जाता है अतः इन दोनोंका अर्थ यहां नहीं कहा जाता । 'क्या इनका बन्ध पहिले व्युच्छिन्न होता है या उदय पहिले व्युच्छिन्न होता है ?' इसका अर्थ कहते हैं— स्त्यानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादनसम्यग्दृष्टिके चरम समयमें बन्धके नष्ट होनेपर पश्चात् ऊपर जाकर प्रमत्तसंयतमें इनके उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । अनन्तानुबन्धिचलु-ष्टयका बन्ध और उदय दोनों साथ नष्ट होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टिके चरम समयमें इनके बन्ध और उदयका एक साथ व्युच्छेद देखा जाता है । स्त्रीविदका पूर्वमें बन्ध पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके व्युच्छिन्न होनेपर तत्पश्चात् ऊपर जाकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है । इसी प्रकार तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृति-

णीचागोदाणि, सासणम्मि बंधवोच्छेदे जादे पच्छा उवरिं गंतूण संजदासंजदम्मि उदय-
वोच्छेदादो, तिरिक्खाणुपुच्चीए असंजदसम्माइडिडिहि उदयवोच्छेदुवलंभादो । एवं मच्चिम-
चदुसंठाणाणि, सासणम्मि बंधे थक्के संते उवरि गंतूण सजोगिडिहि उदयवोच्छेदादो । एवं
चेव मच्चिमचदुसंधडणाणि, सासणम्मि बंधे थक्के संते उवरि अपमत-उवसंतकसाएसु कमेण
दोण्णं दोण्णमुदयकस्सयदंसणादो । एवं अप्पसत्थविहायगदीए, सासणम्मि बंधे थक्के संते
उवरि सजोगिडिहि उदयवोच्छेदादो । एवं दुभग-अणादेज्जाणं वत्तव्वं, सासणम्मि बंधे थक्के
उवरि असंजदसम्मादिडिडिहि उदयवोच्छेदो । एवं दुस्सरस्स वि वत्तव्वं, सासणम्मि बंधे थक्के
सजोगिकेवल्लिहि उदयवोच्छेदादो ।

किं सोदएण किं परोदएण किमुभएण वज्झंति ति पुच्छाए उत्तरो वुच्चेदे । तं जहा-
थीणगिडिडित्थियमित्थिवेदं तिरिक्खाउअं तिरिक्खगइ चदुसंठाणाणि चदुसंधडणाणि तिरिक्ख-
गदिपावोगाणुपुच्चि उज्जोवं अप्पसत्थविहायगदिमंगांताणुवंधिचदुक्कं दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-
णीचागोदाणि चं मिच्छादिडि-सासणसम्माइडिणो सोदएण वि परोदएण वि बंधंति, विरोहा-

थोका पूर्वमें बन्धव्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासा-
दनगुणस्थानमें बन्धका व्युच्छेद हो जानेपर पश्चात् ऊपर जाकर संयतासंयत गुणस्थानमें
उदयका व्युच्छेद होता है, तथा तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीके उदयका व्युच्छेद असंयत-
सम्यग्दष्टि गुणस्थानमें पाया जाता है । इसी प्रकार मध्यम चार संस्थानोंका पूर्वमें बन्ध
व्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादन गुणस्थानमें
बन्ध के रक जानेपर ऊपर जाकर संयोगकेवली गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है ।
इसी प्रकार ही मध्यम चार संहनन हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें इनके बन्धके रक
जानेपर ऊपर अप्रमत्तसंयत और उपशान्तकपाय गुणस्थानोंमें क्रमसे दो दो संहननोंका
उदयक्षय देखा जाता है । इसी प्रकार अप्रशस्तविहायोगतिका भी कथन करना चाहिये,
क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके रक जानेपर ऊपर संयोगकेवलीमें उदयका व्युच्छेद
होता है । इसी प्रकार दुर्भग और अनादेयका कथन करना चाहिये, क्योंकि, सासादनमें
बन्धके रक जानेपर ऊपर असंयतसम्यग्दष्टिमें उदयका व्युच्छेद होता है । इसी प्रकार
दुस्वरका भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादनमें बन्धके रक जानेपर संयोगकेवलीमें
उदयका व्युच्छेद होता है ।

‘ उपर्युक्त प्रकृतियां क्या स्वोदयसे क्या परोदयसे या क्या स्व-परोदय उभयरूपसे
बंधती हैं?’ इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है—स्थानगृद्धित्रय, स्त्रीविद, तिर्य-
गायु, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-
विहायोगति, अनन्तानुबन्धित्तुष्क, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचवोत्र, इन प्रकृतियोंको
मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि स्वोदयसे भी और परोदयसे भी बांधते हैं, क्योंकि,

भावादो ।

किं सांतरं किं णिरंतरं किं सांतर णिरंतरं वज्झंति ति एदस्सत्थो वुच्चदे— थीण-
गिद्धितियमंगताणुबंधिचउक्कं च णिरंतरं वज्झइं, धुवबंधितादो । इत्थिवेदो मिच्छाइड्ढि-सासण-
सम्मादिड्ढिहा सांतरं वज्झइ, बंधगद्धाए खीणाए णियमेण पडिवक्खपयडीणं बंधसंभावादो ।
तिरिक्खाउअं मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढिहा णिरंतरं वज्झइ, अद्दाक्खएण बंधस्स थक्कणा-
भावादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाजेग्माणुपुव्वीओ सांतर णिरंतरं वज्झंति ।

होदु सांतरबंधो, पडिवक्खपयडीणं बंधुवलंभादो; ण णिरंतरबंधो, तस्स कारणाणु-
वलंभादो ति वुत्ते वुच्चदे— ण एस दोसो, तेउक्काइय-वाउक्काइयमिच्छाइड्ढीणं सत्तमपुढवि-
णेइयमिच्छाइड्ढीणं च भवपडिवद्धसंकिसेण णिरंतरबंधोवलंभादो । सासणसम्माइड्ढीणो दोण्णं
पयडीणमेदासिं कधं णिरंतरबंधया ? ण, सत्तमपुढविसासाणाणं तिरिक्खगइं मोत्तूणणगइं बंधा-
भावादो ?

इसमें कोई विरोध नहीं है ।

‘ उक्त प्रकृतियां क्या सान्तर, क्या निरन्तर, या क्या सान्तर-निरन्तर बंधती हैं? ’
इसका अर्थ कहते हैं—स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्क निरन्तर बंधती हैं,
क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं । खीवेदको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि सान्तर
वांधते हैं, क्योंकि, बन्धककालके क्षीण होनेपर नियमसे प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव
है । तिर्यगायुको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि निरन्तर वांधते हैं, क्योंकि, कालके
क्षयसे बन्धके रुकनेका अभाव है । तिर्यग्गति और तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीको सान्तर-
निरन्तर वांधते हैं ।

शंका—प्रतिपक्षभूत प्रकृतियोंके बन्धकी उपलब्धि होनेसे सान्तर बन्ध भले ही
हो, किन्तु निरन्तर बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कारणोंका अभाव है ?

समाधान—इस शंकाका उत्तर कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि,
तेजकायिक और वायुकायिक मिथ्यादृष्टियों तथा सप्तम पृथिवीके नारकी मिथ्यादृष्टियोंके
भवसे सम्बद्ध संज्ञेशके कारण उक्त दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

शंका—सासादनसम्यग्दृष्टि इन दोनों प्रकृतियोंके निरन्तर बन्धक कैसे हैं ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके सासादनसम्यग्दृष्टियोंके
तिर्यग्गतिको छोड़कर अन्य गतियोंका बन्ध ही नहीं होता ।

१ अ-आप्रसो. ‘ तिरिय-’ इति पाठ ।

२ अ-आप्रसो. ‘ बधय-’ कप्रतौ ‘ बधिय-’ इति पाठ ।

चदुसंठाण-चदुसंधडण-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणमित्थि-वेदभंगो, सांतरबंधितं पडि भेदाभावादे । णीचागोदस्स तिरिक्खगदिभंगो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुढविणेरइएसु च णीचागोदस्स णिरंतरं बंधुवलंभादे ।

किं पच्चएहि बज्झंति किं तेहि विणा, एदस्सत्थो बुच्चदे— मिच्छादिट्ठी । मिच्छता-संजम-कसाय-जोगसण्णिदचदुहि मूलपच्चएहि पणवणुत्तरपच्चएहि दस-अङ्गारसएगसमय-संभविजहणुक्कस्सपच्चएहि य एदाओ पयडीओ बंधदि । सासणसम्माइट्ठी मिच्छंतं मोत्तूप तीहि मूलपच्चएहि पंचासुत्तरपच्चएहि एगसमयसंभविददस-सत्तारसजहणुक्कस्सपच्चएहि य एदाओ पयडीओ बंधदि । णवरि तिरिक्खाउअस्स वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चएहि विणा तेवण्ण ओरालियमिस्सेण च विणा सत्तेताल पच्चया मिच्छाइट्ठि-सासणाणं^१ होंति ।

गइसंजुत्तपुच्छाए अत्थो बुच्चदे । तं जहा — धीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कं च मिच्छाइट्ठी चउगइसंजुत्तं, सासणो णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं बंधइ । इत्थिवेदं मिच्छा-इट्ठी सासणो च णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं बंधइ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ तिरिक्ख-

चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय प्रकृतियां स्त्रीवेदके समान हैं, क्योंकि, सान्तरबन्धित्वके प्रति इन प्रकृतियोंमें स्त्रीवेदसे कोई भेद नहीं है । नीचगोत्र तिर्यग्गतिके समान है, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक तथा सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

अब 'सूत्रोक्त प्रकृतियां क्या प्रत्ययोंसे बंधती हैं या क्या उनके विना ?' इसका अर्थ कहते हैं—मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग संज्ञावाले चार मूल प्रत्ययोंसे, पचवन उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समयमें सम्भव होनेवाले दश और अठारह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे इन प्रकृतियोंको बांधते हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वको छोड़कर शेष तीन मूल प्रत्ययोंसे, पचास उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समयमें सम्भव दश और सत्तरह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे इन प्रकृतियोंको बांधते हैं । विशेष यह कि तिर्यग्गायुके वैक्रियकामिश्र और कामंण काययोगके विना मिथ्यादृष्टिके तिरपन, तथा वैक्रियकामिश्र, कामंण और औदारिकामिश्रके विना सासादनसम्यग्दृष्टिके सैंतालीस प्रत्यय होते हैं ।

गतिसंयुक्त प्रश्नका उत्तर कहते हैं । वह इस प्रकार है—स्थानगृद्धि आदि तीन तथा अनन्तानुबन्धित्तुक्को मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियोंसे संयुक्त और सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है । स्त्रीवेदको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है । तिर्यग्गायु, तिर्यग्गति,

गइयाओग्गाणुपुव्वि-उज्जेवे मिच्छाइड्डी सासणो च तिरिक्खगइसंजुत्तं वंधंति । चउसंठाण-
चउसंधण्णाणि मिच्छाइड्डी सासणसम्माइड्डी तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वंधंति । अप्पसत्थ-
विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि मिच्छाइड्डी देवगइए विणा तिगइसंजुत्तं, सासणो
देव-णिरयगईहि विणा दुगदिसंजुत्तं वंधदि ।

कदि गदिया सामिणो त्ति वुत्ते धीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कादिपयडीणं वंधस्स
चउग्गइमिच्छाइड्डी-सासणसम्मादिट्ठिणो सामी । वंधद्धणं सासणचरिमसमए वंधवोच्छेदो च
सुत्तणिद्धिदो त्ति ण पुणो वुच्चदे ।

किमेदासिं पयडीणं सादिओ वंधओ त्ति पुच्छसंवद्धो अत्थो वुच्चदे । तं जहा—
धीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं वंधो मिच्छाइड्डीमिह सादिओ अणादिओ धुवो अद्धुवो
च । सासणम्मि अणाइपुव्वेण विणा दुवियप्पो । सेसाणं पयडीणं वंधो मिच्छाइड्डी-सासणसु
सादिगो अद्धुवो च ।

णिद्दा-पयलाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ ९ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेत्य पुव्विल्लपुच्छाओ सव्वाओ पुच्छिदव्वाओ ।

तिर्यग्गतिप्रयोगयानुपूर्वी और उद्योतको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गतिसे
संयुक्त बांधते हैं । चार संस्थान और चार सहननोको मिथ्यादृष्टि और सासादन-
सम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति व मनुष्यगतितसे संयुक्त बांधते हैं । अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर,
अनादेय और नीचगोत्रको मिथ्यादृष्टि देवगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, और सासा-
दनसम्यग्दृष्टि देव व नरक गतिके बिना दो गतियोंसे संयुक्त बांधता है ।

कितने गतिवाले जीव स्वामी होते हैं. ऐसा कहनेपर उत्तर कहते हैं—स्थान-
शुद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्क आदि प्रकृतियोंके बन्धके चारों गतियोंवाले मिथ्या-
दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । बन्धावधान और सासादनके चरम समयमें होने-
वाला बन्धव्युच्छेद सूत्रसे निर्दिष्ट है, अतः उसे फिरसे नहीं कहते ।

‘क्या इन प्रकृतियोंका सादिक बन्ध है ?’ इस प्रश्नसे सम्यग्द्व अर्थको कहते हैं ।
वह इस प्रकार है—स्थानशुद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुण-
स्थानमें सादिक, अनादिक, ध्रुव और अध्रुव रूप होता है । सासादन गुणस्थानमें अनादि
और ध्रुवके बिना दो प्रकारका होता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादन
दोनों गुणस्थानोंमें सादिक व अध्रुव होता है ।

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक ? ॥ ९ ॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, अतएव यहाँ सब पूर्वोक्त प्रश्न पूछना चाहिये ।

पुच्छिदसिस्सस्स संदेहविणासणइमुत्तरसुत्तं भणदि -

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्ठसुद्धिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जदिमं भागं गंतूणं बंधो वोच्छिज्जदि ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १० ॥

एदं पि देसामासियसुत्तं, बंधद्वाणं बंधसामि-असामिणो च अपुव्वकरणद्वाए अपढम-अचरिमसमए बंधवोच्छेदं च भणिदूण सेसत्थे सूचिय अवट्ठणादो । अपुव्वकरणद्वाए पढम-सत्तमभागे णिहा पयलाणं बंधो थक्कदि ति एत्थ वत्तव्वं । कधमेदं णव्वदे ? परमगुरूवएसोदो ।

किमेदेसिं कम्माणं बंधो पुव्वं पच्छा सममुदएण वोच्छिज्जदि ति पुच्छाए णिच्छओ कीरदे । एदेसिं बंधो पुव्वं विणस्सदि', पच्छा उदयस्स वोच्छेदो; अपुव्वकरणद्वाए पढमसत्तम-भागे बंधे थक्के संते उवरि गंतूणं खीणकसायस्स दुचरिमसमयम्हि उदयवोच्छेदादो ।

किं सोदएण परोदएण सोदय-परोदएण वज्झंति ति पुच्छाए वुच्चदे- एदाओ दो वि पयडीओ सोदय-परोदएण वज्झंति, णाणांतरायपंचकस्सेव एदासिं धुवोदयत्ताभावादो । किं

शंकायुक्त शिष्यके सन्देहको दूर करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्टशुद्धिसंयतोमें उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरणकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ १० ॥

यह भी देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि वह बन्धाध्वान, बन्धस्वामी-अस्वा मी तथा अपूर्वकरणकालके अप्रथम-अचरम समयमें होनेवाले बन्धव्युच्छेदको कहकर शेष अर्थोंको सूचित कर अवस्थित है । अपूर्वकरणकालके प्रथम सप्तम भागमें निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका बन्ध रुक जाता है, ऐसा यहाँ कहना चाहिये ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—यह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है ।

‘क्या इन दोनों कर्मोंका बन्ध उदयसे पूर्व, पश्चात् अथवा साथमें व्युच्छिन्न होता है ?’ इस प्रश्नका निर्णय करते हैं—इनका बन्ध पूर्वमें नष्ट होता है, तत्पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके प्रथम सप्तम भागमें बन्धके रुक जानेपर ऊपर जाकर क्षीणकषाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है ।

‘दोनों कर्म प्रकृतियां क्या स्वोदय, क्या परोदय या क्या स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं?’ इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं—ये दोनों ही प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, पांच ज्ञानावरण और पांच अन्तरायके समान इन दोनों प्रकृतियोंके ध्रुवोदयका अभाव है ।

१ प्रतिपु ‘पुव्वं व गत्सदि’ इति पाठ ।

सांतरं णिरंतरं सांतर-णिरंतरं वज्झंति ? एदाओ णिरंतरं वज्झंति, सत्तेतालधुवपयखीसु पादादो । किं पच्चएहि वंधति ति पुच्छाए वुच्चये— मिच्छाइडी चटुहि मूलपच्चएहि पणवण्णणाणा-समयुत्तरपच्चएहि दस-अट्टारसएगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चएहि, सासणो मिच्छतेण विणा तिहि मूलपच्चएहि पंचासुत्तरपच्चएहि दस सत्तारसएगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चएहि, सम्मामिच्छाइडी तिहि मूलपच्चएहि तेदालुत्तरपच्चएहि एगसमयणव-सोलसजहण्णुक्कस्सपच्चएहि, असंजदसम्माइडी तिहि मूलपच्चएहि छादालुत्तरपच्चएहि एगसमयणव-सोलसजहण्णुक्कस्सपच्चएहि, संजदासंजदो मिस्सा-संजेण सहिदकसाय जोगदोमूलपच्चएहि सत्तीसुत्तरपच्चएहि एगसमइयअट्ट-चोइसजहण्णु-क्कस्सपच्चएहि, पमत्तसंजदो दोहि मूलपच्चएहि चटुवीसुत्तरपच्चएहि एगसमयपंच-सत्तजहण्णुक्कस्स-पच्चएहि, अप्पमत्तसंजदो अपुच्चकरणो च दोहि मूलपच्चएहि वावीसुत्तरपच्चएहि एगसमयपंच-सत्तजहण्णुक्कस्सपच्चएहि वंधति ।

शंका—उक्त दोनों प्रकृतियों क्या सान्तर, निरन्तर या सान्तर-निरन्तर बंधती है?

समाधान—ये दोनों प्रकृतियां निरन्तर बंधती हैं, क्योंकि, ये सैंतालीस ध्रुव प्रकृतियोंके अन्तर्गत हैं ।

‘ये प्रकृतियां किन किन प्रत्ययोंसे बंधती हैं?’ इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं—मिथ्या-दृष्टि जीव चार मूल प्रत्ययोंसे, पचवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश और अट्टारह एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे निद्रा एवं प्रचला प्रकृतियोंको बांधते हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वके विना तीन मूल प्रत्ययोंसे, पचास उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश और सत्तरह एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं । सम्यमिथ्यादृष्टि तीन मूल प्रत्ययोंसे, तेतालीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी नौ व सोलह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं । असंयतसम्यग्दृष्टि तीन मूल प्रत्ययोंसे, छयालीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी नौ और सोलह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं । संयतासंयत मिश्र असंयम (संयमा-संयम) के साथ कपाय एवं योग रूप दो मूल प्रत्ययोंसे, सैंतीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी आठ व चौदह जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं । प्रमत्तसंयत दो मूल प्रत्ययोंसे, चौबीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी पांच और सात जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं । अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणगुणस्थानधर्ती जीव दो मूल प्रत्ययोंसे, बाईस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी पांच और सात जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं ।

गइसंजुत्तबंधपुच्छाए यत्थो— मिच्छाइट्ठी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी देव-मणुस्सगइसंजुत्तं, उवरिमा देवगइसंजुत्तं णिहा-पयलाओ दो वि बंधंति । कदिगादिया सामी, एदिस्से पुच्छाए वुच्चदे— मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी चउगइया, दुगदिसंजदासंजदा, उवरिमा मणुस्सगइया सामी । अद्धानं सुगमं । वोच्छिण्णपदेसो वि सुगमो । किं सादिओ त्ति पुच्छाए वुच्चदे— मिच्छाइट्ठिग्ग्हि णिहा-पयलाणं बंधो सादिओ अणादिओ धुवो अद्दुवो त्ति चदुवियप्पो । सासणादिगुणद्धानेसु तिवियप्पो, धुवत्ताभावादो । सेसं सुगमं ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ११ ॥

बंधो बंधयो त्ति धेत्तव्वो । एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, सामिपुच्छं णिहिसिदूण सेस-पुच्छविसयणिद्देसाकरणादो । तेणेत्थ सव्वपुच्छाओ णिहिसिदव्वाओ । पुच्छिदसिस्ससंसयफुसणद्व-मुत्तरसुत्तं भणदि—

गतिसंयुक्त बन्धसम्बन्धी प्रश्नका अर्थ कहते हैं— मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतितसे संयुक्त निद्रा व प्रचला दोनों प्रकृतियोंको बांधते हैं ।

‘कितने गतियोंवाले जीव उक्त दोनों प्रकृतियोंके स्वामी हैं ?’ इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि चारों गतियोंवाले; दो गतियोंवाले संयतासंयत, तथा उपरिम जीव मनुष्यगतिवाले स्वामी होते हैं । बन्धाध्वान सुगम है । चरम समयादिरूप बन्ध-व्युच्छिन्नप्रदेश भी सुगम है । ‘उक्त प्रकृतियोंका बन्ध क्या सादि है ?’ इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका बन्ध सादिक, अनादिक, भ्रुव और अभ्रुव इस प्रकार चारों तरहका होता है । सासादनादि गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्धके न होनेसे शेष तीन प्रकारका बन्ध होता है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११ ॥

‘बन्ध’ शब्दसे बन्धकरूप अर्थ ग्रहण करना चाहिये । यह पृच्छासूत्र देशामशक है, क्योंकि; वह स्वामिविषयक पृच्छाका निर्देश करके शेष पृच्छाविषयक निर्देश नहीं करता । इसलिये यहाँ सव पृच्छाओंका निर्देश करना चाहिये । शंकायुक्त शिष्यके संशयको दूर करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिच्छाइद्विप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि ति वंधा । सजोगिकेवलिअद्दाए चरिमसमयं गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १२ ॥

एदं पि सुत्तं देसामासियं, सामित्तमद्धानं बंधविणासङ्काणं च भणिदूणण्णेसिमत्थाणम-
णिहेसादो । तेणिदरोसिं परूत्रणा कीरदे । तं जहा— एदस्स बंधो पुव्वमुदथो पच्छा
वोच्छिज्जदि, सजोगिचरिमसमये वंधे वोच्छिण्णे संते पच्छा अजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदादो ।
सादावेदणीयं मिच्छाइद्विप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि ति सोदएण परोदएण वि वज्जदि,
सादासादोदयाणं परावत्तिंदसणादो, स-परोदएहि बंधविरोहाभावादो च । मिच्छाइद्विप्पहुडि
जाव पमत्तो ति सांतरो बंधो, तत्थ पडिवक्खपयडीए बंधसंभवादो । उवरि णिरंतरो,
पडिवक्खपयडीए वंधाभावादो । जम्हि जम्हि गुणङ्काणे जत्तिया जत्तिया मूलपच्चया णाणा-
समयउत्तरपच्चया एगसमयजहण्णुक्कसपच्चया च बुत्ता ताणि गुणङ्काणाणि तेत्तिएहि
पच्चएहि सादावेदणीयं वंधंति ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली तक सातावेदनीयके बन्धक हैं । सयोगिकेवलिकालके
अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक
हैं ॥ १२ ॥

यह भी सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह स्वामित्व, बन्धाध्वान और बन्धविनाश-
स्थानको कहकर अन्य अर्थोंका निर्देश नहीं करता । इस कारण अन्य अर्थोंकी प्ररूपणा
करते हैं । वह इस प्रकार है— सातावेदनीयका बन्ध पूर्वमें और उदय पश्चात् व्युच्छिन्न
होता है, क्योंकि, सयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें बन्धके व्युच्छिन्न होनेपर पीछे अयोग-
केवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । सातावेदनीय मिथ्यादृष्टिसे लेकर
सयोगिकेवली तक स्वोदयसे और परोदयसे भी बंधता है, क्योंकि, यहां साता और
असाताके उदयमें परिवर्तन देखा जाता है, तथा स्व-परोदयसे बन्ध होनेमें कोई विरोध भी
नहीं है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक सातावेदनीयका बन्ध सान्तर है,
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृति (असाता) का बन्ध सम्भव है । प्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर
निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । जिस जिस गुणस्थानमें
जितने जितने मूल प्रत्यय, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय और एक समय सम्बन्धी जघन्य
व उल्हट्ट प्रत्यय कहे गये हैं, वे गुणस्थान उतने प्रत्ययोंसे सातावेदनीयको बांधते हैं ।

मिच्छाइट्ठी गिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं । अप्पसत्थाए तित्तिक्खगईए सह कथं सादबंधो ? ण, गिरयगई व अच्चंतियअप्पसत्थत्ताभावादो' । एवं सासणो वि । सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी दुगइसंजुत्तं वंधंति गिरय-तिरिक्खगईए विणा । उवरिमा देवगइसंजुत्तं । अपुव्वकरणस्स चरिमसत्तमभागप्पहुडि उवरि अगदिसंजुत्तं वंधंति । मिच्छाइट्ठी-सासणसम्माइट्ठी-सम्मामिच्छाइट्ठी-असंजदसम्माइट्ठीणो चदुगदिया, दुगदिसंजदासंजदा सामिणो, सेसा मणुस-गदीए चेव । बंधद्धानं बंधवोच्छेदद्धानं च सुगमं सुत्तुत्तादो । सव्वेसु गुणद्धानेसु सादा-वेदणीयस्स बंधो सादि-अद्भवो, सादासादाणं परावत्तणसरूवेण वंधादो ।

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-अजसकित्तिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १३ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेत्थ सव्वपुच्छओ कायव्वाओ । अधवा, आसंकि-य-

मिथ्यादृष्टि जीव नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त सातावेदनीयको बांधते हैं ।

शंका—अप्रशस्त तिर्यग्गतिके साथ कैसे सातावेदनीयका बन्ध होना सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि तिर्यग्गति नरकगतिके समान अत्यन्त अप्रशस्त नहीं है ।

इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि भी तीन गतियोंसे संयुक्त सातावेदनीयको बांधते हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नरक और तिर्यग्गतिके विना दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं । उपरिम जीव देवगतिके संयुक्त बांधते हैं । अपूर्वकरणके अन्तिम सप्तम भागसे लेकर ऊपरके जीव अगतिसंयुक्त बांधते हैं । मिथ्यादृष्टि, सासा-दनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि एवं असंयतसम्यग्दृष्टि चारों गतियोंवाले तथा दो गतियों-वाले संयतासंयत स्वामी हैं । शेष जीव मनुष्यगतिके ही स्वामी हैं । बन्धाचान और बन्धव्युच्छेदस्थान सूत्रोक्त होनेसे सुगम हैं । सब गुणस्थानोंमें साता और असाताका परिचर्चित बन्ध होनेसे सातावेदनीयका बन्ध सादि और अधुव है ।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३ ॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसलिये यहां सब प्रश्नोंको करना चाहिये । अथवा

१ अ काप्रलो 'अप्पसत्थामावादो', आपत्तौ 'अप्पसत्थामावेण', मप्रतौ 'अप्पसत्थामावादो' इति पाठः ।

सुत्तमेदमिदि दङ्ग्वं । तण्णिण्णयजणणङ्गसुत्तरसुत्तं भणादि—

**मिच्छादिद्विपहृडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा ॥ १४ ॥**

एदं देसामासियं सुत्तं, पुच्छिदत्थाणमेगदेसं छिविदूण अवङ्गाणादो । तेणेदेण सूहदत्थाणं अत्थपरूपणा कीरेदे । असादावेदणीयस्स पुच्चं बंधो उदओ पच्छा वोच्छिण्णो, पमत्तसंजदम्मि बंधवोच्छेदे संते पच्छा अजोगिचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदादो । एवमरदि-सोगाणं, पमत्त-संजदम्मि बंधे णङ्गे संते अपुच्चचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदादो । अथिर-असुहाणं पि एवं चेव वत्तच्चं, पमत्तम्मि बंधे विणङ्गे सजोगिचरिमसमयम्मि उदयवोच्छेदादो । अजसगितीए पुच्चमुदओ वोच्छिज्जदि पच्छा बंधो, असंजदसम्मादिङ्गिम्मिह उदए णङ्गे पच्छा पमत्तसंजदम्मि बंधवोच्छेदादो ।

असादावेदणीय-अरदि-सोगा सोदय-परोदएहि वञ्जति, उदयस्स धुवत्ताभावादो ।

यह आशंका सूत्र है ऐसा समझना चाहिये । उसके निश्चयोत्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ १४ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि. वह पूछे हुए अर्थोंके एक देशको छूकर अब-स्थित है । इस कारण इसके द्वारा सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा की जाती है । असातावेद-नीयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तगुणस्थानमें बन्धव्युच्छेद होजानेपर पीछे अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । इसी प्रकार अरति और शोकका बन्ध पूर्वमें और उदय पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयतमें बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । अस्थिर और अशुभ प्रकृतियोंका भी इसी प्रकार ही बन्धोदयव्युच्छेद कहना चाहिये. क्योंकि. प्रमत्तसंयतमें बन्धके नष्ट होनेपर सयोगकेवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । अयशकीर्तिका पूर्वमें उदय व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् बन्ध, क्योंकि असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उदयके नष्ट होजानेपर पीछे प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें बन्धका व्युच्छेद होता है ।

असातावेदनीय, अरति और शोक प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं. क्योंकि.

१ अ-आप्रन्यो ' णियजणणङ्ग- इति पाठः ।

एवमजसकित्ती वि, उदयस्र अद्भवत्तणेण भेदाभावादे । णवरि संजदासंजदप्पहुडि उवरि परोदएणेव बंधो, तत्थ जसकित्ति मोत्तूण अवराए उदयाभावादे । अथिर-असुहाण सोदएणेव बंधो, धुवोदयत्तादे । एदासिं छणं पयडीणं मिच्छाइडिप्पहुडि छसु वि गुणट्ठाणेसु सांतरो बंधो । कुदो ? एदासिं पडिवक्खपयडीणमेत्थ बंधवोच्छेदाभावादे । णाणावरणादिसोलसपयडीणं जे पंचचंयां परूविदा एदेसु छसु गुणट्ठाणेसु तेहि चैव पचचएहि एदाओ छप्पयडीओ वज्झंति । असाद-अरदि-सोमे मिच्छाइड्डी चउगइसंजुत्तं, सासणो णिरयगइं मोत्तूण तिगइसंजुत्तं, सम्मा-मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिट्ठिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं, उवरिमा देवगइसंजुत्तं बंधंति । एवं अथिर-असुभ-अजसकित्तीणं, भेदाभावादे । चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छाइडि-असंजदसम्मादिट्ठिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा सामी । पमत्तसंजदा मणुसा चैव । बंधद्वारं बंधवोच्छेदद्वारं च सुगमं । एदाओ छ वि पयडीओ वंधेण सादि-अद्भवाओ ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-वेइंदिय-तीइं-दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीरसंधडण-णिरयगइ-

इनका उदय भ्रुव नहीं है । इसी प्रकार अयशक्रीर्ति भी स्वोदय-परोदयसे बंधती है, क्योंकि, उदयकी अभ्रुवताकी अपेक्षा इसके उक्त तीनों प्रकृतियोंसे कोई भेद नहीं है । विशेष इतना है कि संयतासंयतसे लेकर आगे इसका वन्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, वहां यशक्रीर्तिको छोड़कर अयशक्रीर्तिका उदय नहीं रहता । अस्थिर और अशुभ प्रकृतियोंका वन्ध स्वोदयसे ही होता है, क्योंकि, वे भ्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । इन छहों प्रकृतियोंका मिथ्या-दृष्टि आदि छहों गुणस्थानोंमें सान्तर वन्ध होता है । इसका कारण यह है कि यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धव्युच्छेदका अभाव है । ज्ञानावरणादि सोलह प्रकृतियोंके जो प्रत्यय इन छह गुणस्थानोंमें कहे गये हैं उन्हीं प्रत्ययोंसे ही ये छह प्रकृतियां बंधती हैं । असाता-वेदनीय, अरति और शोक प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियोंसे संयुक्त, सासा-दनसम्यग्दृष्टि नरकगतिको छोड़कर तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि देव-मनुष्य गतियोंसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतितसे संयुक्त वांधते हैं । इसी प्रकार अस्थिर, अशुभ और अयशक्रीर्ति प्रकृतियोंका भी गतिसंयुक्त वन्ध जानना चाहिये, क्योंकि, उनसे इनके कोई भेद नहीं है । चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । दो गतियोंके संयता-संयत स्वामी हैं । प्रमत्तसंयत मनुष्य ही स्वामी होते हैं । वन्धाध्वान और वन्धव्युच्छेद-स्थान सुगम हैं । ये छहों प्रकृतियां वन्धसे सादि एवं अभ्रुव हैं ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकोन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डमंस्थान, असंप्राप्तसृष्टिकासंहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर,

पाओग्गाणुपुब्बि-आदाव-धावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं
को बंधो को अवंधो ? ॥ १५ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेत्थं सव्वपुच्छओ कायव्वाओ । पुच्छिदसिस्सस्स
संसयविणासणइमुत्तरसुत्तं भणदि—

मिच्छाइडी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १६ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्तद्वाणाणं दोणं चैव परूवणादो । तेणेदेणं सूइदत्थाणं
परूवणं कीरदे— मिच्छत्तस्स वंधोदया समं वोच्छिज्जंति, मिच्छाइडिचरिमसमए वंधोदयवोच्छेद-
दंसणादो । एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-आदाव-धावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारण-
सरीराणं मिच्छत्तभंगो, मिच्छाइडिइमिह वंधोदयवोच्छेदं पडि एदासिं मिच्छेतेण सह भेदाभावादो ।
णत्तुंसयवेदस्स पुच्चं वंधवोच्छेदो पच्छा उदयस्स', मिच्छाइडिइमिह वंधे णट्ठे संते पच्छा अणि-
यइमिह उदयवोच्छेदादो । एवं गिरयाउ-गिरयगइपाओग्गाणुपुब्बिणामाणं वत्तव्वं, मिच्छाइडिइमिह

सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कौन बन्धक है और कौन अवन्धक है ?
॥ १५ ॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसलिये यहां पूर्वोक्त सब प्रश्नोंको करना चाहिये-।
पृच्छनेवाले शिष्यका संशय नष्ट करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टि जीव बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं ॥ १६ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि. वह बन्धस्वामित्व और बन्धाध्वान इन दोनोंका
ही प्ररूपण करता है । इस कारण इससे सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं—मिथ्यात्व
प्रकृतिका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके
अन्तिम समयमें इसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय,
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति. आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर
प्रकृतियोंका बन्धोदयव्युच्छेद मिथ्यात्व प्रकृतिके ही समान है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें
होनेवाले बन्धोदयव्युच्छेदके प्रति इनका मिथ्यात्वके साथ कोई भेद नहीं है । ननुसकवेदका
पूर्वमें बन्धव्युच्छेद और पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें
बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है । इसी
प्रकार नारकाय और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका बन्धोदयव्युच्छेद कहना चाहिये,
क्योंकि. मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें

बंधे षट्ठे संते पच्छ असंजदसम्माइड्ढिहि उदयवोच्छेदादो । एवं हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्ट-सरीरसंवडणणं पि वत्तव्वं, मिच्छाइड्ढिहि बंधे फिट्ठे संते पच्छ जहाकमेण सजोगिकेवलि-अप्पमत्तसंजदेसु उदयवोच्छेदादो ।

मिच्छत्तस्स सोदएणेव बंधो । गिरयाउ-गिरयगइ-गिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामाओ परो-दएणेव वज्झंति, सोदएण सगबंधस्स विरोहादो । णवुंसयवेद-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिं-दियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीरसंधडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणि सोदय-परोदएहि वज्झंति, उभयथा वि विरोहाभावादो ।

मिच्छत्तं गिरयाउअं च गिरंतरबंधिणो, धुवबंधित्तादो अट्ठाक्खएण बंधविणासा-भावादो । अवसेससव्वपयडीओ सांतरं वज्झंति, तासिं पडिवक्खपयडिबंधंपमवादो ।

चदुहि मूलपच्चएहि पंचवंचासणाणासमयउत्तरपच्चएहि दस-अट्ठारसएगसमयजहण्णु-क्कस्सपच्चएहि यं मिच्छाइट्ठी एदाओ पयडीओ बंधइ । णवरि वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चएहि विणा एगवंचासपच्चएहि गिरयाउअं बंधइ ति वत्तव्वं । एवं

इनके उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्वपाट्टिकासंहननका भी कहना चाहिये, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे यथा-क्रमसे सयोगकेवली और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें इनके उदयका व्युच्छेद होता है ।

मिथ्यात्वका स्वोदयसे ही बन्ध होता है। नारकायु, नरकगति और नरकगति-प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म परोदयसे ही बंधते हैं, क्योंकि, स्वोदयसे इनके अपने बन्धका विरोध है। नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्वपाट्टिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर स्वोदय-परोदयसे बंधते हैं, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

मिथ्यात्व और नारकायु प्रकृतियां निरन्तर बंधनेवाली हैं, क्योंकि ध्रुवबन्धी होनेसे कालक्षयसे इनके बन्धविनाशका अभाव है। शेष सब प्रकृतियां सान्तर बंधती हैं, क्योंकि, उनकी प्रतिपन्न प्रकृतियोंके बन्धकी सम्भावना है ।

चार मूल प्रत्ययोंसे पचवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश व अठारह एक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे मिथ्यादृष्टि इन प्रकृतियोंको बांधता है। विशेष इतना है कि वैकियिक, वैकियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कर्मण काययोग प्रत्ययोंके विना वह इक्यावन प्रत्ययोंसे नारकायुको बांधता है, ऐसा कहना चाहिये। इसी

[गिरयगइ-] गिरयगइपाओग्गाणुपुच्चिणं । वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-सुहुम-साहारण-अपज्जत्ताणं वेउच्चियदुगेण विणा तेवण्णा पच्चया ।

मिच्छत्तं चउगइसंजुत्तं, णवुंसयवेदं 'देवगईए' विणा तिगइसंजुत्तं, गिरयाउ-गिरय-गइ-गिरयगइपाओग्गाणुपुच्चिणामाओ गिरयगइसंजुत्तं, हुंडसंठाणं देवगइं मोत्तूण तिगइसंजुत्तं, असंपत्तसेवइसरिसंघडण-अपज्जत्तणामाओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, सेसाओ तिरिक्खगइ-संजुत्तं बंधंति ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइसरिसंघडणाणं चउगइमिच्छाइट्ठी सामी । एइंदिय-आदाव-थावरणामाणं बंधस्स गिरयगइं मोत्तूण तिगइमिच्छाइट्ठी सामी । सेसाणं पयडीणं तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइट्ठी सामी । बंधद्दाणं बंधवेच्छेदद्दाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स बंधो सादि-अणादि-धुव-अद्भुवभेएण चउच्चिहो । सेसाणं बंधो सादि-अद्भुवो ।

—

प्रकार [नरकगति और] नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके भी इक्यावन प्रत्यय हैं । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त प्रकृतियोंके वैकियिकद्विकके विना तिरपन प्रत्यय हैं ।

मिथ्यात्वको चार गतियोंसे संयुक्त, नपुंसकवेदके देवगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त; नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मको नरकगतिके संयुक्त; हुण्डसंस्थानको देवगतिके छोड़ तीन गतियोंसे संयुक्त, असंप्राप्तसृष्टिकाशरीरसंहनन और अपर्याप्त नामकर्मको तिर्यग्गति व मनुष्यगतिके संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंको तिर्यग्गतिके संयुक्त बांधते हैं ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृष्टिकाशरीरसंहनन प्रकृतियोंके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर नामकर्मके बन्धके नरकगतिके छोड़ शेष तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके तिर्यग्गति व मनुष्यगतिके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वक. बंध सादि, अनादि, ध्रुव और अद्भुव भेदसे चार प्रकार हैं । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि और अद्भुव होता है ।

१ अपर्तो ' णवुंसयवेद व देवगईए ' इति पाठ ।

२ प्रतिपु ' बंधवेच्छिण्णाण ' इति पाठ ।

अपच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभ-मणुसगइ-ओरा-
लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसंधडण-
मणुसगइपाओगगणुपुव्विणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १७ ॥
सुगमं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ १८ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्तद्धाणाणं' चेव परूवणादो । तेणेदेण सूइदत्थपरूवणा
कीरदे । तं जहा— अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स मणुसगइपाओगगणुपुव्विणामाए बंधोदया
समं वोच्छिज्जंति, एकस्मिह असंजदसम्माइट्टिप्पिहो दोणं विणासुवलंभादो' । मणुसगइए पुव्वं
बंधो पच्छा उदओ वोच्छिणो, असंजदसम्माइट्टिप्पिहो बंधे णडे पच्छा अजोगिचरिमसमयम्मि
उदयवोच्छेदादो । एवमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसंधडणाणं ।
णवरि सजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदो ।

-अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदा-
रिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभवज्रनाराचसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका कौन
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बंधक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव
अबन्धक हैं ॥ १८ ॥

यह देशमार्शक सूत्र है, क्योंकि, वह केवल बन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका ही
निरूपण करता है । इसी कारण इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस
प्रकार है—अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका बन्ध और
उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, एक असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दोनोंके
विनाश पाये जाते हैं । मनुष्यगतिका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है,
क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होनेपर पीछे अयोगकेवलीके अन्तिम
समयमें उदयका व्युच्छेद होता है । इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग
और वज्रर्षभवज्रनाराचसंहननका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है । विशेष
इतना है कि सयोगिके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है ।

१ प्रतिपु 'सामित्तद्धाणिण' इति पाठ ।

२ प्रतिपु 'विणासाथुवलंभादो' इति पाठः ।

३ प्रतिपु 'सम्मादिट्टीहि' इति पाठः ।

अपञ्चकखाणावरणचउक्कादीणं सञ्चेसि सोदय-परोदएहि बंधो, विरोहाभावादो । णवरि सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडीसु मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसहसंधडणाणं परोदओ बंधो । अपञ्चकखाणावरणचउक्कबंधो णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । मणुसगइ-मणुसगइपा-ओग्गाणुपुव्विबंधो मिच्छाइडि-सासणसम्माइडीणं सांतर-णिरंतरो, आणदादिदेवेषु णिरंतरबंधं लद्धण अण्णत्थ सांतरबंधुवलंभादो । सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्माइडीसु णिरंतरो, देव-णेरइय-अप्पिददोगुणेइणेषु अण्णगइ-आणुपुव्वीणं बंधाभावादो । एवमेोरालियसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहसंधडणाणं वत्तवं । कुदो ? ओरालियसरीरस्स सन्वदेव-णेरइएसु तेउ-वाउकाइएसु च णिरंतरं बंधुवलंभादो, अण्णत्थ सांतरबंधदसणादो; ओरालियसरीरअंगोवंगस्स सन्वणेरइएसु सणक्कुमारदिदेवेषु च णिरंतरं बंधं लद्धण ईसाणादिहेडिमदेवाणं मिच्छाइडि-सासणेसु तिरिक्ख-मणुस्सेसु च सांतरबंधुवलंभादो, वज्जरिसहसंधडणस्स देव-णेरइयसम्मा-मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडीसु णिरंतरं बंधं लद्धण अण्णत्थ सांतरबंधुवलंभादो ।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क आदिक सवका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा होनेमें कोई विरोध नहीं है । विशेष यह है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक एवं वज्रर्पभसंहननका परोदय बन्ध होता है ।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध निरन्तर है, क्योंकि, ये चारो प्रकृतियां धुव-बन्धी हैं । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टिके सान्तर-निरन्तर है, क्योंकि, आनतादि देवोंमें निरन्तर बन्धको प्राप्तकर अन्यत्र सान्तर बन्ध पाया जाता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, देवो व नारकियोंके इन विचक्षित दो गुणस्थानोंमें अन्य गति व आनुपूर्वीके बन्धका अभाव है । इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रर्पभसंहननके भी कहना चाहिये । इसका कारण यह कि औदारिकशरीरका सर्व देव नारकी तथा तेजकाथिक व वायुकाथिक जीवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है, अन्यत्र यही बन्ध सान्तर देखा जाता है- औदारिकशरीरांगोपांगका सब नारकियोंमें और सानत्कुमार एवं माहेन्द्र कल्पके देवोंमें भी निरन्तर बन्ध पाकर ईशानादिक अधस्तन देवोंके मिथ्यादृष्टि व सासादन गुणस्थानोंमें तथा तिर्यच और मनुष्योंमें सान्तर बन्ध पाया जाता है; वज्रर्पभसंहननका देव और नारकी सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध पाकर अन्यत्र सान्तर बन्ध पाया जाता है ।

अपचक्षलाणावरणचउक्कं चउगुणङ्गाणजीवा णाणावरणपच्चएहि चेव बंधंति । एवं मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं पि चदुसु गुणङ्गाणेसु पच्चया- परूवेदव्वा । णवरि सम्मामिच्छाइड्डिस्स बादालपच्चया वत्तव्वा, ओरालियकायजोगपच्चयाभावादो । असंजद-सम्माइड्डिस्स चोदालपच्चया, ओरालियकायजोग-ओरालियमिस्सकायजोगपच्चयाणमभावादो । एवमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंधडणणं पि पच्चयपरूवणा मसुसगईए व' कायव्वा ।

अपचक्षलाणचउक्कं मिच्छाइडी चउगइसंजुत्तं, सासणो णिरयगईए विणा तिगइ-संजुत्तं, सेसा दो वि देव-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीओ सव्व-गुणङ्गाणजीवा मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंगगइं मिच्छाइड्डि-सासण-सम्मादिट्ठिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंसुत्तं, सम्मामिच्छाइड्डि असंजदसम्मादिट्ठिणो मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । एवं वज्जरिसहवइरणारायणसंधडणस्स वि वत्तव्वं, भेदाभावादो ।

अपचक्षलाणचउक्कबंधस चउगइमिच्छाइड्डि-सासणसम्मादिड्डि-सम्मामिच्छाइड्डि-असं-जदसम्मादिड्डि सामी । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंग-

अप्रत्याख्यानानावरणचतुष्कको चार गुणस्थानोंके जीव ज्ञानावरणप्रत्ययोंसे ही बांधते हैं । इसी प्रकार मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके भी प्रत्ययोंकी चारों गुणस्थानोंमें प्ररूपणा करना चाहिये । विशेषता यह है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टिके व्यालीस प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि, उसके औदारिककाययोग प्रत्ययका अभाव है । असंयत-सम्यग्दृष्टिके चवालीस प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि, उसके औदारिककाययोग और औदारिकमिश्रकाययोग प्रत्ययोंका अभाव है । इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिक-शरीरांगोपांग और वज्रर्षभसंहननके भी प्रत्ययोंकी प्ररूपणा मनुष्यगति नामकर्मके समान करना चाहिये ।

अप्रत्याख्यानानावरणचतुष्कको मिथ्यादृष्टि चार गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष दोनों गुणस्थानवर्ती जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको सर्व गुणस्थानोंके जीव मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । औदारिकशरीर और औदारिकअंगोपांगको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति एवं मनुष्यगति संयुक्त बांधते हैं; सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । इसी प्रकार वज्रर्षभवज्रनाराच-संहननका भी गतिसंयोग कहना चाहिये, क्योंकि, उक्त प्रकृतियोंसे इसके कोई भेद नहीं है ।

अप्रत्याख्यानानावरणचतुष्कके बन्धके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकअंगोपांग और वज्रर्षभवज्रनाराचसंहनन प्रकृतियोंके चारों

वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणणं चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडी सामी । दुगइसम्मा-
मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडी सामी । वंधद्धानं वंधणइपदेसो वि सुगमो ।

अपञ्चक्खाणचउक्कबंधो मिच्छाइडिम्हि चउव्विहो, धुवबंधितादो । सेसेसु गुणट्ठाणेसु
तिविहो, धुवत्ताभावादो । मणुसगइ-ओरालियसरीर ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारा-
यणसंघडण-मणुसगइपाओगाणुपुव्विणामाणं बंधो सव्वगुणट्ठाणेसु सादि-अद्दुवो, पडिवक्ख-
पयडिबंधसंभवादो । ओरालियसरीरस्त णिच्चणिगोदेसु सव्वकालं वेउव्विय-आहारसरीरबंध-
विरहिदेसु धुवबंधो । अणादियबंधो च किण्ण लब्भदे ? ण, पडिवक्खपयडिबंधसत्तिसंभावं
पडुच्च अणादि-धुवभावापरूवणादो', चउगइणिगोदे मोत्तूण णिच्चणिगोदेहि एत्थ अहियारा-
भावादो वा । बंधवत्तिं पडुच्च पुण बंधस्त अणादियधुवत्तं ण विरुज्ज्जेदो ।

गतियोंके मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । दो गतियोंके सम्यग्मिथ्यादृष्टि और
असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धनप्रदेश अर्थात् जिस स्थान तक बन्ध
होता है तथा जहां बन्धकी व्युच्छित्ति होती है वह जानना भी सुगम है ।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका है, क्योंकि,
ये चारों प्रकृतियां ध्रुवबन्धी हैं । शेष गुणस्थानोंमें इनका बन्ध तीन प्रकारका है, क्योंकि,
वहां ध्रुव बन्ध नहीं होता । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभ-
वज्रनाराचसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यालुपूर्वी नामकर्मका बन्ध सब गुणस्थानोंमें सादि
व अध्रुव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है । सर्वकाल वैक्रियिक
और आहारक शरीरोंके बन्धसे रहित नित्यनिगोदी जीवोंमें औदारिकशरीरका ध्रुव बन्ध
होता है ।

शंका—नित्यनिगोदी जीवोंमें औदारिकशरीरका अनादि बन्ध भी क्यों नहीं
पाया जाता ?

समाधान—नहीं पाया जाता, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी बन्धशक्तिके सद्-
भावकी अपेक्षा करके अनादि रूपसे ध्रुव बन्धका प्ररूपण नहीं किया गया । अथवा
चतुर्गतिनिगोदोंको अर्थात् चारों गतियोंमें होकर पुनः निगोदमें आये हुए जीवोंको छोड़कर
नित्यनिगोदोंका यहां अधिकार नहीं है । परन्तु बन्धकी अभिव्यक्तिकी अपेक्षा करके बन्धके
अनादि और ध्रुव होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

१ प्रतिपु ' भावपरूवणादो ' इति पाठ ।

पञ्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ १९ ॥

सुगमेदं सुत्तं ।

मिच्छाद्विद्विपहुडि जाव संजदासंजदा बंधा ॥ २० ॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्तद्वाणाणमेव परूवणादो । तेणेत्थ अनुत्तत्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहा— एदासिं पयडीणं बंधोदया समं वोच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि बंधस्सेव उदयवोच्छेददंसणादो । एदासिं चउण्णं पि बंधो सोदय-परोदएहि, कोधादीणं बंधकाले तस्सेव उदए वि होदव्वमिदि णियमाभावादो । एदासिं चडुण्णं पि णिरंतरो बंधो, सत्तेतालीसधुव-बंधपयडीसु पादादो । मिच्छाद्विद्विआदिपंचगुणद्वाणेसु जे पञ्चया परूविदा मूलुत्तरभेएण तेहि पञ्चएहि एदाओ वज्झंति ति तेसु तेसु गुणद्वाणेसु ते ते चेव पञ्चया वत्तन्वा, बंधस्स पञ्चयसमूहकज्जत्तादो । अथवा, एदासिं पयडीणं बंधस्स पञ्चक्खाणपयडीए^१ उदयसामण्ण.

प्रत्याख्यानानवरणीय क्रोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं ॥ २० ॥

यह देशामर्शक सूत्र है. क्योंकि, वह बन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका ही निरूपण करता है । इस कारण यहां अनुक्त अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—इन चारों प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें बन्धके समान इनके उदयका भी व्युच्छेद देखा जाता है । इन चारों ही प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदयसे होता है, क्योंकि, क्रोधादिकोंके बन्धकालमें उसका ही उदय भी होना चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है । इन चारोंका ही निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये चारों प्रकृतियां सैतालीस ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंमें आती हैं ।

मिथ्यादृष्टि आदि पांच गुणस्थानोंमें जो मूल व उत्तर प्रत्यय कहे गये हैं उन प्रत्ययोंसे ये प्रकृतियां बंधती हैं. अत एव उन उन गुण-स्थानोंमें उन्हीं उन्हीं प्रत्ययोंको कहना चाहिये, क्योंकि, बन्ध प्रत्ययसमूहका कार्य है । अथवा, इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय प्रत्याख्यान प्रकृतिका उदयसामान्य है ।

१ प्रतिषु 'अनुत्तद्वाण' इति पाठ ।

२ प्रतिषु 'पञ्चयाण पयडीए' इति पाठ ।

पञ्चओ । सेसकसायाणमुदओ जोगो च पञ्चओ ण होदि, एत्तो उवरि तेसु संतेसु वि एदासिं वंधाभावादो । ण मिच्छताणंताणुबंधि-अपञ्चवख्णाणावरणाणमुदओ वि एदासिं वंधस्स पञ्चओ, तेण विणा वि वंधुवलंभादो । जस्सण्णय-वदिरेगेहि जस्सण्णयवदिरेगा हेंति [तं] तस्स कज्जमियं च कारणं । ण चेदं पञ्चवख्णाणोदयं मुच्चा अण्णत्थत्थि' तम्हा पञ्चवख्णाणोदओ चेव पञ्चओ ति सिद्धं । मिच्छाइडिडिह णडुबंधसोलसपयडीणं वंधस्स मिच्छतोदओ चेव पञ्चओ, तेण विणा तासिं वंधाणुवलंभादो । सासणम्मि णडुबंधपणुवीसपयडीणं अणताणुबंधीणमुदओ चेव पञ्चओ, तेण विणा तासिं वंधाणुवलंभादो । असंजदसम्मादिडिडिह णडुबंधणवपयडीणं वंधस्स अपञ्चवख्णाणोदओ कारणं, तेण विणा तासिं वंधाणुवलंभादो । पमत्तसंजदम्मि णडुबंध-छण्यडीणं वंधस्स पसादो पञ्चओ, तेण विणा तदणुवलंभादो । एवमण्णत्थ वि जाणिय वत्तव्वं ।

एदओ पयडीओ मिच्छाइडि चउगइसंजुत्तं, मामणो णिरयगईए' विणा तिगइसंजुत्तं,

शेष कपायोंका उदय और योग प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, पांचवे गुणस्थानके ऊपर उनके रहनेपर भी इनका बन्ध नहीं होता। मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण प्रकृतियोंका उदय भी इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, उनके उदयके बिना भी इनका बन्ध पाया जाता है। जिसके अन्वय और व्यतिरेकके साथ जिसका अन्वय और व्यतिरेक होता है वह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है। और यह बात प्रत्याख्यानावरणके उदयको छोड़कर अन्यत्र है नहीं। इसलिये प्रत्याख्यानावरणका उदय ही अपने बन्धका प्रत्यय है, यह बात सिद्ध हुई। मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें व्युच्छिन्न सोलह प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय मिथ्यात्वका उदय ही है, क्योंकि, उसके बिना उन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध पाया नहीं जाता। सासादनगुणस्थानमें व्युच्छिन्न पञ्चास प्रकृतियोंके बन्धका अनन्तानुबन्धितुष्कका उदय ही प्रत्यय है, क्योंकि, उसके बिना इन पञ्चास प्रकृतियोंका बन्ध पाया नहीं जाता। असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें व्युच्छिन्न नौ प्रकृतियोंके बन्धका अप्रत्याख्यानावरणका उदय कारण है, क्योंकि, उसके बिना उनका बन्ध पाया नहीं जाता। प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें व्युच्छिन्न छह प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय प्रमाद है, क्योंकि, उसके बिना उनका बन्ध पाया नहीं जाता। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानकर कहना चाहिये।

इन प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि चारों गनियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि नरक-

सम्भामिच्छाइद्दी असंजदसम्मादिद्दी देवगइ-मणुसगइसंजुत्तं, संजदासंजदा देवगइसंजुत्तं' बंधंति । एदासिं चउगइमिच्छाइद्दि-सासणसम्मादिद्दि-सम्भामिच्छाइद्दि-असंजदसम्मादिद्दिणो बंधस्स सामी । संजदासंजदा दुगइया सामी । बंधद्धानं बंधविणइद्धानं च सुगमं । एदासिं बंधो मिच्छाइदिन्दि चउव्विहो, सत्तेदालीसधुवबंधपयडीसु पादादो । उवरिमेसु गुणइणेषु तिविहो, दुविहाभावादो ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइद्दिपहुडि जाव अणियद्दिबादरसांपराइयपइद्दुववसमा खवा बंधा । अणियद्दिबादरद्दाए सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वोन्धिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २२ ॥

‘ मिच्छादिद्दिपहुडि उवसमा खवा बंधा ’ एदेण सुत्तावयेण गुणइणणयैबंध-

गतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवगति एवं मनुष्यगतिके संयुक्त, तथा संयतासंयत देवगतिके संयुक्त बांधते है । चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि इन प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी हैं । दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान स्थान सुगम हैं । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें इनका चारों प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, ये सैतालीस ध्रुवबन्धप्रकृतियोंमें आती है । उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, वहां दो प्रकारके बन्धका अभाव है ।

पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक ? ॥ २१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणबादरसाम्प्रायिकप्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिबादरकालके शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ २२ ॥

‘ मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक और क्षपक बन्धक हैं ’ इस

...

१ अप्रती ‘ देव ’ अप्रती ‘ देवगइ ’ अप्रती ‘ देवगइ ’ इति पाठ ।

२ प्रतिष्ठा ‘ -गइय- ’ इति पाठ ।

सामित्तं बंधद्वानं च परुविदं । 'अणियद्विवादरद्धाए सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि' त्ति एदेण बंधविणद्वद्वानं परुविदं । तं जहा— सेसे अंतरकरणे कदे जा सेसा अणियद्विअद्धा तम्मि सेसे संखेज्जखंडे कदे तत्थ बहुखंडाणि गंतूणेगखंडावसेसे पुरिसवेद-क्रोधसंजलणां बंधो वोच्छिणो त्ति उतं होदि । एदे तिणिण चैव अत्था एदेण परुविदा त्ति देसामासिय-सुत्तमेदं । तेणेदस्सियरत्थायां परह्वणा कीरदे—

पुरिसवेद-क्रोधसंजलणां बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, पुरिसवेद-क्रोधसंजलणां उदए संतक्खएणुवसमेण वा णडे बंधाणुवलंभादो । संसारावत्थाए सोदएण विणा वि बंधो उवलंभादि त्ति ण सोदयाविणाभावी एदासिं बंधो त्ति वुत्ते होटु तथा तत्थ, इच्छिज्जमाणत्तादो । एत्थ णुण पडिवक्खएणुवसमेण विणा बंधविणद्वद्वाने चैव उदयविणासादो एगाम्हि काले दोणं विणासो ण विरुद्धे त्ति । एदासिं दोणं पयडीणं सोदयपरोदएहि बंधो, सोदएण विणा वि बंधोवलंभादो । क्रोधसंजलणस्म बंधो गिरंतरो, सत्तेत्तालीसधुवबंधपयडीणं मज्जे

सूत्रावयवसे गुणस्थानगत बन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका निरूपण किया है । 'अनिवृत्ति वादरकालके शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है' इससे बन्धव्युच्छेद-स्थानका निरूपण किया है । वह इस प्रकार है— शेष अर्थात् अन्तरकरण करनेपर जो अवशेष अनिवृत्तिकाल रहता है उस शेष कालके संख्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुत खण्ड जाकर एक खण्ड अवशिष्ट रहनेपर पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधका बन्ध व्युच्छिन्न होता है, यह उसका अभिप्राय है । ये तीन ही अर्थ इस सूत्र द्वारा कहे गये हैं, अत एव यह देशामर्शक सूत्र है । इसी कारण इसके अन्य अर्थोंकी प्ररूपणा की जाती है—

पुरुषवेद और संज्वलनक्रोध इनके बन्ध व उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधके उदयके सत्वक्षयसे या उपशमसे नष्ट होनेपर उन दोनोंका बन्ध नहीं पाया जाता ।

शंका—संसारावस्थामें स्वोदयके विना भी बन्ध पाया जाता है, अत एव इनका बन्ध स्वोदयका अविनाभावी नहीं है ?

समाधान—ऐसी शंका करनेपर उत्तर देते हैं कि संसारावस्थामें वैसा भले ही हो, क्योंकि, वहां ऐसा इष्ट है । परन्तु यहांपर प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके विना बन्ध-व्युच्छेदस्थानमें ही उदयका व्युच्छेद होनेसे एक कालमें दोनोंका व्युच्छेद विरुद्ध नहीं है ।

इन दोनों प्रकृतियोंका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयके विना भी इनका बन्ध पाया जाता है । संज्वलनक्रोधका बन्ध निरन्तर है, क्योंकि, वह सैतालीस

पादादो । पुरिसवेदबंधो सांतरो । कुदो ? मिच्छाइडि-सासणेसु पडिवक्खपयडीणं बंधु-
वलंभादो । गिरंतरो वि, पम्म-सुकलेस्सियतिरिक्ख-मणुसमिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु सम्मा-
मिच्छाइडिआदिउवरिमगुणट्टाणेसु च गिरंतरबंधुवलंभादो ।

एदासिं पच्चयपरूवणे कीरमाणे पुध पुध जे पच्चया मूलुत्तरणाणेगसमयभेयभिण्णा
गुणट्टाणाणं परूविदा ताणि गुणट्टाणाणि तेहि पच्चएहि एदाओ पयडीओ बंधंति ति पुध-
परूवणा णत्थि, भेदाणुवलंभादो । अधवा पुरिसवेदो गयपच्चओ, अवगदवेदेषु तब्बंधाणु-
वलंभादो । कोधसंजलणो संजलणकसायस्स तिव्वाणुभागोदयपच्चओ, उवसमसेडिभिह् कोध-
चरिमाणुभागोदयादो अणंतगुणहीणेण वूणाणुभागोदएण कोधसंजलणस्स बंधाणुवलंभादो ।
मिच्छाइड्डी सासणो च गिरयगईए विणा पुरिसवेदं तिगइसंजुत्तं बंधइ । गिरयगईए सह
पुरिसवेदो किण्ण बज्झदे ? ण, अबंताभावेण पडिसिद्धतादो । सम्मामिच्छाइड्डी असंजद-
सम्मादिड्डी च दुगइसंजुत्तं, तेसिं गिरय तिरिक्खगईणं बंधाभावादो । संजदासंजदप्पहुडि उवरिमा

ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंके मध्यमें आया है । पुरुषवेदका बन्ध सान्तर है । इसका कारण यह कि
मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । वहीं बन्ध
निरन्तर भी है, क्योंकि, पद्म एवं शुक्ल लेश्यावाले निर्येच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि और
सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि उपरिम गुणस्थानोंमें भी निरन्तर
बन्ध पाया जाता है ।

इन दोनों प्रकृतियोंके प्रत्ययोंका प्ररूपण करनेपर मूल, उत्तर तथा नाना व एक
समय सम्बन्धी प्रत्ययोंके भेदसे भिन्न पृथक् पृथक् जो प्रत्यय जिन गुणस्थानोंके कहे गये हैं वे
गुणस्थान उन प्रत्ययोंसे इन प्रकृतियोंको बांधते हैं, अतः इनकी पृथक् प्रत्ययप्ररूपणा नहीं है,
क्योंकि, उनसे यहां कोई भेद नहीं पाया जाता । अथवा पुरुषवेद गतप्रत्यय है, अर्थात्
उंसका प्रत्यय ऊपर बता ही चुके हैं, क्योंकि, अपगतवेदियोंमें उसका बन्ध नहीं पाया
जाता । संज्वलनक्रोधका बन्ध संज्वलनकपायके तीव्र अनुभागोदयनिमित्तक है, क्योंकि,
उपशमश्रेणीमें क्रोधके अन्तिम अनुभागोदयसे अथवा अनन्तगुणहानिसे हीन अनुभागोदयसे
संज्वलनक्रोधका बन्ध नहीं पाया जाता ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना पुरुषवेदको तीन गतियोंसे
संयुक्त बांधते हैं ।

शंका—नरकगतिके साथ पुरुषवेद क्यों नहीं बंधता ?

समाधान—नहीं बांधता, क्योंकि, वह अत्यन्ताभाव रूपसे प्रतिषिद्ध है ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि,
उनके नरकगति और तिर्यग्गतिके बन्धका अभाव है । संयतासंयतसे लेकर उपरिम जीव

देवगइसंजुत्तं, सेसगईणं तत्थ वंधाभावादो । अपुव्वकरणसत्तमसत्तभागप्पहुडि उवरिमा अगदिसंजुत्तं वंधंति, तत्थ गइकम्मस्स वंधाभावो । एवं कोधसंजलणस्स वि वत्तव्वं । णवरि मिच्छाइड्डी चउगइसंजुत्तं वंधइ, तत्थ णिरयगईए सह वंधविरोहाभावो । पुरिसवेदबंधस्स चउगइमिच्छाइड्डी-सासणसम्माइड्डी-सम्माभिच्छाइड्डी-असंजदमम्मादिड्ढिणो सामी । दुगइसंजदा-संजदा सामी, देव-णिरयगईसु तदभावो । उवरिमा मणुसगईए सामी, अण्णत्थ पमत्तादीण-मभावो । पुरिसवेदबंधो सव्वगुणङ्काणेषु सादिगो अद्धुवो, पडिक्खलपयडीणं वंधुवलंभावो । णियसेण सम्माभिच्छाइड्ढिप्पहुडि उवरिसेसु वंधविणात्तदमणादो । कोधसंजलणस्स मिच्छाइड्ढिहि चउव्विहो वंधो, धुववंधितादो । उवरिसेसु ति विहो, धुवत्ताभावो ।

माण-मायसंजलणां को वंधो को अवंधो ? ॥ २३ ॥

सुगमभेदं ।

देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, वहां शेष गतियोंका बन्ध नहीं होता । अपूर्वकरणके सातवें सप्तम भागसे लेकर उपरिम जीव अगतिसंयुक्त पुरुषवेदके बांधते हैं, क्योंकि, वहां गतिकर्मका बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार संज्वलनक्रोधके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि उसे चार गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, वहां नरकगतिके साथ उसके बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

पुरुषवेदके बन्धके चारों गतियोंवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । दो गतियोंवाले संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नरक गतिमें संयतासंयतोका अभाव है । ऊपरके जीव मनुष्यगतिके ही स्वामी हैं, क्योंकि, दूसरी गतियोंमें प्रमत्तसंयतादिकोंका अभाव है । पुरुषवेदका बन्ध सब गुणस्थानोंमें सादिक व अधुव है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है, नियमसे सम्यग्मिथ्यादृष्टिसे लेकर उपरिम गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध विनाग देखा जाता है । संज्वलनक्रोधका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह धुवबन्धी है । उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव बन्धका अभाव है ।

संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिच्छाद्द्विप्पहुडि जाव अणियट्टिवादरसांपराइयपविट्टुवसमा खवा बंधा । अणियट्टिवादरद्वाए सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ! एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २४ ॥

‘मिच्छाद्द्विप्पहुडि जाव अणियट्टिवादरसांपराइयपविट्टुवसमा खवा बंधा’ एदेण सुत्तावयवेण बंधद्वाणं गइगएण विणा गुणद्वाणगयबंधसामित्तं च वुत्तं । ‘अणियट्टिवादरद्वाए सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि’ एदेण सुत्तावयवेण बंधविणद्वाणं परूविदं । कोधसंजलणे विण्हे जो अवसेसा अणियट्टिअद्वाए संखेज्जदिभागो तम्हि संखेज्जे खंडे कदे तत्थ बहुभागे गंतूण एयभागावसेसे माणसंजलणस्स बंधवोच्छेदो । पुणो तम्हि एगखंडे संखेज्जखंडे कदे तत्थ बहुखंडे गंतूण एगखंडावसेसे मायासंजलणबंधवोच्छेदो ति । कधमेदं णव्वेद ? ‘सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूणेत्ति’ विच्छाणिद्देसादो । कसायपाहुडसुत्तेणेदं सुत्तं विरुज्जदि ति वुत्ते सच्चं विरुज्जइ, किंतु एयंतग्गहो एत्थ ण कायव्वो, इदमेव तं चेव

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणवादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिवादरकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ २४ ॥

‘मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणवादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं’ इस सूत्रावयवसे बन्धाध्वान और गतिगत बन्धस्वामित्वके विना गुणस्थानगत बन्धस्वामित्व भी कहा गया है । ‘अनिवृत्तिवादरकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है’ इस सूत्रावयव द्वारा बन्धविनष्टस्थानकी प्ररूपणा की गई है । संज्वलनक्रोधके विनष्ट होनेपर जो शेष अनिवृत्तिवादरकालका संख्यातवां भाग रहता है उसके संख्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुभागोंको वितारकर एक भाग शेष रहनेपर संज्वलनमानका बन्धव्युच्छेद होता है । पुनः एक खण्डके संख्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुत खण्डोंको वितारकर एक खण्ड शेष रहनेपर संज्वलनमायाका बन्धव्युच्छेद होता है ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—‘शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर’ इस वीप्सा अर्थात् दो बार निर्देशसे उक्त प्रकार दोनों प्रकृतियोंका व्युच्छेदकाल जाना जाता है ।

शंका—कपायप्राभृतके सूत्रसे तो यह सूत्र विरोधको प्राप्त होगा ?

समाधान—ऐसी आशंका होनेपर कहते हैं कि सचमुचमें कपायप्राभृतके सूत्रसे यह सूत्र विरुद्ध है, परन्तु यहां एकान्तग्रह नहीं करना चाहिये, क्योंकि, ‘यही सत्य है’

सच्चमिदि सुदकेवलीहि पच्चक्खणाणीहि वा विणा अवहारिज्जमाणे मिच्छत्तप्पसंगादो । कधं सुत्ताणं विरोहो ? ण, सुत्तोवसंहारणंमसयलसुदधारयाइरियपरतंताणं विरोहसंभवदंसणादो । उपसंहारणं कधं पुण सुत्तं जुज्जेदे ? ण, अमियसायरजलस्स अलिजर-घट-घडी-सराबुदंचण-गयस्स वि अमियत्तुवलंभादो ।

संपहि एदेण सूइदत्थाणं^१ परूवणा कीरदे । तं जहा— एदासिं दोण्णं पयडीणं वंधोदया अक्कमेण वोच्छिज्जंति, उदए विणेडे वंधाणुवलंभादो । ण च उदयद्वाक्खएण उदयस्स विणासो एत्थ विवक्खिओ, संतोवसम-खएहि समुप्पणुदयाभावेण अहियारादो । एदासिं सोदय-परोदएहि वंधो, गिरंतरवंधीणं सांतरुदयाणं सोदएणेव वंधविरोहादो । गिरंतर-वंधीओ, धुववंधीहि सह पांदादो । मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जे पच्चया मूलुत्तरणाणेगसमयभेयभिण्णा पुवं परूविदा तग्गुणविसिद्धिजीवा तेहि चैव पच्चएहि एदाओ पयडीओ वंधंति, पच्चयंतरा-

या 'वही सत्य है' ऐसा श्रुतकेवलियों अथवा प्रत्यक्षज्ञानियोंके विना निश्चय करनेपर मिथ्यात्वका प्रसंग होगा ।

शंका—सूत्रोंके विरोध कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, अल्प श्रुतके धारक आचार्योंके परतंत्र सूत्र व उपसंहारोंके विरोधकी सम्भावना देखी जाती है ।

शंका—उपसंहारोंके सूत्रपना कैसे उचित है ?

समाधान—यह भी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, अलिजर (घटविशेष). घट, घटी, शराव व उदंचन आदिमे स्थित भी अमृतसागरके जलमें अमृतत्व पाया ही जाता है ।

अब इस सूत्रके द्वारा सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— इन दोनों प्रकृतियोंका वन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, इनके उदयके नष्ट होनेपर फिर वन्ध नहीं पाया जाता । और यहां उदयकालके क्षयसे होनेवाला उदयका विनाश विवक्षित नहीं है, क्योंकि, सत्त्वोपशम या सत्त्वक्षयसे उत्पन्न उदयाभावका अधिकार है । इन दोनों प्रकृतियोंका स्वोदय-परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, निरन्तरवन्धी और सान्तर उदयवाली प्रकृतियोंके स्वोदयसे ही वन्ध होनेका विरोध है । ये निरन्तरवन्धी प्रकृतियां हैं, क्योंकि, वे ध्रुववन्धी प्रकृतियोंके साथ आती हैं । मिथ्यादृष्टिसे लेकर मूल. उत्तर व नाना एवं एक समय सम्बन्धी भेदोंसे भिन्न जो प्रत्यय पूर्वमे कहे जा चुके हैं, उन गुण-स्थानोंसे विशिष्ट जीव उन्हीं प्रत्ययोंसे इन प्रकृतियोंको बांधते हैं, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंका

१ कप्रती 'सुतोवसवाराणा- , आ-काप्रलो. 'सुतोवसहाराणा- इति पाठ ।

२ ज-आप्तयो 'महद्व्याणं', काप्रती 'सहिद्व्याणं' इति पाठ ।

भावादो । अधवा, एदासिं संजलणोदयविसेसो चैव पच्चओ, तेण विणा वंधाणुवलंभादो ।

मिच्छादिट्ठी चउगइसंजुत्तं, तस्स सच्चवगइबंधेहि विरोहाभावादो । सासणो तिगइसंजुत्तं, तस्स गिरयगइबंधेण सह विरोहादो । सग्गामिच्छादिट्ठी असंजदसम्मादिट्ठी च दुगइसंजुत्तं बंधंति, तेसिं गिरय-तिरिक्खगइहि सह विरोहादो । उवरिमा देवगइ-अगइसंजुत्तं वा वंधंति, तेसिं सेसगइहि सह विरोहादो । मिच्छादिट्ठी सासणसम्मादिट्ठी सम्मामिच्छादिट्ठी असंजदसम्मादिट्ठी चउगइया, दुगइसंजदासंजदा, सेसा मणुस्सगइया सामी । वंधद्धाणं वंधवोच्छिण्णट्ठाणं च सुतुद्धिड्ढिमिदि सुगमं । मिच्छादिट्ठिस्स चउच्चिहो वंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं तिविहो, धुवत्ताभावादो ।

लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २५ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठिवादरसांपराइयपविट्ठुवसमा खवा बंधा । अणियट्ठिवादरद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २६ ॥

अभाव है । अथवा, इन प्रकृतियोंका संज्वलनका उदयविशेष ही प्रत्यय है, क्योंकि, उसके विना इनका बन्ध पाया नहीं जाता ।

मिथ्यादृष्टि इन्हें चार गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, उसके सब गतियोंके बन्धके साथ कोई विरोध नहीं है । सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, उसके नरकगतिवन्धके साथ विरोध है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके नरक व तिर्यग्गतिके साथ बन्ध होनेमें विरोध है । उपरिम जीव देवगतिले संयुक्त या गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं, क्योंकि उनके शेष गतियोंके साथ बन्ध होनेमें विरोध है । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि चारों गतियोंवाले, दो गतियोंवाले संयतासंयत, और शेष गुणस्थानवर्ती जीव मनुष्यगतिके स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छित्तिस्थान न्यूनिके सूत्रप्रतिपादित है अतः सुगम हैं । मिथ्यादृष्टिके इनका चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं । शेष जीवोंके ध्रुवबन्धका अभाव होनेसे तीन प्रकारका ही बन्ध होता है ।

संज्वलनलोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिवादरकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ २६ ॥

‘मिच्छाइट्टिप्पहुडि०’ एदेण सुत्तावयवेण बंधद्धाणं गुणट्टाणगयसामित्तं च परूविदं ।
 ‘अणियट्टिवादर०’ एदेण बंधविणट्टाणपरूवणा कदा । एदेसिं तिण्णं चेवत्थाणं परूवणा
 कदा त्ति देसामासियसुत्तमेदं । तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरिदे । तं जहा—

बंधो पुत्रं वोच्छिज्जदि पच्छ उदओ, अणियट्टिचरिमसमए बंधे वोच्छिण्णे सुहुम-
 सांपराइयचरिमसमए उदयवोच्छेदुवलंभादो । लोमसंजलणस्स सोदय-परोदएहि बंधो, धुवो-
 दयत्ताभावादो । गिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो । पच्चयपरूवणाए माणसंजलणभंगो । गइसंजुत्त-
 सामित्तद्वाण-बंधवोच्छिण्णट्टाणपरूवणाओ सुगमाओ । मिच्छाइट्टिस्स चउच्चिहो बंधो, धुव-
 बंधित्तादो । सेसाणं तिविहो बंधो, धुवत्ताभावादो ।

हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २७ ॥

सुगमं ।

‘मिथ्याहृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादरसांपरायिकप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक
 बन्धक है’ इस सूत्रांश द्वारा बन्धाध्वान और गुणस्थानगत बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा
 की गई है । ‘अनिवृत्तिवादरकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है’
 इस सूत्रांश द्वारा बन्धव्युच्छित्तिस्थानका निरूपण किया गया है । चूंकि सूत्र द्वारा इन्हीं
 तीन अर्थोंकी प्ररूपणा की गई है, अतएव यह देशामर्शक सूत्र है । इस कारण इसके द्वारा
 सूचित अर्थोंका निरूपण करते हैं । वह इस प्रकार है—

संज्वलनलोभका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय, क्योंकि, अनिवृत्ति-
 करणके अन्तिम समयमें बन्धके व्युच्छिन्न होजानेपर सूक्ष्मसांपरायिकके अन्तिम समयमें
 उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । संज्वलनलोभका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है,
 क्योंकि, उसके ध्रुवोदयत्वका अभाव है । बन्ध उसका निरन्तर है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी
 है । प्रत्यर्थोंकी प्ररूपणा संज्वलनमानके समान है । -गतिसंयुक्ता. स्वामित्व, अध्वान और
 बन्धव्युच्छित्तिस्थानकी प्ररूपणायें सुगम हैं । मिथ्याहृष्टिके चारों प्रकारका बन्ध होता है,
 क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी प्रकृति है । शेष जीवोंके तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि,
 उनके ध्रुवबन्धका अभाव है ।

हास्य, रति, भय और जुगुप्सा प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक
 है ? ॥ २७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्टुउवसमा खवा बंधा ।
अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा,
अवसेसा अवंधा ॥ २८ ॥

एदेण बंधद्वाणं गुणगयबंधसामित्तं बंधविणइट्टाणं च परूविदं । तेणेदं देसामासियं
दट्टव्वमण्णहा सेसत्थाणमेत्थ संभवाभावादो । तेणेदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे— हस्स-रदि-
भय-दुगुंछाणं बंधोदया समं वोच्छिज्जन्ति, अपुव्वकरणचरिमसमए चट्टुणं वोच्छेदुवलंभादो ।
सोदय-परोदएहि बंधो, धुवोदयत्ताभावादो परोदए वि बंधविरोहाभावादो । भय-दुगुंछाणं
सव्वगुणट्टणेसु णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो । हस्स-रदीण मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो
त्ति सांतरो बंधो, एत्थ पडिवक्खपयडिबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधा-
भावादो । पन्चयपरूवणाए णाणावरणमंगो । मिच्छाइट्टी चउगइसंजुत्तं, एदासिं बंधस्स
चउगइबंधेण सह विरोहाभावादो । णवरि हस्स-रदीओ तिगइसंजुत्तं बंधइ, तव्वंधस्स

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक हैं । अपूर्व-
करणकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव
अबन्धक हैं ॥ २८ ॥

इस सूत्रके द्वारा बन्धाध्वान, गुणस्थानगत बन्धस्वामित्व और बन्धव्युच्छित्तिस्थानकी
प्ररूपणा की है, इसीलिये इसे देशामर्शक सूत्र समझना चाहिये, अन्यथा यहाँ शेष
अर्थोंकी सम्भावना नहीं है । अतएव इसके द्वारा सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं— हास्य,
रति, भय और जुगुप्सा इनका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, अपूर्व-
करणके अन्तिम समयमें उक्त चारों प्रकृतियोंके बन्ध और उदय दोनोंकी व्युच्छित्ति पायी
जाती है । इनका बन्ध स्वोदय-परोदयसे होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां नहीं हैं अतः
इनके परोदयसे भी बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है । भय और जुगुप्साका सब गुणस्थानोंमें
निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । हास्य और रतिको मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त-
संयत तक सान्तर बन्ध है, क्योंकि, यहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है ।
प्रमत्तसंयतसे ऊपर निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव
है । प्रत्यर्थोंकी प्ररूपणा ज्ञानावरणके समान है ।

मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिके इनके बन्धका
चारों गतियोंके बन्धके साथ कोई विरोध नहीं है । विशेष इतना है कि हास्य और रतिको
तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, इनके बन्धका नरकगतिके बन्धके साथ विरोध

णिरयगइवधेण सह विरोहादो । सासणो तिगइसंजुत्तं, तत्थ णिरयगईए वंधाभावादो । सम्मा-
मिच्छाइड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिणो दुगइसंजुत्तं, एदेसिं णिरय-तिरिक्खगईणं वंधाभावादो । उव-
रिमा देवगइसंजुत्तं वंधंति, तेसु अण्णगईणं वंधाभावादो । णवरि अपुव्वकरणद्दाए चरिमे सत्तमे भागे
वट्ठमाणा अगइसंजुत्तं वंधंति ति वत्तव्वं । चउगइमिच्छाइड्ढि-सासणसम्माइड्ढि-सम्मामिच्छाइड्ढि-
असंजदसम्मादिड्ढिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा, देव-णेरइएसु अणुव्वईणमभावादो । उवरिमा
मणुस्सा चेव होदूण एदासिं वंधस्स सामी, अण्णत्थ पमत्तादीणमभावादो । वंधद्धानं वंध-
विणद्धानं च सुगमं । भय-दुगुंछाणं मिच्छाइड्ढि चउव्विहो वंधो, धुववंधितादो । उवरिमेसु
तिविहो वंधो, धुवत्ताभावादो । हस्स-रदीणं वंधो सादि-अद्धो, पडिवक्खपयडिंघुवल्भंभादो ।

मणुस्साउअस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ २९ ॥

एदं देसामासियं पुच्छसुत्तं । तेण को वंधओ को अवंधओ, किमेदस्स वंधो पुवं
वोच्छिज्जदि किमुदओ किं दो वि समं वोच्छिज्जंति, किं सोदएण परोदएण किं सोदय-

है । सासादनसम्यग्दष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, वहाँ नरकगतिका बन्ध
नहीं रहता । सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि,
इनके नरकगति और तिर्यग्गतिके बन्धका अभाव है । उपरिम जीव देवगतिले संयुक्त
बांधते हैं, क्योंकि, उनमें अन्य गतियोंका बन्ध नहीं होता । विशेष इतना है कि अपूर्व-
करणकालके अन्तिम सप्तम भागमें वर्तमान जीव अगतिसंयुक्त बांधते हैं ऐसा कहना
चाहिये ।

चारों गतियोंवाले मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और
असंयतसम्यग्दष्टि स्वामी हैं । दो गतियोंवाले संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव और
नारकियोंमें अणुत्रतियोंका अभाव है । उपरिम जीव मनुष्य ही होकर इनके बन्धके स्वामी
हैं, क्योंकि, अन्यत्र प्रमत्तादिकोंका अभाव है ।

बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम हैं । भय और जुगुप्साका मिथ्यादष्टि
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं । उपरिम
गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ ध्रुव बन्धका अभाव है । हांस्य
और रतिका बन्ध सादि-अध्रुव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध उपलब्ध है ।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २९ ॥

यह देशामर्शक पृच्छासूत्र है । इस कारण कौन बन्धक कौन अवन्धक; क्या
इसका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, क्या उदय, या क्या दोनों ही साथ व्युच्छिन्न होते हैं;
क्या स्वोदयसे, क्या परोदयसे या क्या स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है; क्या इसका

परोदएण, किं सांतरं किं गिरंतरं किं सांतर-गिरंतरं, किं पच्चएहि किं तेहि विणा, किं गइसंजुत्तं किमगइसंजुत्तं वज्झइ, एदस्स बंधस्स कदिगदिया सामी असाभी वा, किं बंधद्वाणं, किं चरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि किं पढमसमए किमपढम-अचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि, किं सादिओ किमणादिओ किं धुवो किमद्धुवो बंधो त्ति एदाओ पुच्छओ एत्थ कायच्चाओ । पुणो पुच्छिज्जदजणाणुग्गहइं उत्तरसुत्तं भणदि—

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३० ॥

एत्थ बंधद्वाणं गुणकृणाणि अस्सिदूणं बंधसामित्तं च उत्तं, तेण इदरत्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहा— मसुस्साउअस्स पुच्चं बंधो वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, असंजदसम्मादिट्ठिम्हि णट्ठबंधस्स मणुसाउअस्स अजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदुवलंभादो । मिच्छाइट्ठि-सासणसम्मादिट्ठिणो सोदएण परोदएण वि मणुसाउअं बंधंति, अविरोहादो । असंजदसम्मादिट्ठी परोदएणेव, सोदएण सह तत्थ बंधविरोहादो । गिरंतरो बंधो, वंज्झमाणभवे पडिवक्खपयडीए

बन्ध सान्तर, क्या निरन्तर, या क्या सान्तर-निरन्तर है; क्या प्रत्ययोंसे या क्या उनके बिना ही बन्ध होता है, क्या गतिसंयुक्त या क्या अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, इसके बन्धके कितनी गतियोंवाले स्वामी अथवा अस्वामी हैं, बन्धाध्वान क्या है, क्या चरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्या प्रथम समयमें, या क्या अप्रथम-अचरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है; क्या सादिक, क्या अनादिक, क्या ध्रुव या क्या अध्रुव बन्ध होता है; इन प्रश्नोंको यहां करना चाहिये । फिरसे पृच्छायुक्त जनोंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ३० ॥

इस सूत्रमे बन्धाध्वान और गुणस्थानोंका आश्रयकर बन्धस्वामित्व ही कहा गया है, इसलिये अन्य अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— मनुष्यायुका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है पश्चात् उदय, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें मनुष्यायुके बन्धके व्युच्छिन्न होजानेपर अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वोदय और परोदयसे भी मनुष्यायुको बांधते हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है । असंयतसम्यग्दृष्टि परोदयसे ही मनुष्यायुको बांधते हैं, क्योंकि, स्वोदयके साथ बन्ध होनेका इस गुणस्थानमें विरोध है । इसका बन्ध निरन्तर है, क्योंकि, बध्यमान भवमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके बिना इसके बन्धकी

बंधेण विणा बंधपरिसमत्तिदंसणादो । बंधविरोहो अंतरमिदि किण्ण वेप्पदे ? ण, पडिक्ख-
पयडिबंधकदंतरेण एत्थ पओजणादो । मिच्छादिद्विस्स मूलुत्तरणाणेगसमयजहणुक्कस्सपच्चया
णाणावरणम्हि बुत्ता चेव होंति । णवरि णाणासमयउक्कस्सपच्चया तेवण्ण होंति, वेउच्चिय-
मिस्स-कम्मइयाणमभावादो । सासणस्स णाणासमयउक्कस्सपच्चया सत्तेतालीस, ओरालियमिस्स-
वेउच्चियमिस्स-कम्मइयाणमभावादो । असंजदसम्माइद्विस्स मणुसाउअं बंधमाणस्स मूलपच्चया
तिण्णि, मिच्छताभावादो । एगसमइयजहणुक्कस्सपच्चया णव सोलस । णाणासमयउत्तरपच्चया
वादांलं, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउच्चियमिस्स-कम्मइयाणमभावादो । तिण्णि वि गुणङ्गाणाणि
मणुस्सगइंसजुत्तं बंधंति, तंबंधस्स अण्णगईहि सह विरोहादो । चउगइमिच्छाइद्वि-सासण-
सम्माइद्विणो सामी । दुगइअसंजदसम्मादिद्विणो सामी, तिरिक्ख-मणुस्सगइद्विदअसंजद-
सम्मादिद्विणं मणुस्साउबंधेण विरोहादो । बंधद्धाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो असंजदसम्मादिद्विस्स
अपदम-अचरिमसमए । मणुस्साउअस्स बंधो सादि-अद्धवो, बंधस्स धुवत्ताभावादो ।

समाप्ति देखी जाती है ।

शंका—बन्धका विरोध ही अन्तर है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते ?

समाधान—ऐसा ग्रहण इसलिये नहीं करते कि यहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्ध
द्वारा किये गये अन्तरसे प्रयोजन है ।

मिथ्यादृष्टिके मूल और उत्तर नाना व एक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्कृष्ट
प्रत्यय ज्ञानावरणमें कहे हुए ही होते हैं । विशेष इतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट
प्रत्यय तिरपेन होते हैं, क्योंकि, वैकियिकमिश्र और कार्मण काययोगका यहाँ अभाव है ।
सासादनसम्यग्दृष्टिके नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय सैतालीस होते हैं, क्योंकि, यहाँ
औदारिकमिश्र, वैकियिकमिश्र और कार्मण काययोगोंका अभाव है । मनुष्यायुको वांधने-
वाले असंयतसम्यग्दृष्टिके मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका अभाव है ।
एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय नौ और सोलह होते हैं । नाना समय सम्बन्धी
उत्तर प्रत्यय व्यालीस होते हैं, क्योंकि, यहाँ औदारिक, औदारिकमिश्र, वैकियिकमिश्र
और कार्मण काययोगोंका अभाव है ।

तीनों ही गुणस्थान मनुष्यगतिसे संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, उसके बन्धका
अन्य गतियोंके साथ विरोध है । चारों गतियोंवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि
स्वामी हैं । दो गतियोंवाले असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यग्गति और मनुष्य-
गतिमें स्थित असंयतसम्यग्दृष्टियोंके मनुष्यायुबन्धसे विरोध है । बन्धाध्वान सुगम है ।
बन्धव्युच्छेद असंयतसम्यग्दृष्टिके अप्रथम-अचरम समयमें होता है । मनुष्यायुका बन्ध
सादि-अधुव है, क्योंकि, उसके बन्धके धुवताका अभाव है ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तसंजदद्दाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३२ ॥

‘मिच्छाइट्ठिप्पहुडि०’ एदेण सुत्तावयवेण बंधद्धानं गुणगयसामित्तं च परूविदं । ‘अप्पमत्तसंजदद्दाए०’ एदेण बंधविणइट्ठानं परूविदं । तिण्णं चेव परूवणादो देसामासिय-सुत्तमिणं । तेणेदेण सूइदत्थे भणिस्सामो । तं जहा— एदस्स पुव्वसुदओ वोच्छिज्जदि पच्छा बंधो, देवाउअस्स असंजदसम्मादिट्ठिचरिमसमए वोच्छिण्णुदयस्स अप्पमत्तद्दाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधवोच्छेदुवलंभादो । परोदएणेव बंधो, सोदएणेदस्स तित्थयरस्सेव बंधविरोहादो । गिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधकयंतराभावादो ।

मिच्छाइट्ठिस्स देवाउअं बंधंतस्स चत्तारि मूलपच्चया । एगसमइया जहण्णुक्कस्स-

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, और अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अप्रमत्तसंयतकालके संख्यातवै भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ३२ ॥

‘मिथ्यादृष्टि आदि अप्रमत्तसंयत तक बन्धक है’ इस सूत्रांश द्वारा बन्धा-ध्वान और गुणस्थानगत स्वामित्वकी प्ररूपणा की गई है । ‘अप्रमत्तसंयतकालके संख्यातवै भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है’ इससे बन्धविनष्टस्थानकी प्ररूपणा की है । इन तीन अर्थोंकी ही प्ररूपणा करनेसे यह सूत्र देशामर्शक है । इस कारण इससे सूचित अर्थोंको कहते हैं । वह इस प्रकार है— देवायुका पूर्वमें उदय व्युच्छिन्न होता है पश्चात् बन्ध, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें इसके उदयके व्युच्छिन्न होनेपर पश्चात् अप्रमत्तकालके संख्यातवै भाग जाकर बन्धव्युच्छेद पाया जाता है । इसका बन्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, तीर्थंकर प्रकृतिके समान स्वोदयसे इसके बन्ध होनेका विरोध है । बन्ध इसका निरन्तर है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धसे किये गये अन्तरका यहां अभाव है ।

देवायुको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके मूल प्रत्यय चार होते हैं । एक समय सम्यग्बन्धी

पच्चया दस अङ्करोस । णाणांसमयउक्कस्सपच्चया एककवंचास, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणं तत्थाभावादो । सासणसम्मादिद्विस्स पच्चया देवाउअं बंधमाणस्स णाणावरणबंधतुल्ल । णवरि णाणासमयउक्कस्सपच्चया छादालं, वेउव्विय-वेउ-व्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । असंजदसम्मादिद्विपच्चयैपरूवणौए णाणावरणभंगो । णवरि णाणासमयउक्कस्सपच्चया बादालं, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । उवरिमेसु गुणइणेषु पच्चया देवाउअस्स णाणा-वरणतुल्ल ।

सन्वे देवगइसंजुतं, अण्णगइबंधेण देवाउअबंधस्स विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस्सगइ-मिच्छाइड्डी सासणसम्माइड्डी असंजदसम्माइड्डी संजदासंजदा सामी । उवरिमा मणुसा चैव, अण्णत्थ महव्वयाणमणुवलंभादो । बंधद्धाणं सुगमं । अप्पमत्तद्वाए संखेज्जदिभागे गदे देवाउअस्स बंधवोच्छेदो । अप्पमत्तद्वाए संखेज्जेसु-भागेषु गदेसु देवाउअस्स बंधो वोच्छिज्जदि ति केसु वि सुत्तपोत्थएसु उवलम्भइ । तदो एत्थ उवएसं लद्धण वत्तवं । देवाउअस्स बंधो सादिओ अद्धवो, अद्धवबंधितादो ।

जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रमशः दश और अठारह होते हैं । नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय इक्यावन होते हैं, क्योंकि, वहाँ वैकृतिक, वैकृतिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका अभाव है । देवायुको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टिके प्रत्यय ज्ञानावरणके बन्धके समान हैं । विशेष इतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय छयालीस होते हैं, क्योंकि, वैकृतिक, वैकृतिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका यहाँ अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टिकी प्रत्ययप्ररूपणा ज्ञानावरणके समान है । विशेषता यह है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय व्यालीस हैं, क्योंकि, वैकृतिक, वैकृतिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका यहाँ अभाव है । उपरिम गुणस्थानोंमें देवायुके प्रत्यय ज्ञानावरणके समान हैं ।

सभी जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके बन्धके साथ देवायुके बन्धका विरोध है । तिर्यच और मनुष्य गतिके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि असंयतसम्यग्दृष्टि और जंत्यतासंयत स्वामी है । उपरिम जीव मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, दूसरी गतियोंमें महाव्रतोंका अभाव है । बन्धाध्वान सुगम है । अप्रमत्तकालके संख्यातवै भागके वीत जानेपर देवायुका बन्धव्युच्छेद होता है । अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभागोंके वीत जानेपर देवायुका बन्ध व्युच्छिन्न होता है, ऐसा किन्हीं सूत्रपुस्तकोंमें पाया जाता है । इस कारण यहाँ उपदेश प्राप्तकर कहना चाहिये । देवायुका बन्ध सादि व अधुव है, क्योंकि वह अधुवबन्धी है ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-
संठाण-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फ़स-देवगइपाओग्गाणु-
पुव्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामाणं को
बंधो को अबंधो ? ॥ ३३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठिप्पहुडिं जाव अपुव्वकरणपइट्टुवसमा खवा बंधा ।
अपुव्वकरणद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ! एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ ३४ ॥

जेणेदेण सुत्तेण बंधद्दाणं गुणगयसामित्तं बंधविणइट्टाणं वि य वुत्तं तेणेदं देसामासियं ।
तदो एदेण सुइदत्थपरूवणा कीरदे— देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्विय-
अंगोवंगणामाण पुव्वमुदओ वोच्छिज्जदि पच्छा बंधो, असंजदसम्मादिडिम्हि पणोदयाणमेदासिं
चउण्णं पयडीणमपुव्वकरणद्दाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु बंधवोच्छेदुवलंभादो । तेजा-कम्मइय-

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात,
परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग,
सुस्वर, आदेय और निर्माण, इन नामकर्म प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक
है ? ॥ ३३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्टं उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण-
कालके संख्यात बहुभागोंको विताकर इनका बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष
जीव अबन्धक हैं ॥ ३४ ॥

चूंकि इस सूत्रके द्वारा बन्धाध्वान, गुणस्थानगत स्वामित्व और बन्धविनष्टस्थानका
ही निर्देश किया गया है अतएव यह देशामर्शक सूत्र है । इस कारण इसके द्वारा सूचित
अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं—देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक-
शरीरांगोपांग नामकर्मका पूर्वमें उदय व्युच्छिन्न होता है पश्चात् बन्ध, क्योंकि, असंयतसम्य-
ग्दृष्टि-गुणस्थानमें इन चारों प्रकृतियोंके उदयके नेष्ट होजानेपर पश्चात् अपूर्वकरणकालके
संख्यात बहुभागोंको विताकर इनका बन्धव्युच्छेद पाया जाता है । तैजस व कार्मण शरीर,



परघाद-उत्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिड्डीसु सोदय-परोदओ बंधो; अपज्जत्तकाले परघादुत्सासाणमुदयाभावे वि, विग्गहगदीए उवघाद-पत्तेयसरीराणं उदयाभावे वि, मिच्छाइडिहि पत्तेयसरीरस्स साहारणसरीरोदए संते वि बंधुवलंभादो । अव-सेसाणं सोदओ चेव, अपज्जत्त-साहारणसरीरोदयाणमभावादो । णवरि परघादुत्सासाणं पमत्तामि सोदय-परोदओ बंधो ।

तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिणाणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छा-इडि-सासणसम्मादिड्डीसु सांतर-णिरंतरो । कुदो ? असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतर-बंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो चेव, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । समचउरससंठाण-पसत्थ-विहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं सांतर-णिरंतरो मिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु, भोगभूमिएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरं, पड्विक्खपयड्विबंधाभावादो । पंचिदियजादि-तस-वादर-

उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीर प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें परघात और उच्छ्वास प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेपर भी उनका बन्ध, विग्रहगतिमें उपघात और प्रत्येकशरीरके उदयका अभाव होनेपर भी उनका बन्ध, तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें प्रत्येकशरीरका साधारणशरीरके उदयके होनेपर भी बन्ध पाया जाता है । शेष गुणस्थान-वर्ती जीवोंके उनका बन्ध स्वोदय ही है, क्योंकि, वहां अपर्याप्त और साधारणशरीरके उदयका अभाव है । विशेषता यह है कि परघात और उच्छ्वासका प्रमत्त गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध है ।

तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्लवु, उपघात और निर्माण, इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं । देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरगोपांग, इनका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर है । इसका कारण यह है कि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच और मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । इससे ऊपर निरन्तर ही बन्ध है, क्योंकि, एक समयसे बन्धका नाश नहीं होता । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर और आद्रेय प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर है, क्योंकि, भोगभूमिजोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर ही बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पंचेन्द्रिय-

पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइड्डिम्हि सांतर-णिरंतरो वंधो । कुदो ? सणक्कुमारादिदेव-णेरइएसु भोगभूमिएसु च णिरंतरंचंधुवलंभादो । सासणादिसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । परघादुस्सासाणं मिच्छइड्डिम्हि-सांतर-णिरंतरो, देव-णेरइएसु भोगभूमिएसु च णिरंतरंचंधुवलंभादो । सासणादिसु णिरंतरो, अपञ्जत्तंचंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइड्डिपहुंढि जाव पमतो ति सांतरो । उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खपयडिबंधादो ।

देवगड-देवगइपाओग्गानुपुव्वि-वेउव्वियदुगाणं मिच्छाइड्डि-सासणसम्मदिट्ठीसु ओरालियमिस्स-कम्मइय-वेउव्वियदुगाभावादो एककंचंसास-छाएदालीसपचचया । सम्मामिच्छा-दिट्ठिमि वादालीसपचचया, वेउव्वियकायजोगाभावादो । असंजदसम्मदिट्ठिमि चोदालीस-पचचया, वेउव्वियदुगाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं पचचया सच्चगुणदुणोसु [णाणावरण-] पचचयतुल्ला, विससकारणाभावादो । जदि अत्थि तो चित्तिय वत्तव्वो ।

देवगइ-देवगइपाओग्गानुपुव्वीओ सच्चगुणदुणजीवा देवगइसंजुत्तं वंधति, अण्णगईहि सह विरोहदो । वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणि मिच्छाइट्ठी देव-णेरइयगइसंजुत्तं ।

जाति, ब्रह्म, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध है । इसका कारण यह है कि सनत्कुमारादि देवों, नारकियों और भोगभूमिजोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । सासादन आदि उपरिम गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । परघात और उच्छ्वासका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, देव, नारकी और भोगभूमिजोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । सासादन आदि उपरिम गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तके बन्धका अभाव है । स्थिर और शुभ प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त तक सान्तर है । ऊपर निरन्तर है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है ।

देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और वैकृतिकद्विकके प्रत्यय मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे इक्यावन और छयालीस हैं, क्योंकि, यहां औदारिकमिश्र, कर्मण और वैकृतिकद्विक प्रत्ययोंका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ध्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वैकृतिक काययोगका अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वैकृतिकद्विकका अभाव है । शेष प्रकृतियोंके प्रत्यय सर्व गुणस्थानोंमें [ज्ञानावरणके] प्रत्ययोंके समान हैं, क्योंकि, विशेष कारणोंका अभाव है । और यदि हैं तो विचारकर कहना चाहिये ।

देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको सब गुणस्थानोंके जीव देवगतिले संयुक्त बांधते है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्धका विरोध है । वैकृतिकशरीर और वैकृतिकशरीरगोपांगको मिथ्यादृष्टि जीव देवगति वनरकगनिले संयुक्त बांधते हैं । उपरि-

उवरिमिगुणद्वानेसु देवगइसंजुत्तं बंधंति, सेसगुणद्वानाणं गिरयगइबंधेण सह विरोहादो । पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिणणामाओ मिच्छाइट्ठी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो दुगइसंजुत्तं, उवरिमा देवगइसंजुत्तं बंधंति । समचउरस-संठाण-पसत्थविहायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जणामाओ मिच्छाइट्ठि-सासणसम्मादिट्ठिणो तिगइसंजुत्तं, गिरयगइए अभावादो । सम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो दुगइसंजुत्तं, गिरय-तिरिक्खगइणमभावादो । उवरिमा देवगइसंजुत्तं, तत्थ सेसगइणं बंधाभावादो ।

देवगदि-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगणामाण बंधस्स तिरिक्ख मणुस्सगइ मिच्छाइट्ठि-सासणसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्माइट्ठि-संजदासंजदा सामी । उवरिमा मणुसा चेव, अण्णत्थ तेसिमभावादो । पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामाणं चउगइमिच्छाइट्ठि-सासणसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो, दुगइसंजदासंजदा, मणुसगइपमत्तादओ

गुणस्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, शेष गुणस्थानोंका नरकगतिवन्धके साथ विरोध है । पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर और निर्माण नामकमौको मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतितसे संयुक्त बांधते हैं । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय नामकमौको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनके बन्धके साथ उनके नरकगतिके बन्धका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके नरकगति और तिर्यग्गतिके बन्धका अभाव है । उपरिम जीव देवगतितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनमें शेष गतियोंके बन्धका अभाव है ।

देवगति, देवगतिप्रत्योग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरांगोपांग नामकमौके बन्धके तिर्यच व मनुष्य गतिवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत स्वामी है । उपरिम जीव मनुष्य ही स्वामी है, क्योंकि, अन्यत्र प्रमत्तसंयतादिकोंका अभाव है । पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण नामकमौके बन्धके चारों गतियोंवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियोंवाले संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके

सामी । बंधद्वाणं सुगमं । अपुव्वकरणद्धं सत्तखंडाणि काऊण ऋखंडाणि उवरि चडिय सत्तम-
खंडावसेसे बंधो वोच्छिज्जदि । सुताभावे सत्त चेव खंडाणि कीरंति त्ति कथं णव्वदे ? ण,
आइरियपरंपरागदुव्वदेसादो । तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुखलहुव-उवघाद-
णिमिणणामाणं मिच्छादिट्ठिम्मिह चउव्विहो बंधो, धुव्वंधित्तादो । उवरिमगुणेसु तिविहो,
धुवत्ताभावादो । अवसेसाओ पयडीओ सादि-अद्धुवियाओ, पडिवक्खपयडिबंधसंभवादो, पर-
घादुस्सासाणमपज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणकाले पडिवक्खबंधपयडीए अभावे वि बंधाभावुवलंभादो ।

आहारसरीर-आहारसरीर-अंगोवंगणामाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ ३५ ॥

सुगममेदं ।

अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपइट्टुव्वसमा खवा बंधा । अपुव्व-
करणद्वाए संखेजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ ३६ ॥

प्रमत्तसंयतादिक स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । अपूर्वकरणकालके सात खण्ड करके छह
खण्ड ऊपर चढ़कर सातवें खण्डके शेष रहनेपर उनका बन्ध व्युच्छिन्न होता है ।

शंका—सूत्रके अभावमें सात ही खण्ड किये जाते हैं यह किस प्रकार ज्ञात
होता है ?

समाधान—नहीं, यह आचार्यपरम्परागत उपदेशसे ज्ञात होता है ।

तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात और निर्माण
नामकमौका मिथ्यादृष्टि-गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां
हैं । उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्ध नहीं है । शेष
प्रकृतियां सादि व अध्रुव बन्धसे युक्त हैं, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव
है; परघात और उच्छ्वासको अपर्याप्त संयुक्त बांधनेके कालमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धके
अभावमें भी उनका बन्ध नहीं पाया जाता है ।

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकमौका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक बन्धक हैं । अपूर्वकरण-
कालके संख्यात बहुभागोंको विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव
अबन्धक हैं ॥ ३६ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, बंधद्धानं, सामित्त विणट्ट्ठाणं वि य' परूवणादो । तेणेदेण
सूइदत्थाणं परूवणा कीरदे— एदासिमुदओ पुवं वोच्छिज्जदि पच्छा बंधो, पमत्तसंजदम्मि
णट्टोदयाणमेदासिमपुव्वकरणम्मि बंधवोच्छेदुवलंभादो । परोदएणेव एदाओ वज्झंति, आहार-
दुगोदयविरहिदअप्पमत्तेसु चैव बंधोवलंभादो । गिरंतं वज्झंति, पडिवक्खपयडीण बंधेण विणा
बंधभावोदो' । पच्चयपरूवणाए मूलुत्तरणाणेगसमयजहणुक्कस्सपच्चया णाणावरणस्सेव
वत्तव्वा । [जदि] चदुसंजलण-णवणोकसाय-जोगा बावीस चैव आहारदुगस्स पच्चया तो सव्वेसु
अप्पमत्तापुव्वकरणेसु आहारदुगबंधेण होदव्वं । ण चैवं, तहाणुवलंभादो । तदो अण्णेहि वि
पच्चएहि होदव्वमिदि ? ण एस दोसो, इच्छिज्जमाणत्तादो । के ते अण्णे पच्चया जेहि आहार-
दुगस्स बंधो होदि ति वुत्ते वुच्चदे— तित्थयराइरिय-वहुसुद-पवयणाणुरागो आहारदुग-
पच्चओ । अप्पमादो वि, सप्पमादेसु आहारदुगबंधस्साणुवलंभादो । अपुव्वस्सुवरिमैसत्तमभागे

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि वह बन्धाध्वान, स्वामित्व और बन्धविनष्टस्थानका
ही प्ररूपण करता है। इसी कारण इस सूत्रसे सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं— इन दोनों
प्रकृतियोंका उदय पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् बन्ध, क्योंकि प्रमत्तसंयतमें इनके
उदयके नष्ट होजानेपर अपूर्वकरणमें बन्धव्युच्छेद पाया जाता है। ये दोनों प्रकृतियां परो-
दयसे बंधती हैं, क्योंकि, आहारद्विकके उदयसे रहित अप्रमत्तसंयतोंमें अर्थात् अप्रमत्त और
अपूर्वकरण गुणस्थानोंमें ही इनका बन्ध पाया जाता है। उक्त दोनों प्रकृतियोंका बन्ध
निरन्तर होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धके बिना इनके बन्धका सद्भाव पाया
जाता है। प्रत्ययप्ररूपणामें मूल व उत्तर नाना एवं एक समय सम्बन्धी जघन्य-उत्कृष्ट प्रत्यय
ज्ञानावरणके समान ही कहना चाहिये।

शंका—चार संज्वलन, नौ नोकषाय और नौ योग, इस प्रकार यदि वाईस ही
आहारद्विकके प्रत्यय हैं तो सर्व अप्रमत्त और अपूर्वकरण संयतोंमें आहारद्विकका बन्ध
होना चाहिये। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता। अत एव अन्य भी
प्रत्यय होना चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंका मानना अभीष्ट ही है।

शंका—वे अन्य प्रत्यय कौनसे हैं जिनके द्वारा आहारद्विकका बन्ध होता है ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं— तीर्थंकर, आचार्य, बहुश्रुत अर्थात्
उपाध्याय और प्रवचन, इनमें अनुराग करना आहारद्विकका कारण है। इसके अतिरिक्त
प्रमादका अभाव भी आहारद्विकका कारण है, क्योंकि, प्रमाद सदिह जीवोंमें आहारद्विकका
बन्ध पाया नहीं जाता।

१ आप्रतौ ' वि य य ' इति पाठ ।

२ आ अप्रमत्तो ' बंधाभावोदो ' इति पाठ ।

३ प्रतिपु ' अपुव्वासुवरिम ' इति पाठ ।

क्किण्ण वंधो ? ण, तत्थ तित्थयराइरिय-बहुसुद-पवयणविसयरागजणिदसंसकाराभावादो । देवगइसुंछुत्तो आहारदुगबंधो, अण्णगईहि सह तन्बंधविरोहादो । मणुसा चैव सामी, अण्णत्थ तित्थयराइरिय-बहुसुदरागस्स संजमसहियस्स अणुवलंभादो । बंधद्धाणं बंधविणइड्डाणं च सुगमं, सुत्तणिहिइत्तादो । सादिओ अद्धुवो च वंधो. आहारदुगपच्चयस्स सादि-सपज्जवमाणत्त-दंसणादो ।

तित्थयरणामस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ ३७ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्माइट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपइट्ठुवसमा ख्वा वंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३८ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्त-बंधद्धाण-बंधविणइड्डाणाणं चैव परुवणादो । तेणेदेण

शंका—अपूर्वकरणके उपरिम सप्तम भागमें इनका बन्ध क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं होता. क्योंकि वहां तीर्थकर, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन-विषयक रागसे उत्पन्न हुए संस्कारोंका अभाव है ।

आहारद्विकका बन्ध देवगतिले संयुक्त होता है. क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्ध होनेका विरोध है । इनके बन्धके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र तीर्थकर, आचार्य और बहुश्रुत विषयक राग संयम साहित पाया नहीं जाता । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम है, क्योंकि, ये सूत्रमें ही निर्दिष्ट हैं । दोनों प्रकृतियोंका सादिक और अश्रुव बन्ध होता है. क्योंकि, आहारद्विकका प्रत्यय सादि और सपर्यवसान देखा जाता है ।

तीर्थकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक हैं ; अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभागोंको विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ३८ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है. क्योंकि वह स्वामित्व, बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थानका

सूइदत्थवण्णं कस्सामो— तित्थयरस्स पुच्चं वंधो वो-च्छज्जदि पच्छा उदथो, अपुच्चकरण-
 छसत्तमभागचरिमसमए णट्ठबंधस्स तित्थयरस्स सजोगिपढमसमए उदयस्सादिं कादूण
 अजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदुवलंभादो । परोदण्णव वंधो, तित्थयरकम्मदुयसंभवद्वाणेषु
 सजोगि-अजोगिजिणेषु तित्थयरबंधाणुवलंभादो । णिरंतरो वंधो, सगबंधकारणे संते^१ अद्वाक्खएण
 बंधुवरमाभावादो । असंजदसम्मादिट्ठी दुगइसंजुत्तं बंधंति, तित्थयरबंधस्स णिरय-तिरिक्खगइ-
 बंधेहि सह विरोहादो । उवरिमा देवगइसंजुत्तं, मणुसगइट्ठिदजीवाणं तित्थयरबंधस्स देवगइं
 मोत्तूण अण्णगइहि सह विरोधादो । तिगदिअसंजदसम्मादिट्ठी सामी, तिरिक्खगइए^२ तित्थयरस्स
 वधाभावादो । मा होदु तत्थ तित्थयरकम्मबंधस्स पारंभो, जिणाणमभावादो । किंतु पुच्चं
 वद्धतिरिक्खाउआणं पच्छा पडिवण्णसम्मत्तादिगुणेहि तित्थयरकम्मं बंधमाणं पुणो तिरिक्खे-
 सुप्पण्णाणं तित्थयरस्स बंधस्स सामित्तं लब्भदि ति वुत्ते— ण, वद्धतिरिक्ख-मणुस्साउआणं
 जीवाणं वद्धणिरय-देवाउआणं जीवाणं व तित्थयरकम्मस्स बंधाभावादो । तं पि

ही प्ररूपण करता है । इसी कारणसे इसके द्वारा सूचित अर्थोंका वर्णन करते हैं—
 तीर्थकर नामकर्मका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय, क्योंकि अपूर्वकरणके छोटे
 सप्तम भागके अन्तिम समयमें बन्धके नष्ट होजानेपर तीर्थकर नामकर्मका सयोगकेवलीके
 प्रथम समयमें उदयका प्रारंभ करके अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद
 पाया जाता है । इसका बन्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, जहां तीर्थकरकर्मका उदय
 सम्भव है उन सयोगकेवली और अयोगकेवली जिनमें तीर्थकरका बन्ध पाया नहीं जाता ।
 बन्ध इसका निरन्तर है, क्योंकि, अपने कारणके होनेपर कालक्षयसे बन्धका विश्राम
 नहीं होता । असंयतसम्यग्दृष्टि इसे दो गतियोंसे संयुक्त वांछतेहं, क्योंकि, तीर्थकर प्रकृतिके
 बन्धका नरक व तिर्यच गतियोंके बन्धके साथ विरोध है । उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त
 वांछते हैं, क्योंकि, मनुष्यगतिमें स्थित जीवोंके तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका देवगतिको
 छोड़कर अन्य गतियोंके साथ विरोध है । तीन गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि जीव इसके
 बन्धके स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यग्गतिके साथ तीर्थकरके बन्धका अभाव है ।

शंका—तिर्यग्गतिके तीर्थकरकर्मके बन्धका प्रारंभ भले ही न हो, क्योंकि, वहां
 जिन्का अभाव है । किन्तु जिन्होंने पूर्वमें तिर्यगायुको वांछ लिया है उनके पीछे सम्य-
 क्त्वादि गुणोंके प्राप्त होजानेसे तीर्थकरकर्मको वांछकर पुनः तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेपर
 तीर्थकरके बन्धका स्वामिपना पाया जाता है ।

समाधान — इसके उत्तरमें कहते हैं कि ऐसा होना सम्भव नहीं है, क्योंकि,
 जिन्होंने पूर्वमें तिर्यच व मनुष्य आयुका बन्ध करलिया है उन जीवोंके नरक व देव आयुओंके
 बन्धसे संयुक्त जीवोंके समान तीर्थकरकर्मके बन्धका अभाव है ।

शंका—वह भी कैसे सम्भव है ?

१ प्रतिपु ' सुते ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' गइहि ' इति पाठः ।

कुदो ? पारद्धतित्थयरबंधमवादो' तदियभवे तित्थयरसंतकम्मियजीवाणं भोक्खगमण-
णियमादो' । ण च तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पणमणुससम्माइड्डीणं देवेसु अणुप्पज्जिय देव-
णेरइएसुप्पणणं व मणुस्सेसुप्पत्ती अत्थि जेण तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पणमणुससम्माइड्डीणं तदियभवे
णिच्चुई होज्ज । तम्हा' तिगइअसंजदसर्माइड्डीणो चैव सामिया त्ति सिद्धं । सादिओ
अद्दुवो च बंधो, बंधकारणाणं सादि-सांतत्तदंसणादो । तित्थयरकम्मस्स पच्चयपरूवरणद्दमुत्तर-
सुत्तं मणदि—

समाधान —क्योंकि, जिस भवमें तीर्थंकर प्रकृतिका बंध प्रारम्भ किया गया है
उससे तृतीय भवमें तीर्थंकर प्रकृतिके सत्वयुक्त जीवोंके मोक्ष जानेका नियम है ।
परन्तु तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्दृष्टियोंकी देवोंमें उत्पन्न न होकर
देव नारकियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके समान मनुष्योंमें उत्पत्ति होती नहीं जिससे कि तिर्यंच
व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्दृष्टियोंकी तृतीय भवमें मुक्ति हो सके । इस कारण
तीन गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि ही तीर्थंकरप्रकृतिके बन्धके स्वामी हैं, यह बात सिद्ध
होती है ।

विशेषार्थ—यहां शंकाकारका कहना है कि जिस जीवने पूर्वमें तिर्यंगायुको बांध लिया
है वह यदि पश्चात् सम्यक्त्वादि गुणोंको प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ करे
और तत्पश्चात् मरणको प्राप्त होकर तिर्यंचोंमें उत्पन्न हो तो वह तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका
स्वामी क्यों नहीं हो सकता ? इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि यह सम्भव नहीं है, कारण
कि तीर्थंकर प्रकृतिको बांधनेके भवसे तृतीय भवमें मोक्ष जानेका नियम है । परन्तु यह बात
उक्त जीवमें वस नहीं सकती, क्योंकि, तिर्यंगायुको बांधनेवाला जीव द्वितीय भवमें तिर्यंच
होकर सम्यग्दृष्टि होनेसे तृतीय भवमें देव ही होगा, मनुष्य नहीं । अत एव कोई भी तिर्यंच
तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका स्वामी नहीं होसकता ।

तीर्थंकर प्रकृतिका सादिक व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्धकारणोंके
सादि-सान्तता देखी जाती है । तीर्थंकर कर्मके प्रत्ययोंके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ अग्रतो ' -तित्थयरम्मस्स ववामावादो', आ-काप्रत्यो ' -तित्थयरववामावादो' इति पाठः ।

२ एतच्च तीर्थंकरनामकर्म मनुष्यगतामेव वर्तमानं पुरुष- स्त्री नपुंसको वा तीर्थंकरमवात् पृथक्तृतीयमव
प्राप्य बद्धमास्मते । प्र सा १०. ३१३-१९.

३ प्रतिपु 'त अहा' इति पाठः ।

कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंति ? ॥ ३९ ॥

कथं तित्थयरस्स णामकम्मावयवस्स गोदसण्णा ? ण, उच्चागोदबंधाविणाभावित्तणेण तित्थयरस्स वि गोदत्तसिद्धीदो । ससकम्माणं पच्चए अभणिदूण तित्थयरणामकम्मस्सेव किमिदि पच्चयपरूवणा कीरदे ? सोलसकम्माणि मिच्छत्तपच्चयाणि, मिच्छत्तोदएण विणा एदेसिं बंधाभावादो । पणुवीसकम्माणि अणंताणुबंधिपच्चयाणि, तदुदएण विणा तेसिं बंधाणुवलंभादो । दस कम्माणि असंजमपच्चयाणि, अपच्चक्खाणावरणोदएण विणा तेसिं बंधाभावादो । पच्चक्खाणावरणचदुक्कं सगसामण्णोदयपच्चयं, तेण विणा तव्वंधाणुवलंभादो^१ । छक्कम्माणि पमादपच्चयाणि, पमादेण विणा तेसिं बंधाणुवलंभादो । देवाउअं मज्झिमविसोहिपच्चइयं, अप्पमत्तद्वाए संखेज्जदिभागे गदे अइविसोहिद्विणमपावेदूण मज्झिमविसोहिद्विणे चैव देवाउअस्स

कितने कारणोंसे जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मको बांधते हैं ? ॥ ३९ ॥

शंका—नामकर्मके अचयवभूत तीर्थंकर कर्मको गोत्र संज्ञा कैसे सम्भव है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, उच्च गोत्रके बन्धका अविनाभावी होनेसे तीर्थंकरकर्मको भी गोत्रत्व सिद्ध है ।

शंका—शेष कर्मोंके प्रत्ययोंको न कहकर केवल तीर्थंकर नामकर्मकी ही प्रत्यय-प्ररूपणा क्यों की जाती है ?

समाधान—सोलह कर्म मिथ्यात्वनिमित्तक हैं, क्योंकि, मिथ्यात्वके उदयके बिना इनके बन्धका अभाव है । पच्चीस कर्म अनन्तानुवन्धिनिमित्तक हैं, क्योंकि, अनन्तानुवन्धी कर्मायक उदय बिना उनका बन्ध नहीं पाया जाता । दश कर्म असंयमनिमित्तक हैं, क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरणके उदय बिना उनका बन्ध नहीं होता । प्रत्याख्यानावरण-चतुष्क अपने ही सामान्य उदयनिमित्तक है, क्योंकि, उसके बिना प्रत्याख्यानावरण-चतुष्कका बन्ध पाया नहीं जाता । छह कर्म प्रमादनिमित्तक हैं, क्योंकि, प्रमादके बिना उनका बन्ध नहीं पाया जाता । देवायु मध्यम विशुद्धिनिमित्तक है, क्योंकि, अप्रमत्तकालका संख्यातवां भाग वीत जानेपर अतिगय विशुद्धिके स्थानको न पाकर मध्यम विशुद्धि-

१ तित्थयरणामगोयकम्म—तीर्थंकरत्वनिबन्धन नाम तीर्थंकरनाम, तच्च गोत्र च कर्मविशेष एतेत्येकमदभावत् तीर्थंकरनामगोत्रम् । अ रा. पृ. २३१३

२ अ-आप्रत्यो. ' तव्वद्धाणाणुवलंभादो ', काप्रती ' तदद्धाणाणुवलंभादो ' इति पाठ. ।

बंधवोच्छेदंमणादो । आहारदुगं विसिद्धरागसमिण्णदसंजमपच्चइयं, तेण विणा तव्वंवाणु-
वलंभादो । परभवणिबंधसत्तावीसकम्माणि हस्म-रदि-मय-दुगुंछा-पुरिसवेद-चदुसंजलणाणि च
कसायविमेषसपच्चइयाणि, अण्णहा एदेमिं मिण्णट्ठाणेसु बंधवोच्छेद्राणुववत्तीदो । सोलसकसायाणि
सामण्णपच्चइयाणि, अणुमेतकसाए वि संते तेमिं बंधुवलंभादो । सादावेदणीयं जोगपच्चइयं,
सुहुमजोणे वि तस्स बंधुवलंभादो । तेण सव्वकम्माणं पच्चया जुत्तिवलेण णव्वंति ति ण
मणिदा । एदस्स पुण तित्थयरणासकम्मस्म बंधपच्चओ ण णव्वदे— णेदं मिच्छत्तपच्चइयं,
तत्थ बंधाणुवलंभादो । णासंजमपच्चइयं, मंजदेसु वि बंधदंसणादो । ण कसायसामण्णपच्चइयं,
कसाए संते वि बंधवोच्छेददंसणादो बंधपारंभाणुवलंभादो वा । ण कसायमंददा कारणं,
तिव्वकसाएसु णेरइएसु वि बंधदंसणादो । ण तिव्वकसाओ कारणं, मंदकसाएसु सव्वड्ढेवेषु
अपुव्वकरणेसु च बंधदंसणादो । ण सम्मतं तव्वंधकारणं, सम्मादिद्धिस्स' वि तित्थयरस्स
बंधाणुवलंभादो । ण केवलं दंसणविमुञ्जदा कारणं, खीणदंसणमोहाणं पि केमिं वि बंधाणु-

स्थानमें ही देवायुका बन्धव्युच्छेद देखा जाता है । आहारद्विक विशिष्ट रागसे संयुक्त
संयमके निमित्तसे बंधता है, क्योंकि, ऐसे संयमके बिना उसका बन्ध नहीं पाया जाता ।
परभवनिबन्धक सत्ताईस कर्म एवं हास्य, रति, मय, जुगुप्सा, पुन्यवेद और चार संज्वलन-
कपाय, ये सब कर्म कपायविशेषके निमित्तसे बंधनेवाले हैं, क्योंकि, इसके बिना उनके
भिन्न स्थानोंमें बन्धव्युच्छेदकी उपपत्ति नहीं बनती । सोलह कर्म कपायसामान्यके
निमित्तसे बंधनेवाले हैं, क्योंकि, अणुमात्र कपायके भी होनेपर उनका बन्ध पाया जाता
है । सानावेदनीय योगनिमित्तक है, क्योंकि, सूक्ष्म योगमें भी उसका बन्ध पाया जाता
है । इस प्रकार चूंकि सब कर्मोंके प्रत्यय युक्तिबलसे जाने जाते हैं, अतः उनका यहां कथन
नहीं किया गया । किन्तु इस तीर्थकर नामकर्मका बन्धप्रत्यय नहीं जाना जाता— कारण कि
यह मिथ्यान्वनिमित्तक तो हो नहीं सकता, क्योंकि, मिथ्यात्वके होनेपर उसका बन्ध नहीं
पाया जाता । असंयमनिमित्तक भी नहीं है, क्योंकि, संयतोंमें भी उसका बन्ध देखा जाता
है । कपायसामान्यनिमित्तक भी वह नहीं है, क्योंकि, कपायके होनेपर भी उसका बन्ध-
व्युच्छेद देखा जाता है, अथवा कपायके होनेपर भी उसके बन्धका प्रारंभ नहीं होता । कपाय-
मन्दतानिमित्तक भी इसका बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि, तीव्रकपायवाले नारकियोंके
भी उसका बन्ध देखा जाता है । तीव्र कपाय भी इसके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि,
मन्दकपायवाले स्वार्थसिद्धिविमानवासी देवों और अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती जीवोंमें भी
उसका बन्ध देखा जाता है । सम्यक्त्व भी उसके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, सम्य-
ग्दाधिके भी तीर्थकर कर्मका बन्ध नहीं पाया जाता । केवल दर्शनविशुद्धता भी उसका
कारण नहीं है, क्योंकि, दर्शनमोहका श्रय करचुकनेवाले भी किन्हीं जीवोंके उसका बन्ध

वलंभादो । तदो एदस्स वंधकारणं वत्तव्वमेव । अधवा, असंजद-पमत्त-सजोगिसण्णाओ व्व एदं सुत्तमंतदीवयं सव्वकम्माणं पच्चयपरूवणाए त्ति एदं सुत्तमागदं । कदिहि कारणेहि— किमेक्केण किं दोहि किं तिहिमेवं पुच्छा कायव्वा । एवंविहसंसयम्मि ड्ढिदाणं णिच्छय-जणणइमुत्तरसुत्तं भणदि—

तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं वंधंति ॥ ४० ॥

तत्थ मणुस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स वंधपारंभो होदि, ण अण्णत्थेत्ति जाणावणट्ठं तत्थेत्ति वुत्तं । अण्णगदीसु किण्ण पारंभो होदि त्ति वुत्तं — ण होदि, केवलणाणोवलक्खियजीव-दव्वसहकारिकारणस्स तित्थयरणामकम्मबंधपारंभस्स तेण विणा समुप्यत्तिविरोहादो । अधवा, तत्थ तित्थयरणामकम्मबंधकारणाणि भणामि त्ति भणिदं होदि । सोलसेत्ति कारणणं संखा-णिहिसो कदो । पज्जवट्ठियणए अवलविज्जमाणे तित्थयरकम्मबंधकारणाणि सोलस चेव होंति । दव्वट्ठियणए पुण अवलंविज्जमाणे एकं पि होदि, दो वि होंति । तदो एत्थ सोलस चेव

नहीं पाया जाता । अतएव इसके बन्धका कारण कहना ही चाहिये । अथवा असंयत, प्रमत्त और सयोगी संज्ञाओंके समान यह सूत्र सब कर्मोंकी प्रत्ययप्ररूपणामें अन्तर्दीपक है, इसीलिये यह सूत्र आया है । कितने कारणोंसे— क्या एकल, क्या दोसे, क्या तीनसे इस प्रकार यहाँ प्रश्न करना चाहिये । इस प्रकार संशयमें स्थित जीवोंके निश्चयोत्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

वहां इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थकर नाम-भोत्रकर्मको वांधते हैं ॥ ४० ॥

मनुष्यगतिकमें ही तीर्थकरकर्मके बन्धका प्रारम्भ होता है, अन्यत्र नहीं, इस बातके ज्ञापनार्थ सूत्रमें 'वहां' ऐसा कहा गया है ।

शंका—मनुष्यगतिके सिवाय अन्य गतियोंमें उसके बन्धका प्रारम्भ क्यों नहीं होता ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि अन्य गतियोंमें उसके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता, कारण कि तीर्थकर नामकर्मके बन्धके प्रारम्भका सहकारी कारण केवलज्ञानसे उपलक्षित जीव द्रव्य है, अतएव, मनुष्य गतिके विना उसके बन्ध प्रारम्भकी उत्पत्तिका विरोध है । अथवा, उनमें तीर्थकरनामकर्मके बन्धके कारणोंको कहते हैं, यह अभिप्राय है । 'सोलह' इस प्रकार कारणोंकी संख्याका निर्देश किया गया है । पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर तीर्थकर नामकर्मके बन्धके कारण सोलह ही होते हैं । किन्तु द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर एक भी कारण होता है, दो भी होते हैं । इसलिये यहां सोलह ही कारण होते हैं ऐसा अवधारण नहीं करना

कारणाणि त्ति णावहारणं कायच्चं । एदस्स णिण्णयड्डमुत्तरसुत्तं भणदि -

दंसणविसुज्झदाए विणयसंपण्णदाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए
आवासएसु अपरिहीणदाए खण-लव्वपड्डिवुज्झणदाए लद्धिसंवेगसंपण्ण-
दाए जधाथामे^१ तथा तवे, साहूणं^२ पासुअपरिचागदाए साहूणं समाहि-
संधारणाए साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुद-
भत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणप्पभावणदाए अभि-
क्खणं अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि
जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं वंधंति^३ ॥ ४१ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्था वुच्चदे । तं जहा— दंसणं सम्मदंसणं, तस्स विमुज्झदा दंसण-
विसुज्झदा, तीए दंसणविसुज्झदाए जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं वंधंति । तिमूढाबोढ-अड-

चाहिये । इसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं ।

दर्शनविशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शील-व्रतोंमें निरतिचारता, छह आवश्यकोंमें अपरि-
हीनता, क्षण-लव्वप्रतिबोधनता, लव्व-संवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओंको प्राप्तकपरित्यागता,
साधुओंकी समाधिसंधारणा, साधुओंकी वैवाच्ययोगयुक्तता, अरहंतभक्ति, बहुश्रुतभक्ति,
प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावनता और अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता,
इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मको बांधते हैं ॥ ४१ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— 'दर्शन' का अर्थ सम्यग्दर्शन
है । उसकी विशुद्धताका नाम दर्शनविशुद्धता है । उस दर्शनविशुद्धतासे जीव तीर्थंकर
नाम-गोत्रकर्मको बांधते हैं । तीन मूढताओंसे रहित और आठ मल्लोंसे व्यतिरिक्त जो

१ अप्रती 'वधापावे', जाप्रती 'यथामे', काप्रती 'वधाथामे' इति पाठः ।

२ प्रविशु 'साहूणं' इति पाठः ।

३ दर्शनविशुद्धाविनयसम्पन्ना शीलव्रतैश्चनित्थारोर्भावेणज्ञानोपयोग-सवेगो शक्तिरसुयाग तपसा साधु-
समाधिवैद्यावृत्त्यन्यमर्हदाचार्यं बहुश्रुत प्रवचनमक्तिरावस्थत्रापरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थ-
कस्तस्य । त. ग. ६, २४. अरिहत् सिद्ध पवयण-गुरु-थेर-बहुस्तुए तवत्सा य । वच्छलया य एत्ति अभिक्ख-
णाणोवजोगो य ॥ दंसणविसुत्तए जावत्सए य सीलव्वए णिरइयारा । खण-लव्व-तवच्चियाए वेयावच्चे समाही य ॥
असुच्चनापगहणे सुवमत्ता पवयणे पमात्रनया । एएदि कारणेहि तित्थयरस ल्हइ जीवो ॥ प्र. सा १०, ३१०-३१२.

मलवदिरित्तसम्महंसणभावो दंसणविसुज्झदा णाम । कधं ताए एक्काए चेव तित्थयरणाम-
कम्मस्स बंधो, सव्वसम्माइट्ठीणं तित्थयरणामकम्मबंधपसंगादो त्ति ? वुच्चदे— ण तिमूढा-
बोढत्तइमलवदिरेगेहि चेव दंसणविसुज्झदा सुद्धणयाहिप्पाएण होदि, किंतु पुब्बिल्लगुणेहि
सरूवं लद्धूणं^१ द्विदसम्महंसणस्स साहूणं पासुअपरिच्चाओ साहूणं समाहिसंधारणे साहूणं वेज्जा-
वच्चजोगे अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणे पहावणे
अभिकखणं णाणोवजोगजुत्तत्तणे^२ पयट्ठावणं विसुज्झदा णाम । तीए दंसणविसुज्झदाए एक्काए
वि तित्थयरकम्मं बंधंति ।

अथवा, विणयसंपण्णदाए चेव तित्थयरणामकम्मं बंधंति । तं जहा— विणओ
तिविहो णाण-दंसण-चरित्तविणओ त्ति । तत्थ णाणविणओ णाम अभिकखणभिकखणं णाणोव-
जोगजुत्तदा बहुसुदभत्ती पवयणभत्ती च । दंसणविणओ णाम पवयणेसुवइड्डसव्वभावसइहणं
तिमूढादो ओसरणमइमलवच्छणमरहंत-सिद्धभत्ती खण-लवपडिबुज्झणदा^३ लद्धिसंवेगसंपण्णदा

सम्यग्दर्शन भाव होता है उसे दर्शनविशुद्धता कहते हैं ।

शंका—केवल उस एक दर्शनविशुद्धतासे ही तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध कैसे
सम्भव है, क्योंकि, ऐसा माननेसे सब सम्यग्दृष्टियोंके तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका प्रसंग
आवेगा ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि शुद्ध नयके अभिप्रायसे तीन
मूढताओं और आठ मलोंसे रहित होनेपर ही दर्शनविशुद्धता नहीं होती, किन्तु
पूर्वोक्त गुणोंसे अपने निजस्वरूपको प्राप्तकर स्थित सम्यग्दर्शनकी साधुओंको प्राप्तक-
परित्याग, साधुओंकी समाधिसंधारणा, साधुओंकी वैयावृत्तिका संयोग, अरहंतभक्ति,
बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावना और अभीक्षणज्ञानोपयोग-
युक्ततामें प्रवर्तनेका नाम विशुद्धता है । उस एक ही दर्शनविशुद्धतासे जीव तीर्थंकर कर्मको
वांधते हैं ।

अथवा, विनयसम्पन्नतासे ही तीर्थंकर नामकर्मको वांधते हैं । ब्रह्म इस प्रकारसे-
ज्ञानविनय, दर्शनविनय और चारित्रविनयके भेदसे विनय तीन प्रकार है । उनमें वारंवार
ज्ञानोपयोगसे युक्त रहनेके साथ बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्तिका नाम ज्ञानविनय है ।
आगमोपदिष्ट सर्व पदार्थोंके श्रद्धानके साथ तीन मूढताओंसे रहित होना, आठ मलोंको
छोड़ना, अरहंतभक्ति, सिद्धभक्ति, क्षण लवप्रतिबुद्धता और लब्धिसंवेगसम्पन्नताको दर्शन-

१ प्रतिपु ' सरूवलद्धण ', मप्रतो ' सरवलद्धण ' इति पाठ ।

२ आ-काप्रत्यो ' छत्तचणेण ' इति पाठ ।

३ अ-काप्रत्यो ' पडिबज्झणदा ', आप्रतो ' परिवज्झणदा ' इति पाठ ।

च'। चरित्तविणओ णाम सीलञ्चदेसु णिरदिचारदा आवासएसु अपरिहीणदा जहायामे तहा तवो च । साहूणं पासुगपरिच्चाओ तेसिं समाहिसंधारणं तेसिं वेज्जावच्चजोगजुत्तदा पवयण-वच्छलदा च णाण-दंसण-चरित्तणं पि विणओ, तिरियणसमूहस्स साहु-पवयण त्ति ववएसादो । तदो विणयसंपण्णदा एकका वि होदूण सोलसावयवा । तेणेदीए विणयसंपण्णदाए एककाए वि तित्थयरणामकम्मं मणुआ बंधंति । देव-णेरइयाण कधमेसा संभवदि ? ण, तत्थ वि णाण-दंसणविणयाणं संभवदंसणादो । कधं तिसमूहकज्जं दोहि चेव सिज्जदे ? ण एस दोसो, मट्टिया-जल-सूरणकंदेहिंतो समुप्पज्जमाणसूरणकंदं कुरस्स तकंद-दुहिणेहिंतो चेव समुप्पज्जमाणस्सुवलंभादो, दोहि तुरंगेहि कट्टिज्जमाणसंदणस्स' बलवतंतेणेक्केणेव देवेण विजाहरेण-मणुएण वा कट्टिज्जमाण-

विनय कहते है । शील-व्रतोंमें निरतिचारता, आवश्यकोंमें अपरिहीनता अर्थात् परिपूर्णता, और शक्यनुसार तपका नाम चारित्रविनय है । साधुओंके लिये प्राप्त आहारादिकका दान, उनकी समाधिका धारण करना, उनकी वैयावृत्तिमें उपयोग लगाना, और प्रवचन-वत्सलता, यह ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र तीनोंकी ही विनय है, क्योंकि, रत्नत्रय समूहको साधु व प्रवचन संज्ञा प्राप्त है । इसी कारण चूंकि विनयसम्पन्नता एक भी होकर सोलह अवयवोंसे सहित है, अतः उस एक ही विनयसम्पन्नतासे मनुष्य तीर्थकर-नामकर्मको वांधते है ।

शंका— यह विनयसम्पन्नता देव-नारकियोंके कैसे सम्भव है ?

समाधान— उक्त शंका ठीक नहीं, क्योंकि, देव-नारकियोंमें भी ज्ञानविनय और दर्शनविनयकी सम्भावना देखी जाती है ।

शंका— तीनों विनयोंके समूहसे सिद्ध होनेवाला कार्य दोसे ही कैसे सिद्ध हो सकता है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मट्टी, जल और सूरणकंदसे उत्पन्न होने-वाला सूरणकंदका अक्षर उसके कन्द और दुर्दिन अर्थात् वर्षासे ही उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है, अथवा दो घोड़ोंसे खीचा जानेवाला रथ बलवान् एक ही देव, विद्याधर या मनुष्यसे

१ अरुत्तं सिद्ध-चेइय सुदे य धम्मो य साधुवग्गे य । आयरिय उवच्चाए सुपवयणे दसणे चावि ॥ भव्ती पूया वण्णजणण च णामणमन्नणवादस्स । आसादणपरिहारो दसणविणओ समासेण ॥ म आ ४७-४८,

२ प्रतिपु 'तिरियण' इति पाठ ।

३ अप्रतौ 'कट्टिज्जमाणसेदसणस्स', आप्रतौ 'कट्टिज्जमाणस्सेदसणस्स', काप्रतौ 'कट्टिज्जमाणस्से-दसणस्स' इति पाठ ।

स्सुवलंभादो वा । जदि दोहि चैव तित्थयरणाकम्मं वज्झदि तो चरित्तविणओ किमिदि तक्कारणमिदि वुच्चदे ? ण एस दोसो, णाण-दंसणविणयकज्जविरोहिचरणविणवो ण होदि ति पटुप्पायणफलतादो ।

अथवा, शीलव्वदेसु गिरदिचारदाए चैव तित्थयरणाकम्मं वज्झइ । तं जहा—
हिंसालिय-चोच्चन्नंभ-परिग्गहेहिंतो विरदी वदं णाम । वदपरिरक्खणं' सीलं णाम । सुरावाण-मांसभक्खण-कोह माण-माया-लोह-हस्स-रइ-सोग-भय-दुगुंछित्थि-पुरिस-णत्तंसयवेयापरि-
च्चागो अदिचारो; एदेसिं विणासो गिरदिचारो संपुण्णेदो, तस्स भावो गिरदिचारदा' । तीए' शीलव्वदेसु गिरदिचारदाए तित्थयरकम्मस्स बंधो होदि । कधमेत्थ सेसपण्णरसण्णं संभवो ? ण, सम्मदंसणेण खण-लवपडिबुज्झण-लद्धिसंवेगसंपण्णत्त-साहुसमाहिसंधा-

खींचा गया पाया जाता है ।

शंका—यदि दो ही विनयोंसे तीर्थंकर नामकर्म बांधा जा सकता है, तो फिर चारित्रविनयको उसका कारण क्यों कहा जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, ज्ञान-दर्शनविनयके कार्यका विरोधी चारित्रविनय नहीं होता, इस बातको सूचित करनेके लिये चारित्रविनयको भी कारण मान लिया गया है ।

अथवा, शील-व्रतोंमें निरतिचारतासे ही तीर्थंकर नामकर्म बांधा जाता है । यह इस प्रकारसे—हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रहसे विरत होनेका नाम व्रत है । व्रतोंकी रक्षाको शील कहते हैं । सुरापान, मांसभक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद एवं नपुंसकवेद, इनके त्याग न करनेका नाम अतिचार और इनके विनाशका नाम निरतिचार या सम्पूर्णता है, इसके भावको निरतिचारता कहते हैं । शील-व्रतोंमें इस निरतिचारतासे तीर्थंकर कर्मका बन्ध होता है ।

शंका—इसमें शेष पन्द्रह भावनाओंकी सम्भावना कैसे हो सकती है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि क्षण-लघुप्रतिबुद्धता, लब्धि-संवेगसम्पन्नता,

१ अग्रतौ ' -परिवक्खण ' , आ-काप्रत्यो ' परिकखण ' इति पाठ ।

२ अहिंसादिषु व्रतसु तत्प्रतिपालनार्थेषु च क्रोधवर्जनादिषु शीलेषु निरवथा वृत्ति शील व्रतेष्वनतिचार । स. सि ६, २४ चारित्रविकल्पेषु शील-व्रतेषु निरवथा वृत्तिः शील-व्रतेष्वनतिचारः—अहिंसादिषु व्रतेषु × × निरवथा वृत्तिः काय-वाङ्-मनसा शील व्रतेष्वनतिचार इति कथ्यते । त रा ६, २४, ३. शीलानि च व्रतानि च शील व्रतम्, अत्रापि समाहारद्वन्द्वः, तस्मिन्, तत्र शीलानि उत्तरश्रुणा व्रतानि मूलश्रुणा. तेषु निरतिचार-सन् तीर्थंकरनामकर्म बन्धातीति विस्मययोग । प्रब पृ ८३

३ अग्रतौ ' गिरदिचारदीए ' , आ-काप्रत्यो. ' गिरदिचार तीए ' इति पाठ. ।

रण-वेजावच्चजोगञ्जुत्त-पासुअपरिच्चाग-अरहंत-बहुसुद-पवयणभत्ति-पवयणपहावणलक्खणसुद्धि-
 जुत्तेण विणा सीलव्वदाणमणदिचारत्तस्स अणुववत्तीदो । असंखेज्जगुणाए सेडीए कम्म-
 णिज्जरणहेदू वदं णाम । ण च सम्मत्तेण विणा हिंसालिय-चोज्जब्बंभपरिग्गहविरइमेत्तेण सा
 गुणसेडिणिज्जरा होदि, दोहिंतो चेवुप्पज्जमाणकज्जस्स तत्थेक्कादो समुप्पत्तिविरोहादो । होदु
 णाम एदेसिं संभवो, ण णाणविणयस्स ? ण, छदव्व-णवपदत्थसमूह-तिहुवणविसएण अभिक्खण-
 मभिक्खणमुवजोगविसयमापज्जमाणेण णाणविणएण विणा सीलव्वदणिबंधणसम्मत्तुप्पत्तीए
 अणुववत्तीदो । ण तत्थ चरणविणयाभावो वि, जह्वाथामतवावासयापरिहीणत्त-पवयणवच्छलत्त-
 लक्खणचरणविणएण विणा सीलव्वदणिरदिचारत्ताणुववत्तीदो । तम्हा' तदियमेदं तित्थयर-
 णामकम्मबंधस्स कारणं ।

आवासएसु अपरिहीणदाए— समदा-थर्व-वंदण-यडिक्कमण-पच्चक्खाण-विओसग्गभेएण

..

साधुसमाधिधारण, वैयाव्रत्ययोगयुक्तता, मासुकपरित्याग, अरहंतभक्ति, बहुश्रुतभक्ति,
 प्रवचनभक्ति और प्रवचनप्रभावना लक्षण शुद्धिसे युक्त सम्यग्दर्शनके विना शील-व्रतोंकी
 निरतिचारता बन नहीं सकती । दूसरी बात यह है कि जो असंख्यात गुणित श्रेणीसे
 कर्मनिर्जराका कारण है वही व्रत है । और सम्यग्दर्शनके विना हिंसा, असत्य, चौर्य,
 अग्रह और परिग्रहसे विरत होने मात्रसे वह गुणश्रेणीनिर्जरा हो नहीं सकती, क्योंकि,
 दोनोंसे ही उत्पन्न होनेवाले कार्यकी उनमेंसे एकके द्वारा उत्पत्तिका विरोध है ।

शंका—इनकी सम्भावना यहां भले ही हो, पर ज्ञानविनयकी सम्भावना नहीं
 हो सकती ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि छह ब्रह्म, नौ पदार्थोंके समूह और त्रिभुवनको
 विषय करनेवाले एवं बार बार उपयोगविषयको प्राप्त होनेवाले ज्ञानविनयके विना शील-
 व्रतोंके कारणभूत सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं बन सकती ।

शील-व्रतविषयक निरतिचारतामें चारित्र्यविनयका भी अभाव नहीं कहा जासकता
 है, क्योंकि यथाशक्ति तप, आवश्यकपरिहीनता और प्रवचनवत्सलता लक्षण चारित्र्य-
 विनयके विना शील-व्रतविषयक निरतिचारताकी उपपत्ति ही नहीं बनती । इस कारण यह
 तीर्थकर नामकर्मके बन्धका तीसरा कारण है ।

आवश्यकोंमें अपरिहीनतासे ही तीर्थकर नामकर्म बंधता है— समता, स्तव,

छावासया हौति । सत्तु-मित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मट्टियासु^१ राग-देसाभावो समदा णाम^१ । तीदा-
णागद-वट्टमाणकालविसयपंचपरमेसराणं भेदमकाऊण णमो अरहंताणं णमो जिणाणमिच्चादिणमो-
क्कारो दव्वट्टियणिबंधणो थवो^२ णाम । उसहाजिय-संभवांहिणंदण-सुमइ-पउमप्पह-सुपास-
चंदप्पह-पुप्फदंत-सीयल-सेयंस-वासुपूज्ज-विमलाणंत-धम्म-संति-कुंथु-अर-मल्लि-मुणिसुव्वय-णमि-
णेमि-पास-वट्टमाणदितित्थयराणं भरहादिकेवलीणं आइरिय-चइत्ताल्यादीणं भेयं काऊण
णमोक्कारो गुणगयभेदमल्लीणो^३ सद्कलावाउलो गुणाणुसरणसरूवो वा वंदणा^४ णाम । पंच-
महव्वएसु चउरासीदिलक्खणुगणणं कलिएसु ससुप्पण्णकलंकपक्खालणं पडिक्कमणं^५ णाम ।

वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्गके भेदसे छह आवश्यक होते हैं । शत्रु-मित्र,
मणि-पाषाण और सुवर्ण-सूक्तिकामें राग-द्वेषके अभावको समता कहते हैं । अतीत,
अनागत और वर्तमान काल विषयक पांच परमोष्ठियोंके भेदको न करके 'अरहन्तोंको
नमस्कार, जिनोंको नमस्कार' इत्यादि द्रव्यार्थकनिवन्धन नमस्कारका नाम स्तव है ।
श्रुप्रभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त,
शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत,
नमि, नेमि, पार्श्व और वर्धमानादि तीर्थंकर तथा भरतादिके केवली, आचार्य एवं चैत्यालया-
दिकोंके भेदको करके अथवा गुणगत भेदके आश्रित, शब्दकलापसे व्याप्त गुणानु-
स्मरण रूप नमस्कार करनेको वन्दना कहते हैं । चौरासी लाख गुणोंके समूहसे संयुक्त
पांच महाव्रतोंमें उत्पन्न हुए मलको धोनेका नाम प्रतिक्रमण है । महाव्रतोंके विनाश व

१ समदा थवो य वदण पडिक्कमण तहेव णादव्व । पच्चक्खाण तिसगो करणीया वासया छप्पि ॥
मूला २२ सामाइय चउवीसत्थव वदणय पडिक्कमण । पच्चक्खाण च तहा काओसगो हवदि छट्ठो ॥ मूला.
७, १५. वडावस्यकक्रिया— सामायिक चतुर्विंशतित्तव वदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सर्गथेति । त रा.
६, २४, ११ से किं त आवस्सय ? आवस्सय छव्विह पण्णत्त, त जहा— सामाइय चउवीसत्थवो वदणय पडि-
क्कमण काउस्सगो पच्चक्खाण से त आवस्सय । नन्दीव्व ४४

२ अप्रतौ 'पडियासु', आ-काप्रत्यो 'मडियासु' इति पाठ ।

३ निविद-मरणे लःमालासे सजोष-विष्पजोगे य । बजुरि-सइ-इक्खालिइ समदा सामाइय णाम ॥
मूला २३ तत्र सामायिक सर्वसावधयोगानिवृत्तिलक्षण चित्तस्यैकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम् । त रा ६, २४, ११.

४ उसहादिजिणवराण णामणिरुत्ति गुणाणुकिंति च । काऊण अच्चिदूण य तिसुद्धिपणमो थवो णेओ ॥
मूला. २४. चतुर्विंशतित्तव तीर्थंकरगुणाहुकीर्तनम् । त रा ६, २४, ११

५ अप्रतौ 'गुणगणभेदमल्लीणो', आ काप्रत्यो 'गुणगयभेदमल्लीणो' इति पाठ ।

६ अरहत-सिद्धपडिमा-तव-सुद-गुण-गुरूण रादीण । किदियम्मोणिदरेण य तियरणसकोचण पणमो ॥
मूला २५. वदना त्रिशुद्धि द्वासासना चतु शिरोव्रतनि द्वादशवर्तना । त. रा. ६, २४, ११

७ प्रतिपु 'लक्खणगुणगण-' इति पाठ ।

८ दव्वे खेते काले मावे य कयावराहसीहणय । णिंदण-गरहणहुतो मण वच-कायेण पडिक्कमण ॥
मूला. २६. अतीतदोषनिवर्तनम् प्रतिक्रमणम् । त. रा. ६, २४, ११.

महव्वयाणं विणासण-मलरोहणकारणाणि जहा ण होसति तहा करेमि त्ति मणेणालोचिय चउ-
रासीदिलक्खवदसुद्धिपडिग्गहो पच्चक्खाणं^१ णाम । सरिराहारेसु^२ हु मण-वयण-पवुत्तीओ
ओसारिय ज्जेयम्भि एअग्गेण चित्ताणिरोहो विओसग्गो^३ णाम । एदेसिं छण्णमावासयाणं
अपरिहीणदा अखंडदा आवासयापरिहीणदा । तीए आवासयापरिहीणदाए एक्काए वि
तित्थयरणामकम्मस्स बंधो होदि । ण च एत्थ सेसकारणामभावो, ण च दंसणविसुद्धि-
विणयसंपत्ति-वदसीलणिरदिचार-खणलवपडिबोह लद्धिसंवेगसंपत्ति-जहाथामतव-साहुसमाहिंसंधा-
रण-वेज्जावच्चजोग-पासुअपरिच्चागारहंत-चहुसुद-पवयणभत्ति-पवयणवच्छल-प्पहावणाभिकखण-
णाणोवजोगजुत्तदाहि विणा छावासएसु णिरदिचारदा णाम संबवदि । तम्हा एदं तित्थयर-
णामकम्मबंधस्स चउत्थकारणं ।

खण-लवपडिबुज्झणदाए— खण-लवा णाम कालविसेसा । सम्मदंसण-णाण-वद-सील-
गुणाणमुज्जालणं कलंकपक्खालणं संधुक्खणं वा पडिबुज्झणं णाम, तस्स भावो पडिबुज्झणदा ।
खण लवं पडि पडिबुज्झणदा खण-लवपडिबुज्झणदा । तीए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मस्स

मलोत्पादनके कारण जिस प्रकार न होंगे वैसा करता हूँ, ऐसी मनसे आलोचना करके
चौरासी^१ लाख व्रतोंकी, शुद्धिके प्रतिग्रहका नाम प्रत्याख्यान है । शरीर व आहारमें मन एवं
वचनकी प्रवृत्तियोंको हटाकर ध्येय वस्तुकी ओर एकाग्रतासे चित्तका निरोध करनेको व्युत्सर्ग
कहते हैं । इन छह आवश्यकताओं अपरिहीनता अर्थात् अखण्डताका नाम आवश्यकपरि-
हीनता है । उस एक ही आवश्यकतापरिहीनतासे तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध होता है । इसमें
शेष कारणोंका अभाव भी नहीं है, क्योंकि दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पत्ति, व्रत-शीलनिरति-
चारता, क्षण-लवप्रतिबोध, लब्धि-संवेगसम्पत्ति, यथाशक्ति तप, साधुसमाधिसंधारण,
वैयावृत्ययोग, प्राप्तिकपरित्याग, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता,
प्रवचनप्रभावना और अभीक्षण ज्ञानोपयोगयुक्तता, इनके बिना छह आवश्यकताओंमें निरति-
चारता सम्भव ही नहीं है । इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका चतुर्थ कारण है ।

क्षण-लवप्रतिबुद्धतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— क्षण और लव ये कालविशेषके
नाम हैं । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत और शील गुणोंको उज्ज्वल करने, मलको धोने अथवा
जलानेका नाम प्रतिबोधन और इसके भावका नाम प्रतिबोधनता है । प्रत्येक क्षण व लवमें
होनेवाले प्रतिबोधको क्षण-लवप्रतिबुद्धता कहा जाता है । उस एक ही क्षण-लवप्रतिबुद्धतासे

^१ णामादीणं षण्ह अजोगपरिज्जण तियरणेण । पच्चक्खाण णेय अणागय चाग्गे काले ॥ मूला. २७.
अनागतदोषापोहन प्रत्याख्यानम् । त रा. ६, २४, ११.

^२ प्रतिबु ' सरिराहारसु ' इति पाठ ।

^३ देवस्सियणियमादिसु बहुत्तमाणेण उच्चकलम्हि । जिणगुणचित्तणद्धतो काउत्सग्गो तण्विसग्गो ॥
मूला. २८. परिमितकालविषया शरीरे ममत्वनिवृत्ति. कायोत्सर्ग. । त. रा. ६, २४, ११.

बंधो । एत्थ वि पुच्चं व सेसकारणाणमंतम्भावो दरिसेदच्चो । तदो एदं तित्थयरणामकम्म-
बंधस्स पंचमं कारणं ।

लद्धिसंवेगसंपण्णदाए— सम्मद्दंसण-णाण-चरणेसु जीवस्स समागमो लद्धी णाम ।
हरिसो संतो संवेगो णाम । लद्धीए संवेगो लद्धिसंवेगो, तस्स संपण्णदा संपत्ती । तीए तित्थयर-
णामकम्मस्स एक्काए वि बंधो । कथं लद्धिसंवेगसंपयाए सेसकारणाणं संभवो ? ण सेस-
कारणेहि विणा लद्धिसंवेगस्स संपया जुज्जदे, विरोहादो । लद्धिसंवेगो णाम तिरयणदोहलओ,
ण सो दंसणविसुज्जदादीहिं विणा संपुण्णो होदि, विप्पडिसेहादो हिरण्ण-सुवण्णादीहिं विणा
अङ्को' व्व । तदो अप्पणो अंतोखित्तसेसकारणा लद्धिसंवेगसंपया छट्टं कारणं ।

जहाथामे तहा तवे— बलो वीरियं थामो इदि एयट्ठो । तवो दुविहो बाहिरो अब्भं-
तरो चेदि । बाहिरो अणसणादिओ, अब्भंतरो विणयादिओ । एसो सच्चो वि तवो वारसविहो ।
जहाथामे तहा तवे संते तित्थयरणामकम्मं बज्जइ । कुदो ? जहाथामतवे सयलसेसतित्थयर-

तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध होता है । इसमें भी पूर्वके समान शेष कारणोंका अन्तर्भाव
दिखलाना चाहिये । इसीलिये यह तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका पांचवां कारण है ।

लब्धिसंवेगसम्पन्नतासे तीर्थंकर कर्मका बन्ध होता है— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्यमें जो जीवका समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं; और हर्ष व
सात्त्विक भावका नाम संवेग है । लब्धिसे या लब्धिमें संवेगका नाम लब्धिसंवेग और
उसकी सम्पन्नताका अर्थ संग्रामि है । इस एक ही लब्धिसंवेगसम्पन्नतासे तीर्थंकर
नामकर्मका बन्ध होता है ।

शंका—लब्धिसंवेगसम्पन्नामें शेष कारणोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान—क्योंकि, शेष कारणोंके बिना विरुद्ध होनेसे लब्धिसंवेगकी सम्पदाका
संयोग ही नहीं होसकता । इसका कारण यह कि रत्नत्रयजनित हर्षका नाम लब्धिसंवेग है ।
और वह दर्शनविशुद्धतादिकोंके बिना सम्पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि, इसमें हिरण्य-सुवर्णा-
दिकोंके बिना धनाढ्य होनेके समान विरोध है । अत एव शेष कारणोंको अपने अन्तर्गत
करनेवाली लब्धिसंवेगसम्पदा तीर्थंकर कर्मबन्धका छटा कारण है ।

शक्यनुसार तपसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— बल, वीर्य और धाम (स्थामन्)
ये समानार्थक शब्द हैं । तप दो प्रकार है— बाह्य और आभ्यन्तर । इनमें अनशनदिकका
नाम बाह्य तप और विनयादिकका नाम आभ्यन्तर तप है । छह बाह्य एवं छह आभ्यन्तर
इस प्रकार मिलकर यह सब तप बारह प्रकार है । जैसा बल हो वैसा तप करनेपर तीर्थंकर
नामकर्म बंधता है । इसका कारण यह है कि यथाशक्ति तपमें तीर्थंकर नामकर्मके बन्धके

कारणाणं संभवदो, जदो जहाथामो णाम ओघवलस्स धीरस्स' णाणदंसणकलिदस्स होदि । ण च तत्थ दंसणविसुञ्जदादीणमभावो, तहा तवंतस्स अण्णहाणुववत्तीदो । तदो एदं सत्तमं कारणं ।

साहूणं पासुअपरिच्चागदाए— अणंतणण-दंसण-चीरिय-विरइ-खइयसम्मत्तादीणं साहया साहू णाम । पगदा ओसरिदा आसवा जम्हा तं पासुअं, अघवा जं णिरवज्जं तं पासुअं । किं ? णाण-दंसण-चरित्तादि । तस्स परिच्चागो विसज्जणं, तस्स भावो पासुअपरिच्चागदा । दयाबुद्धीए साहूणं णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो दाणं पासुअपरिच्चागदा णाम । ण चेदं कारणं घरत्थेसु संभवदि, तत्थ चरित्ताभावादो । तिरयणोवेदसो वि ण घरत्थेसु अत्थि, तेसिं दिड्ढिवादादिउवरिमसुत्तोवदेसणे अहियाराभावादो । तदो एदं कारणं महिसिणं चेव होदि । ण च एत्थ सेसकारणाणमसंभवो । ण च अरहंतादिसु अभत्तिमंते णवपदत्थविसयसहहणेणुम्युक्के सादिचारसीलव्वदे परिहीणावासए णिरवज्जो णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादो । तदो एदमइमं कारणं ।

सभी शेष कारण सम्भव हैं, क्योंकि, यथाथाम तप ज्ञान-दर्शनसे युक्त सामान्य बलवान् और धीर व्यक्तिके होता है, और इसलिये उसमें दर्शनविशुद्धतादिकोंका अभाव नहीं होसकता, क्योंकि, पेसा होनेपर यथाथाम तप वन नहीं सकता । इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्मबन्धका सातवां कारण है ।

साधुओंके द्वारा विहित प्रासुक अर्थात् निरवद्य ज्ञान-दर्शनादिकके त्यागसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, विरति और क्षायिक सम्यक्त्वादि गुणोंके जो साधक हैं वे साधु कहलाते हैं । जिससे आस्रव दूर हो गये हैं उसका नाम प्रासुक है, अथवा जो निरवद्य है उसका नाम प्रासुक है । वह ज्ञान, दर्शन व चारित्र्यादिक ही तो सकते हैं । उनके परित्याग अर्थात् विरतर्जन करनेको प्रासुकपरित्याग और इसके भावको प्रासुकपरित्यागता कहते हैं । अर्थात् दयाबुद्धिसे साधुओं द्वारा किये जानेवाले ज्ञान, दर्शन व चारित्र्यके परित्याग या दानका नाम प्रासुकपरित्यागता है । यह कारण गृहस्थोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि, उनमें चारित्र्यका अभाव है । रत्नत्रयका उपदेश भी गृहस्थोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि, इष्टिवादादिक उपरिम श्रुतके उपदेश देनेमें उनका अधिकार नहीं है । अत एव यह कारण महर्षियोंके ही होता है । इसमें शेष कारणोंकी असंभवावना नहीं है, क्योंकि अरहन्तादिकोंमें भक्तिसे रहित, नौ पदार्थविषयक श्रद्धानसे उन्मुक्त, सातिचार शील-व्रतोंसे सहित और आवश्यकोकी हीनतासे संयुक्त होनेपर निरवद्य ज्ञान, दर्शन व चारित्र्यका परित्याग विरोध होनेसे सम्भव ही नहीं है । इसी कारण यह तीर्थंकर नामकर्म बन्धका आठवां कारण है ।

साहूणं समाहिसंधारणदाए— दंसण-णाण-चरित्तिसु सम्मसवड्डाणं समाही णाम । सम्मं साहूणं धारणं संधारणं । समाहीए संधारणं समाहिसंधारणं, तस्स भावो समाहिसंधारणदा । ताए तित्थयरणामकम्मं बज्झदि त्ति । केण वि कारणेण पदंतिं समाहिं दड्डुण सम्मादिट्ठी पवयण-वच्छलो पवयणप्पहावओ विणयसंपण्णो सील-वदादिचारवज्जिओ अरहंतादिसु भत्तो संतो जदि धरोदि तं समाहिसंधारणं । कुदो एदसुवलम्भदे ? सं-सहपउंजणादो । तेण बज्झदि त्ति वुत्तं होदि । ण च एत्थ सेसकारणाणमभावो, तदत्थित्तस्स दरिसिदत्तादो । एवमेदं णवमं कारणं ।

साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए— व्यापृते यत्क्रियते तद्वैद्यावृत्यम् । जेण सम्मत्त-णाण-अरहंत-बहुसुदभत्ति-पवयणवच्छलादिणा जीवो जुज्जइ वेज्जावच्चे सो वेज्जावच्चजोगो दंसण-विसुज्झदादि, तेण जुत्तदा वेज्जावच्चजोगजुत्तदा । ताए एवंविहाए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मं बंधइ । एत्थ सेसकारणाणं जहासंभवेण अंतम्भावो वत्तव्वो । एवमेदं

साधुओंकी समाधिसंधारणतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— दर्शन, ज्ञान व चारित्र्यमें सम्यक् अवस्थानका नाम समाधि है । सम्यक् प्रकारसे धारण या साधनका नाम संधारण है । समाधिका संधारण समाधिसंधारण और उसके भावका नाम समाधिसंधारणता है । उससे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है । किसी भी कारणसे गिरती हुई समाधिको देखकर सम्यग्दृष्टि, प्रवचनवत्सल, प्रवचनप्रभावक, विनयसम्पन्न, शील व्रता-तिचारवर्जित और अरहंतादिकोंमें भक्तिमान् होकर चूंकि उसे धारण करता है इसीलिये वह समाधिसंधारण है ।

शंका—यह कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान—यह 'संधारण' पदमें किये गये 'सं' शब्दके प्रयोगसे जाना जाता है ।

इस समाधिसंधारणसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, यह अभिप्राय है । इसमें शेष कारणोंका अभाव नहीं है, क्योंकि, उनका अस्तित्व वहाँ दिखला ही चुके हैं । इस प्रकार यह नौवां कारण है ।

साधुओंकी वैद्याव्रत्ययोगयुक्ततासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— व्यापृत अर्थात् रोगादिसे व्याकुल साधुके विषयमें जो किया जाता है उसका नाम वैद्यावृत्य है । जिस सम्यक्त्व, ज्ञान, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति एवं प्रवचनवत्सलत्वादिसे जीव वैद्याव्रत्यमें लगता है वह वैद्याव्रत्ययोग अर्थात् दर्शनविशुद्धतादि गुण है, उनसे संयुक्त होनेका नाम वैद्याव्रत्ययोगयुक्तता है । इस प्रकारकी उस एक ही वैद्याव्रत्ययोग-युक्ततासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है । यहाँ शेष कारणोंका यथासम्भव अन्तर्भाव कहना

१ प्रतिपु 'सीउवदादि' इति पाठ ।

२ आ-काप्रत्यो 'पउजणादारेण वच्चादि' इति पाठ ।

दसमं कारणं ।

अरहंतभतीए— खविदवादिकम्मा केवलणणिण डिदसञ्चडा अरहंता णाम । अधवा, णिडुविदडुक्कम्माणं धाइदवादिकम्माणं च अरहंतेति सण्णा, अरिहणणं पडि दोण्हं भेदा-भावादो । तेसु भती अरहंतभती । ताए तित्थयरकम्मं वज्झइ । कथमेत्थ सेसकारणाणं संभवो ? बुच्चदे— अरहंतवुत्ताणुड्डाणाणुवत्तणं तदणुड्डाणपासो वा अरहंतभती णाम । ण च एसा दंसणविसुच्चदादीहि विणा संभवइ, विरोहादो । तदो एसा एक्कारसमं कारणं ।

बहुसुदभतीए— वारसंगपारया बहुसुदा णाम, तेसु भती-तेहि वक्खाणिद-आगमत्थाणुवत्तणं तदणुड्डाणपासो वा- बहुसुदभती । ताए वि तित्थयरणागमकम्मं वज्झइ, दंसणविसुच्चदादीहि विणा एदिस्से असंभावो । एदं वारसमं कारणं ।

चाहिये । इस प्रकार यह दशवां कारण है ।

अरहन्तभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है- जिन्होंने घातियाकर्मोंको नष्ट कर केवल-ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंको देख लिया है वे अरहन्त हैं । अथवा, आठों कर्मोंको दूर करदेनेवाले और घातिया कर्मोंको नष्ट करदेनेवालोंका नाम अरहन्त हैं, क्योंकि कर्म-शत्रुके विनाशके प्रति दोनोंमें कोई भेद नहीं है । (अर्थात् 'अरहन्त' शब्दका अर्थ चूंकि 'कर्म-शत्रुको नष्ट करनेवाला' है, अत एव जिस प्रकार चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर देनेवाले सयोगी और अयोगी जिन 'अरहन्त' शब्दके वाच्य हैं उसी प्रकार आठों कर्मोंको नष्ट कर देनेवाले सिद्ध भी 'अरहन्त' शब्दके वाच्य होसकते हैं, क्योंकि, निरुपत्यर्थकी अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है ।) उन अरहन्तोंमें जो गुणानुरागरूप भक्ति होती है वही अरहन्तभक्ति कहलाती है । इस अरहन्तभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है ।

शंका—इसमें शेष कारणोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान—इस शंकाका उत्तर देते हैं कि अरहन्तके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठानके अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठानके स्पर्शको अरहन्तभक्ति कहते हैं । और यह दर्शनविशुद्धतादिकोंके विना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है । अतएव यह तीर्थंकर कर्मबन्धका ग्यारहवां कारण है ।

बहुश्रुतभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— जो बारह अंगोंके पारंगामी हैं वे बहुश्रुत कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थके अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठानके स्पर्श करनेको बहुश्रुतभक्ति कहते हैं । उससे भी तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, यह भी दर्शनविशुद्धतादिक शेष कारणोंके विना सम्भव नहीं है । यह तीर्थंकर नामकर्मबन्धका बारहवां कारण है ।

पवयणभतीए— सिद्धंतो वारहंगाणि पवयणं, प्रकृष्टं प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनमिति व्युत्पत्तेः । तस्मिन् भती तत्थ पट्टापादिदत्थाणुट्टाणं । ण च अण्णहा तत्थ भती संबवह, असंपुण्णे संपुण्णववहारविरोहादो । तीए तित्थयरणामकम्मं वज्झइ । एत्थ सेसकारणाणमंतम्भावो वत्तव्वो । एवमेदं तेरसमं कारणं ।

पवयणवच्छलदाए— पवयणं सिद्धंतो वारहंगाइं, तत्थ भवा देस-महव्वइणो असंजद-सम्माइट्टिणो च पवयणा । कुदो एत्थ आकारस्स अस्तवणं ? 'एए छच्च समाणा' ति सुत्तेण आदिवुक्किए कयअकारत्तादो । तेसु अणुगगो आकंखा ममेदंभावो पवयणवच्छलदा णाम । तीए तित्थयरकम्मं वज्झइ । कुदो ? पंचमहव्वदादिआगमत्थविसयस्सुककडाणुरागस्स दंसणविसुज्झदादीहि अविणाभावादो । तेणेदं चोदसमं कारणं ।

प्रवचनभक्तिसे तीर्थकर नामकर्म बंधना है— सिद्धान्त या वारह अंगोंका नाम प्रवचन है, क्योंकि, 'प्रकृष्ट वचन प्रवचन, या प्रकृष्ट (सर्वथा) के वचन प्रवचन हैं' ऐसी व्युत्पत्ति है । उस प्रवचनमें कहे हुए अर्थका अनुष्ठान करना, यह प्रवचनमें भक्ति कही जाती है । इसके बिना अन्य प्रकारसे प्रवचनमें भक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि, असम्पूर्णमें सम्पूर्णके व्यवहारका विरोध है । इस प्रवचनभक्तिसे तीर्थकर नामकर्म बंधना है । इसमें शेष कारणोंका अन्तर्भाव कहना चाहिये । इस प्रकार यह तेरहवां कारण है ।

प्रवचनवत्सलतासे तीर्थकर नामकर्म बंधना है— सिद्धान्त या वारह अंगोंका नाम प्रवचन है; इसमें होनेवाले देशव्रती, महाव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टि प्रवचन कहे जाते हैं ।

शंका—इसमें आकारका श्रयण क्यों नहीं होता, अर्थात् 'प्रवचनमें होनेवाले' इस विग्रहके अनुसार 'प्रवचन' होना चाहिये, न कि 'प्रवचन' ?

समाधान—'अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ये छह स्वर और ए, ओ, ये दो सन्ध्यक्षर, इस प्रकार ये आठों स्वर अविरोध भावसे एक दूसरेके स्थानमें आदेशको प्राप्त होते हैं' । इस सूत्रसे आदि वृद्धिरूप आ के स्थानपर अ का आदेश हो गया है ।

उन प्रवचनों अर्थात् देशव्रती, महाव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें जो अनुराग, आकांक्षा अथवा 'ममेदं' बुद्धि होती है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है । उससे तीर्थकर कर्म बंधता है । इसका कारण यह है कि पांच महाव्रतादिरूप आगमार्थविषयक उत्कृष्ट अनुरागका दर्शनविशुद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है, अर्थात् उक्त प्रकार प्रवचनवत्सलता दर्शनविशुद्धतादि शेष गुणोंके बिना नहीं बन सकती । इसीलिये यह चौदहवां कारण है ।

१ प्रवचन द्वादशाह तदुपयोगानन्यतात्सयो वा प्रवचनम् । प्रव. पृ. ८२.

२ एए छच्च समाणा दोष्णि अ सच्चक्खरा सरा अट्ट । अण्णोणस्सविरोहा उवेति सव्वे समाएस । कसायपाहुड १, पृ. ३२६.

पवयणप्यहावणदाए— आगमइस्स पवयणमिदि सण्णा । तस्स पंहावणं णाम वणणज्जणं तच्चुद्धिकरणं च, तस्स भावो पवयणप्यहावणदा । तीए तित्थयरकम्मं वज्झइ, उक्कपडुपवयणप्यहावणस्स दंसणविसुज्झदादीहि अविणाभावादो । तेणेदं पण्णरसंमं कारणं ।

अभिकखणमभिकखणं णाणोवजोगल्लुत्तदाए— अभिकखणमभिकखणं णाम बहुवारमिदि भणिदं होदि । णाणोवजोगो ति भावसुदं दच्चमुदं वावेक्खदे । तेसु मुहुम्मुहुल्लुत्तदाए तित्थयरणामकम्मं वज्झइ, दंसणविसुज्झदादीहि विणा एदिस्से अणुववत्तीदो । एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामकम्मं बंधंति । अथवा, सम्मदंसणे संते सेसकारणाणं मज्जे एंगदुगादिसंजोणेण वज्झदि' ति वत्तत्वं ।

जस्स इणं तित्थयरणामगोदकम्मस्स उदाएण सदेवासुरमाणुसस्स लोकस्स अच्चणिज्जा वंदणिज्जा णमंसणिज्जा णेदारा धम्म-तित्थयरा जिणा केवलिणो हवंति ॥ ४२ ॥

प्रवचनप्रभावनासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— आगमार्थका नाम प्रवचन है, उसके वर्णजनन अर्थात् कीर्तिविस्तार या वृद्धि करनेको प्रवचनकी प्रभावना और उसके भावको प्रवचनप्रभावना कहते हैं । उससे तीर्थंकर कर्म बंधता है, क्योंकि, उत्कृष्ट प्रवचनप्रभावनाका दर्शनविशुद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है । इसीलिये यह पन्द्रहवां कारण है ।

अभीक्ष्ण-अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगयुक्ततासे तीर्थंकर कर्म बंधता है— अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णका अर्थ 'बहुत बार' है । ज्ञानोपयोगसे भावश्रुत अथवा द्रव्यश्रुतकी अपेक्षा है । उन (भाव व द्रव्य श्रुत) में बार बार उद्युक्त रहनेसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, दर्शनविशुद्धतादिकोंके बिना यह अभीक्ष्ण-अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगयुक्तता घन नहीं सकती ।

इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थंकर नामकर्मको वांचते हैं । अथवा, सम्यग्दर्शनके होनेपर शेष कारणोंमेंसे एक दो आदि कारणोंके संयोगसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, ऐसा कहना चाहिये ।

जिन जीवोंके तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मका उदय होता है वे उसके उदयसे देव, असुर और मनुष्य लोकके अर्चनीय, वंदनीय, नमस्करणीय, नेता, धर्म-तीर्थके कर्ता जिन व केवली होते हैं ॥ ४२ ॥

१ तान्येतानि षोडशकारणानि सन्ध्याव्ययानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीर्थंकरनामकर्मनिवकारणानि प्रलैतव्यानि । सं. सि ६, २४. त. सं. ६, २४, १३. तीर्थंकरनामकर्मणि षोडश तत्कारणान्यभूयनिष्ठम् । व्यस्तानि समस्तानि च सवन्ति सद्भाव्यामानानि ॥ ह. पु ३४, १४९. एते गुणा समस्ता व्यस्ता वा तीर्थंकरान्म आस्रवी भवन्तीति । त. सू. मान्य ६, २३.

तित्थयरणामगोदकम्मस्सेत्ति एत्थ ' उदओ तेणेत्ति ' दोणं पदाणमज्झाहारे कायव्वो, अण्णहा अत्थाणुवलंभादो । जस्स जेसिं जीवाणं इणं एदस्स तित्थयरणामगोदकम्मस्स उदओ तेण उदएण सदेवासुर-माणुसस्स लेगस्स अच्चणिज्जा त्ति संवंधो कायव्वो । चरु-त्रलि-पुण्फ-फल-गंध-धूप-दीवादीहि सगभत्तिपगासो अच्चणा णाम । एदहि सह अइंदधय-कप्परुक्ख-महामह-सव्वदोभद्दादिमहिमाविहाणं पूजा णाम । तुहुं णिट्ठिवियट्ठकम्मो केवलणाणेण दिट्ठसव्वट्ठो धम्ममुहसिद्धगोटीए पुट्टाभयदानो सिट्ठपरिपालओ दुट्ठणिग्रहकरो देव त्ति पसंसा वंदणा णाम । पंचहि मुट्ठीहि जिणिंदचलणेसु णिवदणं णमंसणं । धम्मो णाम सम्महंसण-णाण-चरित्ताणि' । एदेहि संसार-सायरं तरंति त्ति एदाणि तित्थं । एदस्म धम्म-तित्थस्स कत्तारा जिणा केवल्लिणो णेदारा च भवंति ।

एवमोघाणुगमो समत्तो ।

सूत्रमें ' तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मका ' यहां ' उदय ' और ' उससे ' इन दो पदोंका अध्याहार करना चाहिये, अन्यथा अर्थकी उपलब्धि नहीं होती । जिसके अर्थात् जिन जीवोंके, यह अर्थात् इस तीर्थंकर नाम गोत्रकर्मका उदय होता है वे उसके उदयसे देव, असुर एवं मनुष्योंसे परिपूर्ण लोकके अर्चनीय होते हैं, ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये । चरु, बलि, पुष्प, फल, गन्ध, धूप और दीप आदिकोंसे अपनी भक्ति प्रकाशित करनेका नाम अर्चना है । इनके साथ पेन्द्रध्वज, कल्पवृक्ष, महामह और सर्वतोभद्र, इत्यादि महिमा-विधानको पूजा कहते हैं । आप अष्ट कर्मोंको नष्ट करनेवाले, केवलबानसे समस्त पदार्थोंको देखनेवाले, धर्मोन्मुख शिष्टोंकी गोष्ठीमें अभयदान देनेवाले, शिष्टपरिपालक और दुष्टनिग्रह-कारी देव हैं, ऐसी प्रशंसा करनेका नाम वन्दना है । पांच मुष्टियों अर्थात् अंगोंसे जिनेन्द्र देवके चरणोंमें गिरनेको नमस्कार कहते हैं । धर्मका अर्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है । चूंकि इनसे संसार-सागरको तरते हैं इसीलिये इन्हें तीर्थ कहा जाता है । इस धर्म-तीर्थके कर्ता जिन, केवली और नेता होते हैं ।

•इस प्रकार ओघानुगम समाप्त हुआ ।

१ सद्वृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु । र आ ३

२ जं नाण-दसण-चरित्तमावओ तत्त्विवक्खमावाओ । भवमावओ य तारेह तेण त्ता भावओ तित्थ ॥
निशेधा. १०३८.

आदेसेण गदियाणुवादेण गिरयगदीए णेरइएसु पंचणाणावरण-
छंदसणावरण-सादासाद-चारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-
भय-दुगुंछा-मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-
समचउरससंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहसंधडण-वण्ण-गंध-
रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बि-अगुरुलहुग-उवघाद-परघाद-
उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा-
सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-
पंचंतराइयाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ ४३ ॥

एदं देसामासियपुच्छासुत्तं, तेणेदेण सूइदसच्चपुच्छओ एत्थ वत्तव्वाओ । एवं
पुच्छिसिस्सणिच्छयजणणइमुत्तरसुत्तं भणदि—

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । एदे बंधा,
अबंधा णत्थि ॥ ४४ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्तद्वाणाणं चेव परूवणादो । तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणं

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारकियोंमें पांच ज्ञानावरण, छह
दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक,
भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तैजस व कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
औदारिकशरीरान्गोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,
अगुरुअलक्षुक, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक-
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण,
उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इन कर्मोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ४३ ॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसी कारण इसके द्वारा सूचित सब पृच्छाओंको
यहां कहना चाहिये । इस प्रकार पृच्छायुक्त शिष्यके निश्चयजननार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर असंयतसम्प्यदृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक
नहीं हैं ॥ ४४ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि, वह बन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका ही निरूपण
करता है । इसी कारण इसके द्वारा सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं— पांच ज्ञानावरणीय,

कस्सामो—पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-चारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-वादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं एदेसि-मेत्थ बंधोदयवोच्छेदे। पत्थि, विरोहाभावादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-ओरालियसरीर-समचउरस-संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चि-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्वर-आदेज्ज-जसकित्ति-उच्चगोदाणमुदओ एत्थ पत्थि चेव, विरोहादे। तम्हा एत्थ एदासु पयडीसु बंधोदयवोच्छेदाणं पुव्वापुव्वविचारो पत्थि ।

पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-वादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुभासुभ-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । णिद्दा-पयला-सादासाद-चारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाओ सोदय परो-दएहि वज्झंति, सव्वगुणइणेसु परावत्तणोदयादे। उवघादं मिच्छाइडि असंजदसम्मादिट्ठीसु सोदय-परोदएहि वज्झइ, विग्गहगादीए उदयाभावादो । सासणसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठीसु सोदएण वज्झइ, तेसिं तत्थ उप्पत्तीए अभावादो । परवादुस्सास-पत्तेयसरीराणि मिच्छाइडि-

छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चारह कपाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनके बन्ध और उदयका यहां व्युच्छेद नहीं होता, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है अर्थात् इनका बन्धोदयव्युच्छेद यथासम्भव उन उपरिम गुणस्थानोंमें होता है जो नरकगतिमें सम्भव नहीं हैं। पुरुषवेद, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपर्मसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इन कर्मोंका उदय यहां है ही नहीं, क्योंकि, नाराकियोंमें इनके उदयका विरोध है। इसलिये यहां इन प्रकृतियोंमें बन्धव्युच्छेद और उदयव्युच्छेदका पूर्वापरताका विचार नहीं है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, चारह कपाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, इनका सब गुणस्थानोंमें परिवर्तित उदय रहता है। उपघात प्रकृति मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदयसे बंधती है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इसका उदय नहीं रहता। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-दृष्टि मुणस्थानोंमें यही प्रकृति स्वोदयसे बंधती है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंकी नाराकियोंमें उत्पत्ति नहीं है। परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीर

असंजदसम्मादिडीसु सोदय-परोदएहि वज्जति, अपज्जत्तकाले एदेसिसुदयाभावादे । णवरि पत्तेयसरीरस्स उवघादबंधो, विग्गह्गदीए चेव उदयाभावादे । सेसेसु दोसु सोदएणेव एदासिं बंधो, तेसिं तत्थ अपज्जत्तकालाभावादे । पुरिसवेद-मणुसगइ-ओरालियसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघण-मणुसगइपाओग्गाणुण्वि-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकिति-उच्चागोदाणं चदुसु गुणङ्गणेसु परोदएणव बंधो, गिरएसु एदासिसुदय-विरोहादे ।

पंचणाणावरणीय-छंदसणावरणीय-वारसकसाय-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुगलहुग-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण पंचंतराइयाणं गिरंतरो बंधो, गिरयगइमिह गिरंतर-बंधितादे । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसकिति-अजसकितिणं सांतरो बंधो, सव्वगुणङ्गणेसु-पडिवक्खपयडीए बंधुवलंभादे । पुरिसवेद-मणुसगइ-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-मणुसगइपाओग्गाणुण्वि-उच्चागोदाणं मिच्छादिद्धि-सासणसम्मादिडीसु सांतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधुवलंभादे । णवरि मणुसगइ-

प्रकृतियां मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनका उदय नहीं रहता । विशेष इतना है कि प्रत्येकशरीरका बन्ध उपघातके समान है, क्योंकि, केवल विग्रहगतिमें ही उसका उदय नहीं रहता । शेष दो गुणस्थानोंमें स्वोदयसे ही इनका बन्ध होता है, क्योंकि, शेष दोनों गुणस्थान नारकियोंके अपर्याप्त-कालमें होते नहीं हैं । पुरुषवेद, मनुष्यगति, औद्धारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औद्धारिकशरीरांगोपांग, वज्रपंभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोभ्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका चारों गुणस्थानोंमें परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, नारकियोंमें इनके उदयका विरोध है ।

पांच हानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय-जाति, औद्धारिक तैजस व कार्मण शरीर, औद्धारिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुक्षु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निगन्तर बन्ध है, क्योंकि, ये प्रकृतियां नरकगतिमें निरन्तर बंधती हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध है, क्योंकि, सर्व गुणस्थानोंमें इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपंभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, मनुष्यगतिप्रायोभ्यानुपूर्वी-और उच्चगोत्र, इनका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । विशेषता इतनी है कि तीर्थंकर

मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चीणं मिच्छादिट्ठिम्हि तित्थयरसंतकम्मियम्मि णिरतरो वि बंधो लब्भदि ।
सम्माभिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु णिरंतरो बंधो, एदासिं पडिवक्कअपयडीणं बंधाभावादे ।

एदाओ पयडीओ बंधमाणमिच्छादिट्ठिस्स चत्तारि मूलपच्चया । णाणासमयउत्तरपच्चया
एक्कवंचास, ओरालिय-ओरालियमिस्स-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादे । एगसमयजहणुक्करसपच्चया
जहाकमेण दस अट्टारस । सासणस्स मूलपच्चया तिण्णि, मिच्छताभावादे । णाणासमयउत्तर-
पच्चया चउवेत्तालीस, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउच्चियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसपच्च-
याणमभावादे । एगसमयजहणुक्कस्सपच्चया जहाकमेण दस सत्तारस । सम्माभिच्छादिट्ठिस्स
मूलपच्चया तिण्णि, मिच्छताभावादे । णाणासमयउत्तरपच्चया चालीस, ओवेसु पच्चएसु
ओरालिय-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादे । एगसमयजहणुक्कस्सपच्चया जहाकमेण णव
सोलस । असंजदसम्मादिट्ठिस्स मूलपच्चया तिण्णि, मिच्छताभावादे । णाणासमयउत्तरपच्चया
चाएत्तालीस, ओघपच्चएसु ओरालिय-ओरालियमिस्स-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादे । एगसमय-
जहणुक्कस्सपच्चया जहाकमेण णव सोलस ।

प्रकृतिकी सत्ता रखनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवमें मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका
निरन्तर भी बन्ध पाया जाता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें
उक्त प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध
नहीं होता ।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि नारकी जीवके मूल प्रत्यय चारों होते हैं ।
नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय इक्यावन होते हैं, क्योंकि, उसके औदारिक, औदारिक-
मिश्र, खीवेद, और पुरुषवेद, इन चार प्रत्ययोंका अभाव है । एक समय सम्बन्धी जघन्य
और उत्कृष्ट प्रत्यय क्रमसे दश और अठारह होते हैं । सासादनसम्यग्दृष्टिके मूल प्रत्यय
तीन होते हैं, क्योंकि, उसके मिथ्यात्वका अभाव है । नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय
चवालीस होते हैं, क्योंकि, उसके औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिकामिश्र, कामेण, खीवेद
और पुरुषवेद, इन छह प्रत्ययोंका अभाव है । एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय
क्रमसे दश और सत्तरह होते हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टिके मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि,
उसके मिथ्यात्वका अभाव है । नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय चालीस होते हैं, क्योंकि,
ओघप्रत्ययोंमेंसे औदारिक, खीवेद और पुरुषवेद प्रत्यय नहीं होते । एक समय सम्बन्धी
जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रमसे नौ और सोलह होते हैं । असंयतसम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वका
अभाव होनेसे मूल प्रत्यय तीन होते हैं, व नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय चालीस होते
हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे औदारिक, औदारिकमिश्र, खीवेद और पुरुषवेद, इन चार
प्रत्ययोंका अभाव है । एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय यथाक्रमसे नौ और
सोलह होते हैं ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-चारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहसंधडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहाय-गइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकिति-णिमिण-पंचंतराइयाणि मिच्छाइडि-सासणसम्मादिट्ठिणो दुगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मा-दिट्ठिणो मणुसगइसंजुत्तं वंधंति, सेसगईणं वंधामावादे । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गानुपुव्वि-उच्चगोदाणि सव्वे मणुसगइसंजुत्तं चेव वंधंति, सेसगईहि सह विरोहादे ।

एदासिं सव्वासिं पि पयडीणं वंधस्स णेरइया चेव सामी । वंधद्धानं सुगमं । एदासिं णेरइयाणं गुणद्धानाणं चरिमाचरिमद्धानेसु वंधवोच्छेदो णत्थि । सव्वपयडीणं वंधो सादि-अद्दुवो, अणादि-धुवणेरइयाणमभावादे । अथवा, पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चारसकसाय-भय-दुगुंछा-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव-उवघाद-तेजा-कम्मइय-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइडिन्दि चउव्विहो वंधो, उवसमसेडीदे ओयरिय गिरयं पइड्ढिमि सादि-अद्दुवबंधदंसणादे । सेस-गुणद्धानेसु धुवं णत्थि, वंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादे । सेसपयडीणं वंधो सादि-

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता वे असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरलसंस्थान, औदारिकशरीरंगोपांग, वज्रपभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि दे [तिर्यंच और मनुष्य] गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके शेष गतियोंका वन्ध नहीं होता । मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको सभी नारकी मनुष्यगतिसे संयुक्त ही बांधते हैं, क्योंकि, उनके शेष गतियोंके साथ इनके बांधनेका विरोध है ।

इन सभी प्रकृतियोंके वन्धके नारकी जीव ही स्वामी हैं । वन्धाध्वान सुगम है । इन प्रकृतियोंका नारकियोंके गुणस्थानोंके चरम व अचरम स्थानोंमें वन्धव्युच्छेद नहीं है । अर्थात् इन प्रकृतियोंका वन्धव्युच्छेद नारकियोंके सम्भव चार गुणस्थानोंमें नहीं होता । सब प्रकृतियोंका वन्ध सादि-अधुव है, क्योंकि, अनादि और ध्रुव नारकियोंका अभाव है । अथवा, पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, तैजस व कार्मण शरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध है, क्योंकि, उपशमश्रेणीसे उतरकर नरकमें प्रविष्ट हुए जीवमें सादि व अधुव वन्ध देखा जाता है । शेष गुणस्थानोंमें ध्रुव वन्ध नहीं है, क्योंकि, वन्धव्युच्छेदको न करनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टि आदिकोंका अभाव है । शेष

अद्भुवो चव, अद्भुवबंधितादे ।

णिदाणिहा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-
अणादेज्ज-णीचागोदाणं-को बंधो को अबंधो ? ॥ ४५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा
॥ ४६ ॥

सव्वाणि बंधसामित्तसुत्ताणि देसामासियाणि त्ति दड्ढव्वाणि । तेपेदेण सइदत्थपरूवणं
कस्सामो । तं जहा— अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जति, सासणचरिमसमयम्मि
एदस्स समं बंधोदयवोच्छेदुवलंभादे । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउ-
संठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बि-उज्जोवाणं णिरयगदीए उदओ णत्थि, विरोहादे ।

प्रकृतियोंका बन्ध सादि-अद्भुव ही है, क्योंकि, वे प्रकृतियां अद्भुवबन्धी हैं ।

निद्रा-निद्रा, प्रचल-प्रचलं, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,
स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत,
अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक
और कौन अबन्धक है ? ॥ ४५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि-और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष नारकी अबन्धक
हैं ॥ ४६ ॥

बन्धस्वामित्वके सब सूत्र देशामर्शक हैं; ऐसा समझना चाहिये । इसी कारण
इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— अनन्तानुबन्धि-
चतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानके
चरम समयमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका साथ ही बन्धोदयव्युच्छेद पाया जाता है । स्त्यान-
गृद्धि-आदिक तीन, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गति-
प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनका नरकगतिमें उदय नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध

तदो एदासि पुत्रं पच्छा वा बंधोदयवोच्छेदविचारो णत्थि, संतासंताणं सण्णिकासविरोहादो ।
-अप्यसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुत्रं बंधो वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ,
-सासणम्मि णडुबंधाणं असंजदसम्मादिडिम्हि उदयवोच्छेदुवलंभादो ।

अप्यसत्थविहायगइ-दुस्सर-अणंताणुबंधिचउक्काणं सोदय-परोदएण बंधो, अडुवोदय-
त्तादो । णवंरि अप्यसत्थविहायगदि-दुस्सराणं सासणसम्मादिडिम्हि सोदओ चैव अत्थि ।
तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोव-धीणगिद्धि-
तियाणं परोदएणेव बंधो, एत्थ एदेसिमुदयाभावादो । दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं-सोदएणेव
-बंधो, णेरइएसु एदेसिं पडिवक्खाणं उदयाभावादो ।

धीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरो बंधो । इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंघण-
उज्जोव-अप्यसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेजाणं सांतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधसंभवादो ।
तिरिक्खाउअस्स णिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधेण विणा बंधविरामुवलंभादो । तिरिक्खगइ-
पाओग्गाणुपुव्वि-तिरिक्खगइ-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो, छसु पुठवीसु सांतरो होदूण
-सत्तमपुठविम्हि णिरंतरोणेव बंधदंस्पादो । जदि पडिवक्खपयडिबंधमस्सिदूण थक्कमाणबंधा

है । इसीलिये इन प्रकृतियोंके पूर्वमें अथवा पश्चात् वन्धोदयव्युच्छेदका विचार नहीं है,
-क्योंकि, सत् और असत् वस्तुके सन्निकर्षका विरोध है । अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग,
-दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका पूर्वमें वन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय,
-क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें वन्धके नष्ट होजानेपर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनका
-उदयव्युच्छेद पाया जाता है ।

अप्रशस्तविहायोगति, दुस्वर और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे
वन्ध होता है, क्योंकि, ये अडुवोदयी प्रकृतियां हैं । विशेष इतना है कि अप्रशस्तविहायोगति
और दुस्वरका सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय ही वन्ध होता है । तिर्यगायु,
तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत और
स्थानगृद्धित्रय, इनका परोदयसे ही वन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ इनके उदयका अभाव
है । दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका स्वोदयसे ही वन्ध होता है, क्योंकि, नारकियोंमें
इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है ।

स्थानगृद्धि आदिक तीन और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरन्तर वन्ध होता है ।
स्त्रिवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और
अनादेय, इनका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध सम्भव
है । तिर्यगायुका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष-प्रकृतिके वन्धके विना इसके
-वन्धकी-विश्रान्ति पायी जाती है । तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यग्गति और नीचगोत्रका
सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, छह पृथिवियोंमें इनका सान्तर वन्ध होकर सातवीं
पृथिवीमें निरन्तर रूपसे ही वन्ध देखा जाता है ।

सांतरबंधपयडी बुच्चदि तो उज्जोवस्स पडिवक्खबंधपयडीए अणुज्जोवसरूवाए अभावो उज्जोवेण णिरंतरबंधिणा होदव्वमध बंधविणासो अत्थि त्ति जदि सांतरत्तं बुच्चदि तो तित्थ-यराहारदुगाउआणं पि सांतरत्तं पसज्जदि त्ति ? एत्थ परिहारो बुच्चदे— जं वुत्तं पडिवक्ख-पयडिबंधमस्सिदूण थक्कमाणबंधा सांतरबंधि त्ति तं सांतरबंधीसु पडिवक्खपयडिबंधाविणाभावं दड्डण वुत्तं । परमत्थदो पुण एगसमयं बंधिदूण बिदियसमए जिस्से बंधविरामो दिस्सदि सा सांतरबंधपयडी । जिस्से बंधकालो जहण्णो वि अंतोसुहुत्तमेत्तो सा णिरंतरबंधपयडि' त्ति धेत्तञ्चं ।

पञ्चयपरूवणे कीरमाणे चउठाणियपयडिभंगो । णवरि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाइडिभिह एगुणवंचास परूचया, वेउज्जियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावादे ।

शंका—यदि प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका आश्रय करके बन्धविश्रान्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृति सान्तरबन्ध प्रकृति कही जाती है तो उद्योतकी प्रतिपक्षभूत अनुद्योत-रूप प्रकृतिका अभाव होनेसे उद्योतको निरन्तरबन्धी प्रकृति होना चाहिये । अथवा बन्धका विनाश है, इस कारणसे यदि सान्तरता कही जाती है तो फिर तीर्थकर, आहारद्विक और आयु कर्मोंके भी सान्तरताका प्रसंग आता है ?

समाधान—यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं — प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका आश्रय करके बन्धविश्रान्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृति सान्तरबन्धी है, इस प्रकार जो कहा है वह सान्तरबन्धी प्रकृतियोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके अविनाभावको देखकर कहा है । वास्तवमें तो एक समय बंधकर द्वितीय समयमें जिस प्रकृतिकी बन्धविश्रान्ति देखी जाती है वह सान्तरबन्ध प्रकृति है । जिसका बन्धकाल जघन्य भी अन्तर्मुहूर्तमात्र है वह निरन्तरबन्ध प्रकृति है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

प्रत्ययप्ररूपणा करते समय चतुस्थानिक (चार गुणस्थानोंमें बंधनेवाली) प्रकृतियोंके समान ही प्रत्ययप्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि तिर्यगायुके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें यहाँ उन्मंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकृतिकमिथ्र और कामेण प्रत्ययोंका अभाव है ।

१ प्रतिबु ' काला ' इति पाठ ।

२ यासा प्रकृतीनां जघन्यत समयमात्र बन्ध, उत्कर्षतः समयादारभ्य यावदन्तर्मुहूर्तं न परतः, ताः सान्तरबन्धाः, अन्तर्मुहूर्तमभ्येऽपि सान्तरो विच्छेदलक्षणान्तरसहितो बन्धो यासा तां सान्तरा इति व्युत्पत्तेः । अन्तर्मुहूर्तोपरि विच्छिन्नमानबन्धवृत्तिजातिमत्स्य सान्तरबन्धा इति फलितार्थः । ××× जघन्येनापि या अन्तर्मुहूर्तं यावन्नैतत्संयोगे बन्धयन्ते ता निस्तारबन्धाः, निर्गतमन्तरमन्तर्मुहूर्तमभ्ये व्यवच्छेदलक्षणं यंसव तादृशो बन्धो यासामित्ति व्युत्पत्तेः, अन्तर्मुहूर्तमभ्याविच्छिन्नबन्धवृत्तिजातिमत्स्य इति यावत् । क. प्र. पृ. १४-१५.

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्माणुपुव्वि-उज्जेवाणि मिच्छाइड्ढि-सासणे-सम्मादिड्ढिणो तिरिक्खगइमंजुत्तं बंधंति । सेसाओ दुङ्काणपयडीओ दुगइसंजुत्तं बंधंति । सव्वासिं पयडीणं पेरइया सामी । बंधद्धानं बंधविणइङ्काणं च सुगमं । थीणीगिद्धितिय-अपांताणुबंधि-चउक्काणं मिच्छाइड्ढिं चउव्विहो वंधो । सासणे सादि-अद्दुवो । सेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्दुवो चैव ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४७ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ४८ ॥

एदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरदे— मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, मिच्छाइड्ढिचरिमसमए बंधोदयवोच्छेददंसणादो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडण-णामाणं पुव्वं वंधो वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, मिच्छाइड्ढिचरिमसमए णट्टबंधाणमेदासिं असंजदसम्मादिड्ढिं उदयवोच्छेदुवलंमादो । णवरि असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणस्स पुव्वावर-

तिर्यग्गानु, तिर्यग्गति. तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं । शेष द्विस्थान प्रकृतियोंको दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं । सब प्रकृतियोंके नारणी स्वामी हैं । वन्धाध्वान और वन्ध विनष्टस्थान सुगम हैं । स्थानगृहित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है । सासादनमें सादि और अष्टुव वन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका वन्ध सादि व अष्टुव ही होता है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पष्टिकाशरीरसंहनन नामकर्मका कौन वन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ४७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि वन्धक हैं । ये वन्धक हैं, शेष नारकी जीव अवन्धक हैं ॥ ४८ ॥

इस सूत्रसे सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं — मिथ्यात्वप्रकृतिका वन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके चरम समयमें इसके वन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पष्टिकाशरीरसंहनन नामकर्मोंका पूर्वमें वन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय; क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके चरम समयमें वन्धके नष्ट हो जानेपर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है । विशेष इतना है कि असंप्राप्त-

बंधोदयवोच्छेदविचारो गतिः, बंधं मोक्षं उदयाभावादो ।

मिच्छत्त-गणुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदओ बंधो । णवरि हुंडसंठाणस्स स-परोदओ वि,
विग्गहगदीए' तस्सुदयाभावादो । असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणस्स परोदओ बंधो, तत्थ-संघ-
डणस्सुदयाभावादो । मिच्छत्तस्स णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं तिण्णं सांतरो, एगसमण्ण
बंधुवरमदंसणादो ।

पच्चया चउट्टाणियपयडिपच्चएहि समा । एदाओ पयडीओ चत्तारि वि दुगइसंखुत्तं
ब्रज्जंति । णेरइया सामी । [बंधद्वान्] बंधविणट्टद्वान् च सुगमं । मिच्छत्तस्स चउक्खिहो
बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्दुवो, धुवबंधित्ताभावादो ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ४९ ॥

सुगमं ।

स्तुपाटिकाशरीरसंहननके पूर्व या पश्चात् बन्धोदयव्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्योंकि,
बन्धको छोड़कर वहां इसके उदयका अभाव है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका सोदय बन्ध होता है । विशेष यह है
कि हुण्डसंस्थानका बन्ध स्वोदय परोदयसे भी होता है, क्योंकि, विग्रहगतिसमें उसका उदय
नहीं रहता । असंप्रान्तस्तुपाटिकाशरीरसंहननका बन्ध परोदयसे होता है, क्योंकि,
नारकियोंमें संहननका उदय नहीं रहता । मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वह
ध्रुवबन्धी प्रकृति है । शेष तीन प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक-समयमें
उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है ।

प्रत्ययोंकी प्ररूपणा चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान है । ये चारों ही
प्रकृतियां दो गतियोंसे संयुक्त बंधती हैं । नारकी जीव स्वामी हैं । [बन्धाब्धान्] और
बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वप्रकृतिका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंकि, वह
ध्रुवबन्धी प्रकृति है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी
नहीं हैं ।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ४९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ५० ॥

एदेण सूइदत्थस्स परूवणं कस्सामो— एत्थ वंधोदयाणं पुच्चावरवोच्छेदविचारो गत्थि, बंधं मोत्तूण उदयाभावादे । परोदएण वंधंति, गिरयगदीए मणुस्साउअस्स उदयविरोहादे । गिरंतरं वंधंति, एगसमएण वंधुवरमाभावादे । मिच्छाइट्ठिस्स एरणवण्णपच्चया, वेउ-व्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादे । सासणस्स चोहाल असंजदसम्मादिट्ठिस्स चालीस पच्चया । सेसं सुगमं । मणुसगइसंजुत्तं वंधंति । गेरइया सामी । वंधद्धाणं वंधविणइद्धाणं च सुगमं । सादि-अद्धवो वंधो, अद्धवबंधितादे ।

तित्थयरणामकम्मस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ ५१ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ५२ ॥

तित्थयरबंधस्स उदयादे पुवं पच्छा वोच्छेदो होदि ति सण्णिकासो गत्थि, तित्थयर-

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष नारकी जीव अबन्धक हैं ॥ ५० ॥

इस सूत्रसे सूचित अर्थको प्ररूपणा करते हैं — यहाँ बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद् होनेका विचार नहीं है, क्योंकि, बन्धको छोड़कर नारकीयोंमें इसके उदय नहीं रहता है । नारकी जीव इसे परोदयसे बांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिमें मनुष्यायुके उदयका विरोध है । निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, एक समयमें इसके बन्धका विश्राम नहीं होता । मिथ्यादृष्टिके अनज्ञास प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, वैकृतिकमिश्र और कर्मण-प्रत्ययोंका यहाँ अभाव है । सासादनके च्चालीस और असंयतसम्यग्दृष्टिके च्चालीस प्रत्यय होते हैं । शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है । मनुष्यायुको नारकी जीव मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । नारकी जीव स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । इसका बन्ध सादि व अभुव होता है, क्योंकि, यह अभुवबन्धी प्रकृति है ।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ५१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष नारकी अबन्धक हैं ॥ ५२ ॥

तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका उदयसे पूर्व अथवा पश्चात् व्युच्छेद् होता है, इस प्रकार

सेत्थुदयाभावादो । तेणेव परोदओ बंधो । गिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया दंसणविसुच्चदा लद्धिसंवेगसंपण्णदा अरहंत-वहुसुद-पवयणभत्तिआदओ । मणुसगदिसंजुत्तं । गेरइया सामी । बंधद्धानं बंधविणइड्डाणं च सुगमं । बंधो सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेयव्वं ॥ ५३ ॥

एदं बंधसामित्तं [सामण्णं] पडुच्च उत्तं । विसेसे पुण अवलंबिच्चमाणे भेदो अत्थि । तं भणिस्सामो— मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चीणं सांतर-गिरंतरो मिच्छाइड्डिन्दि पढ्माए पुढवीए बंधो णत्थि, सांतरो चेव; तित्थयरसंतकम्मियमिच्छाइड्डीणमभावादो । विदियदंडयत्थि [तिरिक्ख-गइ-] तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-णीचागोदाणं सांतर-गिरंतरो बंधो णत्थि, सांतरो चेव, सत्तम-पुढवि मुच्चा अण्णत्थ गिरयगदीए एदासिं गिरंतरोबंधाभावादो । एसो भेदो पढम-विदिय-तदिय-पुढवीसु । विदिय-तदियपुढवीसु उववाद-परवाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिड्डिन्दि सोदओ चेव बंधो, तत्थ अपज्जत्तकाले असंजदसम्माइड्डीणं अभावादो । मणुसगइदुगं तित्थयरसंत-

तुलना यहां नहीं है, क्योंकि, तीर्थंकर प्रकृतिका यहां नारकियोंमें उदय नहीं होता । इसी कारण इसका परोदयसे बन्ध होता है । बन्ध इसका निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयमें इसके बन्धका विश्राम नहीं होता । इसके प्रत्यय दर्शनविशुद्धता, लब्धि-संवेग-सम्पन्नता, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति आदिक है । मनुष्यगतिसे संयुक्त इसका बन्ध होता है । नारकी जीव स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । इसका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, यह अधुवबन्धी प्रकृति है ।

इस प्रकार यह व्यवस्था उपरिम तीन पृथिवियोंमें जानना चाहिये ॥ ५३ ॥

यह बन्धस्वामित्व [सामान्यको] अपेक्षासे कहा गया है । किन्तु विशेषताका अवलम्बन करनेपर भेद है । उसे कहते हैं— मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका बन्ध प्रथम पृथिवीमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर नहीं हैं, किन्तु सान्तर ही है; क्योंकि यहां तीर्थंकर प्रकृतिके सत्ववाले मिथ्यादृष्टि नारकी जीव नहीं होते हैं । द्वितीय दण्डकमें (?) [तिर्यग्गति], तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्विका और नीचगोत्र प्रकृतियोंका सान्तर-निरन्तर बन्ध नहीं होता, किन्तु सान्तर ही होता है, क्योंकि सप्तम पृथिवीको छोड़कर अन्यत्र नरकगतिमें इन प्रकृतियोंके निरन्तर बन्धका अभाव है । यह भेद प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृथिवियोंमें है । द्वितीय और तृतीय पृथिवियोंमें उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीर, इन प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तकालमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अभाव है । मनुष्यगति और

कम्मियमिच्छाइड्डीणं णिरंतरं, सेसाणं सांतरं। असंजदसम्मादिड्डिस्स चालींस पच्चया, वेउब्बिय-
मिस्सिकम्मइयपच्चयाणमभावादे। एत्तिओ चेव भेदे, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि ।-

चउत्थीए पंचमीए छट्ठीए पुढवीए एवं चेव णेदव्वं । णवरि
विसेसो तित्थयरं णत्थि ॥ ५४ ॥

तित्थयरस्स बंधो किमिदि णत्थि ति उत्ते तित्थयरं बंधमाणसम्माइड्डीणं मिच्छत्तं
गंतूण तित्थयरसंतकम्मेण सह विदिय-तदियपुढवीसु व उप्पज्जमाणणमभावादे। एदेणेव
कारणेण मणुसगइद्दुगं मिच्छादिड्डी सांतरं बंधइ । णत्थि अण्णो भेदे ।

सत्तमाए पुढवीए णेरइया पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-
सादासाद-चारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-
पंचेदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा-

मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी तीर्थकर प्रकृतिकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टियोंके निरन्तर बंधती हैं,
शेष नारकियोंके सान्तर बंधती हैं । असंयतसम्यग्दृष्टिके चालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि,
वैकिकियकामिश्च और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है । इतना ही भेद है, अन्यत्र कहीं और
कोई भेद नहीं है ।

चतुर्थ, पंचम और छठी पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये । विशेषता केवल यह
है कि इन पृथिवियोंमें तीर्थकर प्रकृति नहीं है ॥ ५४ ॥

शंका—तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध यहां क्यों नहीं होता ?

समाधान— इस शंकाके होनेपर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार तीर्थकर प्रकृतिको
वांधनेवाले सम्यग्दृष्टि जीव-मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ
द्वितीय व तृतीय पृथिवियोंमें उत्पन्न होते हैं वैसे इन पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते । इसी
कारणसे ही मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको मिथ्यादृष्टि सान्तर बांधते हैं ।
और कोई भेद नहीं है ।

सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता और
अंसाता वेदनीय, चारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरगोपांग,

१ घन्मे तित्थ वधदि नसामेघाण पुण्णगो चेव । गो क १०६. पंकाइए तित्थयरहणो । क. अ ३, ६.

लियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-
उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-
थिराथिर- [सुहा-] सुह-सुगम-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-पंचं-
तराइयाणं को बंधो को अबंधो? ॥ ५५ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । एदे बंधा,
अबंधा णत्थि ॥ ५६ ॥

एदेण देसामासियसुत्तेण सूइदत्थपरूवणं कस्सामो— एत्थ उदयादो बंधो पुवं
पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति विचारो णत्थि, एत्थ तस्स असंभवादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणा-
वरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-तस-वादर-पज्जत्त-थिरा-
थिर-सुमासुभ-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एदेसिं धुवोदयत्तादो । णिहा-
पयला-सादासाद-चारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदओ बंधो, अद्धुवो-
दयत्तादो । उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइट्ठिहिं सोदय-परोदओ बंधो । सेसेसु

वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायो-
गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय,
यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥५५॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं
हैं ॥ ५६ ॥

इस देशामर्शक सूत्रके द्वारा सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— यहाँ उदयसे
बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है; क्योंकि, यहाँ उसकी
सम्भावना नहीं है । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व
कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर,
शुभ, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है,
क्योंकि, ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, वारह कषाय,
हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि,
ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीर, इनका मिथ्या-

सोदओ चेष, तेसिमेत्थ अपज्जत्तकाले अभावादो । पुरिसवेद-ओरालियसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंधण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्तीणं परोदओ वंधो, एदेसिमुदयस्स एत्थ विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारहकसाय-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयससीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्णचउक्क-अगुरुलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो वंधो, एत्थ घुवबंधितादो । सादा-साद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो वंधो, सव्वगुण-द्वाणेषु एदासिमेगाणेगसभयबंधसंभवादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंधण-पसत्थ-विहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिड्डीसु सांतरो वंधो, एगाणेग-समयबंधसंभवादो । सम्माभिच्छादिडि-असंजदसम्मादिड्डीसु णिरंतरो वंधो, पडिवक्खपयडीणं वंधाभावादो ।

एदाओ पयडीओ वंधंतमिच्छाडिडिस्स मूलपच्चया चत्तारि । णाणासमयउत्तरपच्चया

दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । शेष गुणस्थानोंमें स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिको छोड़कर शेष गुणस्थान यहां अपर्याप्तकालमें नहीं होते । पुरुषवेद, औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्पभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्ति प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके उदयका यहां विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कथाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय-जाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वर्णादिक चार, अगुरु-लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये प्रकृतियां यहां भ्रुवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सब गुणस्थानोंमें इनका एक और अनेक समय तक बन्ध सम्भव है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्पभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय, इन प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि व सासादन-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका एक-अनेक समय तक बन्ध सम्भव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि नारकीके मूल प्रत्यय चार, नाना समय

एक्कवंचासु । एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस अट्टारस । सासणसम्मादिट्ठिस्स मूलपच्चया^१ तिण्णि, णाणासमयउत्तरपच्चया चउवेत्तालीस, एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस सत्तारस । सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु मूलपच्चया तिण्णि, उत्तरपच्चया चालीस, एगसमय-जहण्णुक्कस्सपच्चया णव सोलस ।

एदाओ सच्चपयडीओ मिच्छाइट्ठि-सासणसम्मादिट्ठिणो च तिरिक्खगाइसंजुत्तं वंधंति, सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो मणुसगइसंजुत्तमुभयत्थ अण्णगईणं वंधाभावादो । णेरइया सामी । वंधद्वाणं वंधविणइट्ठाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारस-कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा-इयारणं मिच्छाइट्ठिभिह^२ चउच्चिहो वंधो, धुवबंधितादो । सेसगुणट्ठाणेषु धुवबंधो णत्थि, वंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं वंधो सच्चगुणट्ठाणेषु सादि-अद्धवो, अद्धवबंधितादो ।

..

सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय इक्यावन, तथा एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय दश और अठारह होते हैं । सासादनसम्यग्दृष्टिके मूल प्रत्यय तीन, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय ऋवालीस और एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय दश और सत्तरह होते हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें मूल प्रत्यय तीन, उत्तर प्रत्यय चालीस, तथा एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय नौ और सोलह होते हैं ।

इन सब प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं, तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, दोनों जगह अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है । नारकी जीव इनके बन्धके स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं । शेष गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्ध नहीं है, क्योंकि, इनके बन्धव्युच्छेदको न करनेवाले सासादन-सम्यग्दृष्टि आदिकोंका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सब गुणस्थानोंमें सादि और अध्रुव होता है, क्योंकि, वे प्रकृतियां अध्रुवबन्धी हैं ।

..

१ प्रतिपु 'मूलपयडा' इति पाठ ।

२ प्रतिपु 'मिच्छाइट्ठीहि' इति पाठः ।

णिद्वाणिद्वा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोधं-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइ-
पाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-
णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ५७ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा ॥ ५८ ॥

एदस्स अत्थो उच्चदे— अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणे
चेव दोण्णं वोच्छेदुवलंभादो । अपसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुव्वं
बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिट्ठिम्हि बंधे वोच्छिण्णे संते पच्छा असंजद-
सम्मादिट्ठिम्हि उदयवोच्छेदुवलंभादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउ-

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,
स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-
विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ ५७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक
हैं ॥ ५८ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथ
व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें ही दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है ।
अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका पूर्वमें बन्ध और
पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्धके व्युच्छिन्न
होजानेपर तत्पश्चात् असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद पाया जाता है ।
स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायो-

संघडण-तिरिक्खगइपाओग्माणुपुव्वी-उज्जोवाणं पुव्वं पच्छा वंधोदयवोच्छेदविचारो णत्थि, एदासिमेत्थ उदयाभावादो ।

अणंताणुबंधिचउक्कस्स सोदय-परोदएण वंधो, अद्भवोदयत्तादो । अप्पसत्थविहायगइ-दुस्सराणं मिच्छाइडिड्हि सोदय-परोदएण वंधो, अपज्जत्तकाले एदासिमुदयाभावादो । सासेणो सोदएणेव वंधो, तस्सेत्थ अपज्जत्तकालाभावादो । दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदएणेव वंधो, धुवोदयत्तादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइ-पाओग्माणुपुव्वी-उज्जोवाणं परोदएणेव वंधो । कुदो ? विस्ससादो ।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्माणुपुव्वी-णीचा-गोदाणं णिरंतरो वंधो । कुदो ? एत्थ धुवबंधितादो । सेसाणं सांतरो, एगसमएण हि' बंधवोच्छे-दुवलंभादो । पच्चया चउडाणपयडिपच्चयसमा । एदाओ सव्वपयडीओ तिरिक्खगइसंखुत्तं बंधंति । णेरइया सामी । वंधद्धाणं वंधविणट्टद्धाणं च सुगमं । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि-चउक्कणं मिच्छाइडिड्हि चउव्विहो वंधो, धुवबंधितादो । सासणम्मि सादि-अद्भवो । सेसाणं

ग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनके पूर्वमें या पश्चात् वन्धोदयव्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है ।

अनन्तानुबन्धिचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं । अप्रशस्तविहायोगति और दुस्वरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनका उदय नहीं रहता । सासादन गुणस्थानमें स्वोदयसे ही इनका वन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानका यहां अपर्याप्तकालमें अभाव है । दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र, इनका स्वोदयसे ही वन्ध होता है, क्योंकि, ये प्रकृतियां धुवोदयी हैं । स्थानगृद्धि आदिक तीन, खावेद, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनका परोदयसे ही वन्ध होता है । इसका कारण स्वभाव ही है ।

स्थानगृद्धि आदिक तीन, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानु-पूर्वी और नीचगोत्र, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां वे धुववन्धी हैं । शेष प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध-होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वन्धव्युच्छेद पाया जाता है । प्रत्ययोंकी प्ररूपणा चतुस्थानिक प्रकृतियोंके समान है । इन सब प्रकृतियोंकी तिर्यग्गतिसे संयुक्त बंधते हैं । नारकी जीव इनके वन्धके स्वामी हैं । वन्धाध्वान और वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । स्थानगृद्धि आदिक तीन और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, ये धुववन्धी प्रकृतियां हैं । सासादनगुणस्थानमें

पयडीणं बंधो सच्चत्य सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

मिच्छत्त-गचुंसयवेद-तिरिक्खाउ-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीर-
संघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ५९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाडट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६० ॥

एदस्स वक्खाणं णिरओघएगट्ठाणियवक्खाणतुल्लं । णवरि तिरिक्खागइसंजुत्तं बंधदि
ति वत्तव्वं ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ ६१ ॥

सुगमं ।

सादि व अद्भव बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सादि व अद्भव होता है,
क्योंकि, वे अद्भववन्धी हैं ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसुपाटिकाशरीरसंहनन
प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ५९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ६० ॥

इस सूत्रका व्याख्यान नारकसामान्यकी एकस्थानिक प्रकृतियोंके व्याख्यानके
समान है । विशेष इतना है कि [यहां सातवीं पृथिवीमें] तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं, ऐसा
कहना चाहिये ।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका कौन बन्धक और
कौन अबन्धक है ? ॥ ६१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्मिइट्ठी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा
अबंधा ॥ ६२ ॥

एदस्स अरथो वुच्चदे— एत्थ वंधादो उदओ पुच्चं पच्छ वा वोच्छिण्णो ति
विचारो णत्थि, एदासिमेत्थं उदयाभावादो । एदासिं परोदएणेव वंधो, णिरयगदीए उदया-
भावादो । णिरंतरो वंधो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । पच्चया चउट्ठाणियपयडिपच्चयतुल्ला ।
मणुसगइसंजुत्तं सम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो वंधंति । णेरइया सामी । वंधद्धाणं
बंधविणह्ठुट्ठाणं च सुगमं । सादि-अद्भवबंधो, अद्भवबंधितादो सम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मा-
इट्ठिणिच्चोणुवगमणे णियमादो वा ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्ख-
पेज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावर-
णीय-सादासाद-अट्टकसाय-पुरिसवेद-हस्सर-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-
देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष गुणस्थानवर्ती
अबन्धक हैं ॥ ६२ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— बन्धसे उदय पूर्वमें व्युत्किंचन्न होता है या पश्चात्, यह
विचार यहां नहीं है, क्योंकि, इनका यहां उदय नहीं है । इनका परोदयसे ही बन्ध होता
है, क्योंकि, नरकगतिमें इनके उदयका अभाव है । बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक
समयसे इनके बन्धका विश्राम नहीं होता । इनके प्रत्यय चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके
समान हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं ।
नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । सादि व अद्भव बन्ध होता
है, क्योंकि वे अद्भवबन्धी हैं; अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंके
मुक्तिगमनमें नियम होनेसे भी सादि व अद्भव बन्ध होता है ।

तिर्यग्गतिमें तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यच
शौनिमंतियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ कषाय,
पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिक तैजस

१ मिस्साविरदे उच्च मणुवदुगं सत्ते ह्वे वधो । मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुग्घं ण बंधति ॥
गो. क. १०७. २ अ-काप्रयो. ' णियमामावादो ' इति पाठः ।

वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी-
अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-चादर-
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-[थिरा-] थिर-सुहासुह-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-
कित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को
अबंधो ? ॥ ६३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा
णत्थि ॥ ६४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो तुच्चदे— देवगइ-वेउव्वियसरीर वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइ-
पाओग्गाणुपुव्वि-उच्चागोदाणं तिरिक्खेसु उदयाभावादो पुव्वं पच्छा वंधोदयवोच्छेदविचारो
णत्थि, संतासंताणं सण्णिकासविरोहादो । अवसेसपयडीसु वि एस विचारो णत्थि, अत्थगदीए
एदासिं वंधोदयवोच्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइय-
सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-[थिरा-] थिर-सुमासुभ णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ

व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति-
प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, चादर,
पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति,
अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक
है ? ॥ ६३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं
हैं ॥ ६४ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग,
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्छ्वात्र, इनका तिर्यच्चोंमें उदय न होनेसे बन्धोदयव्युच्छेदकी
पूर्वापरताका विचार नहीं है, क्योंकि, सत् और असत्की समानताका विरोध है । शेष
प्रकृतियोंमें भी यह विचार नहीं है, क्योंकि, अर्थगतितसे इनके बन्धोदयव्युच्छेदका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, वैक्रियिक तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध,
रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय,

बंधो, ध्रुवोदयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-अट्टकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुग्गुंछा-समच्चउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सरणं सव्वट्ठाणेषु सोदय-परोदओ बंधो । णवरि जोगिणीसु पुरिसवेदबंधो परोदओ । उवघादबंधो मिच्छादिट्ठि सासणसम्मादिट्ठि-असंजदसम्मा-दिट्ठिणं सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उवघादस्सुदयाभावादो । सम्माभिच्छादिट्ठि-संजदा-संजदाणं सोदओ चेव, तेसिमपज्जत्तकालाभावादो । परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिसु सोदय-परोदओ, एदासिमपज्जत्तकाले उदयाभावादो । सेसदोगुणट्ठाणेषु सोदओ बंधो । णवरि जोगिणीसु असंजदसम्मादिट्ठि एदाओ सोदएणेव बंधदि, तत्थेदस्स अपज्जत्तकालाभावादो । तस-चादर-पज्जत्त पंचिंदियजादीओ मिच्छाइट्ठि सोदय-परोदएण बंधइ, पडिवक्खपयडीणं उदयसंभवादो । अवसेसा सोदएणेव, तत्थ पडि-वक्खपयडीणमुदयाभावादो । पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्ख-जोगिणीसु सोदएणेव सव्वगुणट्ठाणेषु बंधो, एत्थ पडिवक्खपयडीणमुदयाभावादो । णवरि पंचिंदियतिरिक्खेषु मिच्छाइट्ठिणं पज्जत्तस्स सोदय-परोदओ बंधो, तत्थ पडिवक्खपयडीए उदयसंभवादो । सुभगादेज्ज-जसकित्तीणं मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठि-

इनका सोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी प्रकृतियाँ हैं । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, आठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वर, इनका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । विशेष इतना है कि योनिमती तिर्यंचोंमें पुरुषवेदका बन्ध परोदयसे होता है । उपघातका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंके स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें उपघातका उदय नहीं होता । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संयतासंयतोंके स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपर्याप्तकालका अभाव है । परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंका अपर्याप्तकालमें उदय नहीं होता । शेष दो गुणस्थानोंमें स्वोदय बन्ध होता है । विशेषता यह है कि योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीव इन्हें स्वोदयसे ही बांधता है, क्योंकि, योनिमतियोंके अपर्याप्तकालमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका अभाव है । ब्रस, बादर, पर्याप्त और पंचेन्द्रिय जाति, इनको मिथ्यादृष्टि जीव स्वोदय-परोदयसे बांधता है, क्योंकि, यहाँ इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय सम्भव है । शेष गुणस्थानवर्ती स्वोदयसे ही बांधते हैं, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है । पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें स्वोदयसे ही सब गुणस्थानोंमें बन्ध होता है, क्योंकि, इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है । विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें मिथ्यादृष्टियोंके पर्याप्त प्रकृतिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय सम्भव है । सुभग, आदेय और यशकीर्तिका बन्ध मिथ्या-

असंजदसम्मादिङ्गीसु वंधो सोदयपरोदओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादो । संजदासंजदेसु सोदओ चेव, तत्थ पडिवक्खणामुदयाभावो । मिच्छादिङ्गि-सासणसम्मादिङ्गि-सम्मामिच्छादिङ्गि-असंजदसम्मादिङ्गीसु अजसकितीए वंधो सोदय-परोदओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादो । संजदा-संजदेसु परोदओ, तत्थ पडिवक्खपयडीए चेव उदयदंसणादो । देवगदि-वेउच्चियसरीर-वेउच्चियसरीरअंगोवंग-देवगदिपाओग्गाणुपुच्ची-उच्चागोदाणं परोदओ वंधो, एदासिमेत्थ उदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अट्टकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं गिरंतरो वंधो, धुवबंधितादो । सादासाद-हृस-रदि-अरदि-सोण-धिराधिर-सुभासुभ-जसकित्ति-अजसकितीणं सांतरो वंधो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइङ्गि-सासणेसु सांतरो गिरंतरो च वंधो, पम्म-सुक्क-लेस्सिएसु गिरंतरबंधदंसणादो । सेसगुणङ्गाणेसु गिरंतरो, पडिवक्खपयडिवंधाभावो । पंचि-

दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वेद्य-परोद्य होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उद्य देखा जाता है । संयतासंयतोंमें इनका स्वेद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यका अभाव है । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें अयशकीर्तिका बन्ध स्वेद्य-परोद्य होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका भी उद्य देखा जाता है । संयतासंयतोंमें उसका परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका ही उद्य देखा जाता है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक-शरीरअंगोपांग, देवगतिप्रायोत्पानुपूर्वी और उच्चगोत्र, इनका परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, तिर्यचोंमें इनके उद्यका विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणिय, आठ कथय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये धुवबन्धी प्रकृतियां हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है । पुरुषवेदका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर व निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है । शेष गुण-स्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

दिय-त्तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं बंधो मिच्छाइड्ढिम्हि' सांतर-णिरंतरो, तेउ-पम्म-सुकक-लेस्सिएसु णिरंतरबंधंसणादो । सेसुवरिमगुणट्ठाणेसु णिरंतरो, तत्थ पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । समचउरससंठाणस्स बंधो मिच्छाइड्ढि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो, असंखेज्जवासाउएसु तेउ-पम्म-सुककलेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरबंधंसणादो । उपरिमगुणेसु णिरंतरो, तत्थ पडि-वक्खपयडिबंधाभावादो । परघादुस्सासाणं मिच्छाइड्ढिम्हि सांतर-णिरंतरो बंधो, अपज्जत्तसंजुत्त-बंधाभावादो तेउ-पम्म-सुककलेस्सिएसु संखेज्जवासाउएसु असंखेज्जवासाउएसु च णिरंतर-बंधंसणादो । उवरिमगुणेसु णिरंतरो बंधो, तत्थ अपज्जत्तस्स बंधाभावादो । पसत्थविहाय-गईए मिच्छाइड्ढि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो, सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतर-बंधंसणादो । उवरिमगुणेसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । सुभ-सुरसर-आदेज्जाणं मिच्छाइड्ढि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो, सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतरबंध-दंसणादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । देवगदिदुग-त्रेउव्वियदुग-

पंचेन्द्रिय, ब्रह्म, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि तेज, पद्म और शुक्ल लेइयावाले जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है । शेष उपरिम गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । समचतुरस्रसंस्थानका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क और तेज, पद्म एवं शुक्ल लेइयावाले तिर्यचोंके इन गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है । उपरिम गुणस्थानोंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । परघात और उच्छ्वास प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तके बन्धसे संयुक्त इनके बन्धका अभाव होनेसे तेज, पद्म एवं शुक्ल लेइयावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है । उपरिम गुणस्थानोंमें दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अपर्याप्तके बन्धका अभाव है । प्रशस्तविहायोगतिका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेइयावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है । उपरिम गुणस्थानोंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । शुभ, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेइयावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिक-

उच्चगोदाणं मिच्छाइड्ढि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो बंधो, सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु
णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो बंधो ।

तिरिक्खेसु मिच्छाइड्ढीणं मूलपच्चया चत्तारि । उत्तरपच्चया तेवंचास, वेउव्विय-
वेउव्वियमिस्सपच्चयाणमभावादो । णवरि देवगइचउक्कस्स एकक्वंचास पच्चया, वेउव्विय-
वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस
अट्टारस । सासणस्स मूलपच्चया तिण्णि, उत्तरपच्चया अट्टेत्तालीस । वेउव्विय-
चउक्कस्स छएत्तालीस, पुव्विल्लणं चेवाभावादो । एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया
दस सत्तारस । सम्मामिच्छाइड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढीणं मूलोघपच्चया चेव । णवरि सम्मामिच्छा-
इड्ढिमिह वेउव्वियकायजोगो असंजदसम्मादिड्ढिमिह वेउव्विय-वेउव्वियमिस्सजोगा अवणे-
दव्वा । संजदासंजदे ओघपच्चया चेव । एवं चउव्विहाणं पच्चयपरूवणा कदा । णवरि
पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु पुरिस-णत्तंसयपच्चया अवणेदव्वा । असंजदसम्माइड्ढिमिह ओरालिय-
मिस्स-कम्मइयपच्चया अवणेदव्वा ।

शरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें
सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेश्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और
असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है ।

तिर्यंचोंमें मिथ्यादृष्टियोंके मूल प्रत्यय चार होते हैं । उत्तर प्रत्यय तिरेपन होते हैं,
क्योंकि, यहां वैक्रियिक और वैक्रियिकमिश्र प्रत्ययोंका अभाव है । विशेष इतना है कि
देवगतिचतुष्कके इक्यावन प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदारिक-
मिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है । एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय
क्रमसे दश और अठारह होते हैं । सासादनसम्यग्दृष्टिके मूल प्रत्यय तीन और उत्तर
प्रत्यय अड़तालीस होते हैं । वैक्रियिकचतुष्कके उत्तर प्रत्यय छयालीस होते हैं, क्योंकि,
पूर्वोक्त प्रत्ययोंका ही अभाव रहता है । एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रमसे
दश और सत्तरह होते हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टिके मूलोघ प्रत्यय ही
होते हैं । विशेषता यह है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें वैक्रियिककाययोग और असंयत-
सम्यग्दृष्टिमें वैक्रियिक और वैक्रियिकमिश्र योगोंको कम करना चाहिये । संयतासंयत
गुणस्थानमें ओघ प्रत्यय ही होते हैं । इस प्रकार चार प्रकारके तिर्यंचोंके प्रत्ययोंकी प्ररूपणा
की है । विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद
प्रत्यय कम करना चाहिये । असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र और कार्मण
प्रत्ययोंको कम करना चाहिये ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अट्टकसाय-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुस्सालहुग-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-वादर-पजत्त-
पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइड्डी चउगइसंजुत्ताणं, सासणो णिरयगईए विणा तिगइ-
संजुत्ताण, सेसा देवगइसंजुत्ताणं बंधया । सादावेदणीय-हस्स-रदीओ मिच्छाइड्डी सासणो च णिरय-
गईए विणा तिगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं बंधंति । एवं जसकिरिंति पि बंधंति', विसेसाभावादो ।
असादावेदणीय-अजसकिरीओ मिच्छाइड्डी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं ।
पुरिसवेदं मिच्छाइड्डी सासणो च णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं बंधंति ।
समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग सुस्सर-आदेज्जाणभेवं चैव वत्तवं । देवगदि-देव-
गदिपाओग्गाणुपुव्वीओ सव्वे देवगइसंजुत्तं बंधंति । [वेउव्वियसरीर-] वेउव्वियसरीर-
अंगोवंगाणि मिच्छाइड्डी देव-णिरयगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं । थिर-सुभाणं सादभंगो ।
अथिर-असुहाणं असादभंगो । उच्चगोदं मिच्छाइड्डी-सासणसम्माइड्डीणो देव-मणुसगइसंजुत्तं,
सेसा देवगइसंजुत्तं बंधंति ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्लु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष जीव देवगतिसे संयुक्त बन्धक हैं । सातावेदनीय, हास्य और रतिको मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा शेष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । इसी प्रकार यशकीर्तिको भी बांधते हैं, क्योंकि, इसके कोई विशेषता नहीं है । असातावेदनीय और अयशकीर्तिको मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादन तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । पुरुषवेदको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त और शेष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदिय प्रकृतियोंका गतिसंयोग भी इसी प्रकार कहना चाहिये । देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्विको सब देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । [वैक्रियिकशरीर] और वैक्रियिकशरीरांगोपांगको मिथ्यादृष्टि देव व नरकगतिसे संयुक्त तथा शेष देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । स्थिर और शुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग सातावेदनीयके समान है । अस्थिर और अशुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग असातावेदनीयके समान है । उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा शेष तिर्यक देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं ।

सच्चासिं पयडीणं वंधस्स तिरिक्खा चेव सामी । वंधद्धाणं वंधविणद्धाणं च सुगमं ।
पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अडुकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-बंध-रस-फास-
अगुस्वल्लहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइड्ढि चउच्चिहो वंधो, सेसेसु तिविहो,
धुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्धवो ।

णिद्वाणिद्वा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरा-
लियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-
मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बी-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-
अणादेज्ज-णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ६५ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइड्ढी सासणसम्माइड्ढी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा
॥ ६६ ॥

सब प्रकृतियोंके बन्धके तिर्यंच ही स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान
सुगम हैं । पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व
कार्मण शरीर, व्रण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुस्वल्लघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय,
इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष गुणस्थानोंमें तीन
प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व
अध्रुव बन्ध होता है ।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,
स्त्रीवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिक-
शरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत,
अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय व नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ ६५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक
हैं ॥ ६६ ॥

एदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरदे — थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्ख-गइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंधडण-तिरिक्खगइपाओग्माणुपुव्वी-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुस्सर-णीचागोदाणं तिरिक्खगइए उदयवोच्छेदो णत्थि, सासणे बंधवोच्छेदो चेव । णवरि तिरिक्खगइपाओग्माणुपुव्वीए' पुव्वं बंधो वोच्छिण्णो पच्छा उदओ, असंजदसम्मादिद्धिम्हि उदयवोच्छेदादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणसम्मादिद्धिचरिमसमयम्हि उभयवोच्छेदसणादो । मणुसाउ-मणुसगइपाओग्माणुपुव्वीणं तिरिक्खगइए उदओ चेव णत्थि, विरोहादो । तेणेदासिं बंधोदयाणं पुव्वं पच्छा वोच्छेद-विचारो णत्थि । दुमग-अणादेज्जाणं पुव्वं बंधो वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, सासणे वोच्छिण्ण-बंधाणं अजंदसम्मादिद्धिम्हि उदयवोच्छेदसणादो ।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवेद-चउसंठाण-पंचसंधडण-उज्जेव अप्पसत्थ-विहायगइ-दुमग दुस्सर-अणादेज्जाणं सोदय-परोदएहि बंधो । णवरि तिरिक्खजोणिणीसु इत्थि-वेदस्स सोदएणेव बंधो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-णीचागोदाणं सोदएणेव बंधो । मणुसाउ-

इसके द्वारा सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं— स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुस्वर और नीचगोत्र, इनका तिर्यग्गतिमें उदयव्युच्छेद नहीं है, सासादनगुणस्थानमें केवल बन्धव्युच्छेद ही है । विशेष इतना है कि तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय; क्योंकि [सासादनगुणस्थानमें बन्धके नष्ट हो जानेपर तत्पश्चात्] असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है । अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टिके चरम समयमें दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है । मनुष्यायु और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका तिर्यग्गतिमें उदय ही नहीं है, क्योंकि, वहाँ इनके उदयका विरोध है । इसी कारण इनके बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका विचार नहीं है । दुर्भग और अनादेयका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय; क्योंकि सासादनगुणस्थानमें इनके बन्धके नष्ट हो जानेपर असंयत-सम्यग्दृष्टिमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है ।

स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका स्त्रीवेद-परोदयसे बन्ध होता है । किन्तु विशेष इतना है कि तिर्यक् योनिमतियोंमें स्त्रीवेदका स्त्रीवेदसे ही बन्ध होता है । तिर्यगायु, तिर्यग्गति और नीचगोत्रका स्त्रीवेदसे ही बन्ध होता है ।

१ प्रतिपु ' तिरिक्खगइपाओग्माणुपुव्वी' इति पाठः ।-

२ प्रतिपु ' सासणे ' इति पाठः ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं परोदएणैव बंधो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगार्णं सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावादे । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वीए वि सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए विणा अण्णत्थ उदयाभावादे ।

यीणगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादे । इत्थिवेद-मणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंधडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादे । तिरिक्खाउ-मणुस्साउआणं णिरंतरो बंधो, जहण्णेण वि एगसमयबंधाणुवलंभादे । तिरिक्खगइ-ओरालियदुग-तिरिक्ख-गइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो, तेउ-वाउकाइयाणं तेउ-वाउकाइय-सत्तम-पुढवीणेरइएहिंतो आसंतूण पंचिदियतिरिक्ख-तप्पज्जसंत-जोणिणीसु उप्पण्णाणं सणक्कुमारादि-देव-णेरइएहिंतो तिरिक्खेसुप्पण्णाणं च णिरंतरबंधदंसणादे । णवरि सासणे सांतरो चेव, तस्स तेउ-वाउकाइएसु अभावादे सत्तमपुढवीदे तग्गुणेण णिग्गमणाभावादे च । ओरालियदुगस्स

मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदयसे बन्ध होता है । औदारिकशरीर और औदारिकशरीररंगोपांगका खोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनका उदय नहीं रहता । तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका भी खोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिको छोड़कर अन्यत्र उसके उदयका अभाव है ।

स्थानगुद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुक्का निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं । स्त्रीवेद, मनुष्यगति, चार संस्थान, पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी उद्योत, अग्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है । तिर्यगायु और मनुष्यायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, जघन्यसे भी इनका एक समय बन्ध नहीं पाया जाता । तिर्यग्गति, औदारिकद्विक, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्र, इनका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिकोंके तथा तेजकायिक, वायुकायिक व सप्तम पृथिवीके नारकियोंमेंसे आकर पंचेन्द्रिय तिर्येच और उसके पर्याप्त व योनितिर्योमें उत्पन्न हुए जीवोंके, और सनत्कुमारादि देव व नारकियोंमेंसे तिर्येचोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके भी इनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है । विशेषता यह है कि सासादन गुणस्थानमें सान्तर ही बन्ध होता है, क्योंकि, वह गुणस्थान तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें होता नहीं है, तथा सप्तम पृथिवीसे इस गुणस्थानके साथ निर्गमन भी नहीं होता । औदारिकद्विकका

१ काप्रतौ 'तिरिक्खसपज्जच-' अ-आप्रत्यो 'तिरिक्खतसपज्जच-' इति पाठ ।

२ प्रतिषु 'उप्पण्णाणं ओरालियसरीरअंगोवग सणक्कुमारादि-' इति पाठ ।

सांतर-णिरंतरो ।

एदासिं पञ्चया सञ्चगुणसु पंचद्वाणियपयडिपञ्चएहि तुल्ला । णवरि तिरिक्ख-
मणुस्साउआणं मिच्छाइडिम्हि कम्मइयपञ्चओ णत्थि । पंचिदियतिरिक्खपञ्जत्त-पंचिदिय-
तिरिक्खजोणिणासु ओगलियमिस्स-कम्मइयपञ्चया णत्थि । चउच्चिहेसु तिक्खिंसेसु सामणे
ओरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चया णत्थि, अपञ्जत्तकाले तस्साउबंधाभावाद्दो ।

थीणगिद्धिनिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं मिच्छाइडि चउगइसंजुत्तं, सामणो तिगइ-
संजुत्तं बंधओ । इत्थिवेदं गिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं, मणुसाउ-मणुसगइपाओग्गणुपुव्वीओ
मणुसगइसंजुत्तं, तिरिक्खउ-तिरिक्खगइपाओग्गणुपुव्वी-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं, ओरा-
लियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंधडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, अप्पमत्थं-
विहायगइ-दुमग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि देवगदीए विणा तिगइसंजुत्तं बंधंति । एदासिं
पंचडीणं बंधस्स तिरिक्खा सामी । बंधट्टाणं बंधविणट्टट्टाणं च सुगमं । थीणगिद्धिनिय-
अणंताणुबंधिचउक्काणं मिच्छाइडिम्हि चउच्चिहो बंधो । सामणे दुविहो, अणादि-धुवा-

सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय सय गुणस्थानोंमें पंचस्थानिक प्रकृतियोंके समान है । विशेषता केवल यह है कि तिर्यगाणु और मनुष्यायुका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें कर्मण प्रत्यय नहीं होता । पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमतियोंमें औदारिकमिथ्र व कर्मण प्रत्यय नहीं होते । चार प्रकारके तिर्यचोंमें सासादन गुणस्थानमें औदारिकमिथ्र और कर्मण प्रत्यय नहीं होते, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उसके आयुका बन्ध नहीं होता ।

स्थानशुद्धिअय और अनन्तानुबन्धिचतुष्केके मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त और सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बन्धक है । खंविदको नरकगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, मनुष्यायु एवं मनुष्यगतिनायोग्यानुपूर्वको मनुष्यगतिके संयुक्त-तिर्यगाणु, तिर्यगतिस्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यचगतिके संयुक्त; औदारिकअपीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग और पांच संहननको तिर्यगति व मनुष्यगतिके संयुक्त; तथा अप्रशस्तविहायोगति, दुर्मग, दुस्वर, अनदिय और नीचगोत्रको देवगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधने हैं । इन प्रकृतियोंके बन्धके तिर्यच स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । स्थानशुद्धिअय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है । जेप प्रकृतियोंका

१ प्रतिपु ' इत्थिवेद- ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' अपञ्जत्त- ' इति पाठः ।

भावान्नादे । सेसपयडीणं वंधो सादि-अद्भुतो, अद्भुवबंधितादे ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ--णिरयगइ--एइंदिय--वीइंदिय-तीइं--
दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण--असंपत्तसेवट्टसंघडण--णिरयगइपाओ-
ग्गाणुपुत्वि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को
बंधो को अवंधो ? ॥ ६७ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ६८ ॥

एदस्स अत्थो सुच्चदे— मिच्छत्त-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-आदाव-
थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं वंधोदया समं वोच्छिण्णा, मिच्छाइट्ठिं मोत्तूणेदासिं उवरिसेसु
उदयामावादे । णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणाणं वंधवोच्छेदो चेव णोदयस्स,
सन्धगुणेषुदयदंसणादे । णिरयाउ-णिरयगइपाओग्गाणुपुत्वीणं तिरिक्खगदीए उदयाभावान्नादे पुत्वं
पच्छा वंधोदयवोच्छेदविचारो णत्थि ।

वन्ध सादि च अद्भुव होता है. क्योंकि वे अद्भुवबन्धी हैं ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि-
न्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तमृपाटिकाशरीरसंहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप,
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मोंका कौन वन्धक और कौन अवन्धक
है ? ॥ ६७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि वन्धक हैं । ये वन्धक हैं, शेष तिर्यंच अवन्धक हैं ॥ ६८ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— मिथ्यात्व, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
आताप. स्थावर, सूक्ष्म. अपर्याप्त और साधारण, इनका वन्ध और उदय दोनों साथ
व्युच्छिन्न होते हैं. क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर उपरिम गुणस्थानोंमें इन
प्रकृतियोंके उदयका अभाव है । नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तमृपाटिकासंहनन,
इनके वन्धका ही व्युच्छेद है, उदयका नहीं: क्योंकि सब गुणस्थानोंमें इनका उदय देखा
जाता है । नारकायु और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्विका तिर्यग्गतिमें उदय न होनेसे
इनके पूर्व या पश्चान् वन्धोदयव्युच्छेद होनेका विचार नहीं है ।

१ अ-आप्रत्यो: ' उदयभावान्नादे ' इति पाठ ।

मिच्छत्तस्स सोदएणेव, गिरयाउ-गिरयगइ-गिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीणं परोदएणेव, सेसाणं सोदय-परोदएहि बंधो । णवरि पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउ-रिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदएण बंधो । पंचिंदियतिरिक्ख-[पज्जत्]-जोणिणीसु अपज्जत्तस्स परोदएण बंधो । जोणिणीसु णसुंसयवेदस्स परोदएण बंधो । मिच्छत्त-गिरयाउणं गिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधस्सुवरमाभावांदो । सेसपयडीणं बंधो सांतरो, एगसमएण बंधवरमदंसणादो । मिच्छत्त-णसुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंधडण-गिरयगइ-गिरयगइ-पाओग्गाणुपुव्वी-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं तेवणण पच्चया । जोणिणीसु एक्कावणण पच्चया । गिरयाउअस्स तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तएसु एक्कावणण पच्चया । पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु एगूणवंचास पच्चया । मिच्छत्तं चउगइसंजुत्तं, णसुंसयवेद-हुंडसंठाणाणि तिगइसंजुत्तं, गिरयाउ-गिरयगइ-गिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीओ गिरयगइसंजुत्तं, एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणे तिरिक्खगइसंजुत्तं, असंपत्तसेवट्टसंधडणमपज्जत्तं च तिरिक्ख-मणुसगइ-संजुत्तं मिच्छाइड्डी बंधंति । एदासिं पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं बंधविणट्टद्धाणं

...

मिथ्यात्वका स्वोदयसे ही; नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदयसे ही; तथा शेष प्रकृतियोंका स्वोदय-परोदयसे ही बन्ध होता है । विशेषता यह है कि पंचेन्द्रियादिक तीन प्रकारके तिर्यंचोंमें एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाती, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंका परोदयसे बन्ध होता है । पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और योनिमतियोंमें अपर्याप्तका परोदयसे बन्ध होता है । योनिमतियोंमें नपुंसकवेदका परोदयसे बन्ध होता है । मिथ्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम नहीं होता । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, नरकगति, नरक-गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनके तिरपन प्रत्यय होते हैं । योनिमतियोंमें इक्षयावन प्रत्यय होते हैं । नारकायुके तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तोंमें इक्षयावन प्रत्यय होते हैं । पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें उन्चंचास प्रत्यय होते हैं ।

मिथ्यादृष्टि तिर्यंच मिथ्यात्वको चारों गतियोंसे संयुक्त, नपुंसकवेद व हुण्ड-संस्थानको तीन गतियोंसे संयुक्त; नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको नरकगतितसे संयुक्त; एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनको तिर्यंगतितसे संयुक्त; तथा असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन और अपर्याप्तको तिर्यंगगति व मनुष्यगतितसे संयुक्त वांधते हैं । इन प्रकृतियोंके बन्धके तिर्यंच

च सुगमं । मिच्छत्तस्स सादिओ अणादिओ धुवो अद्दवो ति चउव्विहो बंधो । सेसाणं सादि-
अद्दवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

अपच्चक्खाणकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ?

॥ ६९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ ७० ॥

एदेण संगहिदत्थाणं पयासो कीरेदे—एदासिं बंधोदया समं वोच्छिण्णा, देण्हम-
संजदसम्मादिट्ठिमिह् विणासुवलंभादो । सोदय-परोदएण बंधो, अद्दुवोदयत्ता । णिरंतरो, धुव-
बंधित्तादो । पच्चया तिरिक्खाणं पंचट्ठाणियंपयडिपच्चएहि तुल्ला । मिच्छाइट्ठी चउगइ-
संजुत्तं, सासणसम्मादिट्ठी तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिट्ठी असंजदसम्मादिट्ठी देवगइसंजुत्तं

स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धचिनष्टस्थान सुगम है । मिथ्यात्वका सादिक, अनादिक,
ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता
है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक
है ? ॥ ६९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक
हैं ॥ ७० ॥

इस सूत्रके द्वारा संगृहीत अर्थोंका प्रकाश करते हैं— इन चारों प्रकृतियोंका बन्ध
और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दोनोंका
विनाश पाया जाता है । इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवोदयी
हैं । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी हैं । इनके प्रत्यय तिर्यच्चोंके पंचस्थानिक
प्रकृतियोंके समान हैं । मिथ्यादृष्टि तिर्यच्च इन्हें चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि
तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि देवगतिसे संयुक्त

बंधंति । तिरिक्खा सामी । बंधद्वाणं बंधविणह्ण्डाणं च सुगमं । मिच्छाइड्ढिम्ह चउव्विहो ।
सेसगुणेसु तिविहो, धुवाभावादो ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ७१ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी संजदासंजदा
बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ७२ ॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— बंधोदयाणमेत्थ पुब्बं पच्छा वोच्छेद्द्विचारो णत्थि, तिरिक्ख-
गईए देवाउअस्स उदयाभावादो । परोदएण बंधो, बंधोदयाणमकमेण उत्तिविरोहादो ।
गिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु
मिच्छाइड्ढि-सासणसम्माइड्ढि-असंजदसम्माइड्ढि-संजदासंजदाणं जहाकमेण एकवावण्ण-छादाल-
वादाल-सत्तत्तीसपच्चया होति । जोगिणीसु एगूणवंचास-चउवेदालीस-चालीस पंचतीस-
पच्चया । सेसं सुगमं । सत्त्वे देवगइसंजुत्तं बंधंति । तिरिक्खा सामी । बंधद्वाणं बंधविणह्ण्डाणं
च सुगमं । देवाउअस्स बंधो सव्वत्थ सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

बांधते हैं । तिर्यंच जीव इनके स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम
हैं । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष गुणस्थानोंमें तीन
प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, उनमें भ्रुच बन्धका अभाव है ।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ७१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत बन्धक हैं । ये
बन्धक हैं, शेष तिर्यंच अबन्धक हैं ॥ ७२ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— यहां बन्ध और उदयका पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका
विचार नहीं है, क्योंकि, तिर्यंगतिमें देवायुके उदयका अभाव है । देवायुका परोदयसे
बन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्ध और उदय दोनोंके एक साथ अस्तित्वका विरोध है ।
बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे बन्धविभ्रामका अभाव है । तिर्यंच, पंचेन्द्रिय
तिर्यंच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयत-
सम्यग्दृष्टि और संयतासंयतोंके यथाक्रमसे इक्यावन, छ्यालीस, ब्यालीस और सैंतीस
प्रत्यय होते हैं । योनिमतियोंमें उंचास, चवालीस, चालीस और पैंतीस प्रत्यय होते हैं ।
शेष प्रत्ययरूपणा सुगम है । सब तिर्यंच देवायुको देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । तिर्यंच
स्वामी है । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । देवायुका बन्ध सर्वत्र सादि व
अभ्रुच होता है, क्योंकि, वह अभ्रुचबन्धी प्रकृति है ।

पंचिन्द्रियतिरिक्खअपज्जत्ता पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-
सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-
तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिं-
दियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंउण-ओरालियसरीर-
अंगोवंग-छसंघडण-वण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओ-
ग्गाणुपुब्बी-अगुरुगलहुगं-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-दो-
विहायगइ-त्तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिरा-
थिर-सुहासुह-सुगम-[दुभग-] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस-
कित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ ७३ ॥

सुगमं ।

सव्वे एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ ७४ ॥

धीणगिद्धितिय-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-हुंड-

पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोमं पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति,
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक तैजस व कामण शरीर,
छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गति व
मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो
विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, प्रत्येक, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर,
शुभ, अशुभ, सुभग, [दुर्भग], सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति,
निर्माण, नीचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक
है ? ॥ ७३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

ये सब पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ ७४ ॥

स्थानगृद्धित्रय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय

संठाणविरिहदपंचसंठाण—असंपत्तसेवद्वसंघडणविरिहदपंचसंघडण—मणुसगइपाओग्माणुपुञ्जी—पर—
घादुस्सासादावुज्जोव—देविहायगइ—यावर—सुहुम—पज्जत्त—साहारण—सुभग—मुस्सर—दुस्सर—आदेज्ज—
—जसकित्ति—उच्चागोद—इत्थि—पुरिसवेदाणमपज्जत्तएसु’ उदयाभावादो अवसेसाणं पयडीणमुदय-
वोच्छेदाभावादो च पुव्वं पच्छा वंधोदयवोच्छेदविचारो णत्थि ।

पंचणाणावरणीय—च उदंसणावरणीय—मिच्छत्त—णतुंसयवेद—तिरिक्खाउ—तिरिक्खगइ—तेजा-
कम्मइयसरीर—वण्ण—गंध—रस—फास—अगुरुअलहुअ—तस—चादर—अपज्जत्त—थिराथिर—सुभासुभ—दूभग—
अणादेज्ज—अजसकित्ति—णिमिण—पंचंतराइय—णीचामोदाणं सोदएणेव वंधो । णिदा—पयल—सादा-
साद—सोलसकसाय—छण्णोकसायाणं सोदय—परोदएणेव वंधो, अद्दुवोदयत्तादो । ओरालियसरीर-
हुंडसंठाण—ओरालियसरीरअंगोवंग—असंपत्तसेवद्वसंघडण—उवघाद—पत्तेयसरीराणं सोदय—परोदएण
बंधो, विग्गहगदीए एदासिसुदयाभावादो । तिरिक्खगदिपाओग्माणुपुञ्जीए वि सोदय—परोदएण
बंधो, विग्गहगदीए चेव उदयादो । अण्णपयडीणं परोदएणेव वंधो, एत्थ एदासिसुदयाभावादो^१ ।

जाति, हुण्डसंस्थानसे रहित पांच संस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहननसे रहित पांच
संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो
विहायोगतियां, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय,
यशकीर्ति, उच्चगोत्र, स्त्रीवेद और पुरुषवेद, इनका अपर्याप्तोंमें उदय न होनेसे तथा
शेष प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद न होनेसे यहां बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद
होनेका विचार नहीं है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यग्गायु,
तिर्यग्गति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर,
अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनदेय, अयशकीर्ति, निर्माण, पांच
अन्तराय और नीचगोत्र, इनका स्वोदयसे ही बन्ध होता है । निद्रा, प्रचला, साता व
असाता वेदनीय, सोलह कपाय और छह नोकपाय, इनका स्वोदय परोदयसे ही बन्ध
होता है, क्योंकि, ये अद्भुतोदयी प्रकृतियां हैं । औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक-
शरीररंगोपांग, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, उपघात और प्रत्येकशरीर, इनका स्वोदय-
परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है । तिर्यग्गति-
प्रायोग्यानुपूर्विका भी स्वोदय-परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, उसका विग्रहगतिमें
ही उदय रहता है । अन्य प्रकृतियोंका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके
उदयका अभाव है ।

१ प्रतिपु ' -पुरिसवेदा णतुसयपज्जत्तएसु ' इति पाठ ।

२ प्रतिपु ' रासिसुदयामावादो ' इति पाठः ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणु-
स्साउ-ओरालिय-त्तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा-
इयाणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादो एगसमएण बंधुवरमाभावादो च । तिरिक्खगइ-तिरिक्ख-
गइपाओग्गाणुपुच्चि-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो, तेउक्काइय-वाउक्काइएहिंतो पंचिदिय-
तिरिक्खअपज्जत्तेसुप्यण्णाणमंतोमुहुत्तकालं णिरंतरं बंधुवलंभादो, अण्णत्थ सांतरत्तदंसणादो ।
अवसेसाणं पयडीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरसुवलंभादो ।

एत्थ सव्वकम्माणं वादाल पच्चया, वेउच्चिय-वेउच्चियमिस्स-इत्थि-पुरिसोरालिय-मण-
वचिजोगाणमभावादो । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणमिगिदालीस पच्चया, कम्मइयकाय-
जोगेण सह चोइसण्णं पच्चयाणमभावादो । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-तिरिक्खगइ-
पाओग्गाणुपुच्चि-आदाउज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं वज्जंति । मणुस्साउ-
मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चि-उच्चोगोदाणि मणुसगइसंजुत्तं वज्जंति । कुदो ? सामावि-
यादो । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वज्जंति । सव्वासिं पयडीणं बंधस्स

पांच ज्ञानावरणयि, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा,
तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु,
उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी
प्रकृतियां हैं, तथा एक समयमें इनका बन्धविश्राम भी नहीं होता । तिर्यग्गति, तिर्यग्गति-
प्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक
और वायुकायिक जीवोंमेंसे पंचेन्द्रिय तिर्यक् अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त
काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है, तथा अन्यत्र सान्तर बन्ध देखा
जाता है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका
विश्राम पाया जाता है ।

यहां सब कर्मोंके व्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, स्त्रीवेद,
पुरुषवेद, औदारिककाययोग, चार मन और चार वचन योग प्रत्ययोंका अभाव है । विशेषता
यह है कि तिर्यगायु और मनुष्यायुके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, कार्मण काययोगके
साथ यहां चौदह प्रत्ययोंका अभाव है । शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है ।

तिर्यगायु, तिर्यग्गति, पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यग्गति-
प्रायान्योनुपूर्वी, आताप, उद्योत. स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, ये प्रकृतियां तिर्यक्गतिसे
संयुक्त बंधती हैं । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र
प्रकृतियां मनुष्यगतिसे संयुक्त बंधती हैं । इसका कारण स्वभाव ही है । शेष प्रकृतियां
तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बंधती हैं । सब प्रकृतियोंके बन्धके तिर्यक् स्वामी हैं ।

तिरिक्खा सामी । बंधेद्धाणं बंधविणड्डहाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भयं-दुग्गुच्छा-तेजा-कम्मइयंसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव-उवंधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं चउव्विहो वेधो, धुवबंधित्तादो ।

मणुसगदीएँ मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओघं णेयवंव जाव तित्थयेरत्ति । णवरि विसेसो, वेट्ठाणे अपच्चक्खाणावरणीयं जधा पंचिंदियतिरिक्खभंगो ॥ ७५ ॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— ओघम्मि जासिं पयडीणं जे बंधया परूविदा ते चेव तासिं पयडीणं बंधया एत्थ वि होति त्ति ओघमिदि उत्तं । सव्वट्ठाणेषु ओघत्ते संपत्ते तण्णिसेहं वेट्ठाणियपयडीणं अपच्चक्खाणावरणीयस्स च पंचिंदियतिरिक्खभंगो त्ति परूविदं । एदेण देसामासिएणं सूइदत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा— पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसकित्ति-उच्चानोद-पंचंतराइयाणं गुणगयबंधसामित्तेण, बंधोदयाणं पुच्चं पच्छा वोच्छेद-विचारेण, सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरबंधविचाराणए, बंधद्धाणं बंधविणड्डहाणं च सादि-आदि-

बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, खोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कर्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, भुवबन्धी हैं ।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त एवं मनुष्यनियोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये । विशेषता इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियों और अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है ॥ ७५ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— ओघमें जिन प्रकृतियोंके जो बन्धक कहे गये हैं वे ही उन प्रकृतियोंके बन्धक यहां भी है, इसीलिये सूत्रमें 'ओघके समान' ऐसा कहा है । सब स्थानोंमें ओघत्वके प्राप्त होनेपर उसके निषेधार्थ 'द्विस्थानिक प्रकृतियों और अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है' ऐसा कहा है । इस देशामर्शक सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका गुणस्थानगत बन्धस्वामित्व, बन्ध और उदयका पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका विचार, स्वोदय-परोदय बन्धका विचार, सान्तर-निरन्तर बन्धका विचार, बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान

१ अ-आप्तयोः 'बंधद्धाणं बंधविणड्डहाणं सादि-'; काप्रती 'बंधद्धाणं बंधविणड्डहाणं च सुगमं सादि' इति पाठः । मप्रती स्वीकृतपाठः ।

विचारेसु वि ओघादो णत्थि भेदो । जत्थत्थि तं परूवेमो— मिच्छाइडिस्स तेवण्ण पच्चया, सासणे अडेत्तालीस, सम्मामिच्छादिडिम्हि वाएत्तालीस, असंजदसम्मादिडिम्हि चोदालीस, वेउच्चियदुगभावादो । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि सच्चगुण्डाणेसु पुरिस-णत्तंसयवेदा, असंजदसम्माइडिम्हि ओरालियमिस्स-कम्मइया, अप्पमत्ते आहारदुगं णत्थि । मिच्छाइड्डी चउ-गइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, उवरिमा देवगइसंजुत्तं मणुसगइसंजुत्तं च बंधंति ।

णिद्दाणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुवंधिचउक्क-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-पीचागोदाणि ति एदाओ एत्थ वेद्धानपयडीओ । ओघवेद्धानपयडीहिंतो जेण मणुस्साउ-मणुसदुग-ओरालियदुग-वज्जरिसहसंघडणेहि अधियाओ तेण पंचिदियतिरिक्खवेद्धानभंगो ति वुत्तं ।

एत्थ थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरा-लियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चि-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणा-देज्जाणं पुवं वंधो वोच्छिण्णो पच्छ उदओ । अणंताणुवंधिचउक्कस वंधोदया समं वोच्छि-

तथा सादि आदि बन्धके विचारोंमें भी ओघसे कोई भेद नहीं है । जहां भेद है उसे कहते हैं— मिथ्यादृष्टिके तिरपेन प्रत्यय, सासादनमें अडतालीस, सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें व्यालीस और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चवालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, यहां वैकृतिक व वैकृतिकमिश्र प्रत्यय नहीं होते । मनुष्यनियोमें इसी प्रकार प्रत्यय होते हैं । विशेष इतना है कि सब गुणस्थानोंमें पुरुष व नपुंसक वेद, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र व कामेण, तथा अप्रमत्त गुणस्थानमें आहारद्विक प्रत्यय नहीं होते । मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त और उपरिम जीव देवगतिके संयुक्त व मनुष्यगतिके संयुक्त बांधते हैं ।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुवन्धिचउत्तुक्क, खीवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगगति, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यगगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, ये यहां द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं । ओघद्विस्थान प्रकृतियोंसे चूँकि यहां मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकद्विक और वज्रपंभसंहनन प्रकृतियोंसे अधिक है, अत एव 'पंचेन्द्रिय तिर्यचोकी द्विस्थान प्रकृतियोंके समान प्ररूपणा है' ऐसा कहा है ।

यहां स्त्यानगृद्धित्रय, खीवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय । अनन्तायु-

ज्जंति, सासणे दोणमुच्छेददंसणादो । तिरिक्खाउ- [तिरिक्खगइ-] तिरिक्खगइपाओग्गाणु-
पुच्ची-उज्जोवाणं मणुस्सेसुदयाभावादो बंधोदयाणं पुच्चं पच्छा वोच्छेदविचारो णत्थि । णीचा-
गोदस्स पुच्चं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, बंधे सासणम्मि णट्ठे संति पच्छा संजदासंजदग्गि
उदयवोच्छेददंसणादो ।

मणुस्साउ-मणुस्सगईओ सोदएणेव बंधंति । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-
पाओग्गाणुपुच्ची-उज्जोवाणं परोदएणेव, मणुस्सेसु एदासिसुदयाभावादो । अवसेसाओ पयडीओ
सोदय-परोदएण वज्झंति, अद्धुवोदयत्तादो काओ विग्गहगदीए उदयाभावादो का वि
तत्थेवुदयादो ।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादो । [मणुस्साउ-]
तिरिक्खाउआणं पि णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-ओरालिय-
सरीरं-ओरालियसरीरंओगोवंगाणं सांतर णिरंतरो, सव्वत्थ सांतरस्स एदासिं बंधस्स आणदादि-

बन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन
शुणस्थानमें दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है । तिर्यगायु, [तिर्यग्गति], तिर्यग्गतिप्रायोग्यानु-
पूर्वी और उद्योत, इनका चूकि मनुष्योंमें उदय होता नहीं है अतः इनके बन्ध और उदयके
पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका यहां विचार नहीं है । नीचगोत्रका पूर्वमें बन्ध और
पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनमें बन्धके नष्ट हो जानेपर पश्चात् संयता-
संयतमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है ।

मनुष्यायु और मनुष्यगति स्वोदयसे ही बंधती हैं । तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिर्यग्गति-
प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियां परोदयसे ही बंधती हैं, क्योंकि, मनुष्योंमें इनके
उदयका अभाव है । शेष प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, वे अधुवोदयी
हैं तथा किन्हींके विग्रहगतिमें उदयका अभाव है तो किन्हींका वहां ही उदय रहता है ।

स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये
ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं । [मनुष्यायु] और तिर्यगायुका भी निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
एक समयमें इनके बन्धका विश्राम नहीं होता । मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर
और औदारिकशरीरांगोपांगका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्धके
सर्वत्र सान्तर होनेपर भी आनतादिक देवोंमेंसे मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त

देवेहितो मणुस्सेसुप्पण्णामंतोमुहुत्तकालं गिरंतरत्तुवलंभादो । अवसेसाओ सांतरं वज्झंति, एगंसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

एदासिं पच्चया दोसु वि गुणद्वारेणसु तिरिक्खवेद्वानियपयडिपच्चएहि तुल्ला । थीण-गिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कं च मिच्छाइद्वी चउगइसंजुत्तं, इत्थिवेदं दो वि गिरियगईए विणा तिगइसंजुत्तं, तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-उज्जोवाणि तिरिक्ख-गइसंजुत्तं, मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुच्चीओ मणुसगइसंजुत्तं, ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंधडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं अपसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदराणि देवगईए विणा मिच्छाइद्वी तिगइसंजुत्तं, सासणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधइ ति ।

सच्चासिं पयडीणं बंधस्स मणुसा सामी । बंधद्धानं बंधविणद्वद्धानं सादि-आदिविचारो वि ओघतुल्लो ।

णिद्दा-पयलाणं पुवंपच्छबंधोदयवोच्छेद-सोदयप्ररोदय-सांतरणिरंतरं बंधद्धानं बंध-विणद्वद्धानं सादि-आदिवंधपरिक्खा ओघतुल्ला । पच्चया मणुसगईए परुविदपच्चयतुल्ला । मिच्छाइद्वी चउगइसंजुत्तं, सासणसम्मादिद्वी तिगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं बंधंति ।

काल तक निरन्तरता पायी जाती है । शेष प्रकृतियां सान्तर बंधती हैं, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है ।

इनके प्रत्यय दोनों ही गुणस्थानोंमें तिर्यचौकी द्विस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान हैं । स्थानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कको मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, स्त्रीवेदको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि दोनों ही नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्तः तिर्यगायु, तिर्यग्गति. तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यग्गतिसे संयुक्तः मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको मनुष्यगतिसे संयुक्त; औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग और पांच संहनन, इनको तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्तः तथा अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको मिथ्यादृष्टि देवगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त व सासादन-सम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति एवं मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । सब प्रकृतियोंके बन्धके मनुष्य स्वामी हैं । बन्धाध्वान बन्धविनप्रस्थान और सादि आदिकका विचार भी ओघके समान है ।

निद्रा और प्रचलाका पूर्व या पश्चात् होनेवाला बन्धोदयव्युच्छेद, स्वोदय-प्ररोदय-बन्ध, सान्तर-निरन्तर बन्ध, बन्धाध्वान, बन्धविनप्रस्थान और सादि-आदि बन्धकी परीक्षा ओघके समान है । प्रत्यय मनुष्यगतिमें कहे हुए प्रत्ययोंके समान हैं । मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष गुणस्थानवर्ती

मणुस्सा सामी ।

सादावेदणीयपरिक्खा वि मूलोघतुल्ला । णवरि पच्चयभेदो सामिभेदो च णायव्वो । मिच्छाइद्दी सासणसम्माइद्दी सादावेदणीयं णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं, उवरिमा देवगइसंजुत्तं बंधंति । एवं सच्चपेदेसु पच्चयसंजुत्तसामित्तभेदो चेव । सो वि सुगमो । अण्णत्थ मूलोघं पेच्छिद्रूण ण कौच्छि भेदो अत्थि त्ति ण परूविज्जदे । णवरि पंचिंदिय-तस-बादराणं बंधो मिच्छाइद्दिमिह सोदओ सांतर-णिरंतरो । मणुसपज्जत्तएसु अपज्जत्तबंधो परोदओ । एवं मणुसिणीसु वि वत्तव्वं । णवरि उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिद्दिमिह सोदओ बंधो । पुरिस-णत्तुंसयवेदाणं सच्चत्थ परोदओ । इत्थिवेदस्स सोदओ । खवगसेडीए तित्थयरस्स णत्थि बंधो, इत्थिवेदेण सह खवगसेडिमारोहणे संभवाभावादो ।

मणुसअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तमंगो ॥ ७६ ॥

एदं बज्जमाणपयडिसंखाए समाणत्तं पेक्खिय पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तमंगो' त्ति जुत्तं । पज्जवडियणए अवलंबिज्जमाणे भेदो उवलम्भदे । तं जहा— पंचणाणावरणीय-णवदंसणा-

गतिसे संयुक्त बांधते हैं । मनुष्य स्वामी हैं ।

सातावेदनीयकी परीक्षा भी मूलोघके समान है । विशेष यह है कि प्रत्ययभेद व स्वामिभेद जानना चाहिये । मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि सातावेदनीयको नरक-गतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । इस प्रकार सब पदोंमें प्रत्ययसंयुक्त स्वामित्वभेद ही है । वह भी सुगम है । अन्यत्र मूलोघकी अपेक्षा और कुछ भेद नहीं है, इसीलिये उसकी यहां प्ररूपणा नहीं की जाती । विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय, त्रस और वादरका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय और सान्तर-निरन्तर होता है । मनुष्य पर्याप्तकोंमें अपर्याप्तका बन्ध परोदयसे होता है । इसी प्रकार मनुष्यनियोंमें भी कहना चाहिये । विशेषता केवल यह है कि उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीर, इनका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय बन्ध होता है । पुरुषवेद और नपुंसकवेदका सर्वत्र परोदय बन्ध होता है । स्त्रीवेदका स्वोदय बन्ध होता है । क्षपकश्रेणीमें तीर्थंकरका बन्ध नहीं होता, क्योंकि, स्त्रीवेदके साथ क्षपकश्रेणी चढ़नेकी सम्भावना नहीं है ।

मनुष्य अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तीर्थंकर अपर्याप्तोंके समान है ॥ ७६ ॥

यह बध्यमान प्रकृतियोंकी [१०९] संख्यासे समानताकी अपेक्षा करके 'पंचेन्द्रिय-तिर्थंकर अपर्याप्तोंके समान है' ऐसा कहा गया है । पर्यायार्थिक नयका अवलंबन करने-पर भेद पाया जाता है । वह इस प्रकार है— पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता

सोलसकसाय-णत्रणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ तिरिक्खगइ-मणुसगइ-एइंदिय-वेइंदिय-
तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण ओरालियसरीरअंगो-
वेग-छसंघडण-वण्ण-बंध-रस-फास-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-अगुरुनलहुव-उवघाद-
परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस-थावर-वादर सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साधारण-
सरीर-[थिरा-]थिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-
णिमिण-णीसुचचागोद-पंचतराइयाणि त्ति एदाओ एत्थ वज्जमाणपयडीओ । एत्थ शीणगिद्धि-
तिय-इरिय-पुरिसवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-हुंड-
संठाणविरहिदपंचसंठाण-असंपत्तसेवट्टवदिरित्तपंचसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-परघादु-
स्सास-आदावुज्जोव-दोविहायगदि-थावर-सुहुम-पज्जत्त-साहारण-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-
जसकित्ति-उच्चागोदाणं उदयाभावादो वंधोदयाणं संतासंताणं सण्णिकासाभावो-पुच्चं पच्छा
बंधोदयवोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे । सेसपयडीणं पि वंधस्सेव एत्थ उदयस्स वोच्छेदामावादो
ण कीरदे ।

पंचणाणावरणीय-चट्टुदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवेद-मणुस्साउ मणुसगइ-पंचिदिय-
जादि-तेजा-कम्मइय-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुव-तस-वादर-अपज्जत्त-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-

व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व. सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु,
तिर्यग्गति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय
जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगो-
पांग, छह संहनन. वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य-
गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो
विहायोगतियां, त्रस. स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रलेकशरीर, साधारणशरीर,
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयश-
कीर्ति. निर्माण, नीचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, ये यहां वध्यमान प्रकृतियां हैं। इनमें
स्थानगृहित्रय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,
चतुरिन्द्रियजाति. हुण्डसंस्थानसे रहित पांच संस्थान, असंभ्रांतसृपाटिकासंहननको
छोड़कर शेष पांच संहनन. तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत,
दो विहायोगतियां, स्थावर. सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण. सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय,
यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका उदयभाव होनेसे विद्यमान बन्ध और अविद्यमान उदयमें
समानता न होनेके कारण पूर्व या पश्चात् होनेवाले बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की
जाती है। शेष प्रकृतियोंके भी बन्धके समान यहां उदयका व्युच्छेद न होनेसे उक्त परीक्षा
नहीं की जाती।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, मनुष्यायु,
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, त्रस,

अणादेज्ज-अजसक्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचतराइयाणं सोदओ बंधो । णिहा-पयला-सादासाद-
वीसकसाय-ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवट्टसंघडण-मणुसगइ-
पाओग्माणुपुब्बि-उवघाद-पत्तेयसरीरणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्दुवोदयत्तादो, कासिं च विग्गह-
गदीए उदयाभावादो एक्किस्से विग्गहगदीए चेव उदयत्तादो । अवसेसाओ' परोदएणेव
वज्झंति ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणु-
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतरा-
इयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ बंधेण धउब्बियादो' । अवसेसाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधस्स
विरामदंसणादो । [तिर्यग्गइ-तिर्यग्गइपाओग्माणुपुब्बी-] णीचागोदाणं बंधस्स सांतर णिरंतरत्तं
किण्ण उच्चदे ? ण, तेउ-वाउक्काइयाणं सत्तमपुढवीणेरइयाणं व मणुसेसुप्पतीए अभावादो ।

वादर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनदेय, अयशक्रीति, निर्माण,
नीचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है । निद्रा, प्रचला, साता व
असाता वेदनीय, वीस कपाय, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान. औदारिकशरीरांगोपांग.
असंप्राप्तसूपाटिकासंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात और प्रत्येकशरीर, इनका
स्वोदय परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अद्भुवोदयी प्रकृतियां हैं; तथा किन्हीका
विग्रहगतिमें उदय नहीं रहता और एकका विग्रहगतिमें ही उदय रहता है । शेष प्रकृतियां
परोदयसे ही बंधती हैं ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा,
तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु,
उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बन्धकी
अपेक्षा ये प्रकृतियां भ्रुव हैं । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें
उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है ।

शंका—[तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और] नीचगोत्रके बन्धमें सान्तर-
निरन्तरता क्यों नहीं कहते ?

समाधान—नहीं कहते, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंकी सातवीं
पृथिवीके नारकियोंके समान मनुष्योंमें उत्पत्तिका अभाव है ।

१ अ-काप्रत्यो. ' अवसेसद्वाओ ' ; आपत्तौ ' अवसेसद्वाओ ' इति पाठः ।

२ प्रतिशु ' दउब्बियादो ' इति पाठः ।

तिरिक्खलपज्जत्ताणं व पच्चया परूवेदव्वा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-
चउरिंदियजादि-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदालुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणि तिरिक्ख-
गइसंजुत्तं वज्झंति । मणुस्साउ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्तं वज्झंति ।
अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वज्झंति । मणुस्सा सामी । बंधद्धानं बंध-
विणइद्धानं सादिआदिपरूवणा च पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तपरूवणाए तुल्ल ।

देवगदीए देवेषु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-
वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-
पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा-
लियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसाणु-
पुव्वि-अगुरुअलहुव उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-
वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-
कित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ ७७ ॥

प्रत्ययोंकी प्ररूपणा तिर्यच अपर्याप्तोंके समान करना चाहिये । तिर्यगायु, तिर्यग्गति,
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप,
उद्योत, स्थावर. सूक्ष्म और साधारणशरीरको तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं । मनुष्यायु,
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । शेष प्रकृतियोंको
तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । मनुष्य स्वामी हैं । बन्धाध्वान, बन्धाविनष्टस्थान-
और सादि आदिकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंकी प्ररूपणाके समान है ।

देवगतिमें देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीयं,
वारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति,
औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन,
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त-
विहायोगति, त्रस, चादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर,
आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक
और कौन अबन्धक है ? ॥ ७७ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा,
अबंधा णत्थि ॥ ७८ ॥

देसामासियसुत्तमेदं, तेणेदेण सूइदत्थपरूवणं कस्सामो— मणुसगइ-ओरालिय-
सरीर-अंगोव्रंगं वज्जरिसहसंधडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-अजसक्तिणमुदयाभावादो बंधो-
दयाणं पुच्चं पच्छा वोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे । ण सेसाणं पि, बंधस्सेव उदयस्स
वोच्छेदाभावादो ।

पंचपाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस
फास-अगुरुवल्हुअ-तस-वादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-आदेज्ज-जसक्ति-णिमिण-
उच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदएणेव बंधो । णिद्दा-पयला-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसिवेद-हस्स-
रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्दुवोदयत्तादो । समचउरससंठाण-

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं
हैं ॥ ७८ ॥

यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिये इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— मनुष्य-
गति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानु-
पूर्वी और अयशकीर्ति, इनके उदयका अभाव होनेसे बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात्
व्युच्छेद होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है । शेष प्रकृतियोंकी भी वह परीक्षा नहीं की जाती,
क्योंकि, बन्धके समान उनके उदयके व्युच्छेदका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व काम्रण शरीर,
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,
सुभग, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदयसे ही
बन्ध होता है । निद्रा, प्रचला, साता व असाता चेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य,
रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि,
ये अधुवोदयी प्रकृतियां हैं । समचतुरस्रसंस्थान, प्रत्येकशरीर और उपघातका स्वोदय-

१ काप्रतौ 'ओरालियसरीरवोव' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठ 'अद्दुवो अद्दुवोदयत्तादो' इति पाठः ।

पत्तेयसरीर-उवचादाणं सोदय-परोदएण वंधो, विगहगदीए उदयाभावादो । परवाहुस्सास-पसत्यविहायगदि-सुस्सरणं सोदय-परोदएण वंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभावे वि वंधदंसाणादो । णवरि सम्मामिच्छाइडिस्स एदामिं सोदएण वंधो । मणुसगइ ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगो-वंग-वज्जरिसहसंबडण-मणुस्साणुपुञ्ची-अजसकित्तीणं परोदएणव वंधो, तत्थेदेसिसुदयविरोहादो ।

पंचणावावणीय-छहदंसाणावणीय-चारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवचाद-उस्सास-वाद्र-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंच-तराइयाणं णिरंतरो वंधो, देवगदीए वंधविरोहाभावादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-धिराधिर-सुभासुम-जसकित्तीणं सांतरो वंधो, एगसमएण वंधविरामुवलंभादो । पुरिसवेद-सम-चउरससंठाण-वज्जरिसहसंबडण-पसत्यविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइडि-सासणसम्माइडिं सुंत्तरो वंधो, एगसमएण वंधविरामदंसाणादो । सम्मामिच्छाइडि-असंजद-सम्माइडिं सुंत्तरो, तत्थ पडिवक्खपयडीणं वंधाभावादो । पंचिदियजादि-मणुस्सगइ-मणुस्साणुपुञ्ची-ओरालियसरीरअंगोवंग-न्तसाणं मिच्छाइडिं हि सांत-णिरंतरो । सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडिं सुंत्तरो, पडिवक्खपयडीणं वंधाभावादो । णवरि

परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है । परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वर, इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनके उदयका अभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है । विशेषता यह है कि सन्यग्मिथ्यादृष्टिके इनका स्वोदयसे बन्ध होता है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरान्गोपांग, वज्रपर्वसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी और अयशकीर्ति, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, देवोर्म इनके उदयका विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, देव-गतिमें इनके निरन्तर बन्धका विरोध नहीं है । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और यशकीर्ति, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम पाया जाता है । पुरुषवेद, संमचतुरन्वसंस्थान, वज्रपर्व-संहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पंचेन्द्रिय जाति, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, औदारिकशरीरान्गोपांग और व्रत, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । विशेष इतना है कि मनुष्यद्विकका सासादन गुणस्थानमें

मणुअद्गुस्त सासणम्मि सांतर-णिरंतरो ।

मिच्छाइडिस्स बावण्ण, सासणस्स सत्तेत्तालीस, असंजदसम्मादिडिस्स तेत्तालीस देवेसु पच्चया; ओघपच्चएसु णडुंसयवेदोराणियदुगाणमभावादे । सम्मामिच्छादिडिस्स एक्केत्तालीस पच्चया, ओघपच्चएसु णडुंसयवेदोराणियकायजोगाणमभावादे । सेसं सुगमं ।

एदाओ सव्वपयडीओ सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडिणो मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, तत्थ तिरिक्खंगईए वंधाभावादे । मणुसगइ-मणुसाणुपूर्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्तं, अव्वसेसाओ पयडीओ मिच्छाइडि-सासणसम्माइडिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, अवि-रोहादे । सव्वपयडीणं वंधस्स देवा सामी । वंधद्धानं वंधविणासो च सुगमो । पंचणाणावरणीय-छंदसणावरणीय-चारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइडिभिह चउच्चिहो वंधो । अण्णत्थ तिविहो, घउच्चिया-भावादे । अव्वसेसाणं पयडीणं सव्वगुणेषु सादि-अद्भुवो ।

सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है ।

देवोंमें मिथ्यादृष्टिके वाचन, सासादनके सैंतालीस और असंयतसम्यग्दृष्टिके तेतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, यहां ओघप्रत्ययोंमें नपुंसकवेद और औदारिकदृष्टिका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टिके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उसके ओघ प्रत्ययोंमें नपुंसकवेद और औदारिक काययोगका अभाव है । शेष प्रत्ययरूपण सुगम है ।

इन सब प्रकृतियोंको सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें तिर्यग्गतिका बन्ध नहीं होता । मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । शेष प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है ।

सर्वे प्रकृतियोंके बन्धके देव स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनाश सुगम है । पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जगुप्सा, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे चारो प्रकारका बन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सब गुणस्थानोंमें सादि व अशुष बन्ध होता है ।

१ अप्रती 'चउच्चिहामावादे', अप्रती 'चउच्चियाभावादे', अप्रती 'चउच्चिहामावादे'
कृति पाठः ।

गिहाणिहा-पयलापयला शीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खार-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बी-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-
अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ७९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा ॥ ८० ॥

अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, सासणम्मि उभयाभावेदंमाणोदे ।
इत्थिवेदस्स पुब्बं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सासणम्मि वोच्छिण्णबंधित्थिवेदस्स
असंजदसम्मादिट्ठिम्हं उदयवोच्छेददंसाणोदे । अधवा, देवगदीए बंधो चेव वोच्छिज्जदि
णोदओ, तदुदयविरोहिगुणङ्गाणाभावोदे । एदमत्थपदमण्णत्थं वि जोजेयव्वं । शीणगिद्धितिय-

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुयन्वी क्रोध, मान, माया, लोभ,
स्त्रीवेद, निर्यगायु, तिर्यगगति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत,
अप्रशस्तविहायोगति, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ ७९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक
हैं ॥ ८० ॥

अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि,
सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है । स्त्रीवेदका पूर्वमें बन्ध और
पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें स्त्रीवेदके बन्धके व्युच्छिन्न
हो जानेपर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । अथवा,
देवगतिमें बन्ध ही व्युच्छिन्न होता है, उदय नहीं; क्योंकि, देवगतिमें उक्त प्रकृतियोंके
उदयके विरोधी गुणस्थानोंका अभाव है । इस अर्थपदकी अन्यत्र भी योजना करना चाहिये ।

१ प्रतिपु ' उभयभाव ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' सम्पादिर्द्धाहि ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' पदमत्थपदमणत्थ ' इति पाठः ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-अप्पसत्थ-
विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं देवेसुदयामावादो बंधोदयाणं पुव्वं पच्छा
वोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे ।

अणंताणुबंधिचउक्किस्थिवेदा सोदय-परोदएण, अवसेसाओ पयडीओ परोदएणेव
वज्झंति । थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं णिरंतरो बंधो । अवसेसाणं
सांतरो, एगसमएण बंधुवरमुवलंभादो । कयावि दो-तिरणिसमयादिकालपडिचद्धबंधंसणादो
सांतर-णिरंतरबंधो' किण्ण उच्चदे ? ण, एदासु पयडीसु णिरंतरबंधणियमाभावादो' । एदासिं
पयडीणं पच्चया देवगइचउट्ठाणपयडिपच्चयतुल्ला । णवरि तिरिक्खाउअस्स पुच्चिल्लपच्चएसु
वेउच्चियमिस्स कम्मइयपच्चया अवणेदव्वा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणु-
पुव्वी-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं, अवसेसाओ पयडीओ मिच्छाइड्डी सासणसम्माइड्डी तिरिक्ख-
मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, अविरोहादो । देवा सामी । बंधद्वान्ण बंधविणट्टद्वान्ण च सुगमं । थीण-

स्त्यानगृद्धित्रय, तिर्यगायु, तिर्यगति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,
उद्योत, अग्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्तर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका देवोंमें
उदयाभाव होनेसे बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेकी परीक्षा नहीं की
जाती ।

अनन्तानुबन्धिचतुष्क और खीवेद स्वोदय-परोदयसे तथा शेष प्रकृतियों परो-
दयसे ही बंधती हैं । स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और तिर्यगायुका निरन्तर बन्ध
होता है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका
विश्राम पाया जाता है ।

शंका—कदाचित् दो तीन समयादि कालसे संबद्ध बन्धके देखे जानेसे
सान्तर-निरन्तर बन्ध क्यों नहीं कहते ?

समाधान—जहाँ कहने, क्योंकि इन प्रकृतियोंमें निरन्तर बन्धके नियमका
अभाव है ।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय देवगातिकी चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान हैं ।
विशेषता केवल यह है कि तिर्यगायुके पूर्वोक्त प्रत्ययोंमें वैकृतिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोंको
कम करना चाहिये । तिर्यगायु, तिर्यगति, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनको तिर्य-
गतिसे संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंको मिथ्यादाष्टि व सासादनसम्यग्दाष्टि तिर्यगति और
मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उसमें कोई विरोध नहीं है । देव स्वामी हैं । बन्धाध्वान

१ प्रतिपु ' -योवो ' इति पाठः ।

२-अ-काप्रत्योः ' णियमामावा ' इति पाठः ।

गिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं' मिच्छाइडिभिह चउव्विहो बंधो । सासणे दुविहो, अणादि-धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्धुवो, अद्धुवबंधितादो ।

**मिच्छत्त-णवुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंध-
डण-आदाव-थावरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ८१ ॥**

सुगमं ।

मिच्छाइटी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ८२ ॥

एदस्स अत्थो बुज्जेद — मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, मिच्छाइडिभिह चैव तदुभयसुवलंभिय उवरि तदणुवलंभादो । णवुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंध-डण आदाव-थावरणमेत्थुदयाभावादो बंधोदयाणं पुत्रापुत्रवोच्छेदपरिक्खा ण कीरेदे । मिच्छत्तं सोदएण, अण्णाओ पयडीओ परोदएणेव वज्झंति, तहोवलंभादो । मिच्छत्तं णिरंतरं वज्झइ, धुवबंधितादो । अवरओ सांतरं वज्झंति, एगसमएण बंधुरसुवलंभादो । एदासिं पच्चया

और बन्धघिनष्टस्थान सुगम हैं । स्थानगुद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और स्थावर नामकमौका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ८१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं ॥ ८२ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों पाये जाते हैं, ऊपर वे नहीं पाये जाते । नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और स्थावर, इनके उदयका यहां अभाव होनेसे बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद्रको परीक्षा नहीं की जाती । मिथ्यात्व प्रकृति स्वोदयसे और अन्य प्रकृतियां परोदयसे ही बंधती हैं, क्योंकि, बैसा पाया जाता है । मिथ्यात्व प्रकृति-निरन्तर बंधती है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी है । अन्य प्रकृतियां सान्तर बंधती हैं, क्योंकि, एक समयमें

देवचउड्ढाणपयडिपच्चयतुल्ला । मिच्छत्त-णअंसयवेद-हुंडसंउण-असंपत्तसेवट्टसंघडणाणि तिरिक्ख-
मणुसगइसंजुत्तं, एइदियजादि-आदाव-थावराणि तिरिक्खगइसंजुत्तं बच्चंति, सामावियादो ।
देशा सामी । बंधद्धानं, बंधविणइड्ढाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स बंधो चउच्चिहो, धुवबंधित्तादो ।
सेसाणं सादि-अद्धुवो, अद्धुवबंधित्तादो ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ८३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ८४ ॥

एदस्स अत्थो वुच्चदे— देवेषु मणुस्साउअस्स उदयाभावादो बंधोदयाणं पुव्वावर-
वोच्छेदपरिक्खा णत्थि । परोदएण बंधंति, मणुस्साउअस्स देवेषु उदयभावविरोहादो ।
णिंरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मा-
दिडिणं जहांकमेण पंचास पंचेत्तालीस [एकैतालीस] पच्चया, सग-सगोषपच्चएसु ओरालिय-

उनका बन्धविश्राम पाया जाता है । इन प्रकृतियोंके प्रत्यय देवोंकी चतुस्थानिक प्रकृतियोंके
प्रत्ययोंके समान हैं । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसुपाटिकासंहनन,
ये तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा एकेन्द्रियजानि, आताप और स्थावर, ये तिर्य-
ग्गतिसे संयुक्त बंधती हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । देव स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्ध-
विनष्टस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकार होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है ।
शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ८३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष
देव अबन्धक हैं ॥ ८४ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— देवोंमें मनुष्यायुका उदय न होनेसे पूर्व या पश्चात्
बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है । मनुष्यायुको परोदयसे बांधते हैं, क्योंकि, देवोंमें
मनुष्यायुके उदयका विरोध है । बन्ध उसका निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयमें
बन्धविश्रामका अभाव है । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि
देवोंके यथाक्रमसे पचास, पैंतालीस [और इकतालीस] प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, अपने अपने
बोधप्रत्ययोंमें यहाँ औदारिक, औदारिकमिश्र, वैकृतिकमिश्र, कामेण और नपुंसकवेद

ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-णउंसयवेदपच्चयाणमभावादो । मणुसगइसंजुत्तं । देवा
सामी । बंधद्धानं बंधाभावद्धानं च सुगमं । सम्मामिच्छत्तगुणेण जीवा किण्ण मरंति ? तत्थाउअस्स
बंधाभावादो । मा बंधउ आउअं, पुच्चमण्णगुणद्धानमिह आउअं बंधिय पच्छा सम्मामिच्छत्तं
पड्विज्जिय तेण गुणेण णूणं कालं करेदि ? ण, जेण गुणेणाउबंधो समवदि तेणेव गुणेण
मरदि, ण अण्णगुणेणेत्ति परमगुरूवदेसादो । ण उवसामगेहि अणेयंतो, सम्मत्तगुणेण आउअ-
बंधाविरेहिणा णिस्सरणे विरोहाभावादो । सादि-अद्दुवो बंधो, अद्दुवबंधितादो ।

तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ ८५ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ८६ ॥

प्रत्ययोंका अभाव है । मनुष्यायुको मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । देव स्वामी है ।
बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम है ।

शंका—सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ जीव क्यों नहीं मरते ?

समाधान—चूंकि इस गुणस्थानमें आयुके बन्धका अभाव है, अतएव जीव यहां
मरण नहीं करते ।

शंका—वहां आयुबन्ध भले ही न हो, फिर भी पहिले अन्य गुणस्थानमें आयुको
बांधकर और पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्तकर उस गुणस्थानके साथ तो निश्चयतः मरण
कर सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिस गुणस्थानके साथ आयुबन्ध सम्भव है उसी
गुणस्थानके साथ जीव मरता है, अन्य गुणस्थानके साथ नहीं, ऐसा परमगुरुका उपदेश है ।

इस नियममें उपशामकोंके साथ अनैकान्तिक दोष भी सम्भव नहीं है, क्योंकि,
आयुबन्धके अविरोधी सम्यक्त्वगुणके साथ निकलनेमें कोई विरोध नहीं है । (देखो
जीवस्थान-चूलिका ९, सूत्र १३० की टीका) ।

मनुष्यायुका बन्ध सादि व अद्भुव होता है, क्योंकि, वह अद्भुवबन्धी है ।

तीर्थिकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ८५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टि देव बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अवन्धक हैं ॥ ८६ ॥

१ प्रतिपु ' लाउमवधिय ' इति पाठ. ।

२ अतौ ' गुणेणोणं ' ; आ-कामयो ' गुणेणणोणं ' इति पाठ. ।

एत्थ बंधोदयवोच्छेदविचारो णत्थि, उदयाभावादो । तेणेव कारणेण^१ परोदए बज्झइ ।
णिरंतरो तित्थयरबंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । दंसणविसुज्झदा-लब्धिसंवेगसंपण्णदा-
अरहंताइरियि-बहुसुद-पवयणभत्तीओ तित्थयरकम्मस्स विसेसपच्चया । सेसं सुगमं । मणुसगइ-
संजुत्तो बंधो । देवा सामी । बंधद्धरणं सुगमं । एत्थ बंधविणासो णत्थि । सादि-अद्दुवो बंधो,
अणादि-धुवभावेण अवट्टिदकारणाभावादो ।

**भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवाणं देवभंगो । णवरि
विसेसो तित्थयरं णत्थि^२ ॥ ८७ ॥**

एदेण सुत्तेण देसामासिएण ' तित्थयरं णत्थि ' त्ति बज्झमाणपयड्ढिभेदो चेव
परूविदो पुहमुच्चारणाए^३ । समचउरससंठाण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरि-पसत्थविहाय-
गदि-सुस्सरणामाओ असंजदसम्मादिडिग्घि सोदएणेव बज्झंति । वेउवियमिस्स-कम्मइयपच्चया
असंजदसम्मादिडिग्घि अवणेदव्वा, भवणवासिय वाणवेंतर-जोदिसिएसु सम्मादिट्ठीणमुवघादा-

यहां तीर्थंकर नामकर्मके बन्धोदयव्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, देवोंमें
उसके उदयका अभाव है । इसी कारण वह परोदयसे बंधती है । तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध
निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है । दर्शनविशुद्धता,
लब्धिसंवेगसम्पन्नता, अरहन्तभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति, ये
तीर्थंकर कर्मके विशेष प्रत्यय हैं (जो सूत्र ४१ में विस्तारसे कहे जा चुके हैं) ।
शेष प्रत्यय सुगम है । मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । देव स्वामी हैं । बन्धाध्वान
सुगम है । यहां बन्धविनाश नहीं है । सादि व अद्दुव बन्ध होता है, क्योंकि, अनादि व
धुव रूपसे अवस्थित रहनेके कारणोंका अभाव है ।

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है ।
विशेषता केवल यह है कि इन देवोंके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ॥ ८७ ॥

इस देशामर्शक सूत्रके द्वारा ' तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ' इस पृथक्
उच्चारणासे केवल बध्यमान प्रकृतियोंका भेद ही कहा गया है । समचतुरस्रसंस्थान,
उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रत्येकशरीर, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वर नामकर्म
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें खोदयसे ही बंधते हैं । वैक्रियिकमिश्र और कर्मण
प्रत्ययोंको असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें कम करना चाहिये, क्योंकि, भवनवासी,
वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें सम्यग्दष्टियोंकी उत्पत्तिका अभाव है । पंचेन्द्रिय जाति

१ अ-काप्रत्योः ' कालेण ', आप्रतौ ' कालेणेण ' इति पाठः ।

२ भवणतिए णत्थि तित्थयर ॥ गो. क. १११. जिणहीणो जोइ-भवण-वणे ॥ कर्मग्रन्थ ४, ११.

३ ब्रह्मिह ' पदमुच्चारणाए ' इति पाठः ।

भावो । पंचिंदिय-तसणामाओ मिच्छादिङ्गिह्मि सांतरं वञ्जइ, एइंदिय-थावरपडिवक्खपयडीणं संभवाओ । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुञ्चीओ मिच्छादिङ्गि-सासणसम्मादिङ्गिणो सांतरं वंधंति । ओरालियसरीरअंगोवंगं मिच्छाइङ्गिणो सांतरं वंधंति । एसो भेदो संतो वि ण कहिदो । एवंविधं भेदं संतमकहंतस्स कथं सुत्तभावो ण फिद्धे ? ण एस दोसो, देसामासियसुत्तेसु एवंविहभावाविरोहाओ ।

सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवाणं देवंभंगो ॥ ८८ ॥

एदस्स अत्थो—जघा देवोघम्मि सव्वपयडीओ परूविदाओ तहा एत्थ वि परूवे-दव्वाओ । एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सूइदत्थो उच्चदे—पंचिंदिय-तसणामाओ मिच्छाइङ्गी देवोघम्मि सांतर-पिरंतरं वंधंति, सणक्कुमारादिसु एइंदिय-थावरबंधाभावेण पिरं-तरबंधोवलंभाओ । एत्थ पुण सांतरमेव वंधंति, पडिवक्खपयडिभावं पडुच्च एगसमएण

और त्रस नामकर्म मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर बंधते हैं, क्योंकि, उक्त देवोंके इस गुणस्थानमें एकेन्द्रिय जाति और स्थावर रूप प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी सम्भावना है । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि सान्तर बांधते हैं । औदारिकशरीररंगोपांगको मिथ्यादृष्टि सान्तर बांधते हैं । यद्यपि बध्यमान प्रकृतिभेदके साथ यह भेद भी है, तथापि देशामर्शक होनेसे वह सूत्रमें नहीं कहा गया ।

शंका—इस प्रकारके भेदके होनेपर भी उसे न कहनेवाले वाक्यका सूत्रत्व क्यों नहीं नष्ट होता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, देशामर्शक सूत्रोंमें इस प्रकारके स्वरूपका कोई विरोध नहीं है ।

सौधर्म व ईशान कल्पवासी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है ॥ ८८ ॥

इस सूत्रका अर्थ—जिस प्रकार सामान्य देवोंमें सब प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार यहां भी प्ररूपणा करना चाहिये । यह अपेणासूत्र देशामर्शक है, इसलिये इसके द्वारा सूचित अर्थको कहते हैं—पंचेन्द्रिय जाति और त्रस नामकर्मको मिथ्यादृष्टि देव देवोघमें सान्तर-निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, सनत्कुमारादि देवोंमें एकेन्द्रिय और स्थावर प्रकृतियोंके बन्धका अभाव होनेसे निरन्तर बन्ध पाया जाता है । परन्तु यहां उन्हें सान्तर ही बांधते हैं, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके सद्भावकी अपेक्षा करके

बंधुवरमदंसणादो । मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणो मणुसगइदुगं देवोधम्मि सांतरं-णिरंतरं बंधंति, सुक्कलेस्सिएसु मणुसगइदुगस्स णिरंतरबंधदंसणादो । एत्थ पुण सांतरं बंधंति, मणुसगइदुगणिरंतरबंधकारणाभावादो । ओरालियसरीरअंगोवंगं देवोधम्मि मिच्छाइड्डी सांतर-णिरंतरं बंधंति, सणक्कुमारादिसु णिरंतरबंधुवलंभादो । एत्थ पुण सांतरमेव, थावरबंधकाले अंगोवंगस्स बंधाभावादो ति ।

सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवाणं पढ-
माए पुढवीए णेरइयाणं भंगो ॥ ८९ ॥

णवरि एत्थ पुरिसवेदस्स सोदएण बंधो, अणवेदस्सुदयाभावादो । णउंसयवेदस्स पढमाए पुढवीए सोदएण बंधो, एत्थ पुण परोदएण । पच्चएसु णउंसयवेदो इत्थिवेदेण सह अवणेदव्वो । सासणसम्माइद्विहिं वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया पक्खिविदव्वा, णेरइय-सासणेसु तेसिमभावादो । सदर-सहस्सारदेवेसु मिच्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्विणो मणुसगइदुगं सांतर-णिरंतरं बंधंति, तत्थतणसुक्कलेस्सिएसु मणुसगइदुगं मोत्तूण तिरिक्खगइदुगस्स

एक समयसे बन्धविश्राम देखा जाता है । मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिद्विकको देवोधर्मे सान्तर-निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, शुक्ललेइयावालोंमें मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध देखा जाता है । परन्तु यहां सान्तर बांधते हैं, क्योंकि, मनुष्यगतिद्विकके निरन्तर बन्धके कारणोंका अभाव है । औदारिकशरीरांगोपांगको देवोधर्मे मिथ्यादृष्टि सान्तर-निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, सनत्कुमारादि देवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । परन्तु यहां सान्तर ही बांधते हैं, क्योंकि, स्थावरबन्धकालमें आंगोपांगका बन्ध नहीं होता ।

सनत्कुमारसे लेकर शतार-सहस्रार तक कल्पवासी देवोंकी प्ररूपणा प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान है ॥ ८९ ॥

विशेष इतना है कि यहां पुरुषवेदका स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य वेदके उदयका अभाव है । नपुंसकवेदका प्रथम पृथिवीमें स्वोदयसे बन्ध होता है । परन्तु यहां उसका परोदयसे बन्ध होता है । प्रत्ययोंमें नपुंसकवेदको स्त्रीवेदके साथ कम करना चाहिये । सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें यहां वैकियिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंको जोड़ना चाहिये, क्योंकि नारकी सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें उनका अभाव है । शतार-सहस्रारकल्पवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिद्विकको सान्तर-निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, उन कल्पोंके शुक्ललेइयावाले देवोंमें मनुष्यगतिद्विकको

बंधाभावादे ।

आणद जाव णवगेवेज्जविमाणवासियदेवेषु पंचणाणावरणीय-
छंदंसणावरणीय-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-
हुगुंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तैजा-कम्मइयसररि-सम-
चउरससंछाण-ओरालियसररिअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-
फास-मणुसगइपाओग्गणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-
पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसररि-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-
सुंस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं को बंधो
को अवंधो ? ॥ ९० ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । एदे बंधा,
अबंधा णत्थि ॥ ९१ ॥

एदेण सुइदत्थे भणिस्सामो— मणुसगइ-ओरालियसररिअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-

छेइकर निर्यग्गतिद्विकके बन्धका अभाव है ।

आनत कल्पसे लेकर नव ग्रैवेयक तक विमानवासी देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, चारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, ज़ुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक-शरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्लुधु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ ९१ ॥

इस सूत्रके द्वारा सूचित अर्थोंको कहते हैं—मनुष्यगति, औदारिकशरीरांगोपांग,

मणुस्साणुपुव्वी-अजसकित्तीणमुदयाभावादो सेसपयडीणं उदयवोच्छेदाभावादो च बंधोदयाणं पच्छापच्छोच्छेदंपरिक्खा ण कीरेदे ।

पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-तस-वादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतरायइयाणं सोदएणेव बंधो, ध्रुवोदयत्तादे । णिद्दा-पयला सादासाद-वारसकसाय-हस्स रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्दुवोदयत्तादे । समचउरससंठाण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सरणामाओ मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मा-इड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिणो सोदय-परोदएण बंधंति । सम्मामिच्छाइड्ढिणो सोदएणेव बंधंति, तेसिमपज्जत्तकालाभावादो । मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुस्साणुपुव्वी-अजसकित्तीणं परोदएणेव बंधो, देवेसु एदासिं बंधोदयाणमक्कमेण उत्ति-विरोहादे ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-

वज्रपंभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी और अयशकीर्ति, इनका उदयाभाव होनेसे तथा शेष प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका अभाव होनेसे यहां बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पुरुषवेद, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ. सुभग, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र, और पांच अन्तराय, इनका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, वारह कपाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । समचतुरस्रसंस्थान, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, प्रत्येकशरीर और सुस्वर नामकमौको मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वोदय-परोदयसे बांधते हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव स्वोदयसे ही बांधते हैं, क्योंकि, उनके अपर्याप्तकालका अभाव है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरंगोपांग, वज्रपंभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी और अयशकीर्तिका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, देवोंमें इन प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके एक साथ अस्तित्वका विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति,

ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणु-पुव्वी-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उम्सास-तस-वाद्द-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधितादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ--जस-कित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो, एगसमएण बंधविरामदंमणादो । पुरिसवेद समचउरससंठाण-वज्जरि-सहसंचरण-गसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जुच्चागोदाणि मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठिणो सांतरं बंधंति, एगसमएण बंधविरामुवलंभादो । सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो णिरंतरं बंधंति, पडिक्कखपयडीण बंधाभावादो ।

एदासिं पच्चया देवेषपच्चयतुत्ता । णवरि सव्वत्थ इत्थिवेदपच्चओ अवणेदव्वो । सव्वे सव्वाओ पयडीओ मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, अण्णगईणं बंधाभावादो । देवा सामी । बंधद्धाणं बंधविणइट्ठणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदंमणावरणीय-चारसकसाय-भय-दुग्गुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छादिट्ठिभि चउत्थिव्हो बंधो । अण्णत्थ तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सव्वगुणइणेषु सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

पंचेन्द्रियजाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वाद्द, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रकृतियां ध्रुवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभ-संहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनको मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि सान्तर वांचते हैं, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम पाया जाता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि इन्हें निरन्तर वांचते हैं, क्योंकि, उनके प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय देवोघ प्रत्ययोंके समान हैं । विशेषता केवल इतनी है कि सब जगह खीवेद प्रत्ययको कम करना चाहिये । उक्त सब देव सब प्रकृतियोंको मनुष्यगतिसे संयुक्त वांचते हैं, क्योंकि, उनके अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है । देव स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शना-वरणीय, चारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्यत्र तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुवबन्धका अभाव है । शेष-प्रकृतियोंका बन्ध सब गुणस्थानोंमें सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।

णिद्वाणिद्वा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-
दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९२ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा
॥ ९३ ॥

एदस्स अत्थो वुच्चदे— अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति,
सासणम्मि तदुभयवोच्छेददंसाणादो । अवसेसाणं बंधोदयवोच्छेदपरिक्खा णत्थि, तासिमेत्थु-
दयाभावादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स सोदय-परोदएण बंधो, अद्दुवोदयत्तादो । अवसेसाणं
पयडीणं परोदएणेव, एत्थ तासिं बंधेणुदयस्स अवट्ठाणविरोहादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणु-
बंधिचउक्काणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सांतरो, एगसमएण बंधविरामदंसाणादो ।
पच्चयाणं सहस्सारभंगो । सच्चे सच्चाओ पयडीओ मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । देवा सामी ।
बंधद्धाणं बंधविणइडाणं च सुगमं । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं मिच्छादिट्ठिस्स

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,
स्त्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और
नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसग्यदृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक
हैं ॥ ९३ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— अनन्तानुबन्धिचउक्कका बन्ध और उदय दोनों साथ
व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है ।
शेष प्रकृतियोंके बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहाँ उनके उदयका
अभाव है । अनन्तानुबन्धिचउक्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि,
वे अधुवोदयी हैं । शेष प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, यहाँ उनके
बन्धके साथ उदयके अवस्थानका विरोध है । स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धि-
चउक्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, धुवबन्धी है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध
होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका बन्धविश्राम देखा जाता है । प्रत्ययप्ररूपणा सहस्सार
देहोंके समान है । उक्त सब देव सब प्रकृतियोंको मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । देव
स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानु-

चउव्विहो बंधो । अणत्थ दुविहो, अणादि-धुवाभावत्तादो' । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्धवो, अद्धवबंधितादो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंधडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९४ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइटी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९५ ॥

एदस्स अत्थो वुच्चेद— मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिजंति, मिच्छाइडिम्हि तदुभयाभावदंसाणादो । अवसेसाणं बंधोदयवोच्छेदपरिक्खा णत्थि, एत्थेयंतणेदासिसुदयाभावानो । मिच्छत्तं सोदएण वज्झइ । कुदो ? साभावियादो । अवसेसाओ पयडीओ परोदएण । मिच्छत्तं गिरंतरं वज्झइ, धुवबंधितादो । अवसेसाओ सांतरमद्धवबंधितादो । पच्चया सहस्सारपच्चयतुळा । मणुसगइसंजुत्तं वज्झंति । देवा सामी । बंधद्वाणं बंधविणट्टड्डाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स बंधो

बन्धित्तुष्का मिथ्यादृष्टिके चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्यत्र दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृष्टिकासंहनन नामकमोक्षा कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं ॥ ९५ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथ द्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंके बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां नियमसे इनके उदयका अभाव है । मिथ्यात्व प्रकृति स्वोदयसे बंधती है । इसका कारण स्वभाव है । शेष प्रकृतियां परोदयसे बंधती हैं । मिथ्यात्व प्रकृति निरन्तर बंधती है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी है । शेष प्रकृतियां सान्तर बंधती हैं, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं । प्रत्ययप्ररूपणा सहस्रार-देवोंके प्रत्ययोंके समान है । मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । देव स्वामी है । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम है । मिथ्यात्वका बन्ध चारो प्रकारका होता है, क्योंकि,

१ प्रतिवु 'अणादिदेवाभावत्तादो' इति पाठः ।

असंजदसम्मादिद्वी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९९ ॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— बंधोदयाणं वोच्छेदविचारो णत्थि, संतासंताणं सण्णियास-
विरोहादो । परोदएण बंधो, सव्वत्थ तित्थयरकम्मबंधोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादो । णिरंतरो
बंधो, संखेज्जावलियादिकालेण विणा एगसमएण बंधुवरमाभावादो । एदस्स पच्चया देवोष-
पच्चयतुल्ला । उत्तरोत्तरपच्चया पुण अरहंताइरिय-बहुसुद-पवयणभक्ति-लद्धिसंवेगसंपत्ति-दंसण-
विसुद्धि-पवयणप्यहावणादओ । मणुसगइसंजुत्तो बंधो । देवा सामी । बंधद्धाणं बंधविणह्हाणं
च सुगमं । सादि-अद्धुवो बंधो, अद्धुवबंधितादो ।

अणुदिस जाव सव्वट्टसिद्धिविमाणवासियदेवेषु पंचणाणावरणीय-
छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-
सोग-भय-दुगुल्ला-मणुस्साउ-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-
कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसह-
संघडण-वण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं ॥ ९९ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— बन्ध और उदयके व्युच्छेदका विचार यहां नहीं है, क्योंकि, सत् और असत् बन्धोदयको समानताका विरोध है । परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, सर्वत्र तीर्थंकर कर्मके बन्ध और उदयके एक साथ रहनेका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, संख्यात आवली आदि कालके बिना एक समयसे उसके बन्धविभ्रामका अभाव है । इसके प्रत्यय देवोष प्रत्ययोंके समान हैं । परन्तु इसके उत्तरोत्तर प्रत्यय अरहन्तभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, लब्धिसंवेगसम्पत्ति, दर्शनविशुद्धि और प्रवचनप्रभावनादिक हैं । मनुष्यगतिसे संयुक्त इसका बन्ध होता है । देव स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । सादि-अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धो प्रकृति है ।

अनुदिशोसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके विमानवासी देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ज्ञुगुप्सा, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श,

उवघादं-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-
थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति
णिमिण-त्तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?
॥ १०० ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठी बंधा, अबंधा णत्थि ॥ १०१ ॥

एदस्स अत्थो परूविज्जेदे— मणुसाउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-
वज्जरिसहसंधंडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अजसकित्ति-त्तित्थयराणं उदयामावादो अवसेसाणं
च पयडीणसुदयवोच्छेदाभावादो 'बंधादो उदयस्स किं पुव्वं किं वा पच्छा वोच्छेदो होदि' ति
एत्थ परिक्खा णत्थि ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-
गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-वादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह-सुभगादेज्ज-जसकित्ति-
णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादो । णिहा-पयला-सादासाद-

मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलधु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस,
वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति,
अयशकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन वन्धक और
कौन अबन्धक है ? ॥ १०० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दष्टि वन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १०१ ॥

इसके अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर,
औदारिकशरीरान्गोपांग, वज्रर्षभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशकीर्ति और
तीर्थंकर, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा शेष प्रकृतियोंके उदयव्यच्छेदका अभाव
होनेसे 'वन्धसे उदयका क्या पूर्वमे या क्या पश्चात् व्युच्छेद होता है' इस प्रकारकी
यहां परीक्षा नहीं है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पुरुषवेद, पंचेन्द्रियजाति, तजस व
कामर्ग शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलधु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर,
शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका
बन्धोदय वन्ध होता है, क्योंकि, ये यहाँ धुवोदयी हैं । निद्रा, प्रचला, साना-च असाता

चारसकसाय-ह्रस्व-रदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण वंधो, अद्भुवोदयत्तादो । परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं सोदय-परोदएण वंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभावे वि वंधुवलंभादो । समंचउरससंठाणुवघाद-पत्तेयसरीराणं पि सोदय-परोदएण वंधो, विग्गहगदीए उदयाभावे वि वंधदंसणादो । मणुसाउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंवडण-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुव्वी-अजसकित्ति-नित्थयराणं परोदएण वंधो, एत्थेदासिसुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसाउ मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समंचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसह-संवडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-वाद्द-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरुचंगाद-पंचतराइयाणं णिरंतरो वंधो, एदासिमेगसमएण वंधुवरमाभावादो । सादासाद-ह्रस्व-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो वंधो, एगसमएण वंधुवरमादो ।

वेदनीयं, वारह, कपाय, हास्य, रति, शोक, भय और जुगुप्साका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अद्भुवोदयी प्रकृतियां हैं । परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वरका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उदयका अभाव होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है । समचतुरस्रसंस्थान, उपघात और प्रत्येकशरीरका भी स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें उदयके अभावेके होनेपर भी बन्ध देखा जाता है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्मभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशकीर्ति और तीर्थंकरका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कामेण शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्मभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास. प्रशस्तविहायोगति, अस, वाद्द, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर. उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनके एक समयसे बन्धविश्रामका अभाव है । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम है ।

एत्थ असंजदसम्मादिङ्गिह्वाएत्तालीस पच्चया, ओषपच्चएसु ओरालियदुगित्थि-
णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादे । सेसं सुगमं । एदासिं पयडीणं बंधो मणुसगइसंजुत्तो । देवा
सामी । बंधद्धानं सुगमं । बंधविणासो एत्थ णत्थि । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय वारस-
कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरी-वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवघाद-णिमिण-पंचं-
तराइयाणं तिविहो बंधो, धुवाभावादे । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्दुवो, अधुवबंधितादे ।

**इंदियाणुवादेण एइंदिया वादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता
बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिंदियअपज्जत्ताणं
पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ॥ १०२ ॥**

एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, वज्जमाणपयडीणं संखमवेक्खिय अवड्ढितादे ।
तेपेदेण सुइदत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा— एत्थ ताव वज्जमाणपयडिण्हिसे कस्सामो ।
पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-

यहां असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें ब्यालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे
औदारिकद्विक्रि, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है । शेष प्रत्ययप्ररूपण सुगम
है । इन प्रकृतियोंका बन्ध मनुष्यगतिले संयुक्त होता है । देव स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम
है । बन्धाविनाश यहां है नहीं । पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कपाय,
भय, जगुप्ता, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण
और पांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव
है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

इन्द्रियमार्गणानुसार एकेन्द्रिय, वादर, सूक्ष्म, इनके पर्याप्त व अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय,
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त तथा पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय
तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है ॥ १०२ ॥

यह अपर्याप्तद्वेशामर्शक है, क्योंकि, बध्यमान प्रकृतियोंकी [१०९] संख्याकी अपेक्षा
करके अवस्थित है । इसी कारण इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार
है— यहां पहिले बध्यमान प्रकृतियोंका निर्देश करते हैं । पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शना-
वरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु,

१ अप्रती 'चउरिंदियपज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिंदियपज्जत्ता अपज्जत्ताणं', आप्रती 'चउरिंदियपज्जत्ता-
पज्जत्ताणं'; काप्रती 'चउरिंदियपज्जत्त अपज्जत्ताणं' इति पाठः ।

२ अप्रती 'सुप्पण्णासुत्तं'; आप्रती 'सुप्पण्णसुत्त' इति पाठः ।

मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-
तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंधडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगइ-
मणुस्सगइपाओग्माणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदावुजोव-दोविहायगइ-तस-
थावर-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त पत्तेयसरीर-साहारण-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-
दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णीउच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ एत्थ
वज्जमाणियाओ । एइंदियमस्सिदूण एदासिं परूवणं कस्सामो— इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-
मणुसगइ-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-अणंतिमपंचसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-
छसंधडण-मणुसगइपाओग्माणुपुव्वी-दोविहायगदि-तस सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदाणं
उदयाभावादो सेसाणमुदयवोच्छेदाभावादो ' उदयादो बंधो किं पुव्वं वोच्छिज्जदि किं पच्छा
वोच्छिज्जदि ' ति विचारो णत्थि, संतासंताणं सण्णियासविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णत्तुंसयवेद-तिरिक्खाउं-तिरिक्खगइ-एइं-
दियजादि-तेजाकम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-थावर-थिराथिर-सुहासुह-दुभग-

मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय
जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन,
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु,
उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दोनो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, वादर,
सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग,
दुर्भंग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयदाकीर्ति, निर्माण, नीच व उच्च गोत्र
और पांच अन्तराय प्रकृतियां यहां वध्यमान प्रकृतियां हैं । एकेन्द्रिय जीवका आश्रय
करके इनकी प्ररूपणा करते हैं— स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, द्वीन्द्रिय,
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, अन्तिम संस्थानको छोड़कर पांच संस्थान,
औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, दो विहायोगतियां, त्रस,
सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा शेष
प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका अभाव होनेसे यहां ' उदयसे बन्ध क्या पूर्वमें व्युच्छिन्न
होता है या क्या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है ' यह विचार नहीं है, क्योंकि, सत् और
असत्की समानताका विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु,
तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु,

अणादेज्ज-णिमिण-णीचागोद-पंचतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ एदासिं धुवोदयदंसणादो । सादासाद-सोलसकसाय-छण्णोकसाय-आदासुज्जोव-वादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहा-रणसरीर-जसकिति-अजसकित्तीणं सोदय-परोदओ बंधो, अद्धवोदयत्तादो । ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-उवघादाणं पि सोदय-परोदओ बंधो, विग्गाहगदीए उदयाभावे वि बंधुवलंभादो । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्चीए वि सोदय-परोदओ, गहिदसरीरसु उदयाभावे वि बंधदसंणादो । परघादुस्सासाणं पि सोदय-परोदओ बंधो, अपज्जत्तद्दाए उदयाभावे वि बंधदसंणादो । अवसेसाणं परोदओ बंधो, एत्थ तासिं सच्चदो उदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणु-स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयमरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुस्गलहुग-उवघाद-णिमिण-पंचतरा-इयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एईदिय-धीईदिय-त्तीईदिय-च उरिदिय-पंचिदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंचडण-मणुसगइ-

स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनका ध्रुव उदय देखा जाता है । साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, छह नोकषाय, आताप, उद्योत, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि ये अधुवोदयी प्रकृतियां हैं । औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान और उपघातका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनके उदयका अभाव होनेपर भी बन्ध पाया जाता है । तिर्यग्गतिप्रायोग्यालुपूर्विका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, जिन जीवोंने शरीर ग्रहण करलिया है उनके तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्विके उदयका अभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है । परघात और उच्छ्वासका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उदयाभावके होनेपर भी उनका बन्ध देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ उनके उदयका सर्वदा अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, लुगुप्ता, तिर्यग्ग्यायु, मनुष्यायु, औदारिक, तैजस व कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिक-

१ प्रतियु ' पंचणाणावरणीय-सादासाद- ' इति णडः ।

२ प्रतियु ' -धावर ' इति णडः ।

पाओग्गाणुपुञ्जी-आदावुज्जोव-देविहायगइ-तस-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-थिराथिर-
सुभासुम-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चगोदाणं
सांतरो वंधो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्जी-
णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो वंधो, सव्वेइंदिएसु सांतरबंधाणमेदासिं तेउ-वाउकाइएसु णिरंतर-
बंधुवलंभादो । परघादुस्सास-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं वंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरं ?
एइंदिएसुपण्णदेवाणमंतोसुहुत्तकालं णिरंतरबंधदंसणादो ।

एइंदिएसु मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगभेदेण चत्तारि मूलपच्चया । पंचमिच्छत्तपच्चया ।
कुदो ? पंचमिच्छतेहि सह णाणामणुस्साणमेइंदिएसुपण्णणं पंचमिच्छत्तुवलंभादो । एगो
एइंदियासंजमो, छपाणासंजमा, कसाया सोलस, इत्थि-पुरिसवेदेहि विणा णोकसाया सत्त,
ओरालियदुग-कम्मइयमिदि तिण्णि जोगा, एदे सव्वे वि अइत्तीस उत्तरपच्चया । णवरि
तिरिक्ख-मणुस्साउआणं कम्मइयपच्चएण विणा सत्तत्तीस पच्चया । एककारस अट्टारस

शरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां,
त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग,
दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका
सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है ।
तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्र, इनका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता
है, क्योंकि, सर्व एकेन्द्रियोंमें सान्तर बन्धवाली इन प्रकृतियोंका तेजकायिक व वायु-
कायिक जीवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और
प्रत्येकशरीर प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है ।

शंका—इनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए देवोंके अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका
निरन्तर बन्ध देखा जाता है ।

एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगके भेदसे चार मूल प्रत्यय
होते हैं । उत्तर प्रत्ययोंमें पांच मिथ्यात्व प्रत्यय, क्योंकि, पांच मिथ्यात्वोंके साथ
एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए नाना मनुष्योंके पांच मिथ्यात्व प्रत्यय पाये जाते हैं । एक
एकेन्द्रियासंयम, छह प्राणि-असंयम, सोलह कपाय, स्त्री और पुरुष वेदके विना सात
नोकपाय, तथा दो औदारिक व कर्मण ये तीन योग, ये सब ही अइत्तीस उत्तर प्रत्यय
एकेन्द्रियोंमें होते हैं । विशेषता केवल यह है कि तिर्यगायु व मनुष्यायुके कर्मण प्रत्ययके
बिना सैंतीस प्रत्यय होते हैं । ग्यारह व अट्टारह एक समय सम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट

एगसमइयजहणुक्कस्सपच्चया ।

तिरिक्खाउ- [तिरिक्खगइ-] तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बी-आदावुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणि तिरिक्खगइसंजुत्तं वज्झंति । मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्साणुपुब्बी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्तं वज्झंति । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खगइ-मणुसगइसंजुत्तं वज्झंति, दुगईहि विरोहाभावादो । एइंदिया सामी । वंधद्धानं सुगमं । वंधवोच्छेदो णत्थि । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअ-लहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं चउव्विहो वंधो । अवसेसाणं सादि-अद्दुवो ।

एवं वादरएइंदियाणं । णवरि वादरं सोदएण वज्झदि । सुहुमस्स परोदओ वंधो । वादरएइंदियपज्जत्ताणं वादरेइंदियभंगो । णवरि पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ वंधो । वादरएइंदियअपज्जत्ताणं पि वादरएइंदियभंगो । णवरि थीणांगिद्धितिय-परघादुस्सास-आदावुज्जोव-पज्जत्त-जसकित्तीणं परोदओ वंधो । अपज्जत्त-अजसकित्तीणं सोदओ । परघादुस्सास-वादर-

प्रत्यय होते हैं ।

तिर्यगायु, [तिर्यग्गति,] तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणशरीरको तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । शेष प्रकृतियोंको तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, दोनों गतियोंके साथ उनके बन्धका विरोध नहीं है । एकेन्द्रिय जीव स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद है नहीं । पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कर्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात-निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अष्टुव बन्ध होता है ।

इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय जीवोंकी भी प्ररूपणा है । विशेष इतना है कि इनके वादर नामकर्म स्वोदयसे वंधता है । सूक्ष्म प्रकृतिका बन्ध परोदयसे होता है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी-प्ररूपणा वादर एकेन्द्रियोंके समान है । विशेषतः केवल इतनी है कि उनके पर्याप्त प्रकृतिका स्वोदय और अपर्याप्त प्रकृतिका परोदय बन्ध होता है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी भी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रियोंके समान है । विशेष यह है कि स्थानगृद्धित्रय, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, पर्याप्त और यशकीर्तिका उनके परोदय बन्ध होता है । अपर्याप्त और अयशकीर्तिका स्वोदय बन्ध होता है । परघात,

पञ्जत्त-पूत्तेयसरीराणमेहंदिएसु सांतर-णिरंतरो बंधो । एत्थ पुण सांतरो चैव, अपञ्जत्तेसु देवाणमुपपत्तीए अभावादो । ओरालियकायजोगपच्चओ णत्थि । सुहुमेहंदिआणं एहंदिअभंगो । णवरि परघाटुस्सास-वादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरो बंधो, सुहुमेहंदिएसु देवाणमुववादा-भावादो । वादर-आदाउज्जोव-जसक्तिणं परोदओ बंधो । सुहुमेहंदिअपञ्जत्ताणं [सुहुमेहंदिअ-भंगो । णवरि पञ्जत्तस्स सोदओ, अपञ्जत्तस्स परोदओ बंधो । सुहुमेहंदिअपञ्जत्ताणं] सुहुमेहंदिअपञ्जत्तभंगो । णवरि थीणगिद्धितिय-परघाटुस्सासपञ्जत्ताणं परोदओ बंधो । अपञ्जत्ताणामस्स सोदओ । पच्चएसु ओरालियकायजोगपच्चओ अवणेदव्वो ।

संपधि वीहंदिआणं भणामो— इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-एहंदिअ-तीहंदिअ-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-अर्णातिमपंचसंठाण-पंचसंधडण-मणुसगइआओगणुपुञ्ची-आदाव-पसत्थविहायगदि-धावर-सुहुम-साहारणसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चगोदाणमुदया-भावादो सेसपयडीणं चोदयवोच्छेदाभावादो वेहंदिएसु पंचिंदियतिरिक्खअपञ्जत्तएहि

उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इनका एकेन्द्रियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । परन्तु यहां उनका सान्तर ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकोंमें देवोंकी उत्पत्तिका अभाव है । यहां प्रत्ययोंमें औदारिक काययोग प्रत्यय नहीं है ।

सूक्ष्म एकेन्द्रियोंकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान है । विशेषता यह है कि परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका उनके सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें देवोंकी उत्पत्तिका अभाव है । वादर, आताप, उद्योत और यशकीर्तिका परोदय बन्ध होता है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तोंकी प्ररूपणा [सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके समान है । विशेष इतना है कि उनके पर्याप्त प्रकृतिका खोदय और अपर्याप्त प्रकृतिका परोदय बन्ध होता है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा] सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है । विशेष इतना है कि स्त्यानगृद्धिचय, परघात, उच्छ्वास और पर्याप्त प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है । अपर्याप्त नामकर्मका खोदय बन्ध होता है । प्रत्ययोंमें औदारिककाययोग प्रत्ययको कम करना चाहिये ।

अब द्वीन्द्रिय जीवोंकी प्ररूपणा करते हैं— स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्य-गति, एकेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, अन्तिम संस्थानको छोड़ शेष पांच संस्थान, अन्तिम संहननको छोड़ शेष पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, प्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारणशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा शेष प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका अभाव होनेसे पंचेन्द्रिय

१ अग्रतौ ' सुहुमेहंदिआणि वेहंदिअभंगो ', आग्रतौ ' सुहुमेहंदिआणि वेहंदिअभंगो '; काग्रतौ ' सुहुमेहंदिआणि वेहंदिअभंगो ' इति पाठ ।

२ प्रतिपु ' एहंदिअ नीहंदिअ-तीहंदिअ- ' इति पाठ ।

बद्धमाणपयडीओ बंधमाणेसु ' बंधादो उदओ किं पुञ्चं किं वा पच्छा वोच्छिण्णो ' ति विचारो गत्थि ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णउंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-वीईदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-तस-वादर-थिराथिर-सुभा-सुभ-दुभग-अणोदेज्ज-णिमिण-णीचागोद-पंचंतरायइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ एदासिं धुवोदयत्त-दंसणादो । णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-सादासाद-सोलसकसाय-छणोकसाय-पज्जत्तापज्जत्त-जस-अजसकित्तीणं सोदय-परोदओ बंधो, उभयथा वि बंधस्स विरोहाभावादो । ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवइसंधण-उवघाद-पत्तेयसरीराणं पि सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधुवलंभादो । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुञ्चीए वि सोदय-परोदओ बंधो, विग्गहगदीदो अण्णत्थ उदयाभावे [वि] बंधदंसणादो । परघादुस्सासुज्जोव-अप्पसत्थविहाय-गइ-दुस्सराणं पि सोदय-परोदओ बंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभावे वि बंधदंसणादो, उज्जोवस्स उज्जोवोदयविरहिदाविरहिदेसु बंधुवलंभादो । इत्थि-पुरिस-मणुस्साउ-मणुसगइ-एईदिय-तीईदिय-

तिर्यंच अपर्याप्तोंके द्वारा बध्यमान प्रकृतियोंको बांधनेवाले द्वीन्द्रिय जीवोंमें ' बन्धसे उदय भया पूर्वमें या क्या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है ' यह विचार नहीं है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यंगायु, तिर्यंगति, द्वीन्द्रिय जाति, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, ब्रस, वादर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ. दुर्भग, अनादेय. निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका भ्रुव उदय देखा जाता है । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, छह नोकषाय, पर्याप्त, अपर्याप्त, यशकीर्ति, और अयशकीर्ति, इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है । औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्तखुपाटिकासंहनन, उपघात और प्रत्येकशरीर, इनका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि विग्रहगतिमें उदयका अभाव होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है । तिर्यंगतिप्रयोग्यानुपूर्विका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिको छोड़कर अन्यत्र उसका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है । परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति और दुस्वरका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है; क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है, तथा उद्योतका उद्योतके उदयसे रहित और उससे सहित जीवोंमें उसका बन्ध पाया जाता है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति,

चउरिंदिय-पंचिंदियजादि--अर्णतिमपंचसंठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-आदाव-
पसत्थविहायगइ-थावर-सुहुम-साहारणसरीर-सुभग-सुस्वर-आदेज्जुच्चागोदाणं परोदओ बंधो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछ-तिरिक्ख-मणु-
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वणण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा-
इयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । दोण्णमाउआणं णिरंतरो, एगसमएण
बोच्छेदाभावादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एईदिय-वीईदिय-तीईदिय-चउरिंदिय-
पंचिंदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छयंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची परघादु-
स्सास-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस-थावर-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-
थिराथि-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-उच्चागोदाणं सांतरो
बंधो, एगसमएणेदासिं बंधुवरमदंमणादो । परघादुस्सास-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणमेईदिएसु
व सांतर-णिरंतरो बंधो किण्ण परूविदो ? ण, देवाणमेईदिएसु व विगालिंदिएसु उववादाभावादो ।

अन्तिम संस्थानको छेडकर पांच संस्थान. पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,
आताप, प्रशस्नविहाययोगति, स्थावर, सूक्ष्म साधारणशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय और
उच्चगोत्र. इनका परोदय बन्ध होता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणायि, मिथ्यात्व, तोलह कषाय, भय, जुगुप्सा,
निर्यग्यायु, मनुष्यायु, औदारिक, नैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु,
उपघात. निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे
इनके बन्धविभ्रामका अभाव है । दो आयुर्धोंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक
समयसे उनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है । साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय,
मनुष्यगति. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान,
औदारिकशरीरंगोपांग. छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात. उच्छ्वास,
आताप. उद्योत, दो विहाययोगतियां त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त,
प्रत्येक व साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर,
आदेय, अनादेय, यगकीर्ति और उच्चगोत्र. इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि. एक
समयसे इनका बन्धविभ्राम देखा जाता है ।

शंका—परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका एकेन्द्रिय जीवोंके
समान सान्तर-निरन्तर बन्ध क्यों नहीं कहा गया ?

समाधान—एकेन्द्रियोंके समान विकलेन्द्रियोंके देवोंकी उत्पत्ति न होनेसे यहाँ
उक्त प्रकृतियोंका सान्तर-निरन्तर बन्ध नहीं कहा गया ।

तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्जी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउकाइएहिंते वीइदिएसुपूण्णाणमंतोसुहुत्तकालमेदासिं णिरंतरबंधुवलंभादो ।

एदासिं मूलपच्चया चत्तारि । पंच मिच्छत्त, दोइंदियासंजमा, छप्पाणासंजमा, सोलस कसाया, सत्त णोकसाया, चत्तारि जोगा, सन्वेदे वीइंदियस्स' चालीसुत्तरपच्चया । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणं कम्मइयपच्चएण विणा एगूणचालीस पच्चया । एक्कारस अट्टारस एगसमइयजहणुक्कस्सपच्चया ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-तिरिक्खगइपाओ-ग्गाणुपुञ्जी-आदातुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुतो बंधो । मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुञ्जी-उच्चआगोदाणं मणुसगइसंजुतो बंधो । सेसाणं पयडीणं तिरिक्ख-मणु-स्सगइसंजुतो बंधो । कुदो ? दोहि गदीहि सह विरोहाभावादो । बंधद्वाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि । धुवियाणं चउव्विहो बंधो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो । एवं पज्जत्ताणं । णवरि

तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे द्वीन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

इनके मूल प्रत्यय चार होते हैं । पांच मिथ्यात्व, दो इन्द्रियासंयम, छह प्राणि-असंयम, सोलह कषाय, सात नोकषाय और चार योग, ये सब द्वीन्द्रिय जीवके चालीस उत्तर प्रत्यय होते हैं । विशेषता केवल इतनी है कि तिर्यगाणु व मनुष्यायुके कार्मण प्रत्ययके विना उनतालीस प्रत्यय होते हैं । ग्यारह व अठारह क्रमसे एक समय सम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्यय होते हैं ।

तिर्यगाणु, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यग्गति-प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनका तिर्यग्गतिसे संयुक्त बंध होता है । मनुष्याणु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका तिर्यग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों गतियोंके साथ उनके बन्धका विरोध नहीं है । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद नहीं है । ध्रुव प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है ।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा है । विशेषता केवल इतनी है कि

१ प्रतिधु ' - सन्वेदे वा वीइंदियस्स ' इति पाठः ।

२ प्रतिधु ' द्विवियाण ' इति पाठः ।

पञ्जत्तणामस्स सोदओ, अपञ्जत्तणामस्स परोदओ बंधो । एवमपञ्जत्ताणं पि वत्तव्यं । णवरि थीणगिद्धितियं-परघादुस्सास-उज्जोव-अप्यसत्थविहायगइ-पञ्जत्त-दुस्सर-जसकित्तीणं परोदओ बंधो । अपञ्जत्त-अजसकित्तीणं सोदओ । अपञ्जत्ताणमड्ढत्तीस पच्चया, ओरालिय-कायासच्चमोसैवचिजोगाणमभावादो ।

तीहृदियाणं तीहृदियपञ्जत्तापञ्जत्ताणं च वीहृदिय-वीहृदियपञ्जत्तं-वीहृदियअपञ्जत्त-भंगो । णवरि घाणिंदियण सह तेहृदियपञ्जत्ताणमेक्केतालीस पच्चया । अपञ्जत्ताणमेगूण-चालीस, ओरालियकायासच्चमोसैवचिजोगाणमभावादो । तीहृदियणामस्स सोदओ बंधो । अवसेसिंदियणामाणं परोदओ ।

चउरिंदियाणमेवं चैव वत्तव्यं । णवरि चउरिंदियजादिबंधो सोदओ । सेसिंदियजादि-बंधो परोदओ । चादालीसुत्तरपच्चया, चक्खिंदियपवेसादो । अपञ्जत्ताणं चालीस पच्चया,

उनके पर्याप्त नामकर्मका स्वोदय और अपर्याप्त नामकर्मका परोदय बन्ध होता है । इसी प्रकार द्वीन्द्रिय अपर्याप्तोंका भी कथन करना चाहिये । विशेष यह है कि स्त्यानगृद्धिय, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अग्रशस्तविहायोगति, पर्याप्त, दुस्वर और यशकीर्तिका परोदय बन्ध होता है । अपर्याप्त और अयशकीर्तिका स्वोदय बन्ध होता है । अपर्याप्तोंके अड्ढत्तीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, औदारिक काययोग और असत्य मृपा वचनयोगका उनके अभाव है ।

त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय पर्याप्त और त्रीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा-त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय पर्याप्त और द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान है । विशेषता इतनी है कि ब्राण इन्द्रियके साथ त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके इकतालीस प्रत्यय होते हैं । अपर्याप्तोंके उनतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके औदारिक काययोग और असत्य मृपा वचनयोगका अभाव है । त्रीन्द्रिय नामकर्मका स्वोदय बन्ध होता है । शेष इन्द्रिय नामकर्मोंका परोदय बन्ध होता है ।

चतुरिन्द्रिय जीवोंका भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये । विशेष इतना है कि उनके चतुरिन्द्रिय जातिका स्वोदय बन्ध होता है । शेष इन्द्रिय जातियोंका बन्ध परोदय होता है । यहां चक्षु इन्द्रियका प्रवेश होनेसे व्यालीस उत्तर प्रत्यय होते हैं । अपर्याप्तोंके

१ आप्तो ' ओरालियकायसच्चमोस- ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' तीहृदियाण तीहृदियपञ्जत्ताण तीहृदियअपञ्जत्ताण चउरिंदिय-वीहृदियपञ्जत्त- ' ; सप्रती ' तीहृदियाण तीहृदियपञ्जत्तापञ्जत्ताण च वीहृदियपच्चत्त- ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' ओरालियकायसच्चमोस ' इति पाठः ।

ओरालियकायासच्चमोसवचिजोगाणमभावादे ।

पंचिदियअपज्जत्ताणं भणिस्सामो — एत्थ वज्झमाणपयडीओ पंचिदियतिरिक्ख-
अपज्जत्तेहि वज्झमाणओ चैव, ण अण्णाओ । एत्थ एदासिं उदयादो बंधो पुत्वं पच्छा वा
वोच्छिण्णो ति विचारो णत्थि, संतासंताणं बंधोदयाणमेत्थ वोच्छेदाभावादे ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णत्तुंसयवेद-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइय-
सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-वादर-अपज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह-दुभग-अणादेज्ज-
अजसकित्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादे । णिद्दा-पयला-सादा-
साद-सोलसकसाय-छणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्त्रीणं
सोदय-परोदओ बंधो; उदएण विणा वि, संते वि उदए बंधुवलंभादे । ओरालियसरीर-हुंड-
संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवट्टसंघडण-उवघाद-पत्तेयसरीराणं सोदय-परोदओ बंधो,
विग्गहगदीए उदयाभावे वि अण्णत्थ उदए संते वि बंधदंसणादे । थीणगिद्धितिय-इत्थि-
पुरिसवेद-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचसंठाण-पंचसंघडण-परघाटुस्सास-आदावुओव-
दोविहायगइ-थावर-सुहुम-पज्जत्त-साहारणसरीर-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-असकित्ति-उच्चा-

चाह्यीस प्रत्यय होतें है, क्योंकि, उनके औदारिक काययोग और असत्य-मृषा वचनयोगका
अभाव है ।

पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा करते हैं— यहाँ बध्यमान प्रकृतियों पंचेन्द्रिय
तिर्यंच अपर्याप्तों द्वारा वांधी जानेवाली ही हैं, अन्य नहीं हैं । यहाँ 'इनका उदयसे बन्ध
पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है' यह विचार नहीं है, क्योंकि, सत् और असत्
बन्धोदयके व्युच्छेदका यहाँ अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, पंचेन्द्रियजाति,
तैजस च कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, अपर्याप्त, स्थिर,
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांच
अन्तराय, इनका स्त्रोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । निद्रा, प्रचला,
साता च असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु और
तिर्यग्गति व मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, इनका स्त्रोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि,
उदयके विना भी, तथा उदयके होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है । औदारिकशरीर,
हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्तसृष्टादिकासंहनन, उपघात और प्रत्येक-
शरीरका स्त्रोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिसमें उदयाभावके होनेपर भी,
तथा अन्यत्र उदयके होते हुए भी इनका बन्ध देखा जाता है । स्त्यानगृद्धित्रय, रूवेद,
पुरुषवेद, पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन,
परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण-
शरीर, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका परोदयसे बन्ध

गोदाणं परोदएण बंधो, एदासिमेत्थ उदयविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-गवदंसणावरणीय-मिच्छत्-सोलसकसाय-भय-दुग्ंछा-तिरिक्ख-मणु-
स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-त्रण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतरा-
इयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ एदासिं धुवबंधितादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय-
चीइंदिय-तीइंदिय-च उरिदिय-पंचिंदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंधडण-मणुसगइ-
पाओग्गाणुपुञ्जी-परघादुस्सास-आदाउलोव-दोविहायगइ-तस-थावर-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-
पत्तेय-साधारणसरीर-थिराथिर-सुहासुइ-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-
अजसकित्ति-उच्चगोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएणेदासिं बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्जी-णीचगोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउ-
काइएहितो पंचिंदियअपज्जत्तपसुपण्णाणमंतोसुहुत्तकालमेदासिं णिरंतबंधुवलंभादो ।

पंचिंदियअपज्जत्ताणमेदाओ पयडीओ बंधमाणाणं पंच मिच्छत्ताणि, चारस असंजम,

होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तैजस व कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, सात नोकपाय, सनुष्यगति, पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उरुचगोत्र, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोमे उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके पांच मिथ्यात्व, चारह

१ प्रतिपु ' बंधणाण ' इति पाठ ।

सोलस कसाय, सत्त णोकसाय दोण्णि जोग त्ति चादालीस पच्चया होंति । तिरिक्ख-मणुस्साउ-आणं एक्केतालीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादे । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपुव्वी-आदाउज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो । मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं पयडीणं बंधो-तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । पंचिंदियअपज्जत्ता सामी । बंधद्धानं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुखलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं चउव्विहो बंधो, धुवबंधितादे । सेसाणं सादि-अद्दुवो ।

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावर-णीय-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?
॥ १०३ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सुइदत्थाणं परूवणा कीरेदे । तं जहा — किं

असंयम, सोलह कपाय, सात नोकपाय और दो योग, इस प्रकार व्यालीस प्रत्यय होते हैं । तिर्यगायु और मनुष्यायुके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके कर्मण प्रत्ययका अभाव है । शेष प्रत्ययरूपणा सुगम है ।

तिर्यगायु, तिर्यग्वाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यग्गति-प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण शरीर, इनका तिर्यग्गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है । पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीव स्वामी हैं । बन्धाध्वानं सुगम है । बन्धव्युच्छेद यहाँ है नहीं । पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुमुप्सा, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुखलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चार प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है ।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?

॥ १०३ ॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसलिये इसके द्वारा सूचित अर्थोंकी परूपणा

मिच्छाईकी बंधओ किं सासने बंधओ किं सम्मानिच्छाईकी बंधओ किंसंजदसम्माईकी बंधओ किं संजदसंजदो किं पन्तो किमपमत्तो किमपुत्तो किमपियट्टी किं मुहुमसांपराइयओ किमुव-
संनकसाओ किं खीपकसाओ किं मुजोगिजिणो किमजोगिभजारओ बंधओ चि एवमेसो
एगसंजो। संवि एत्थ दुमंजोगादीहि अन्वसंचारं करिय सोलहसहस्त-तिगियसय-तेया-
सीदि-पन्मंगा उण्याएयन्वा । किं पुब्बमेदासिं बंधो वोच्छिञ्जदि किमुदओ किं दो वि समं
वोच्छिञ्जंति एवमेत्थ तिग्गि मंगा । किं मोदएण बंधो किं परोदएण किं सोदय-परोदएण
एत्थ वि तिग्गि मंगा । किं नान्तरो बंधो किं पिरंतरो [किं] सांतर-पिरंतरो ति एत्थ वि
निग्गेव मंगा । एदासिं किं मिच्छत्तञ्चओ बंधो किंसंजमञ्चओ किं कसायपञ्चओ किं
जोगसञ्चओ बंधो चि पन्तारस मूलपञ्चयपहमंगां हवंति । एयंत-विवरीय-मूढ-संदेह-
अण्णा-मिच्छत्त-चक्कु-सोद-धाप-दिग्मा-पाम-मण-पुढीकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउ-
काइय-वप-फदिकाइय-जसजाइयासंजन-सोलसकसाय-पत्रणोकमाय-पण्णारसजोगपञ्चए - इविय

करते हैं। वह इस प्रकार है—क्या मिथ्यादृष्टि बन्धक है, क्या सासादनसम्यग्दृष्टि
बन्धक है, क्या सन्तमिथ्यादृष्टि बन्धक है, क्या असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक है, क्या
संयतान्तरित, क्या प्रसक्त, क्या अप्रसक्त, क्या अपूर्वकरण, क्या अतिवृत्तिकरण, क्या
सुखान्तराधिक, क्या उपगतन्तकयाय, क्या क्षीणकयाय, क्या सयोगी जित, या क्या
कयोगी भङ्गाक बन्धक है, इस प्रकार ये एकसंयोगी भंग हैं। अब यहां द्विसंयोगादिकोंके
द्वारा असंस्वार करके सोलह हजार तीन सौ तैरासी भङ्गभंग उत्पन्न करना चाहिये।
क्या पूर्वमे इनका बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्या उदय, या क्या दोनों एक साथ व्युच्छिन्न
होते हैं, इस प्रकार यहां तीन भंग होते हैं। क्या स्वोदयसे बन्ध होता है, क्या परोदयसे
या क्या स्वोदय-परोदयसे, इस प्रकार यहां भी तीन भंग होते हैं। -क्या सान्तर बन्ध
होता है, क्या निरन्तर बन्ध होता है, या क्या सान्तर-निरन्तर, इस प्रकार यहां भी तीन
ही भंग होते हैं।

इनका बन्ध क्या मिथ्यात्वत्रलय है, क्या असंयमप्रत्यय है, क्या कयायप्रत्यय है,
या क्या योगत्रलय बन्ध है, इस प्रकार पन्द्रह मूल-प्रत्यय-निमित्तक भङ्गभंग होते हैं।
एकान्त, विपरित, मूढ [विनय], सन्देह और अज्ञान रूप पांच मिथ्यात्वः चक्षु, श्रोत्र,
घ्राण, जिह्वा, स्पर्श, मन, पृथिवीकायिक, अकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति-
कायिक और व्रतकायिक, इनके निमित्तसे होनेवाले बारह असंयमः सोलह कयाय, नौ

चौदससदएककेतालीसकोडाकोडी-पण्णारसलख-अट्टारससहस-अट्टसय-सत्तकोडी'-अट्टवंचास-
लख-वंचवंचाससहस-अट्टसय-एककहत्तरिउत्तरपञ्चयपण्णमंगा' उप्पाएदव्वा १४४११५-
१८८०७५८५८७१ । किं गिरयंगइसंजुत्तं वज्झंति किं तिरिक्खलगइसंजुत्तं किं मणुस्सगइसंजुत्तं
[किं देवगइसंजुत्तं] इदि एत्थ पण्णारस पण्हमंगा उप्पाएदव्वा । अट्टाणमंगपमाणं सुगमं ।
किमपिदगुणंद्वाणस्सादिए मज्जे अंतो बंधो वोच्छिज्जदि ति एककेक्कमिह गुणद्वाणे तिण्णि
तिण्णि मंगा उप्पाएयव्वा । सव्वबंधवोच्छेदपण्हसमासो चाएत्तालीस । किं सादिओ बंधो
किमणादिओ किं धुवो किमद्धवो ति एत्थ पण्णारस पण्हमंगा उप्पाएयव्वा ।

**मिच्छाइट्टिपण्हुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उवसमा
खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो
वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १०४ ॥**

एदस्स अत्थो उच्चदे— पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचतराइयाणं पुवं बंधो

नोकपाय और पन्द्रह योग, इन प्रत्ययोंको स्थापित कर चौदह सौ इकतालीस कोडाकोडी,
पन्द्रह लाख, अठारह हजार, आठ सौ सात करोड़; अट्टावन लाख, पचवन हजार, आठ सौ
इकत्तर उत्तर प्रत्यय निमित्तक प्रश्नमंग उत्पन्न कराना चाहिये। १४४११५१८८०७५८५८७१ ।

ये क्या नरकगतिसे संयुक्त बंधते हैं, क्या तिर्यग्गतिसे संयुक्त बंधते हैं, क्या
मनुष्यगतिसे संयुक्त बंधते हैं, [या क्या देवगतिसे संयुक्त बंधते हैं,] इस प्रकार यहां
पन्द्रह प्रश्नमंग उत्पन्न कराना चाहिये। बन्धाध्वानका मंगप्रमाण सुगम है। क्या विवक्षित
गुणस्थानके आदिमें, मध्यमें या अन्तमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, इस प्रकार एक एक
गुणस्थानमें तीन तीन मंग उत्पन्न कराना चाहिये। बन्धव्युच्छेदके प्रश्नविषयक सर्व
मंगोंका योग ब्यालीस होता है। क्या सादि, क्या अनादि, क्या ध्रुव और क्या अध्रुव बन्ध
होता है, इस प्रकार यहां पन्द्रह प्रश्नमंग उत्पन्न कराना चाहिये।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोमें उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं ।
सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये
बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १०४ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच

१ प्रतिषु 'सत्त-सत्तकोडी' इति पाठ ।

२ प्रतिषु 'पञ्चया पण्णमंगा' इति पाठ ।

३ अ-आप्रत्योः 'किमपिदुग्ण-'; काप्रतौ 'किमपिदुग्ण-' इति पाठः ।

पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइयचरिमसमयम्हि णट्टबंधाणमेदासिं खीणकसायचरिम-
समयम्मि उदयवोच्छेदुवलंभादो । जसकितीए उच्चागोदस्स य पुवं बंधो पच्छा उदओ
वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइयचरिमसमयम्मि णट्टबंधाणं अजोगिचरिमसमयम्मि उदय-
वोच्छेदुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । जसकितीए
मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्ठि ति सोदय-परोदएण बंधो, एदेसु अजसकितीए वि
उदयदंसणादो । उवरि सोदएणेव, पडिवक्खुदयामावादो । मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव संजदा-
संजदो [ति] उच्चागोदस्स सोदय परोदएण बंधो, एदेसु णीचागोदस्स वि उदयदंसणादो ।
उवरि सोदओ, पडिवक्खुदयामावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं गिरंतरो बंधो, सव्वगुणट्ठाणेषु
वि एगसमएण बंधवोच्छेदामावादो । जसकितीए सांनर-गिरंतरो बंधो, मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव
पमत्तसंजदो ति सांतरो बंधो, एदेसु पविक्खपयडिबंधदंसणादो; उवरि गिरंतरो, पडिवक्ख-

अन्तरायका पूर्वमें बन्ध और पश्चान् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सूक्ष्मसाम्परायिक
गुणस्थानके अन्तिम समयमें बन्धके नष्ट हो जानेपर क्षीणकपाय गुणस्थानके अन्तिम
समयमें उनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है । यशकीर्ति और उच्चगोत्रका पूर्वमें बन्ध और
पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें
बन्धके नष्ट हो जानेपर अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें इनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय-बन्ध
होता है । यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोदयसे बन्ध
होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें अयशकीर्तिका भी उदय देखा जाता है । ऊपर इसका
स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अयशकीर्तिके उदयका अभाव है । मिथ्यादृष्टिसे
लेकर संयतसंयत तक उच्चगोत्रका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन
गुणस्थानोंमें नीचगोत्रका भी उदय देखा जाता है । उपरिम गुणस्थानोंमें उसका स्वोदयसे
बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध
होता है, क्योंकि, सब गुणस्थानोंमें ही एक समयसे इनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है ।
यशकीर्तिका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक
इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध देखे जानेसे सान्तर बन्ध होता है और इससे ऊपर

पयडीए बंधाभावादो । उच्चागोदस्स मिच्छाइड्ढि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो । असंखेज्जवासाउअ-
तिरिक्ख-मणुस्सेसु, संखेज्जवासाउअसुहतिलेस्सिएसु णिरंतरबंधसणादो । उवरिमणुगेसु
णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । पच्चयाणं मूलोधभंगो । गइसंजुत्तादि उवरि
जाणिय वत्तवं ।

णिद्धानिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-
अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा
॥ १०६ ॥

प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव होनेसे उसका निरन्तर बन्ध होता है । उच्चगोत्रका
मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
यहां असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्योंमें, तथा संख्यातवर्षायुष्क तीन शुभ लेख्या-
चालोंमें उसका निरन्तर बन्ध देखा जाता है । उपरिम गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध
होता है; क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । प्रत्ययोंकी प्ररूपणा मूलोधके
समान है । गतिसंयुक्तादि उपरिम पृच्छाओंके विषयमें जानकर कहना चाहिये ।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तातुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,
स्त्रीवेद, तिर्यगायु; तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत,
अप्रज्ञस्तविद्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ १०५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं
॥ १०६ ॥

एदस्स अत्थो वुच्चदे—धीणगिद्धितियस्स पुत्वं वंधो पच्छा उदओ वोच्चिज्जदि, सासणसम्माइड्ढि-पमत्तसंजदेसु जहासंखाए वंधोदयवोच्छेददंसणादो । अणताणुपंधिचउक्कस्स दो वि समं वोच्चिज्जंति, सासणे तदुभयाभावंदंसणादो । इत्थिवेदस्स पुत्वं वंधो पच्छा उदयो वोच्चिज्जदि, सासणाणियड्ढीसु जहासंखाए वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-उज्जेव-णीचागोदाणं पुत्वं वंधो पच्छा उदओ वोच्चिज्जदि, सासणसम्मादिड्ढि-सजदासंजदेसु तेसिं दोण्णं वोच्छेदुवलंभादो । चउसंठाणाणं पुत्वं वंधो पच्छा उदओ वोच्चि-ज्जदि, सासण-सजोगीसु तेसिं दोण्णं वोच्छेदुवलंभादो । एवं चदुसंधण्णाणं पि वत्तव्वं, सासणे फिट्ठबंधाणमप्पमतुवसंतकसाएसु पढम-विदियसंधण्णदुगोदयवोच्छेददंसणादो । एवं तिरिक्खगइपाओगाणुपुत्वी-दुभग-अणादेज्जाणं वत्तव्वं सासण-असंजदसम्मादिड्ढीसु वंधोदय-वोच्छेददंसणादो । एवमप्पसत्थविहायगइ-दुस्सराणं वत्तव्वं, सासण-सजोगीसु वंधोदयवोच्छेद-दंसणादो ।

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— स्थानगृह्णयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है। क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें यथाक्रमसे इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। अनन्तानुबन्धितुष्कका बन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। खीवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादन और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। तिर्यगायु, तिर्यगति, उद्योत और नीचगोत्र. इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है। क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और संयतोसंयत गुणस्थानोंमें क्रमशः उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। चार संस्थानोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है। क्योंकि, सासादन और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें- उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार चार संहननोंके भी पूर्व-पश्चात् बन्धोदयव्युच्छेदको कहना चाहिये। क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें बन्धके नष्ट हो जानेपर अप्रमत्त व उपशान्तकषाय गुणस्थानोंमें क्रमसे उक्त चार संहननोंके प्रथम व द्वितीय युगलके उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, दुर्भग और अनादेयके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन व असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमशः इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्तविहायोगति और दुस्वरके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है।

थीणगिद्धितियादीणं सव्वासिं पयडीणं बंधो सोदय-परोदओ, उभयथा वि विरोहा-भावादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं गिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं सांतर-गिरंतरो बंधो । कथं गिरंतरो ? ण, तेउ-चाउक्काइयचरपंचिदियमिच्छाइड्डीसु सत्तमपुढवीमिच्छाइड्डी-सासण-सम्माइड्डीणेरइएसु गिरंतरबंधुवलंभादो' । सेसाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । पच्चया ओघपच्चयतुल्ला । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणि दो वि तिरिक्खगइसंजुत्तं, इत्थिवेदं गिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं, चउसंठाण चउसंधडणाणि दो वि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि मिच्छाइड्डी तिगइसंजुत्तं बंधइ देवगईए विणा, सासणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं । सेसाओ पयडीओ मिच्छाइड्डी चउगइसंजुत्तं सासणो तिगइसंजुत्तं । सेसं चितिय वत्तव्वं ।

स्त्यानशुद्धित्रय आदिक सब प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धका विरोध नहीं है । स्त्यानशुद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और तिर्यगायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंमेंसे आकर पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टियोंमें उत्पन्न हुए जीवों तथा सप्तम पृथिवीके मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि नारकियोंमें उक्त प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है । प्रत्ययोंकी प्ररूपणा ओघप्रत्ययोंके समान है । तिर्यगायु, तिर्यग्गति-प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको दोनों ही गुणस्थानवर्ती जीव तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं । खांवेदको नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं । चार संस्थान और चार संहननको दोनों ही तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । अप्रहास्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको मिथ्यादृष्टि देवगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, तथा सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । शेष प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त और सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं । शेष विचार कर कहना चाहिये ।

णिहा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०७ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइष्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्टसुद्धिसंजदेसु उव-
समा खवा बंधा । अपुव्वकरणसंजदद्वाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण
बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १०८ ॥

एदस्स अत्थो उच्चदे—बंधो एदासिं पुव्वं वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, अपुव्व-
खीणकसाएसु कमेण बंधोदयवोच्छेदसणादो । सोदय-परोदएण सव्वगुणट्ठाणेसु बंधो,
अद्धवोदयत्तादो । णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । पच्चया सव्वगुणट्ठाणेसु ओघपच्चयंतुल्लो ।
मिच्छाइट्ठी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी दुंगइसंजुत्तं,
सेसा देवगइसंजुत्तं । गइसामित्तद्वाण-बंधवोच्छेदट्ठाणाणि सुगमाणि । मिच्छाइट्ठिसं चउ-
व्विहो बंधो । सेसेसु तिविहो, धुवत्ताभावादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १०९ ॥

निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १०७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्टशुद्धिसंयतोमें उपशमक व क्षपक तक बन्धक
हैं । अपूर्वकरणसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है । ये बन्धक हैं,
शेष अबन्धक हैं ॥ १०८ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— इनका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है और उदय
पश्चात्, क्योंकि, अपूर्वकरण व क्षीणकपाय गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बन्ध और उदयका
व्युच्छेद देखा जाता है । सब गुणस्थानोंमें इनका बन्ध खोदय-परोदयसे होता है, क्योंकि,
वे अशुबोदयी हैं । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी हैं । प्रत्यय सब गुणस्थानोंमें
ओघप्रत्ययोंके समान हैं । मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन
गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त, तथा शेष
गुणस्थानवर्ती देवगतिले संयुक्त वांधते हैं । गतिस्वामित्व, अध्वान और बन्धव्युच्छेदस्थान
सुगम है । मिथ्यादृष्टिके चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका
बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है ।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १०९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइडिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा' । सजोगिकेवलि-
अद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो' वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा ॥ ११० ॥

एदस्स अत्थो उच्चदे— बंधो पुचं पच्छ उदओ वोच्छिण्णा, सजोगिकेवलि-
अजोगिकेवलीसु जहाकमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदएण बंधो, सच्चगुणङ्गणेसु
अद्भवोदयत्तादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरम-
दंसणादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । पच्चया सच्चगुणङ्गणेसु ओवपच्चय-
तुल्ला । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए सह सादबंधाभावादो । सेमं
सच्चमोघतुल्लं ।

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह—अजसकित्तिणामाणं
को बंधो को अवंधो ? ॥ १११ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम
समयको जाकर बन्धव्युच्छेद होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ११० ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— सातावेदनीयका बन्ध पूर्वमें और उदय पश्चात्
व्युच्छिन्न होता है; क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके
बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । स्वोदय परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि,
वह सब गुणस्थानोंमें अद्भवोदयी है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर
बन्ध होता है, क्योंकि, यहां एक समयसे उसका बन्धविध्राम देखा जाता है ।
प्रमत्तसंयतसे ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका
अभाव है । प्रत्यय सब गुणस्थानोंमें ओघप्रत्ययोंके समान हैं । मिथ्यादृष्टि और सासादन-
सम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिके साथ सातावेदनीयका
बन्ध नहीं होता । शेष सब प्ररूपणा ओघके समान है ।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १११ ॥

१ प्रतिदु ' बंधो ' इति पाठः ।

२ अ-कायत्यो. ' बंधा ' इति पाठः ।

[सुगमं ।]

मिच्छाद्दृष्टिपहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ ११२ ॥

असादावेदणीयस्स पुव्वं वंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, पमत्त-अजोगिकेवलीसु जहा-
कमेण वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । एवमरदि-सोगाणं वत्तव्वं, पमत्तापुव्वकारेणसु वंधोदयवोच्छेद-
दंसणादो । एवं चैव अथिर-असुहाणं वत्तव्वं, पमत्त-सजोगिकेवलीसु वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो ।
अजसकित्तीए पुव्वमुदओ पच्छा वंधो वोच्छिण्णो, पमत्तसंजद-असंजदसम्मादिद्दीसु वंधोदय-
वोच्छेदुवलंभादो ।

असादावेदणीय-अरदि-सोगाणं सोदय-परोदएण सच्चगुणहाणेसु वंधो, परावत्तणोदय-
त्तादो । अथिरासुभाणं सच्चवत्थं सोदएण वंधो, धुवोदयत्तादो । अजसकित्तीए मिच्छाद्दृष्टिपहुडि
जाव असंजदसम्मादिद्दि त्ति सोदय-परोदएण वंधो, एदेसु पडिवक्खोदएण वि वंधुवलंभादो ।

[यह सूत्र सुगम है ।]

मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक
हैं ॥ ११२ ॥

असातावेदनीयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि,
प्रमत्तसंयत और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद
पाया जाता है । इसी प्रकार अरति और शोकके कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त और
अपूर्वकरण गुणस्थानोंमें क्रमशः इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । इसी
प्रकार ही अस्थिर और अशुभके भी कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त और संयोगकेवली
गुणस्थानोंमें उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । अयशकीर्तिका पूर्वमें
उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि
गुणस्थानोंमें क्रमसे बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है ।

असातावेदनीय, अरति और शोकका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदयसे
बन्ध होता है, क्योंकि, इनका उदय परिवर्तनशील है । अस्थिर और अशुभका सर्वत्र
स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये भ्रुवोदयी हैं । अयशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर
असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष
प्रकृतिके उदयके साथ भी उसका बन्ध पाया जाता है । इसके ऊपर परोदयसे

उवरि परोदएण, जसकितीए चव तत्थोदर्यदंसणादो । एदासिं छण्हं पयडीणं सांतरो बंधो,
दो-तिणिणसमयादिकालपडिवद्धबंधणियमाभावादो । पच्चया सुगमा । एदाओ छप्पयडीओ
मिच्छाइट्टी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी दुगइसंजुत्तं,
उवरिमा देवगइसंजुत्तं बंधंति । उवरि ओघभंगो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइं-
दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-णिरयाणुपुब्बी-
आदान-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ ११३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ११४ ॥

‘ एदे बंधा ’ ति णिहेसो अणत्थओ, अवगदइपरूवणादो । ण एस दोसो,

बन्ध होता है, क्योंकि, वहां यशकीर्तिका ही उदय देखा जाता है । इन छह प्रकृतियोंका
सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, दो-तीन समयादि रूप कालसे सम्बद्ध इनके बन्धके
नियमका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । इन छह प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि चार गतियोंसे
संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि
दो गतियोंसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतितसे संयुक्त बांधते हैं । उपरिम प्ररूपणा
ओघके समान है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,
चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थात्रर,
सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?
॥ ११३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ११४ ॥

शंका—‘ ये बन्धक हैं ’ यह निर्देश अनर्थक है, क्योंकि, वह ज्ञात अर्थका
प्ररूपण करता है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मेधावर्जित अर्थात् मूर्ख जनोके

मेहावज्जियजणाणुगहहं तण्णिहेसादो । मिच्छत्त-अपज्जत्ताणं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति,
मिच्छाइड्ढिं चैव तदुभयवोच्छेददंसणादो । एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-
आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणमेस विचारो णत्थि, पंचिदिएसु तेसिमुदयाभावादो । णवरि
पंचिदियपञ्जत्तएसु अपज्जत्तस्स वि एसो विचारो णत्थि त्ति वत्तव्वं । णत्तुंसयवेदस्स पुव्वं बंधो-
पच्छा उदओ चोच्छिज्जदि, मिच्छाइड्ढि-अणियट्ठिणुणोसु' बंधोदयवोच्छेददंसणादो । एवं
णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयाणुपुव्वीणं वत्तव्वं, मिच्छाइड्ढि-असंजदसमादिट्ठीसु बंधोदयवोच्छेददंस-
णादो । एवं हुंडसंठाणस्स वत्तव्वं, मिच्छाइड्ढि-सजोगिकेवलीसु बंधोदयवोच्छेददंसणादो ।
एवमसंपत्तसेवट्ठसंधडणस्स वि वत्तव्वं, मिच्छाइड्ढि-अप्पमत्तेसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो ।

मिच्छत्तस्स सोदएण बंधो, धुवोदयत्तादो । णत्तुंसयवेद-अपज्जत्ताणं सोदय-परोदओ,
अद्धुवोदयत्तादो । णवरि पंचिदियपञ्जत्तएसु अपज्जत्तस्स परोदओ बंधो, तत्थ तदुदयाभावादो ।

अनुग्रहके लिये वह निर्देश किया गया है ।

मिथ्यात्व और अपर्याप्तका बन्ध व उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं,
क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है । एकेन्द्रिय,
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति. आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इन
प्रकृतियोंके यह विचार नहीं है, क्योंकि, पंचेन्द्रिय जीवोंमें उनके उदयका अभाव है ।
विशेष इतना है कि पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें अपर्याप्त प्रकृतिके भी यह विचार नहीं है,
ऐसा कहना चाहिये । नपुंसकवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है,
क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और अनिर्वृत्तिकरण गुणस्थानोंमें क्रमशः उसके बन्ध और उदयका
व्युच्छेद देखा जाता है । इसी प्रकार नारकायु, नरकगति और नरकानुपूर्विके कहना
चाहिये, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और असंग्रतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बन्ध
और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । इसी प्रकार हुण्डसंस्थानके भी कहना चाहिये,
क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें इसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद
देखा जाता है । इसी प्रकार असंप्राप्तस्पाटिका संहननके भी कहना चाहिये, क्योंकि,
मिथ्यादृष्टि और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें इसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है ।

मिथ्यात्वका स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि वह ध्रुवोदयी है । नपुंसकवेद और
अपर्याप्तका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि; वे अध्रुवोदयी हैं । विशेष इतना है कि
पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें अपर्याप्तका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अपर्याप्तके

१ आमतौ 'अणियट्ठिणुणोसु' इति पाठः ।

२ अ-आमलो. ' धुवोदयादो ' इति पाठ ।

हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्वसंघडणाणं सोदय-परोदओ बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधदसंणादो सव्वेसिं तदुदयणियमाभावादो वा । गिरयाउ-गिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-गिरयाणुपुव्वी-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदओ बंधो, पंचिदिएसु एदासिमुदयविरोहादो उदएण सह बंधस्स उत्तिविरोहादो ।

मिच्छत्त-गिरयाउआणं गिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सेसाणं पयडीणं सांतरो, गिरंतरबंधे' णियमाभावादो । पच्चया सुगमा । मिच्छत्तं चउगइसंजुत्तं, णउंसयवेद-हुंडसंठाणाणि तिगइसंजुत्तं, अपज्जत्तासंपत्तसेवद्वसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं चञ्जति । गिरयाउ-गिरयगइ-गिरयाणुपुव्वीओ गिरयगइसंजुत्तं, सेसाओ सच्चपयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्तं । सेसमोबंधं ।

अपच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभ-मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघ-डण-मणुसगइपाओगगाणुपुव्वीणामाणं को बंधो को अबंधो? ॥११५॥
सुगमं ।

उदयका अभाव है । हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसुपाटिकासंहननका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें उनका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है, अथवा सब पंचेन्द्रियोंके उनके उदयका नियम भी नहीं है । नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, पंचेन्द्रियोंमें इनके उदयका विरोध होनेसे उदयके साथ उनके बन्धके कथनका विरोध है ।

मिथ्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, निरन्तर बन्धमें नियमका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । मिथ्यात्वको चारों गतियोंसे संयुक्त, ननुंसक-वेद और हुण्डसंस्थानको देवगति बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा अपर्याप्त और असंप्राप्तसुपाटिकासंहननको तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । नारकायु, नरकगति और नरकानुपूर्वीको नरकगतिसे संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं । शेष प्ररूपणा ओघके समान है ।

अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभवज्रनाराचशरीरसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ११६ ॥

मणुस्सानुपुञ्जी-अपच्चक्खाणचउक्काणं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, असंजदसम्मा-दिट्टिम्हि' तदुभयाभावदंसणादो । मणुसगईए पुवं बंधो पच्छ उदओ वोच्छिण्णो, असंजद-सम्मादिट्टि-अजोगिकेवलीसु बंधोदयवोच्छेददंसणादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंचडणामेवं चैव वत्तवं, असंजदसम्मादिट्टि-सजोगीसु बंधोदय-वोच्छेदुवलंभादो । अपच्चक्खाणचउक्कादीणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्धुवोदयत्तादो । अपच्च-क्खाणचउक्कस्स बंधो णिरंतरो, धुवबंधितादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्माणुपुञ्जी-ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगारणं मिच्छादिट्टि सासणसम्मादिट्टीसु बंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्ख-मणुस्सेसु सांतरस्स आणदादिदेवेसु णिरंतरत्तुवलंभादो । सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीसु णिरंतरो, एगसमएण तत्थ बंधुवरमाभावादो । वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंचडणस्स' मिच्छाइट्टि-

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक है । ये बन्धक है, शेष अबन्धक हैं ॥ ११६ ॥

मनुष्यानुपूर्वी और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है । मनुष्यगतिका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, असंयत-सम्यग्दृष्टि और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें क्रमशः उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रर्षभवज्रनाराचशरीरसंहननके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली गुण-स्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है ।

अप्रत्याख्यावरणचतुष्कादिकोंका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी प्रकृतियाँ हैं । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, धुवबन्धी हैं । मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर और औदारिक-शरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, वह तिर्यच व मनुष्योंमें सान्तर होकर भी आनतादि देवोंमें निरन्तर पाया जाता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । वज्रर्षभवज्रनाराचशरीरसंहननका मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध

१ प्रतिष्ठा ' -सम्मादिट्टीहि ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठा ' बंधोदयत्तादो ' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठा ' गिरतसवलंभादो ' इति पाठः ।

४ प्रतिष्ठा ' -सचडणण ' इति पाठः ।

सांसेणसु सांतरो बंधो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपेयडीणं बंधाभावादो । पच्चया सुगमा ।
उवरि मूलोधभंगो ।

पच्चक्खाणावरणकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ ११७ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ ११८ ॥

एदं पि सुगमं ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ११९ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव अणियद्विवादरसांपराइयपविट्टुवसमा
खवा बंधा । अणियद्विवादरद्वाए सेसे संखेज्जाभागे गंतूण बंधो
वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२० ॥

होता है । ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका
अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । उपरिम प्ररूपणा मूलोधके समान है ।

प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक व कौन अबन्धक
है ? ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक
हैं ॥ ११८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणवादरसाम्परायिकप्रविष्ट-उपशमक व क्षर्पक तक
बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरणवादरकालके शेषमें संख्यात बहुभागोंके वीत जानेपर बन्ध
व्याच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १२० ॥

एदं पि सुगमं ।

माण-माया-संजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १२१ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा खवा बंधा ।
अणियट्टिवादरद्दाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२२ ॥

सुगमं ।

लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १२३ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा खवा बंधा ।
अणियट्टिवादरद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ १२४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १२१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अनिवृत्ति-
वादरकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं,
शेष अबन्धक हैं ॥ १२२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

संज्वलन लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १२३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अनिवृत्ति-
करणवादरकालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष
अबन्धक हैं ॥ १२४ ॥

सुगमं ।

हस्स-रदि-भय-दुगंछणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १२५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाद्विट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्ठउवसमा ख्वा वंधा ।
अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमयं गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे वंधा,
अवसेसा अवंधा ॥ १२६ ॥

एदं पि सुगमं ।

मणुस्साउअस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ १२७ ॥

सुगमं ।

मिच्छाद्विट्ठी सासणसम्माद्विट्ठी असंजदसम्माद्विट्ठी वंधा । एदे
बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १२८ ॥

सुगमं ।

यह सूत्र सुगम है ।

हास्य, रति, भय और लुगुप्पाका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १२५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व श्रयक तक बन्धक हैं । अपूर्वकण-
कालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होना है । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं
॥ १२६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १२७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सामादनमम्यन्दष्टि और असंयतमम्यन्दष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं,
शेष अवन्धक हैं ॥ १२८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

देवाउअस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ १२९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा
पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिमं भागं
गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १३० ॥

सुगमं ।

देवगइ-पंचिदियजादि-वेउब्बिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-
संठाण-वेउब्बियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणु-
पुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-
वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-
णामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १३१ ॥

सुगमं ।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १२९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिध्याद्यष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और
अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अप्रमत्तकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है ।
ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १३० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकिकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
वैकिकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात,
परघाद, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, चादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ,
सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण नामकर्म, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?
॥ १३१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिच्छाइट्टिणहुडि जाव अपुव्वकरणपइइउवसमा खवा बंधा ।
अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ १३२ ॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— देवगइ-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वीणं पुव्व-
मुदओ पच्छा बंधो वोच्छिण्णो, अपुव्वकरणासंजदसम्मादिट्ठीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो ।
पंचिदियजादि-तस-वादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज्जाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि,
अपुव्वकरणाजोगीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । तेजा-कम्मइय-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-
फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुम-सुस्सर-
णिमिणाणामाणमेव चैव वत्तवं, अपुव्वकरण-सजोगीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो ।

देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वीणं परोदओ बंधो,
उदए संते एदासिं बंधविरोहादो । पंचिदिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुव-
लहुव-तस-वादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिणाणं सोदएणेव बंधो, धुवोदयत्तादो । परघादुस्सास-

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं ।
अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष
अबन्धक हैं ॥ १३२ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग
और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्विका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि,
अपूर्वकरण और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमशः उनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद
पाया जाता है । पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्त, सुभग और आदेय, इनका पूर्वमें
बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और अयोगकेवली
गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । तैजस व कार्मण
शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुस्वर और निर्माण नामकर्म,
इनके भी बन्ध व उदयका व्युच्छेद इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, अपूर्वकरण
और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है ।

देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्विका
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयके होनेपर इनके बन्धका विरोध है । पंचेन्द्रियजाति,
तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर,
शुभ और निर्माण नामकर्मका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं । परघात,

पसत्थविहायगइ-सुस्सर-आदेज्जाणं सोदय-परोदओ बंधो, अपञ्जत्तकाले उदयाभावे पि बंधुवलंभादो, पसत्थविहायगइ-सुस्सराणमद्धुवेदयत्तदंसणादो, आदेज्जस्स मिच्छाइट्ठिप्पहुडि-जाव असंजदसम्मादिट्ठि ति उदयस्स भयणिज्जत्तुवलंभादो, उवरि सव्वत्थ धुवोदयत्त-दंसणादो च । समचउरससंठाणुवघाद-पत्तेयसरीराणमेवं चैव वत्तव्वं, विग्गहगदीए उदया-भावे वि बंधुवलंभादो, समचउरससंठाणोदयस्स भयणिज्जत्तदंसणादो च । एवं सुभग-पञ्जत्ताणं पि वत्तव्वं, पंचिदिएसु पडिवक्खपयडीए उदयदंसणादो । णवरि पंचिदियपञ्जत्तएसु पञ्जत्तस्स सोदएणेव बंधो, तत्थ पडिवक्खपयडीए उदयाभावो । एवमेदं मिच्छाइट्ठीणं परूविदं । सासणसम्मादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीणमेवं चैव परूवेदव्वं । णवरि पञ्जत्तस्स सोदए-णेव बंधो । एवं सम्माभिच्छादिट्ठिआदिउवरिभगुणट्ठाणाणं पि वत्तव्वं । णवरि उवघाद-परघाद-उस्सास पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं पि सोदएणेव बंधो, तत्थ अपञ्जत्तकालभावो ।

तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिणाणं सव्वगुणट्ठाणेसु

उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, सुस्वर और आदेय, इनका स्वेद्य-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उदयके न होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है, प्रशस्त-विहायोगति और सुस्वर प्रकृतियोंका अधुवोदय देखा जाता है, तथा मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक आदेयका उदय भजनीय अर्थात् विकल्पसे पाया जाता है, और इससे ऊपर सर्वत्र धुवोदय देखा जाता है । समचतुरस्रसंस्थान, उपघात और प्रत्येकशरीरके भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, विग्रहगतिमें उदयके न होनेपर भी बन्ध पाया जाता है, तथा समचतुरस्रसंस्थानका उदय भजनीय देखा जाता है । इसी प्रकार सुभग और पर्याप्तके भी कहना चाहिये, क्योंकि, पंचेन्द्रियोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय देखा जाता है । विशेष इतना है कि पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें पर्याप्त प्रकृतिका स्वेद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है । इस प्रकार यह मिथ्यादृष्टियोंकी प्ररूपणा हुई । सास्तादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंकी भी प्ररूपणा इसी प्रकार करना चाहिये । विशेषतया यह है कि पर्याप्तका स्वेद्यसे ही बन्ध होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि उपरिभ गुणस्थानोंके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि उपघात, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका भी स्वेद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें अपर्याप्तकालका अभाव है ।

तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, और

गिरंतरो बंधो, ध्रुवबंधितादो । पंचिदियजादीए मिच्छाइट्टीसु सांतर-गिरंतरो । कथं गिरंतरो ? ण, सणक्कुमारदिदेवेषु णेरइएसु असंखेज्जवासाउअ-सुहतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु च गिरंतरबंधुवलंभादो । सासणादीसु गिरंतरो बंधो, तत्थ एइंदियजादिआदीणं बंधाभावादो । एवं परघादुस्सास-तस-आदर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं पि वत्तव्वं, भेदाभावादो । समचउरससंठाण-पसंत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छाइट्टि-सासणेसु सांतर-गिरंतरो बंधो । कथं गिरंतरो ? ण, असंखेज्जवासाउएसु एदासिं गिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि गिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतरो, पडिवक्खपयडीए बंधसंभवादो । उवरि गिरंतरो । देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुच्चीणं मिच्छाइट्टि-सासणेसु सांतर-गिरंतरो, सुहतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु गिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि गिरंतरो । पच्चया सुगमा । सेसं ओवभंगो ।

निर्माण, इनका सब गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी हैं । पंचेन्द्रिय जातिका मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, सानत्कुमारदि देव, नारकी, असंख्यातवर्षायुष्क और शुभ तीन लेख्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

सासादनसम्यग्दृष्टि आदि उपरिम गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें एकेन्द्रियजाति आदिकोंका बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार परघात, उच्छ्वास, त्रस, आदर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरके भी कहना चाहिये, क्योंकि, इनके कोई विशेषता नहीं है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेशका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

उपरिम गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका वहां अभाव है । स्थिर और शुभका मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध सम्भव है । इससे ऊपर निरन्तर बन्ध होता है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरान्गोपांग और देवगतिप्रायोग्यानु-पूर्विका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेख्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । इससे ऊपर निरन्तर बन्ध होता है । प्रत्यय सुगम हैं । शेषं प्ररूपणां ओघके संमान है ।

आहारसरीर-आहारअंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ?

॥ १३३ ॥

सुगमं ।

अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपइट्टउवसमा खवा बंधा । अपुव्व-
करणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ १३४ ॥

सुगमं ।

तित्थयरणामाए को बंधो को अबंधो ? ॥ १३५ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपइट्टउवसमा खवा
बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १३६ ॥

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकमौका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ १३३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक-व-क्षपक-बन्धक-हैं । अपूर्वकरण-
कालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक-हैं
॥ १३४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तीर्थकर नामकमौका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक-बन्धक-हैं ।
अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष
अबन्धक हैं ॥ १३६ ॥

एदं पि सुगमं ।

कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-वणप्फदिकाइय-णिगोद-
जीव-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ताणं बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर-
पज्जत्तापज्जत्ताणं च पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ॥ १३७ ॥

एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरदे— तत्थ ताव
पुढविकाइयाणं भण्णमाणे पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-
णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरि-
दिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-
वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-
आदावुज्जोव-दोविहायगइ-त्तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-
सुहामुह-सुभग- [हुभग-] सुस्सर-हुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजंसकित्ति-णिमिण-
णीचुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ पुढविकाइएहि वज्जमाणाओ ठवेदच्चा । एत्थ बंधोदयवोच्छेद-
विचारो णत्थि, तदुभयवोच्छेदामावादो ।

यह सूत्र भी सुगम है ।

कायमार्गणानुसार पृथिवीकायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायिक और निगोद जीव
बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त अपर्याप्त
जीवोंकी परूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है ॥ १३७ ॥

यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, अत एव इससे सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते
हैं—उनमें पहले पृथिवीकायिक जीवोंकी प्ररूपणा करते समय पांच ज्ञानावरणीय, नौ
दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय,
तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चंतुरिन्द्रिय,
पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरगोपांग,
छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गति व मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वो, अगुरुलघु,
उपघात, परघात, उच्छ्वास, आलाप, उद्योत, दो विहायोगनिर्या, त्रस, स्थावर, बादर,
सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,
सुभग, [दुर्भग,] सुस्वर, दुस्वर, आदिय, अनादिय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र,
ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां पृथिवीकायिक जीवों द्वारा बध्यमान स्थापित करना
चाहिये । यहां बन्ध और उद्दयके व्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, दोनोंके व्युच्छेदका
यहां अभाव है ।

पंचगणावरणीय चउदंसणावरणीय-मिच्छत्-णउंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-थावर-थिराथिर-सुहामुह-दुभग-अणादेज्ज-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ एदासिं धुवोदयत्तादो । इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-वीइंदिय-तीइंदिय-चउंरिंदिय-पंचिंदियजादि-पंचसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंधडण-मणुसगइपाओग्माणुपुच्ची-साहारण-दोविहायगइ-तस-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्जुच्चागोदाणं परोदओ बंधो, एदासिमेत्थ उदयविरोहादो । पंचदंसणा-वरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-छणोकसाय-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-जसकित्ति-अजस-कित्तीणं सोदय-परोदओ बंधो, अद्धवोदयत्तादो । ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-उवघाद-पत्तेय-सरीर-आदावुज्जोवाणं पि सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उदयाभावादो अद्धवोदयत्तादो च । परघादुस्सासाणं पि सोदय-परोदओ बंधो, एदासिसुदयाणुदयसहिदपज्जत्तापज्जत्तद्धासु बंधदंसणादो । तिरिक्खगइपाओग्माणुपुच्चीए सोदय-परोदओ बंधो, सोदयाणुदयविग्गहाविग्गह-गदीमु बंधुवलंभादो ।

पंचगणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्-सोलसकसाय-भय-दुग्गुळा-तिरिक्ख-मणु-

पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्यगति, एकेन्द्रिय जाति, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रकृतियां ध्रुवोदयी हैं । खोवेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, साधारणशरीर, दो विहायोगतियां, त्रस, सुभग, सुखर, दुखर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है । पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, पशुकीर्ति और अयशुकीर्तिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्रुवोदयी हैं । औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान उपघात, प्रत्येकशरीर, आताप, और उद्योतका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है, तथा ये अध्रुवोदयी भी हैं । परघात और उच्छ्वासका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, क्रमशः इनके उदय और अनुदय सहित पर्याप्त व अपर्याप्त कालोंमें उनका बन्ध देखा जाता है । तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, क्रमशः अपने उदय व अनुदय सहित विग्रह व अविग्रह गतियोंमें उसका बन्ध पाया जाता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा,

स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतरा-
इयाणं गिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो धुवबंधितादो च । सादासाद-सत्तणोकसयि-
मणुसगइ-एइंदिय-चीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-
छसंधडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहा-
रणसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति अजसकित्ति -उच्चा-
गोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-
णीचागोदाणं सांतर-गिरंतरो । कधं-गिरंतरो ? ण, तेउ-वाउकाइएहिंतो पुढविकाइएसुप्पणाणं
गिरंतरबंधुवलंभादो । परघादुस्सास-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं पि सांतर-गिरंतरो बंधो । कधं
गिरंतरो ? ण, देवाणं पुढविकाइएसुप्पणाणं मुहुत्तसंते गिरंतरबंधुवलंभादो ।

एदेसिं पच्चया एइंदियपच्चएहि समा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-चीइंदिय-

तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अक्षुरुलघु,
उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक
समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है, तथा ये ध्रुवबन्धी भी है । साता व असाता
वेदनीय, सात नोकपाय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह सहनन, मनुष्यगति-
प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त,
साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय,
यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे
इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । तिर्यगति, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका
सान्तर निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, तेज व वायु कायिकोंमेंसे पृथिवीकायिकोंमें
उत्पन्न हुए जीवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका भी सान्तर निरन्तर
बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, पृथिवीकायिकोंमें उत्पन्न हुए देवोंके
अन्तर्मुहूर्त तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय एकेन्द्रियप्रत्ययोंके समान हैं । तिर्यगायु, तिर्यगति,

तीर्णद्वय-चउरिंद्वयजादि-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदावुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारफ़सरीराणि तिरिक्खगइसंजुत्तं वच्चंति । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चगोदाणि मणुस-गइसंजुत्तं वच्चंति । सेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं । तिरिक्खा सामी । बंधद्वाणं सुगमं । एत्थ बंधवोच्छेदो णत्थि । धुवबंधीणं चउव्विहो बंधो । सेसाणं सादि-अद्दुवो ।

वादरपृथ्विकाइयाणमेवं चेव वत्तवं । णवरि चाइस्स सोदएण बंधो, सुहुमस्स परोदएण । वादरपृथ्विकाइयपज्जत्ताणं पि एवं चेव वत्तवं । णवरि पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ बंधो । वादरपृथ्विकाइयअपज्जत्ताणं पि वादरपृथ्विकाइयभंगो । णवरि पज्जत्त-धीणगिद्धित्ति पघादुस्सास-आदावुज्जोव-जसकित्तीणं परोदओ, अपज्जत्त-अजसकित्तीणं सोदओ बंधो । परघादुस्सास-त्तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरो बंधो, अपज्जत्तएसु देवाणमुववादाभावादो । पच्चया सत्तत्तीस, ओरालियकायजोगपच्चयस्साभावादो ।

सुहुमपृथ्विकाइयाणं पृथ्विकाइयभंगो । णवरि वादर-आदाउज्जोव-जसकित्तीणं परोदओ, सुहुम-अजसकित्तीणं सोदओ बंधो । परघादुस्सास-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरो

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यंगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और सधारणशरीर. इनको तिर्यंगतिसे संयुक्त वांधते है । मनुष्यायु, मनुष्यगति. मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको मनुष्यगतिसे संयुक्त वांधते है । शेष प्रकृतियोंको मनुष्य व तिर्यंगतिसे संयुक्त वांधते हैं । तिर्यंच स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । यहां बन्धव्युच्छेद है नहीं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है ।

वादर पृथिवीकायिकोंकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि वादरका स्वोदय और सूक्ष्मका परोदयसे बन्ध होता है । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तोंकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये । विशेषता इतनी है कि पर्याप्तका स्वोदय और अपर्याप्तका परोदय बन्ध होता है । वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्तोंकी भी प्ररूपणा वादर पृथिवीकायिकोंके समान है । विशेषता यह है कि पर्याप्त, स्व्यान-शुद्धित्रय. परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत और यशकीर्तिका परोदय, तथा अपर्याप्त और अयशकीर्तिका स्वोदय बन्ध होता है । परघात, उच्छ्वास, ब्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तोंमें देवोंकी उत्पत्ति नहीं होती । प्रत्यय सैतीस होते हैं, क्योंकि, उनके औदारिककाययोग प्रत्ययका अभाव है ।

सूक्ष्म पृथिवीकायिकोंकी प्ररूपणा पृथिवीकायिकोंके समान है । विशेष यह है कि वादर. आताप, उद्योत और यशकीर्तिका परोदय; तथा सूक्ष्म और अयशकीर्तिका स्वोदय बन्ध होता है । परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका सान्तर

बंधो, सुहुमेईदिएसु देवाणमुववादाभावादो णिरंतरबंधाभावा । सुहुमपुढविकाइयपज्जत्ताणमेवं चेव वत्तव्वं । णवरि पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ बंधो । सुहुमपुढविकाइयपज्जत्ताणमेवं चेव वत्तव्वं । णवरि अपज्जत्तस्स सोदओ, पज्जत्त-शीणगिद्धित्ति-परघादुस्सासाणं परोदओ बंधो । सव्वआउकाइयाणं जहापच्चासण्णपुढविकाइयभंगो । णवरि आदावस्स परोदओ बंधो, पुढविकाइए मौत्तूण अण्णत्थ आदावस्सुदयाभावादो ।

पंचपाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय- णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-पंचजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंधडण-वण्णचउक्क-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-अगुरुवलहुवचउक्क-आदाउज्जेव-दोविहायगइ-तस-थावर-वादर-सुहुम पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण-सरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ ठविय वणफदिकाइयाणं परूवणा कीरदे-बंधोदयाणं पुच्चापुच्चकालगयवोच्छेदपरिक्खा णत्थि, बंधोदयाणमेत्थ वोच्छेदाभावादो ।

बन्ध होता है, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें देवोंकी उत्पत्ति न होनेसे वहां निरन्तर बन्धका अभाव है । सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्तोंकी इसी प्रकार ही प्ररूपणा करना चाहिये । विशेषता इतनी है कि पर्याप्तका स्वोदय और अपर्याप्तका परोदय बन्ध होता है । सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्तोंकी भी इसी प्रकार ही प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि अपर्याप्तका स्वोदय और पर्याप्त, स्त्यानगुच्छिन्नय, परघात व उच्छ्वासका परोदय बन्ध होता है । सब अण्कायिक जीवोंकी प्ररूपणा अपनी अपनी प्रत्यासत्तिके अनुसार पृथिवीकायिकोंके समान है । विशेषता यह है कि आतापका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, पृथिवीकायिकोंको छोड़कर अन्यत्र आताप कर्मका उदय नहीं होता ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, पांच जातियां औदारिक, तैजस व कामण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, वर्षादिक चार, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, आताप, उद्योत, दो-विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंको स्थापित कर वनस्पतिकायिकोंकी प्ररूपणा करते हैं— बन्ध और उदयके पूर्व व अपूर्व कालगत व्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है ।

पंचणाणावरणीय - चउदंसणावरणीय - मिच्छत्त - णवुंसयवेद - तिरिक्खाउ - तिरिक्खगइ - एइंदियजादि - तेजा - कम्मइयसरीर - वण्णचउक्क - अगुस्वलहुव - थावर - थिराथिर - सुहासुह - दुभग - अणादेज्ज - णिमिण - ग्रीचागोद - पंचंतराइयाणं सोदओ वंधो, अत्थगइए धुवोदयत्तादो । इत्थि - पुरिसवेद - मणुसाउ - मणुसगइ - वीइंदिय - तीइंदिय - चउरिंदिय - पंचंदियजादि - पंचसंठाण - ओरालिय - सरीरअंगोवंग - छसंधण - मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची - आदाव - दोविहायगइ - तस - सुभग - सुस्सर - दुस्सर - आदेज्जुच्चागोदाणं परोदओ वंधो । पंचदंसणावरणीय - सादासाद - सोलसकसाय - छणोकसाय - हुंडसंठाण - ओरालियसरीर - तिरिक्खाणुपुच्ची - उवघाद - परघादुस्सासुज्जोव - वादर - सुहुम - पज्जत्ता - पज्जत्त - पत्तेय - साहारणसरीर - जसकित्ति - अजसकित्तीणं सोदय - परोदओ वंधो ।

पंचणाणावरणीय - मिच्छत्त - सोलसकसाय - भय - दुग्गुच्छा - तिरिक्ख - मणुसाउ - ओरालिय - तेजा - कम्मइयसरीर - वण्णचउक्क - अगुस्वलहुव - उवघाद - णिमिण - पंचंतराइयाणं णिरंतरो वंधो । सादासाद - सत्तणोकसाय - मणुस्सगइ - एइंदिय - वीइंदिय - तीइंदिय - चउरिंदिय - पंचंदियजादि - छसंठाण - ओरा - लियसरीरअंगोवंग - छसंधण - मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची - आदावुज्जोव - दोविहायगदि - तस - थावर - सुहुम - अपज्जत्त - साहारणसरीर - थिराथिर - सुहासुह - सुभग - दुभग - सुस्सर - दुस्सर - आदेज्ज - अणादेज्ज -

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अर्थापत्तिसे ये प्रकृतियां भ्रुवोदयी हैं । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिक-शरीरान्गोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, दो विहायोगतियां, त्रस सुभग, सुस्वर दुस्वर, आदेय और उरुचगोत्र, इनका परोदय बन्ध होता है । पांच दर्शनावरणीय साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, हुंडसंस्थान, औदारिकशरीर. तिर्यगायुपूर्वी, उपघात, परघात, उरुचवास, उद्योत, यादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार. अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है । साता व असाता वेदनीय, सात नोकपाय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरान्गोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस. स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, दुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उरुचगोत्रका

जसक्ति-अजसक्ति-उच्चागोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरसुवलंभादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो । कुदो ? तेउ-वाउकाइएहितो वणप्फदि-काइएसुप्पण्णाणं मुहुत्तस्संतो' गिरंतरबंधुवलंभादो । परघादुस्सास-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कधं गिरंतरो ? ण, देवेहितो वणप्फदिकाइएसुप्पण्णाणं मुहुत्तस्संतो गिरंतर-बंधुवलंभादो । पच्चया सुगमा । गइसंजुत्तादिउवरिमेइंदियपरूवणातुल्ला ।

एवं वादरवणप्फदिकाइयाणं च वत्तव्वं' । णवरि वादरस्स सोदओ बंधो, सुहुमस्स परोदओ । वादर-[वणप्फदि-]पज्जत्ताणं वादरवणप्फदिभंगो । णवरि पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ बंधो । वादरवणप्फदिअपज्जत्ताणं वादरेइंदियअपज्जत्तभंगो । सुहुमवणप्फदिपज्जत्तापज्जत्ताणं सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्तभंगो' । तसअपज्जत्ताणं पंचिदियअपज्जत्तभंगो । णवरि वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परोदओ बंधो । णिगोदजीवाणं तेसिं' वादर-सुहुम-

सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समयसे बन्धविश्राम पाया जाता है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेज व वायु कायिकोंमेंसे वनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है । परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, देवोंमेंसे वनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

प्रत्यय सुगम हैं । गतिसंयुक्तता आदि उपरिम प्ररूपणा एकेन्द्रिय प्ररूपणाके समान है ।

इसी प्रकार वादर वनस्पतिकायिकोंके भी कहना चाहिये । विशेषता केवल इतनी है कि वादरका स्वोदय बन्ध होता है और सूक्ष्मका परोदय । वादर वनस्पति-कायिक पर्याप्तोंकी प्ररूपणा वादर वनस्पतिकायिकोंके समान है । विशेषता यह है कि पर्याप्तका स्वोदय और अपर्याप्तका परोदय बन्ध होता है । वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्तोंके समान है । त्रस अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है । विशेषता यह है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । निगोद जीव व

१ प्रतिषु ' सुहुवो ' इति पाठः । २ अप्रतौ ' व वत्तव्वं ', आप्रतौ ' वत्तव्वं ' इति पाठः ।

३ अप्रतौ ' सुहुमेइंदियपज्जत्तभंगो ' इति पाठः । ४ प्रतिषु ' तस- ' इति पाठः ।

पञ्जत्तापञ्जत्ताणं वणफदिक्काइयभंगो । णवरि पत्तेयसरीरस्स परोदओ सांतरो बंधो । तस-
बादर पञ्जत्त-परघादुस्सासाणं बंधो सांतरो । साहारणसरीरस्स सोदय-परोदओ । बादरवणफदि-
क्काइयपत्तेयसरीरपञ्जत्तापञ्जत्ताणं पि एवं चेव वत्तव्वं । णवरि साहारणसरीरस्स परोदओ बंधो,
पत्तेयसरीरस्स सोदय-परोदओ बंधो ।

तेउकाइय-वाउकाइय-बादर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जाणं सो चेव भंगो ।
णवरि विसेसो मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदं
णत्थि ॥ १३८ ॥

एदमप्पणालुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सुइदत्थपरूवणा कीरिदे— परघादुस्सास-बादर-
पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरो बंधो, देवाणं तेउ-वाउकाइएसु उववादाभावादे । तिरक्खगइ-
तिरिक्खाणुपुव्वी-णीचागोदाणं णिरंतरो बंधो सोदओ चेव । णवरि तिरिक्खाणुपुव्वीए बंधो
सोदय-परोदओ । आदाउज्जोवाणं परोदओ बंधो । होदु णाम वाउकाइएसु आदाउज्जोवाण-

उसके बादर सूक्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा वनस्पतिकायिकोंके समान है । विशेष
यह है कि प्रत्येकशरीरका परोदय व सान्तर बन्ध होता है । अस, बादर, पर्याप्त, परघात
और उच्छ्वासका सान्तर बन्ध होता है । साधारणशरीरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता
है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त व अपर्याप्तोंके भी इसी प्रकार ही
कहना चाहिये । विशेषता यह है कि साधारणशरीरका परोदय बन्ध होता है । प्रत्येक-
शरीरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है ।

तेजकायिक और वाउकायिक बादर सूक्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा भी
पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है । विशेषता केवल यह है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति,
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियां इनके नहीं हैं ॥ १३८ ॥

यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, इसीलिये इससे सूचित अर्थोंकी प्ररूपणा करते
हैं— परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
देवोंकी तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उत्पत्ति नहीं होती । तिर्यग्गति, तिर्यग्गानु-
पूर्वी और नीचगोत्रका बन्ध निरन्तर व स्वोदय ही होता है । विशेषता यह है कि
तिर्यग्गानुपूर्वीका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है । आताप और उद्योतका परोदय बन्ध
होता है ।

शंका—वायुकायिक जीवोंमें आताप और उद्योतका अभाव भले ही हो, क्योंकि,

मुदयाभावो', तत्थ तदणुवलंभादो । ण तेउकाइएसु तदभावो, पच्चक्खेणुवलंभमाणत्तादो ?
 एत्थ परिहारो बुच्चदे — ण ताव तेउकाइएसु आदाओ अत्थि, उण्हप्पहाए तत्थाभावादो ।
 तेउमिहं वि उण्हत्तमुवलंभइ च्चे उवलंभउ णाम, [ण] तस्स आदावववएसो, किंतु
 तेजासण्णा; “ मूलोण्णवती प्रभा तेजः, सर्वागव्याप्युण्णवती प्रभा आतापः, उण्णरहिता
 प्रभोद्योतः, ” इति तिण्हं भेदोवलंभादो । तम्हा ण उज्जोवो वि तत्थत्थि, मूलुण्हुज्जोवस्स
 तेजववएसोदो । एत्तिओ चैव भेदो, ण अण्णत्थ कत्थ वि । णवरि सव्वासिं पयडीणं
 तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो ।

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्ताणमोधं णेदव्वं जाव तित्थयरे ति

॥ १३९ ॥

एदं देसामासियवप्पणामुत्तं, तेणेदेण सूइदत्थपरूवणा कीरेदं— वीइदिय-तीइदिय-

उनमें वह पाया नहीं जाता । किन्तु तेजकायिक जीवोंमें उन दोनोंका उदयाभाव सम्भव
 नहीं है, क्योंकि, यहां उनका उदय प्रत्यक्षसे देखा जाता है ।

समाधान—यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हैं— तेजकायिक जीवोंमें आतापका
 उदय नहीं है, क्योंकि, वहां उष्ण प्रभाका अभाव है ।

शंका—तेजकायमें भी तो उष्णता पायी जाती है, फिर वहां आतापका उदय
 क्यों न माना जाय ?

समाधान—तेजकायमें भले ही उष्णता पायी जाती हो, परन्तु उसका नाम आताप
 [नहीं] हो सकता, किन्तु 'तेज' संज्ञा होगी; क्योंकि, मूलमें उष्णवती प्रभाका नाम तेज,
 सर्वागव्यापी उष्णवती प्रभाका नाम आताप, और उष्णता रहित प्रभाका नाम उद्योत है,
 इस प्रकार तीनोंके भेद पाया जाता है ।

इसी कारण वहां उद्योत भी नहीं है, क्योंकि, मूलोष्ण उद्योतका नाम तेज है [न
 कि उद्योत] । केवल इतना ही भेद है, और कहीं भी कुछ भेद नहीं है । विशेष इतना है कि
 सब प्रकृतियोंका तिर्यग्गतिसे संयुक्त बन्ध होता है ।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तोंके तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान
 ले जाना चाहिये ॥ १३९ ॥

यह देशामर्शक अर्पणासूत्र है; इसलिये इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते

१ प्रतिषु ' -मुदयाभावादो ' इति पाठ ।

२ मूलुण्हपहा अग्गी आदानो होदि उण्हसहियपहा । आइच्चे तेरिच्चे उण्हपहा इ उज्जोओ ॥

गो क ३३. ३ अ-आप्रयोः ' -दुष्पण्णासुच ' इति पाठः ।

चउरिंदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परोदओ बंधो । तस-वादराणं सोदओ चव । एइंदिय-थावर-सुहुम-साहारणादावाणं परोदओ चव बंधो । अवसेसाणं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्ताणं उत्ति-विहाणेण वत्तव्वं ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगीसु ओघं गेयव्वं जाव तित्थयेरत्ति ॥ १४० ॥

ओघम्मि उत्तसत्तारसण्हं सुत्ताणमत्थो ससुत्तो एत्थ गिरवयवो वत्तव्वो, भेदाभावदो । णवरि पच्चयगदो भेदो अत्थि तं परूवेमो— मणजोगे गिरुद्धे छाएत्तालीस एक्केत्तालीस सत्ततीस [सत्ततीस] वत्तीस उणवीस' सत्तारस सत्तारस एक्कारस दस णव अड्ड सत्त छ पंच [पंच चत्तारि चत्तारि] दोण्णि मिच्छाइड्डिप्पहुडिसव्वगुणड्डाणाणं जहाकमेण एदे पच्चया होंति । अण्णो वि विसेसो मणजोगे गिरुद्धे संते अत्थि— चदुजादि चत्तारिआणुपुव्वी-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं परोदएण', उवघाद-परघादुस्सास-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-पंचिंदियजादीणं सोदएण बंधो ति वत्तव्वं । एवं चव चदुण्हं मणजोगाणं परूवणा

हैं— द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । त्रस और वादरका स्वोदय ही बन्ध होता है । एकेन्द्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतापका परोदय ही बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंके पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंकी प्ररूपणाके अनुसार कहना चाहिये ।

योगमार्गणानुसार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी और काययोगियोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये ॥ १४० ॥

ओघमें कहे हुए सत्तरह (५ वें सूत्रसे ३८ में सूत्र तक १५+१७=३४) सूत्रोंका अर्थ ससूत्र यहां संपूर्ण कहना चाहिये, फ्योंकि, ओघसे यहां विशेषताका अभाव है । विशेष यह है कि प्रत्ययगत जो कुछ भेद है उसे यहां कहते हैं— मनोयोगके निरुद्ध होने अर्थात् उसके आश्रित व्याख्यान करनेपर छयालीस, इकतालीस, सैंतीस, [सैंतीस] बत्तीस, उन्नीस, सत्तरह, सत्तरह, ग्यारह, दश, नौ, आठ, सात, छह, पांच, [पांच, चार, चार] और दो, इस प्रकार ये क्रमसे मिथ्यादृष्टि आदि सब गुणस्थानोंके प्रत्यय होते हैं । मनोयोगके निरुद्ध होनेपर और भी विशेषता है— चार जातियाँ, चार आनुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका परोदयसे तथा उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर और पंचेन्द्रिय जातिका स्वोदयसे बन्ध होता है, ऐसा कहना चाहिये । इसी प्रकार ही चार मनोयोगोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ।

१ प्रतिशु ' सत्तरस ' इति पाठ ।

२ मण-वचणससणे ण हि ताविगिगिगळ व धावराण्णजो ॥ गो. क. ३१०.

कायव्वा । णवरि एक्कस्सिह मणजोमे णिरुद्धे अवसेससव्वजोगा मूलोद्युत्तरपच्चएसु अवणेदव्वा । अवसेसा णिरुद्धमणजोगीणं पच्चया होति । णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि विसेसो ।

वचिजोगीणमेवं चैव वत्तव्वं, सांतर-णिरंतर-सोदय-परोदय-सामित्तपच्चयादीहि मणजोगीहिंतो वचिजोगीणं भेदाभावादे । णवरि वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परोदओ बंधो ति वत्तव्वं । असच्च-मोसवचिजोगीणं वचिजोगिभंगो । णवरि सव्वगुणाणं उत्तरपच्चएसु असच्च-मोसवचिजोगं मोत्तूण सेससव्वजोगा अवणेदव्वा । सच्च-मोस-सच्चमोस-वचिजोगीणं सच्च-मोस-सच्चमोसमणजोगिभंगो, विसेसाभावादे ।

कायजोगीणं पि ओघभंगो चैव । णवरि सव्वगुणहाणाणमोघपच्चएसु मण-वचिजोगाह-पच्चया अवणेदव्वा । सजोगिपच्चएसु दोहोमण-वचिजोगपच्चया अवणेदव्वा । णत्थि अण्णत्थ विसेसो । ओघमि पुत्तुत्तंसत्तारससुत्तसु चउत्थसुत्तमि भेदपटुप्पायणइसुत्तरसुत्तं भणदि—

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ १४१ ॥

विशेषता यह है कि एक मनोयोगके निरुद्ध होनेपर शेष सब योगोंको मूलोघ उत्तर प्रत्ययोंमेंसे कम करना चाहिये । इस प्रकार शेष रहे निरुद्धमनोयोगियोंके प्रत्यय होते हैं । अन्यत्र और कहीं विशेषता नहीं है ।

वचनयोगियोंके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि सान्तर-निरन्तर, स्वोदय-परोदय, स्वामित्व और प्रत्ययादिकोंकी अपेक्षा मनोयोगियोंसे वचनयोगियोंके कोई भेद नहीं है । विशेष इतना है कि द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जातिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, ऐसा कहना चाहिये । असत्यमृषावचनयोगियोंकी प्ररूपणा वचनयोगियोंके समान है । विशेषता यह है कि सब गुणस्थानोंके उत्तर प्रत्ययोंमेंसे असत्यमृषावचनयोगको छोड़कर शेष सब योगोंको कम करना चाहिये । सत्य, मृषा और सत्यमृषा वचनयोगियोंकी प्ररूपणा सत्य, मृषा और सत्यमृषा वचनयोगियोंके समान है, क्योंकि, कोई विशेषता नहीं है ।

काययोगियोंकी भी प्ररूपणा ओघके समान ही है । विशेष इतना है कि सब गुणस्थानोंके ओघ प्रत्ययोंमेंसे चार मनोयोग और चार वचनयोग, इस प्रकार आठ प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । अन्यत्र विशेषता नहीं है । ओघमें पूर्वोक्त सत्तरह सूत्रोंमेंसे चतुर्थ सूत्रमें भेद प्ररूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

साता वेदनीयक्क कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १४१ ॥

ओषमि ' अवसेसा अवंधा ' ति उक्तं । एत्थ पुण ' अवंधा णत्थि ' ति वत्तव्वं, जोगप्पणादो । ण च सज्जेसु अजोगा होति, विप्पडिसेहादो । जदि एत्थियमेत्तो चेव भेदो तो एत्थियस्सेव णिहेसो किण्ण कदो ? ण एस दोसो, थूलवुद्धीणं पि सुहगहणं तथोवेदसादो ।

ओरालियकायजोगीणं मणुसगइभंगो ॥ १४२ ॥

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं बंधोदयवोच्छेदे मणुसगदीदो णत्थिं विसो, विसेसकारणाभावादो । जसक्ति-उच्चागोदेसु विसो अत्थि, तेसिमत्थुदयवोच्छेदा-भावादो । मणुसगदीए पुण उदयवोच्छेदो अत्थि, अजोगिचरिमसमए मणुसगदीए संह एदासिमुदयवोच्छेदंसणादो । सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरपरिक्खासु णत्थि भेदो, भेदकार-णाणुवलंमादो । पच्चएसु अत्थि भेदो, ओरालियमिस्स-कम्मइय-वेउव्वियदुग-चदुमण-वचिपच्चएहि विणा मिच्छाइडिहिं सासणे च जहाकमेण तेदालीस-अइतीसपच्चयदंसणादो,

बोधमें ' अवशेष अवन्धक हैं ' ऐसा कहा गया है । परन्तु यहां ' अवन्धक कोई नहीं है ' ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि, यहां योगकी प्रधानता है । और सयोगियोंमें अयोगी होते नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है ।

शंका— यदि केवल इतनी मात्र ही विशेषता थी तो इतनेका ही निर्देश क्यों नहीं किया ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थूलबुद्धि शिष्योंके भी सुखपूर्वक ग्रहण हो, एतदर्थ उक्त प्रकार उपदेश किया गया है ।

औदारिककाययोगियोंकी प्ररूपणा मनुष्यगतिके समान है १४२ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंके बन्धोदयव्युच्छेदमें मनुष्यगतिके कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि, विशेष कारणोंका यहां अभाव है । यशकीर्ति और उच्चगोत्रमें विशेषता है, क्योंकि, यहां उनके उदय-व्युच्छेदका अभाव है । परन्तु मनुष्यगतिके इनका उदयव्युच्छेद है, क्योंकि, अयोगकेचली गुणस्थानके अन्तिम समयमें मनुष्यगतिके साथ इनका उदयव्युच्छेद देखा जाता है । स्वोदय-परोदय और सान्तर-निरन्तर बन्ध की परीक्षामें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि, यहां विशेषताके उत्पादक कारणोंका अभाव है । प्रत्ययोंमें विशेषता है, क्योंकि औदारिक-मिश्र-कर्मण, वैक्रियिकद्विक, चार मनोयोग और चार बन्धनयोग प्रत्ययोंके विना मिथ्या-दृष्टि और सासादन गुणस्थानमें यथाक्रमसे तेतालीस और अइतीस प्रत्यय देखे जाते हैं,

सम्मामिच्छादिङ्ङि-असंजदसर्मादिङ्ङीसु चोत्तीसपच्चयदंसणादो, उवरिमगुणङ्गाणपच्चयसु वि ओरालियकायजोगं मोत्तूण सेसजोगपच्चयाणमभावादो । उवरिपरिक्खासु वि णत्थि विसेसो । णवरि मिच्छाङ्ङि-सासणसम्माङ्ङि-सम्मामिच्छाङ्ङि-असंजदसम्माङ्ङि-संजदासंजदा तिरिक्खगइ-मणुसगइमहिङ्ङिदा सामि त्ति वत्तव्वं । एसो पढमसुत्तङ्ङियभेदो । एत्थ उत्तपच्चय-गइ-गयसामित्तभेओ सव्वसुत्तेसु दङ्ङव्वो । णवरि विङ्गाणियपयडीसु तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणं बंधो मणुसगईए परोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ त्ति वत्तव्वं । णवरि तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए परोदओ चेव बंधो, ओरालियकायजोगे तिस्से उदयाभावादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खाणुपुव्वीणं मणुसगईए सांतरो बंधो, एत्थ पुण सांतर-णिरंतरो । एवं चेव णीचागोदस्स वि वत्तव्वं । मणुसाउ-मणुसगईणं मणुसगईए सोदओ बंधो, एत्थ पुण सोदय-परोदओ । [ओरालियसरीरंगोवंग-] मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सांतर-णिरंतरो मणुसगईए बंधो, एत्थ पुण सांतरो । मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीए मणुसगईए सोदय-परोदओ, एत्थ पुण परोदओ । ओरालियसरीरस्स मणुसगईए सोदय-परोदओ बंधो, एत्थ पुण सोदओ । ओरालियसरीरस्स मणुसगईए सांतर-णिरंतरो, एत्थ वि सांतर-णिरंतरो

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चौंतीस प्रत्यय देखे जाते हैं, तथा उपरिम गुणस्थान प्रत्ययोंमें भी औदारिककाययोगको छोड़कर शेष योग प्रत्ययोंका अभाव है । उपरिम परीक्षाओंमें भी कोई विशेषता नहीं है । केवल इतना विशेष है कि मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत तिर्यग्गति व मनुष्यगतिके आश्रित होकर स्वामी हैं, ऐसा कहना चाहिये । यह प्रथम सूत्रस्थित भेद है । यहाँ पूर्वोक्त प्रत्यय और गतिगत स्वामित्वका भेद सब सूत्रोंमें देखना चाहिये । विशेष इतना है कि द्विस्थानिक ऋक्तियोंमें तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतका बन्ध मनुष्यगतिमें परोदय होता है; परन्तु यहाँ इनका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, ऐसा कहना चाहिये । विशेषता यह है कि तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, औदारिककाययोगमें उसके उदयका अभाव है । तिर्यग्गति और तिर्यगानुपूर्वीका मनुष्यगतिमें सान्तर बन्ध होता है, किन्तु यहाँ उनका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है । इसी प्रकार ही नीचगोत्रके भी कहना चाहिये । मनुष्यायु और मनुष्यगतिका मनुष्यगतिमें स्वोदय बन्ध होता है, परन्तु यहाँ स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । [औदारिकशरीरंगोपांग] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध मनुष्यगतिमें सान्तर-निरन्तर होता है, परन्तु यहाँ सान्तर होता है । मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्य-गतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहाँ परोदय बन्ध होता है । औदारिक-शरीरका मनुष्यगतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध है, परन्तु यहाँ स्वोदय बन्ध होता है । औदारिकशरीरका मनुष्यगतिमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, यहाँ भी सान्तर-निरन्तर

चेव । एसो वेङ्गाणिसुत्तडियभेदो ।

एइंदिय—वीइंदिय—तीइंदिय—चउरिंदिय पंचिंदियजादि—आदाव—थावर—सुहुम—साहारणाणं मणुसगईए परोदओ वंघो, एत्थ पुण सोदय—परोदओ । अपज्जत्तस्स मणुसगईए सोदय—परोदओ, एत्थ पुण परोदओ । एसो एगङ्गाणियसुत्तडियभेदो ।

संपषिय अण्णसुत्तेसु भेदाभावादो ताणि मोत्तूण अङ्गाणियसुत्तडियभेदो उच्चदे— मिच्छादिङ्कि—सासणसम्मादिङ्कि—असंजदसम्मादिङ्कीसु उवघाद—परघाद—उस्सास—अपज्जत्ताणं मणुसगईए सोदय—परोदओ, एत्थ पुण सोदओ चेव । पंचिंदियजादि—तस—घादराणं मणुसगईए सोदओ, एत्थ पुण सोदय—परोदओ । जेणेदं देसामासियमप्पणासुत्तं तेणेदे सच्चविसेसा एत्थुवल्लभंति । अण्णं पि भेददंसणङ्गसुवरिमसुत्तं भणदि—

णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ॥ १४३ ॥

ओरालियकायजोगीसु अवंघगाभावादो ।

**ओरालियमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय—छदंसणावरणीय—
असादावेदणीय—चारसकसाय—पुरिसवेद—हस्स—रदि—अरदि—सोग—भय—**

ही होता है । यह द्विस्थानिक सूत्रस्थित भेद है ।

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका मनुष्यगतिमें परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्त्रोदय—परोदय बन्ध होता है । अपर्याप्तका मनुष्यगतिमें स्त्रोदय—परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता है । यह एकस्थानिक सूत्रस्थित भेद है ।

इस समय अन्य सूत्रोंमें भेद न होनेसे उन्हें छोड़कर अप्रस्थानिक सूत्रस्थित भेदको कहते हैं— मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उपघात, परघात, उच्छ्वास और अपर्याप्तका मनुष्यगतिमें स्त्रोदय—परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्त्रोदय ही होता है । पंचेन्द्रिय जाति, त्रस और वादरका मनुष्यगतिमें स्त्रोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्त्रोदय—परोदय बन्ध होता है । चूंकि यह अपर्णासूत्र देशामर्शक है, अत एव ये सब विशेषताये यहां पायी जाती हैं । अन्य भी भेद दिखलानेके लिये उपरिम सूत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि साता वेदनीयकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥ १४३ ॥

क्योंकि, औदारिककाययोगियोंमें साता वेदनीयके अवन्धकोंका अभाव है ।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, चारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस

दुग्ंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-
रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-
जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?

॥ १४४ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ १४५ ॥

परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणमेत्थुदयाभावादो बंधोदयाणं पुव्वावरकाल-
संबंधिवोच्छेदविचारो णत्थि । अवसेसाणं पयडीणं बंधोदया समं वोच्छिज्जति, असंजदसम्मा-
दिट्ठिम्हि तदुभयाभावदंसणादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुव-
लहुअ-उवघाद-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादो ।

व कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक
और कौन अबन्धक है ? ॥ १४४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं,
शेष अबन्धक हैं ॥ १४५ ॥

परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वरका यहां उदयाभाव होनेसे
बन्ध व उदयके पूर्व और अपर काल सम्बन्धी व्युच्छेदका विचार नहीं है । शेष
प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि
गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तेजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध,
रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय,
इनका स्वोदय बन्ध होता है; क्योंकि, यहां ये धुवोदयी हैं । निद्रा, प्रचला, बारह कषाय,

णिहा-पयला-चारसकसाय-ह्रस्व-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-असादवेदणीय-उच्चागोदणं सोदय-परोदओ बंधो । कधमुच्चागोदबंधो सम्मादिङ्गीसु परोदओ ? ण, तिरिक्खेसु पुच्चाउवबंधवसेणुप्पणखइयसम्मादिङ्गीसु परोदएणुच्चागोदस्स बंधुवलंभादो । पुरिसवेद-समचउ-रससंठाण-सुभगादेज्ज-जसकितीण मिच्छाइङ्गि-सासणेसु सोदय-परोदओ । असंजदसम्मादिङ्गिहि सोदओ । पंचिदियजादि-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइङ्गिहि सोदय-परोदएण बंधो । सासणसम्मादिङ्गि-असंजदसम्मादिङ्गीसु सोदएण । परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-अप्पसत्थ-विहायगइ-सुस्सराणं तिसु वि गुणङ्गणेसु परोदएण बंधो । अजसकितीए मिच्छादिङ्गि-सासणसम्मादिङ्गीसु सोदय-परोदएण बंधो, असंजदसम्मादिङ्गीसु परोदएण ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो बंधो । असाद-ह्रस्व-रदि-अरदि-सोग-जसकित्त-अजसकित्त-थिराथिर-सुभासुमाणं सांतरो बंधो, तिसु वि गुणङ्गणेसु एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-सुभगादेज्ज-उच्चागोद-पसत्थविहाय-

हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, असाता वेदनीय और उच्चगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है ।

शंका—सम्यग्दृष्टियोंमें उच्चगोत्रका परोदय बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, पूर्व आयुबन्धके वशसे तिर्यच्चोंमें उत्पन्न हुए क्षयिकसम्यग्दृष्टियोंमें परोदयसे उच्चगोत्रका बन्ध पाया जाता है ।

पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, आदेय और यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनका स्वोदय बन्ध होता है । पंचेन्द्रिय जाति, ब्रह्म, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है । सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदयसे बन्ध होता है । परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहाययोगति, अप्रशस्तविहाययोगति और सुस्वरका तीनों ही गुणस्थानोंमें परोदयसे बन्ध होता है । अयशकीर्तिका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदयसे और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें परोदयसे बन्ध होता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, । असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तीनों ही गुणस्थानोंमें इनका एक समयसे बन्धविश्राम देखा जाता है । पुरुषवेद, समचतुरस्र-संस्थान, सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, प्रशस्तविहाययोगति और सुस्वरका मिथ्यादृष्टि व

गइ-सुस्तराणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो बंधो, असंजदसम्मादिद्विम्हि गिरंतरो । पंचिंदिय-तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-परघादुस्सासाणं मिच्छाद्वीसु सांतर-गिरंतरो बंधो । कथं गिरंतरो ? तिरिक्ख-मणुसुप्पणसणक्कुमारादिदेवाणं णेरइयाणं च गिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु गिरंतरो ।

मिच्छाद्विद्विस्स तेदालीस पच्चया, ओषपच्चएसु ओरालियमिस्सकायजोगवदिरित्त-वारसजोगाणमभावादो । सासणस्स अद्वीस, असंजदसम्माद्विद्विस्स चत्तीस पच्चया; तेसिं चेव जोगाणमभावादो असंजदसम्मादिद्वीसु त्थी-णवुंसयवेदेहि सह वारसजोगाभावादो । एदाओ सव्वपयडीओ असंजदसम्मादिद्विणो देवगइसंजुत्तं बंधंति । मिच्छाद्वि-सासणसम्मा-दिद्विणो उच्चागोदं मणुसगइसंजुत्तं, सेसाओ सव्वपयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । देव-णिरयगईओ मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणो किण्ण बंधंति ? ण, अपज्जत्तद्वाए तासिं बंधाभावादो ।

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है । पंचेन्द्रिय, ब्रह्म, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, परघात और उच्छ्वासका मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, तिर्यं व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि देवों और नारकियोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है ।

मिथ्यादृष्टिके तेदालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओष प्रत्ययोंमेंसे उसके औदारिकमिश्र काययोगको छोड़कर अन्य बारह योगोंका अभाव है । सासादनसम्यग्दष्टिके अद्वीस और असंयतसम्यग्दष्टिके चत्तीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उन्हीं योगोंका यहां भी अभाव है, चूंकि असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें ह्रीं और नपुंसक वेदोंके साथ बारह योगोंका अभाव है । इन सब प्रकृतियोंको असंयतसम्यग्दष्टि देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं । मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दष्टि उच्चगोत्रको मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तिर्यग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं ।

शंका—देवगति व नरकगतिको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि क्यों नहीं बांधते ?

समाधान—नहीं बांधते, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें उनका बन्ध नहीं होता ।

तिरिक्ख-मणुस्सा सामी । वंधद्धाणं वंधविणद्धाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-
छंदसणावरणीय-वारसकसाय -भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्णचउक्क-अगुस्वलहुव-उवचाद-
णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइड्ढिहं चउत्विहो वंधो । सेसेसु तिविहो, धुवबंधाभावो ।
अवसेसाणं सच्चपयडीणं तिसु त्रि गुणद्धाणेसु वंधो सादि-अद्धवो ।

पिदाणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-
ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणु-
पुव्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं
को वंधो को अबंधो ? ॥ १४६ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइटी सासणसम्माइटी वंधा ! एदे वंधा, अवसेसा अबंधा
॥ १४७ ॥

तिर्यंच व मनुष्य स्वामी है । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम है । पांच
ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कर्मण शरीर,
वर्णादिक चार, अगुदलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष दो गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध
होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष सब प्रकृतियोंका बन्ध तीनों ही
गुणस्थानोंमें सादि व अध्रुव होता है ।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,
स्त्रीवेद, तिर्यंगति, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच
संहनन, तिर्यंगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर,
अनादेय और नीचगोत्रका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४६ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक
हैं ॥ १४७ ॥

१ प्रतिशु 'मिच्छाइड्ढिहं' इति पाठ ।

२ प्रतिशु 'अदेज्ज' इति पाठ ।

एदस्स अत्थो उच्चदे— अणंताणुबंधिचउक्क-त्थिवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधोदया सासणसम्माइड्ढिहि समं वोच्छिज्जंति, ण मिच्छाइड्ढिहि; अणुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीणमेत्थुदयवोच्छेदो णत्थि, उवरि तदुवलंभादो । केवले एत्थ बंधवोच्छेदो चेव, तस्स दंसणादो ।

शीणगिद्धितिय-तिरिक्खगइ मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुस्स-राणं परोदओ बंधो, अपज्जत्तएसु एदासिमुदयाभावादो । ओरालियसरीरस्स सोदओ बंधो, एत्थ ध्रुवोदयत्तादो । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिच्छाइड्ढिहि सोदय-परोदओ बंधो, सासणे सोदओ । अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं दोसु वि गुणट्ठाणेषु सोदय-परोदओ बंधो, अद्धवोदयत्तादो । शीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-ओरालियसरीराणं णिरंतरो बंधो, एत्थ ध्रुवबंधितादो । इत्थिवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-णीचागोदाणं

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, दुर्भंग, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध व उदय दोनों सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नहीं, क्योंकि, वहां इनका व्युच्छेद पाया नहीं जाता । शेष प्रकृतियोंका यहां उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर उनका उदय पाया जाता है । उनका यहां केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वह यहां देखनेमें आता है ।

स्थानगृद्धित्रय, तिर्यग्गति च मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति और दुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तोंमें इनके उदयका अभाव है । औदारिकशरीरका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां वह ध्रुवोदयी है । औदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, सासादनमें स्वोदय बन्ध होता है । अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, चार संस्थान, पांच संहनन, दुर्भंग, अनादेय और नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्रुवोदयी हैं । स्थानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धि-चतुष्क और औदारिकशरीरका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवबन्धी हैं । स्त्रीवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, और अनादेयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका बन्ध मिथ्यादृष्टि

१ आप्तौ 'चउक्कत्थी-' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'तत्थ-' इति पाठः ।

मिच्छाद्द्विम्हि' बंधो सांतर-गिरंतरो । कथं गिरंतरो ? ण, तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढवीए' तिरिक्खेसुप्पण्णेरइएसु च गिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिद्दिम्हि सांतरो, तत्थ तेसिसुववादाभावादो । [मणुसगइ-] मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सांतर-गिरंतरो । कथं गिरंतरो ? आणदादिदेवेषु मणुसेसुप्पण्णेषु दुविहगुणेषु सुहुत्तसंतो गिरंतरबंधुवलंभादो । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिच्छाद्द्विम्हि बंधो सांतर-गिरंतरो । कथं गिरंतरो ? ण, सणक्कुमारदिदेव-णेरइएसु तिरिक्ख-मणुस्सुप्पण्णेषु अंतोसुहुत्तं गिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिद्दिम्हि गिरंतरो ।

मिच्छाद्द्विम्हि तेदालीस, सासणे अड्ढतीसुत्तरपच्चया । सेसं सुगमं । तिरिक्खगइ- [तिरिक्खगइ-] पाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तं । [मणुसगइ-] मणुसगइपाओग्गाणु-

गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं है, क्योंकि, तेज व वायुकायिकोंमें तथा तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुए सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके उत्पादका अभाव है । [मनुष्यगति और] मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, मनुष्योंमें उत्पन्न हुए आनतादिक देवोंमें दोनों गुणस्थानोंमें अन्तर्मुहूर्त तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है । औदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए सानत्कुमारदि देव और नारकियोंमें अन्तर्मुहूर्त तक उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता है ।

मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें तेदालीस और सासादन गुणस्थानमें अड्ढतीस उत्तर प्रत्यय होते हैं । शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है । [तिर्यंगति], तिर्यंगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतका तिर्यंगतिसे संयुक्त, [मनुष्यगति] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका मनुष्यगतिसे संयुक्त,

पुञ्जीणं मणुसगइसंजुतो, सेसाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो बंधो । तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो सामी । बंधद्वाणं बंधविणइड्डाणं च सुगमं । धीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि-चउक्काणं मिच्छाइडिभिह् वंधो चउच्चिहो । सासणे दुविहो, अणादि-धुवत्ताभावादो । सेसाणं पयडीणं सव्वत्थ सादि-अद्दुवो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १४८ ॥

भुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी सजोगिकेवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ १४९ ॥

सादावेदणीयस्स बंधादो उदओ पुव्वं पच्छा [वा] वोच्छिण्णो त्ति विचारो णत्थि, चहुसु गुणद्वाणेषु तदुभयवोच्छेदाणुवलंभादो । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्माइडि-सजोगीसु बंधो सोदय-परोदओ, परावत्तणुदयत्तादो । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिट्टीसु बंधो सांतरो, एगसमएण बंधुवरसदंसणादो । सजोगीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए

तथा शेष प्रकृतियोंका तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तिर्यक् और मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका होता है, क्योंकि, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सादि और अध्रुव होता है ।

साता वेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १४९ ॥

साता वेदनीयका उदय बन्धसे पूर्वमे या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, चारों गुणस्थानोंमें उन दोनोका व्युच्छेद पाया नहीं जाता । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां परिवर्तित होकर अन्यका भी उदय होता है । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें साता वेदनीयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे यहां उसका बन्धविश्राम देखा जाता है । सयोगकेवलियोंमें निरन्तर

धाभावादो । मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिट्टीसु जहाकभेण तेदालीस-अट्टतीस-
त्तीसपच्चया । सजोगिहि एक्को चेव ओरालियमिस्सकायजोगपच्चओ । सेसं सुगमं ।
मेच्छाइट्टि-सासणसम्मादिट्टिणो दुगइसंजुत्तं, असंजदसम्मादिट्टिणो देवगइसंजुत्तं, सजोगिणिणा
अगइसंजुत्तं बंधंति । तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्मादिट्टिणो
मणुसगइसजोगिणिणा सामी । बंधद्धाणं बंधविणट्टाणं च सुगमं । सादावेदणीयस्स बंधो
सच्चत्थ सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

मिच्छत्त-गउंसयवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंठाण-
असंपत्तसेवट्टसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणशरीर-
णामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १५० ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १५१ ॥

एदस्स अत्थो वुच्चदे— बंधोदयाणमेत्थ वोच्छेदो णत्थि, उवलंभादो । अधवा,

—

बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । मिथ्यादृष्टि, सासादन-
सम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे तेतालीस, अट्टतीस और वत्तीस
प्रत्यय होते हैं । सयोगकेवली गुणस्थानमें एक ही औदारिकमिश्रकाययोग प्रत्यय होता है ।
शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है । मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त,
असंयतसम्यग्दृष्टि देवगतिसे संयुक्त, और सयोगी जिन अगतिसंयुक्त बांधते हैं ।
तिर्यगाति व मनुष्यगतिके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; तथा
मनुष्यगतिके सयोगी जिन स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं ।
साता वेदनीयका बन्ध सर्वत्र सादि व अष्टुव होता है, क्योंकि, वह अष्टुवबन्धी है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, चार जातियां, हुंडसंस्थान, असंप्राप्त-
सुपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कौन
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक है, शेष अबन्धक हैं ॥ १५१ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— बन्ध और उदयका यहां व्युच्छेद नहीं हैं, क्योंकि,

मिच्छत्त-चदुजादि-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणमेत्थ बंधोदया समं वोच्छिण्णा, अव-
सेसाणं पयडीणं पुर्व्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो । आदावस्स एत्थ उदओ णत्थि चेव ।
मिच्छत्तस्स सोदओ बंधो । आदावस्स परोदओ, अपज्जत्तकाले आदावस्सुदयामावादो । णउं-
सयवेद-तिरिक्ख-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइसंघडण-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहा-
रणणं सोदय-परोदओ बंधो । मिच्छत्त-तिरिक्ख-मणुसाउआणं बंधो णिरंतरो । अवसेसाणं
सांतरो, एगसमएण बंधुवरमुवलंभादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खाउ-चदुजादि-आदाव-थावर-
सुहुम-साहारणणं तिरिक्खगइसंजुत्तो, मणुसाउअस्स मणुसगइसंजुत्तो, सेसाणं तिरिक्ख-मणुस-
गइसंजुत्तो बंधो । दुगइमिच्छाइडी सामी । बंधद्धानं बंधविणइड्डाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स
चदुविहो बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्दुवो ।

**देवगइ-चेउब्बियसरीर-वेउब्बियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणु-
पुव्वी-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? १५२ ॥**

सुगमं ।

वे दोनों पाये जाते हैं । अथवा मिथ्यात्व, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और
साधारणशरीर, इनका बन्ध और उदय दोनों यहां साथमें व्युच्छिन्न होते हैं । शेष
प्रकृतियोंका पूर्व्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है । आताप प्रकृतिका उदय यहां
है ही नहीं । मिथ्यात्व प्रकृतिका स्त्रोदय बन्ध होता है । आतापका बन्ध परोदय होता है,
क्योंकि, अपर्याप्त कालमें आतापके उदयका अभाव है । नपुंसकवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु,
चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्वपाटिकासंहनन, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त
और साधारण, इनका स्त्रोदय-परोदय बन्ध होता है । मिथ्यात्व, तिर्यगायु और मनुष्यायुका
बन्ध निरन्तर होता है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे
इनका बन्धविश्राम पाया जाता है । प्रत्यय सुगम हैं । तिर्यगायु, चार जातियां, आताप,
स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनका तिर्यग्गतिसे संयुक्त, मनुष्यायुका मनुष्यगतिसे
संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंका तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तिर्यंच
व मनुष्य दो गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम
हैं । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है । शेष प्रकृतियोंका
बन्ध सादि व अध्रुव होता है ।

देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोर्षांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थकर
नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५२ ॥

यद्द सज्ज सुगम है ।

असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥१५३॥

एदस्सत्थो वुच्चदे — एत्थ बंधो उदओ वा पुव्वं पच्छा वा वोच्छिज्जदि ति परिक्खा णत्थि, उदयामावादो । णवरि तित्थयरस्स पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि । एदाओ पंच वि पयडीओ परोदएण वच्चंति, ओरालियमिस्सकायजोगमि एदासिमुदयविरोहादो । णिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । असंजदसम्मादिट्ठिहि एदासि बंधस्स वृत्तीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु चारसजोगित्थि-गजुंसयवेदाणमभावादो । सेसं सुगमं । चउण्हं पयडीणं तिरिक्ख-मणुसगइ-असंजदसम्मादिट्ठी सामी । तित्थयरस्स मणुसा चेव, तिरिक्खेसु उप्पणाणं तत्थुप्पत्तिपाओग्गसम्माइड्डीण तित्थयरस्स बंधामावादो । गइसंजुत्तमभणिय किमिदि सामितं परुविदं ? ण, देवगइसंजुत्तं वच्चंति ति अणुत्तसिद्धीदो । बंधद्धानं बंधविणइड्डाणं च सुगमं । सादि-अदुवो बंधो, अदुवबंधितादो ।

वेउन्वियकायजोगीणं देवगइए' भंगो ॥ १५४ ॥

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १५३ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— यहाँ बन्ध व उदय पूर्वमें अथवा पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह परीक्षा नहीं है; क्योंकि, यहाँ उन प्रकृतियोंके उदयका अभाव है । विशेष इतना है कि तीर्थकर प्रकृतिका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है । ये पांचों ही प्रकृतियां परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगमें इनके उदयका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका यहाँ अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनके बन्धके वृत्तीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे चारह योग, खींवेद और नपुंसकवेदका अभाव है । शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है । चार प्रकृतियोंके तिर्यंच व अनुप्यगतिके असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । तीर्थकर-प्रकृतिके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुए वहाँ उत्पत्तिके योग्य सम्यग्दृष्टियोंके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ।

शंका— गतिसंयुक्तताको न कहकर स्वामित्वकी प्ररूपणा क्यों की गयी है ?

समाधान— चूंकि उक्त प्रकृतियां देवगतिके संयुक्त बंधती हैं, यह विना कहे ही सिद्ध है, अतः गतिसंयोगकी प्ररूपणा नहीं की ।

बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी प्रकृतियां हैं ।

वैक्रियिककाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५४ ॥

एदमपणासुतं देसामासियं, तेणेदेण सुइदत्थपरूवणा कीरदे— पंचणाणावरणीय-
छदंसणावरणीय-सादासाद-चारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुच्छा-मणुसगइ-
पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसह-
संघडण-वण्णचउक्क-मणुसाणुपुच्ची-अगुरुअलहुअचउक्क-पसत्थविहायगइ-तसचउक्क-थिरायिर-
सुहासुह-सुभग-सुत्सर-ओदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ एत्थ
चदुसु गुणङ्गाणेसु वंधपाओग्गाओ । एत्थ पुवं वंधो उदओ वा वोच्छिण्णो त्ति विचारो यत्थि,
मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइ-मणुसगइयाओग्गाणु-
पुच्ची-अजसगितीणमुदयाभावादो सेसाणं पयडीणमुदयवोच्छेदाभावादो च ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-
फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिरायिर-सुहासुह-
णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ वंधो, वेउच्चियकायजोगम्हि एदासिं धुवोदयत्तदंसणादो । णवरि
सम्मामिच्छाइईं मोत्तूण अण्णत्थ उस्सासस्स' सोदय-परोदओ वंधो, सरीरपज्जत्तीए

यह अर्पणासूत्र देशामर्शक हैं. इसलिये इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, दारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपर्मसंहनन, वर्णादिक चार, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगति, व्रस आदिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां यहां चार गुणस्थानोंमें बन्धके योग्य हैं । यहां पूर्वमें बन्ध या उदय वृत्तिछन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपर्मसंहनन, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और अयशकीर्ति, इनका उदयाभाव तथा शेष प्रकृतियोंके उदयवृत्तिछेदका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, व्रस, वाटर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वैक्रियिककाययोगमें इनका ध्रुवोदय देखा जाता है । विशेष इतना है कि सत्यग्निध्यादृष्टिको छोड़कर अन्यत्र उच्छ्वासका स्वोदय परोदय बन्ध

पञ्जत्तस्स-अंतोमुहुत्तं गंतूण आणापाणपञ्जत्तीए पञ्जत्तयदस्स उस्सासस्सोदयदंसणादोः।
णिद्ध-पयला-सादासाद चारसकसाय-सत्तणोकसाय-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग-
सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ वंधो, असुहणं णेरइएसु
उदयदंसणादो । मणुसगइ-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गणुपुब्बीणं
परोदओ वंधो, वेउव्वियकायजोगम्मि एदासिसुदयविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चारसकसाय-भय-दुग्गुच्छ-ओरालिय-तेजाःकम्मइय-
सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्लुव-उवघाद-परघादुस्सास-चादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-
णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो वंधो, एत्थ धुवबंधितादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-
थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो वंधो, एगसमएण वंधुत्तरमदंसणादो ।
पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जुच्चागोदाणं
मिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु सांतरो वंधो, पडिवक्खपयडिबंधसंभवादो । सम्मामिच्छादिडि-
असंजदसम्मादिड्डीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । पंचिदियजादि-ओरालियसरीर-

होता है, क्योंकि, शरीरपर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवके अन्तर्मुहूर्त-जाकर-आनप्राणपर्याप्तसे पर्याप्त-होनेपर उच्छ्वासका उदय देखा जाता है । निद्रा, प्रचला, साता व-असाता वेदनीय, वारह कपाय, सात नोकपाय, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, नारकियोंमें अशुभ प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है । मनुष्यगति; औदारिकशरीरंगोपांग; वज्रधर्मसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय-बन्ध होता है, क्योंकि, वैक्रियिककाययोगमें इनके उदयका विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस व-कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपमात, परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर-बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये धुवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका-सान्तर-बन्ध-होता-है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रधर्मसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें-सान्तर-बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पंचेन्द्रिय

अंगोवंग-तसणामाणं मिच्छाइड्ढि सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो ? ण, णेरइएसु सणक्कु-
 मारादिदेवेषु च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिड्ढि-सम्मामिच्छादिड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिसु
 णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गणुपुञ्चीणं मिच्छाइड्ढि-
 सासणसम्मादिड्ढिसु सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो ? ण, आणदादिदेवेषु णिरंतरबंधुवलंभादो ।
 सम्मामिच्छाइड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो ।

मिच्छाइड्ढी एदाओ पयडीओ तेदालीसपच्चएहि, सासणो अट्ठीसपच्चएहि,
 सम्मामिच्छाइड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिणो चौत्तीसपच्चएहि बंधंति, मूलोघपच्चएसु वारसजोग-
 पच्चयाभावादो । सेसं सुगमं ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गणुपुञ्ची-उच्चोगोदाणि मिच्छाइड्ढि-सासणसम्माइड्ढि-
 सम्मामिच्छाइड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिणो मणुसगइसंजुत्तं । अवसेससञ्चपयडीओ मिच्छाइड्ढि-

जाति, औदारिकशरीरांगोपांग और ब्रह्म नामकर्मका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-
 निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नारकियों और सनत्कुमारादि देवोंमें उनका निरन्तर
 बन्ध पाया जाता है ।

सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें
 निरन्तर बन्ध पाया जाता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।
 मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि
 गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आनतादि देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध देखा
 जाता है ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है,
 क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

मिथ्यादृष्टि इन प्रकृतियोंको तेतालीस प्रत्ययोंसे, सासादनसम्यग्दृष्टि अट्ठीस
 प्रत्ययोंसे, तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि चौत्तीस प्रत्ययोंसे बांधते हैं;
 क्योंकि, मूलोघ प्रत्ययोंमें वारह योग प्रत्ययोंका यहां अभाव है । शेष प्रत्ययरूपणा
 सुगम है ।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टि, सासादन-
 सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । शेष

सासणसम्मादिङ्घिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, सम्माभिच्छादिङ्घि-अंसंजदसम्मादिङ्घिणो मणुसगइसंजुत्तं बंधंति ।

देव-णेरइया सामी । बंधद्धाणं सुगमं । बंधविणासो णत्थि । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वणणचउक्क-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइङ्घि चउव्विहो बंधो । अण्णत्थ ति विहो, धुवबंधिताभावाद्दो । सेससव्वपयडीओ सव्वत्थ सादि-अद्दुवाओ ।

शीणगिद्धित्थिय-अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि वेद्धानियपयडीओ । एदासु अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणम्मि तहुमाभावंदंसणादो । इत्थिवेद-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिङ्घि-अंसंजदसम्मादिङ्घिसु बंधोदयवोच्छेदंसणादो । अवसेसाणं ऐसा परिक्खा णत्थि, उदयाभावाद्दो ।

सब प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति एवं मनुष्यगतिले संयुक्त, तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिले संयुक्त बांधते हैं ।

देव और नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धविनाश है नहीं । पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कर्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें उनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष सब प्रकृतियां सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्धवाली हैं ।

स्त्यानशुद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रयोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, ये द्विस्यानिक प्रकृतियां हैं । इनमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है । स्त्रीवेद, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्रमशः इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंके यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, उनका उदयाभाव है ।

अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवेद-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-
गोदाणं सोदय-परोदओ बंधो, वेउच्चियकायजोगमि पडिवक्खुदयदंसणादो । अवसेसाणं
पयडीणं परोदओ बंधो, तासिमेत्थुदयविरोहादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-
तिरिक्खाउआणं गिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-
माओग्गाणुपुच्ची-णीचागोदाणं सांतर-गिरंतरो बंधो । कंधं गिरंतरो ? ण, सत्तमपुढविणेरइएसु
गिरंतरबंधुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सांतरो, एगसमएण-बंधुवरमदंसणादो ।
पच्चाया सुगमा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-उज्जोवाणि तिरिक्खगइ-
संजुत्तं, सेससव्वपयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । देव-णेइया सामी । बंधद्धाणं
बंधविणद्धाणं च-सुगमं । सत्तण्हं धुवपयडीणं मिच्छाइद्धिभिह चउव्विहो बंधो । सासणे
धुंविहो बंधो ।

मिच्छत्त-णनुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंधडण-आदाव-थावर-
पयडीओ मिच्छाइद्धिणा-वज्झमाणियाओ । एत्थ मिच्छत्तस्स बंधोदया-समं वोच्छिज्जति,

अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीविद, अमरास्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और
नीचगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वैक्रियिककाययोगमें इनकी प्रतिपक्ष
'प्रकृतियोंका' उदय देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां
उनके उदयका विरोध है । स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और 'तिर्यगायुका
निरन्तर-बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । तिर्यगति,
तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका-सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, सतम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर
बन्ध पाया जाता है ।

शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका बन्ध-
विश्राम देखा जाता है । प्रत्यय सुगम हैं । तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी
और उद्योतको तिर्यग्गतिले संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे
संयुक्त बांधते हैं । देव व नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान-सुगम हैं ।
सात-ध्रुवप्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । सासादनमें
दो प्रकारका बन्ध होता है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसूपगटिकासंहनन,
आताप और स्थावर, ये मिथ्यादृष्टिके द्वारा बध्यमान-प्रकृतियां हैं । यहां-मिथ्यात्वका
बन्ध और उदय दोनों मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, उपरिम

उर्वरिमणुषु तद्भुमयाणुवर्लंभादि । णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडीसु तद्भुमयाभावदंसणादो । सेसासु एसो विचारो णत्थि, उदयाभावादि । मिच्छत्तस्स सोदएण, णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदय-परोदओ, अवसेसाणं-परोदओ बंधो । मिच्छत्तस्स बंधो णिरंतरो, अवसेसाणं सांतरो । पच्चया सुगमाः । णवरि एइंदियजादि-आदाव-थावराणं णवुंसयवेदपच्चओ अवणेदव्वो, णेरइएसु एदासिं बंधाभावादि । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइसंबडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्तं वच्चंति । एइंदियजादि-आदाव-थावराणं बंधस्स देवा सामी, अवसेसाणं बंधस्स देव-णेरइया सामी । बंधद्वारणं बंधविणइड्डाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स चउव्विहो बंधो, अवसेसाणं सादि-अदुवो ।

मणुसाउअस्स बंधो उदयादो' पुव्वं पच्छा वा वोच्छिज्जदि ति णत्थि [विचारो], संता-संताणं सण्णियासविरोहादो । परोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगाम्भि मणुसाउअस्स उदयविरोहादो । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमामावादो । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडीणं

गुणस्थानोंमें वे-द्रोनों पाये नहीं जाते । नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्रमसे उन द्रोनोंका अभाव देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंमें यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका उदयाभाव है । मिथ्यात्वका स्वोदयसे, नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका स्वोदय-परोदयसे, तथा शेष प्रकृतियोंका परोदयसे बन्ध होता है । मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर और शेष प्रकृतियोंका सान्तर होता है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि एकेन्द्रिय-जाति, आताप और स्थावरके प्रत्ययोंमें नपुंसकवेद प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, नारकियोंमें इनके बन्धका अभाव है । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसुपाटिकासंहनन, तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसंयुक्त; तथा शेष प्रकृतियां तिर्यग्गतिसंयुक्त बंधती हैं । एकेन्द्रियजाति, आताप और स्थावरके बन्धके-देव स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके-बन्धके-देव व नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वका-बन्ध चारों प्रकारका, तथा शेष प्रकृतियोंका सादि व अष्टुव होता है ।

मनुष्यायुका-बन्ध उदयसे पूर्व या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहाँ नहीं है, क्योंकि, सत् (बन्ध) और असत् (उदय) की तुलनाका-विरोध है । परोदय-बन्ध-होता है, क्योंकि, वैकिकिकाययोगमें मनुष्यायुके उदयका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इसके बन्धविभ्रामका अभाव है । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयत-

तेदालीस-अङ्गीस-चौतीसपञ्चया । मणुसगइसंजुत्तं । देव-णेरइया सामी । अद्धानं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडि ति । बंधविणासो णत्थि । सादि-अद्दुवो बंधो ।

तित्थयरस्स बंधोदयवोच्छेदसण्णियासो णत्थि, संतासंताणं सण्णियासविरोहादो । परोदओ बंधो, मणुसगइं भोत्तूणणत्थुदयाभावादो । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पञ्चया सुगमा । मणुसगइसंजुत्तं । देव-णेरइया सामी । असंजदसम्मादिडि अद्धानं । बंधविणासो णत्थि । सादि-अद्दुवो बंधो ।

वेञ्जियमिस्सकायजोगीणं देवगइभंगो ॥ १५५ ॥

एदस्स देसामासियअप्पणासुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा — पंचणाणावरणीय-छंदसणावरणीय-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछं-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंगी-वज्ज-रिसहसंधण-वण्णचउक्क-मणुस्साणुपुच्चि-अगुरुलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-

सम्यग्दृष्टिके क्रमसे तेदालीस, अङ्गीस व चौतीस प्रत्यय होते हैं । मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । देव व नारकी स्वामी है । बन्धाध्वान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि तक है । बन्धविनाश है नहीं । सादि व अधुव बन्ध होता है ।

तीर्थंकरप्रकृतिके बन्ध व उदयके व्युच्छेदकी सदृशता नहीं है, क्योंकि, सत् और असत्की तुलनाका विरोध है । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, मनुष्यगतिको छोड़कर दूसरी जगह तीर्थंकरप्रकृतिके उदयका अभाव है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । देव व नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान है । बन्ध-विनाश है नहीं । सादि व अधुव बन्ध होता है ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५५ ॥

इस देशामर्शक अर्पणासूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्णादिक चार, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस,

१ अ-आप्रत्ययोः ' देवगर्हणं भंगो ' इति पाठः ।

२ अप्रती ' दुग्गणण ' इति पाठः ।

३ प्रतिवु ' ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग ' इति पाठः ।

तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ तीहि गुणङ्गाणेहि वज्झमाणियाओ इविय परूवणा कीरदे— बंधोदय-वोच्छेदविचारो णत्थि, बंधेणुदएणुमएहि वा विरहिदगुणङ्गाणमुवरि-अणुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास अगुरुवलहुव-उवघाद-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादो । णिहा-पयला-सादासाद-चारसकसाय-छणोकसाय-पुरिसवेदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उभयथा वि बंधविरोहाभावादो । समचउरससंठाण-सुभगादेज्ज-जसकित्ति-उच्चागोदाणं बंधो मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिड्डीसु सोदय-परोदओ । सासणे सोदओ, अपज्जत्तद्वाए णेइएसु सासणाणमभावादो । मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहसंधण-मणुस्साणुपुच्चि-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं परोदओ बंधो, एत्थ एदासिसुदयविरोहादो । अजसकित्तीए मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिड्डीसु सोदय-

बादर, पर्याप्तः प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इन तीन गुणस्थानवर्ती वैकिक्रकाययोगियोंके द्वारा बध्यमान प्रकृतियोंको स्थापित कर प्ररूपणा करते हैं— इनके बन्ध व उदयके व्युच्छेदका विचार यहां नहीं है, क्योंकि बन्ध, उदय या दोनोंसे रहित गुणस्थान ऊपर पाये नहीं जाते ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वेदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवोदयी हैं । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, छह नोकपाय और पुरुषवेदका बन्ध स्वेदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धविरोधका अभाव है । समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्रका बन्ध मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वेदय-परोदय होता है । सासादन गुणस्थानमें स्वेदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें नारकियोंमें सासादन गुणस्थानका अभाव है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक-शरीरान्गोपांग, वज्रर्पभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है । अयश-कीर्तिका मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वेदय-परोदय बन्ध होता

परोदओ । सासर्णे. परोदओ, देव्रगदीए तिस्से उदयाभावादे ।

पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय चारसकसाय भय-दुगुंछा ओरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ--उवघाद--परघादुस्सास--वादर--पज्जत्त--पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधित्तादे । सादासाद-हस्स-रदि-[अरदि-] सोग-थिराथिरं-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादे । पुरिसवेद-समचउ-रससंठाण-वज्जग्गिहसहसंप्रडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्वर-आदेज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइट्ठि-सासणसम्मादिट्ठीसु बंधो सांतरो । असंजदसम्मादिट्ठीसु णिरंतरो; पडिक्खपयडीणं बंधा-भावादे । पंचिदियजादि-ओरालियसरीरअंगोवंग-तसणामाणं मिच्छाइट्ठिमिह्ः सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? ण, सणक्कुमारदिदेवेसु णेरइएसु च णिरंतरबंधुवलंभादे । सासणसम्मादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु णिरंतरो, पडिक्खपयडीणं बंधाभावादे । मणुसगइ-मणुसाणुपुञ्जीणं

हैं । सासादन गुणस्थानमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिमें उसके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय; वारह कषाय; भय, जुगुप्सा; औदारिक; तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु; उपघात, परघात, उच्छ्वास; वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ ये ध्रुवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति; [अरति], शोक, स्थिर; अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है; क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभ-संहनन, प्रशस्त्वविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उरुवगोत्र, इनका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीरांगोपांग और त्रस नामकर्मका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान.—नहीं, क्योंकि सनत्कुमारादि देवों और नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है; क्योंकि, यहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । मनुष्यगति और मनुष्यगति:

मिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु' सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । असंजदसम्मादिड्डीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो ।

मिच्छाइडिस्स तेदालीस पच्चया, ओघपच्चएसु चटुमण-वचि-कायजोगपच्चयाणम-भावादो । सासणस्स सत्तत्तीसुत्तरपच्चया, मिच्छाइडिपच्चएसु पंचमिच्छत्त-णत्तंसयवेदाणमभावादो । असंजदसम्मादिड्डीसु तेत्तीस पच्चया, मिच्छाइडिपच्चएसु पंचमिच्छत्ताणंताणुवंधिचउक्कित्थि-वेदाणमभावादो । सेसं सुगमं ।

मणुसगइ-मणुसाणुपुच्ची-उच्चामोदाणं मणुसगइसंजुत्तो, अवसेसाणं पयडीणं बंधो मिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, असंजदसम्मादिड्डीसु मणुसगइसंजुत्तो । मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिड्डीणो देव-णेरइया सामी । सासणसम्मादिड्डीणो देवा चैव सामी ।

प्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, आनतादिक देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

मिथ्यादृष्टिके तेतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमें यहां चार मनोयोग, चार वचनयोग और चार काययोग प्रत्ययोंका अभाव है । सासादनसम्यग्दृष्टिके सैंतीस उत्तर प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिके प्रत्ययोंमेंसे यहां पांच मिथ्यात्व और नपुंसकवेदका अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें तेतीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिके प्रत्ययोंमेंसे यहां पांच मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेद प्रत्ययोंका अभाव है । शेष प्रत्ययप्ररूपण सुगम है ।

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, और असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है । मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव व नारकी स्वामी हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि देव ही स्वामी है । बन्धा-

१ अत्रतौ 'सासणसम्मादिड्डीहि' इति पाठ ।

बंधद्वान् सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि । बंधेण ध्रुवपयडीणं' मिच्छाइड्डिभिह चउत्विहो बंधो ।
अण्णत्थ तिविहो, ध्रुवमावादो' । सेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्धवो, अद्धववंविचत्तादो ।

शीर्णगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंधण-
तिरिक्खगइपाओग्गाणुप्वि-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं
परूवणा कीरदे—अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं बंधोदया समं वोच्छिजंति सासणगुणडाणे, ण
अण्णत्थ; मिच्छाइड्डिभिह तदणुवलंभादो । दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुवं बंधो पच्छा
उदओ वोच्छिज्जदि, उवरिमअसंजदसम्मादिड्डिगुणम्मि बंधेण विणा उदयस्सेव दंसणादो ।
अवसेसाणमेसो विचारो णत्थि, बंधस्सेकस्सेवुवलंभादो ।

अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उभयथावि अविरोहादो ।
दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं मिच्छाइड्डिभिह रोदय-परोदओ । सासणे परोदओ, णेरइएसु
अपज्जत्तद्दाए तदभावादो । सेससोलसपयडीओ परोदएणेव वज्झंति, तासिमेत्थुदयविरोहादो ।

ध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद नहीं है । बन्धसे ध्रुवप्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें
चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि,
वहां ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अष्टुव होता है, क्योंकि, वे
अष्टुवबन्धी हैं ।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार
संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय
और नीचगोत्रकी प्ररूपणा करते हैं—अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध व उदय
दोनों सासादन गुणस्थानमें साथ व्युच्छिन्न होते हैं, अन्यत्र नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि
गुणस्थानमें उनके विच्छेदका अभाव है । दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका पूर्वमें बन्ध और
पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, उपरिभ असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्धके विना
केवल उदय ही देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंके यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका
केवल एक बन्ध ही यहां पाया जाता है ।

अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि,
दोनों ही प्रकारसे कोई विरोध नहीं है । दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टि
गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें परोदय बन्ध होता है,
क्योंकि, नारकियोंमें अपर्याप्तकालमें सासादन गुणस्थानका अभाव है । शेष सोलह
प्रकृतियां परोदयसे ही बंधती हैं, क्योंकि, यहां उनके उदयका विरोध है ।

१ अप्रतौ ' बंधेणपयडीणं ' इति पाठ ।

२ प्रतिषु ' ध्रुवमावादो ' इति पाठ ।

शीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कणां णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादो । इत्थिवेद-
चउसंठाण-चउसंधण-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरो बंधो,
पड्विक्खपयडिबंधंसणादो । तिरिक्खगइ तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-णीचागोदाणं मिच्छा-
इड्ढिहं सांतर-णिरंतरो । कंधं णिरंतरो ? सत्तमपुढविणेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणे
सांतरो, अपज्जत्तद्दाए सत्तमपुढविड्ढियसासणाणुवलंभादो ।

पच्चया सुगमा । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जेवाणि तिरिक्खगइसंजुतं,
अवसेसाओ तिरिक्ख-मणुस्सगइसंजुतं बंधंति । मिच्छाइड्ढिदेव-णेरइया, सासणा देवा सामी ।
बंधद्धानं बंधविणट्ठणं च सुगमं । सत्तणं धुवबंधपयडीणं मिच्छाइड्ढिहं बंधो चउच्चिव्हो ।
सासणे दुविहो, अणादि-धुवाभावादो । सेसाणं सवत्थ सादि-अद्धवो ।

मिच्छत्त-णजुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंधण-आदाव-थावराणं
परुव्वणं कस्सामो— मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, उवरि तदुभयाणुवलंभादो' । णजुंसय-

स्थानगुद्धिअय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे
धुवबन्धी हैं । खीविद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग,
दुस्वर और अनादेयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध
देखा जाता है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें
सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, सत्तम पृथिवीके नारकियोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

सासादन गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें सप्तम
पृथिवीस्थ सासादनसम्यग्दृष्टि नारकियोंका अभाव है ।

प्रत्यय सुगम है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायाग्योनुपूर्वी और उद्योतको तिर्यग्गतिसे
संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंको तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । मिथ्यादृष्टि
देव व नारकी, तथा सासादनसम्यग्दृष्टि देव स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान
सुगम है । सात धुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता
है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि व ध्रुव
बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन,
आताप और स्थावर प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं— मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों
[मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें] साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यात्व गुणस्थानसे ऊपर

१ प्रतिपु ' तद्दयाणुवलंभादो' इति पाठ. ।

वेद-हुंडसंठाणाणं पुर्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिञ्जदि, मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिड्डीसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । अवसेसासु एसो विचारो णत्थि, बंधस्सेकरसेव दंसणादो ।

मिच्छत्तस्स सोदएण, णडुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं' सोदय-परोदएण, अवसेसाणं परोदएण बंधो । मिच्छत्तस्स णिरंतरो । अवसेसाणं पयडीणं सांतरो, बंधगद्दागयसंखाणियमाणुवलंभादो । पच्चया सुगमा । णवरि एइंदिय-आदाव-थावराणं णडुंसयवेदपच्चओ णत्थि ति दुग्गमेयं संभेरेदव्वं । एइंदियजादि-आदाव-थावराणि तिरिक्खगइसंजुत्तं, सेसाओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं ब्रज्जंति । एइंदिय-आदाव-थावराणं देवा सामी । सेसाणं देव-णेरइया । बंधद्धानं बंधविणइड्ढाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स बंधो चउव्विहो । सेसाणं सादि-अद्भुवो ।

तित्थयरस्स बंधोदयवोच्छेदविचारो णत्थि, बंधअइक्कियादो । परोदओ बंधो, सजोगिभडारयं मोत्तूण तित्थयरसण्णत्थुदयाभावादो । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमा-

वे दोनों पाये नहीं जाते । नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंमें यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका केवल एक बन्ध ही देखा जाता है ।

मिथ्यात्वका स्वोदयसे, नपुंसकवेद व हुण्डसंस्थानका स्वोदय-परोदयसे, तथा शेष प्रकृतियोंका परोदयसे बन्ध होता है । मिथ्यात्वका निरन्तर बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि बन्धककालमें उनकी संख्याका नियम पाया नहीं जाता । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि एकेन्द्रियजाति, आताप और स्थावरका नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, इस दुर्गम वातका स्मरण रखना चाहिये । एकेन्द्रियजाति, आताप और स्थावर प्रकृतियां तिर्यग्गतिसे संयुक्त और शेष प्रकृतियां तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बंधती हैं । एकेन्द्रियजाति, आताप और स्थावर प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अद्भुव बन्ध होता है ।

तीर्थंकर प्रकृतिके बन्ध व उदयके व्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, उसका एक बन्ध ही होता है । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, सयोगी भट्टारकको छोड़कर अन्यत्र तीर्थंकर प्रकृतिके उदयका अभाव है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे

भावादो । पञ्चया सुगमा । मणुसगइसंजुतो वंधो । देव-णेरइयअसंजदसम्मादिद्धी सामी ।
बंधद्धानं वंधविणइद्धानं च सुगमं । सादि-अद्धओ वंधो । पयडिबंधगयविसेसपरूवणइमुत्तर-
सुत्तं भणदि —

णवरि विसेसो वेट्टाणियासु तिरिक्खाउअं णत्थि मणुस्साउअं
णत्थि ॥ १५६ ॥

कुदो ? देव-णेरइयाणमपज्जत्तद्दाए आउवबंधविरोहादो ।

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-
छदंसणावरणीय-सादासाद-चटुसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-
सोग-भय-दुगंछा-देवाउ-देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइय-
सरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देव-
गइपाओग्गाणपुब्बी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहाय-
गइ-त्तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-
आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंत-
राइयाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ १५७ ॥

बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । देव व
नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । सादि व
अधुव बन्ध होता है । प्रकृतिबन्धगत विशेषके प्ररूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

विशेषता केवल इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियोंमें तिर्यगायु नहीं है और मनुष्यायु
नहीं है ॥ १५६ ॥

इसका कारण यह है कि देव व नारकियोंके अपर्याप्तकालमें आयुबन्धका विरोध है ।

आहारकाययोगी और आहारमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय,
साता व असाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात,
परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, चादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर,
शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र
और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५७ ॥

सुगमं ।

पमतसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ १५८ ॥

एदस्सत्थो उच्चदे — एत्थ बंधो उदओ वा पुच्चं वोच्छिण्णो त्ति विचारो णत्थि, एककगुणट्ठाणम्मि पुच्चावरभावाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्णचउक्क-अगुस्सवलहुवचउक्क-पसत्थ-विहायगइ-तसचउक्क-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसाकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । णिहा-पयला-सादासाद-चदुसंजलण-छण्णोकसायाणं सोदय-परोदओ बंधो, उभयथावि बंधविरोहाभावादो । देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुच्चि-अजसकित्ति-तित्थयराणं परोदओ बंधो, आहारकायजोगीसु एदासिमुदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-देवाउ-देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-वण्णचउक्क-देवगइपाओग्गाणुपुच्चि-अगुस्सवलहुवचउक्क-पसत्थविहायगइ-तसचउक्क-सुभग-सुस्सर-आदेज-

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमतसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १५८ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— यहाँ बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है या उदय, यह विचार नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें पूर्वापरभावका अभाव होता है । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पुरुषवेद, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णादिक चार, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगति, त्रसादिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, चार संज्वलन और छह नौ कषायोंका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारसे बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है । देवायु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक-शरीरंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशकीर्ति और तीर्थकरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, आहारकाययोगियोंमें इनके उदयका विरोध है ।

ः पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरंगोपांग, वर्णादिक चार, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगति, त्रसादिक चार, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र

णिमिण-तित्थयर-उच्चगोद-पंचंतराइयाणं-णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावो । सादासाद-हरस-रदि-अग्दि-सोग-धिराधिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

चदुसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुळा-आहारकायजोगेहि वारस-पच्चएहि एदाओ पयडीओ वृञ्जति । सेसं सुगमं । एदासिं बंधो देवगदिसंजुतो । मणुसा सामी । वंघद्वानं सुगमं । वंघवेच्छेदो णत्थि । धुववंघपयडीण निविहो वंधो, धुवाभावो । अवयेसाणं सादि-अद्धवो ।

एवमाहारमिस्सकायजोगाणं पि वत्तव्वं । णवरि परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-दुस्तराणं परोदओ बंधो । पुव्वमेरालियसरिरस्स उदए संते एदासिं संतोदयाणं कथमेत्थ अक्कारणण उदयवेच्छेदो होच्च ? ण, ओरालियसरिरोदएणोदइल्लणं तदुदयाभावेणेदासिमुदया-भावस्स णाइत्तादो । पच्चएसु आहारकायजोगमवणेदूण आहारमिस्सकायजोगो पक्खिविदव्वो । एत्तिओ चेव भेदो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि ।

और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है. क्योंकि, एक समयसे इनके बन्ध-विश्रामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ. यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है।

ये प्रकृतियां चार संज्वलन-पुरुषवेद-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और आहारकाययोग. इन चारह प्रत्ययोंसे बंधती हैं। शेष प्रत्ययरूपण सुगम है। इनका बन्ध देवगतिसे संयुक्त होता है। मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है। भुवप्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है. क्योंकि, भुवबन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अशुभ बन्ध होता है।

इसी प्रकार आहारनिश्चकाययोगियोंके भी कहना चाहिये। विशेषता केवल इतनी है कि इनके परघात, उच्छ्वास. प्रशस्तविहायोगति और दुस्वरका परोदय बन्ध होता है।

शंका—चूंकि पूर्वमें औदारिकशरीरके उदयके होनेपर इनका उदय था, अतएव अब यहां उनका निष्कारण उदयव्युच्छेद क्यों हो जाता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है. क्योंकि, औदारिकशरीरके उदयके साथ उदयको प्राप्त होनेवाली इन प्रकृतियोंका उसके उदयका अभाव होनेसे उदयभाव न्याययुक्त है।

प्रत्ययोंमें आहारकाययोगको कम करके आहारनिश्चकाययोगको जोड़ना चाहिये। केवल इतना ही भेद है, और कहीं कुछ भेद नहीं है।

कम्मइयकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादा-
वेदणीय-बारसेकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-
मणुसगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-
संठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहसंधडण-वण्ण-गंध-रस-फास-
मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थ-
विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-
सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं
को बंधो को अबंधो ? ॥ १५९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ १६० ॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— एत्थ बंधो उदओ वा पुव्वं वोच्छिण्णो त्ति णत्थि विचारो,
एत्थ ओरालियदुग-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंधडण-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-

कार्मणकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असातावेदनीय,
बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति,
औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रधर्मसंहनन,
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास,
प्रशस्तविहाययोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग,
सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं,
शेष अबन्धक हैं ॥ १६० ॥

इसका अर्थ कहते हैं— यहां बन्ध या उदय पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, यह विचार
नहीं है, क्योंकि, यहां औदारिकद्विक, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रधर्मसंहनन, उपघात,

पत्तेयसरीर-सुस्तराणमेयेतेण उदयाभावादो, सेसाणसुदयसंभवादो च । पंचणाणावरणीय-
चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवल्लुह-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-
पंचतराइयाणं सोदओ वंधो, एत्थतणसव्वगुणङ्गाणेसु णियमेणुदयदंसणादो । णिहा-पयला-
असादवेदणीय-चारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पुरिसवेद-सुभगादेज्ज-जसकित्ति-
उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ वंधो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं मिच्छाइङ्कि-
सासणसम्मादिङ्गीसु सोदय-परोदओ वंधो, उभयथा वि. वंधविरोहाभावादो । असंजदसम्मादिङ्गीसु
परोदओ, मणुस्सअसंजदसम्मादिङ्गीणं मणुवदुगस्स वंधविरोहादो । पंचिदिय-तस-चादर-पज्जत्ताणं
मिच्छाइङ्किहि सोदय-परोदओ वंधो, पडिक्खसुदयसंभवादो । सासणसम्मादिङ्कि-असंजद-
सम्मादिङ्गीसु सोदओ, विगालिंदिएसु एदेसिं दोण्णं गुणङ्गाणणं अभावादो । ओरालियसरीर-
समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंधण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ-
विहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्तराणं परोदओ वंधो, विग्गहगदीए एदासिसुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा-कम्मइय-
सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्लुह-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो वंधो, एत्थ

परघात. उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, प्रत्येकशरीर और सुस्वरका नियमसे उदयाभाव
है, तथा शेष प्रकृतियोंके उदयकी सम्भावना है । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय,
तैजस व कामेण शरीर. वर्णादिक चार, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण
और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां सब गुणस्थानोंमें इनका
नियमसे उदय देखा जाता है । निद्रा. प्रचला, असाताचेदनीय, वारह कृपाय, हास्य, रति,
अरति, शोक, भय. जुगुप्सा, पुरुषवेद. सुभग, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्रका,
स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । मनुष्यगति व मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका मिथ्यादृष्टि
और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि. दोनों प्रकारसे
ही बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि,
मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टियोंके मनुष्यद्विके बन्धका विरोध है । पंचेन्द्रियजाति, त्रस,
चादर और पर्याप्तका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि,
यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय सम्भव है । सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें
स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि. विकलेंद्रियोंमें इन दोनों गुणस्थानोंका अभाव है ।
औदारिकशरीर. समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपंभसंहनन, उपघात,
परघात. उच्छ्वास. प्रशस्तविहायोगति, प्रत्येकशरीर और सुस्वरका परोदय बन्ध होता
है, क्योंकि. विग्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कृपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक,
तैजस व कामेण शरीर. वर्ण. गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच
छ. न. ३०.

ध्रुवबंधितादो । असादावेदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसक्ति-अजसक्तिणं
सांतरो बंधो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंधडण-
पसत्थविहायगइ-सुस्सर-सुभगादेज्ज-उच्चगोदाणं मिच्छाइड्ढि-सासणेसु सांतरो बंधो । असंजद-
सम्मादिड्ढीसु गिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं वंधाभावादो । [मणुसगइ-] मणुसगइपाओग्गाणु-
पुव्वीणं मिच्छाइड्ढि-सासणेसु वंधो सांतर-गिरंतरो । कथं गिरंतरो ? ण, आणदादिदेवैहिंतो
विग्गहगदीए मणुसेसुप्पण्णाणं' मणुसगइदुगस्स गिरंतरंधुवलंभादो । असंजदसम्मादिड्ढीसु
गिरंतरो बंधो, विग्गहगदीए मणुवदुगबंधपाओग्गसम्मादिड्ढीणमण्णगइदुगस्स वंधाभावादो ।
पंचिदिय-ओरालियसरीरअंगोवंग-तस-घादर-पज्जत्त-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं वंधो मिच्छइड्ढीसु
सांतर-गिरंतरो । कथं गिरंतरो ? ण, सणक्कुमारादिदेव-णेरइएहिंतो तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पण्णाणं

अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं। असाता-
वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका
सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषवेद,
समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपंभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुस्वर, सुभग, आदेय और
उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर बन्ध होता है। असंयतसम्यग्दृष्टि-
योंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनको प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।
[मनुष्यगति] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वाका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि
शुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, आनतादिक देवोंमेंसे मनुष्योंमें उत्पन्न हुए
जीवोंके विग्रहगतिमें मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें मनुष्यद्विकके
बन्धके योग्य सम्यग्दृष्टियोंके अन्य दो गतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रियजाति,
औदारिकशरीरांगोपांग, त्रस, वादर, पर्याप्त, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका
बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर होता है।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, सनत्कुमारादि देव व नारकियोंमेंसे तिर्यचों व

णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिङ्घि-असंजदसम्मादिङ्घीसु णिरंतरो, तत्थ पडिवक्खपयडीणं वंधामावादो ।

मिच्छाङ्घीसु तेदालीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु कम्मइयकायजोगं मोत्तूण सेस-
वारसजोगपच्चयाणमभावादो । तत्थ पंचमिच्छत्तेसु अवणिदेसु अङ्घतीस सासणसम्मादिङ्घि-
पच्चया । तत्थ अणंताणुबंधुवचउत्तिकत्थिवेदेसु अवणिदेसु तेत्तीस असंजदसम्मादिङ्घिपच्चया
होति । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-
अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पर्यंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंझण-अण्ण-गंध-रस-फास-
अगुरुवल्लुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-घादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-
सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकिति-अजसकिति-णिमिण-अंचंतराइयाणं मिच्छाङ्घी सासणो
च तिरिक्ख-भणुसगइसंजुत्तं, एदेसिमपज्जत्तकाले णिरय-देवगईणं वंधामावादो । असंजद-
सम्मादिङ्घिणो देव-भणुसगइसंजुत्तं वंधंति, तेसिं णिरय-तिरिक्खगईणं वंधामावादो । भणुसगइ-

मनुष्योर्मै उत्पन्न इष्ट जीवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है,
क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

मिथ्यादृष्टियोंमें तेदालीस उत्तर प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमें कर्मण-
काययोगको छेड़कर शेष वारह योगप्रत्ययोका अभाव है । उनमेंसे पांच मिथ्यात्वोंको
कम करनेपर अङ्घतीस सासादनसम्यग्दृष्टियोंके प्रत्यय होते हैं । उनमेंसे अनन्तानुबन्धि-
चतुष्क और स्वैवेदको कम करनेपर तेतीस असंयतसम्यग्दृष्टियोंके प्रत्यय होते हैं ।
शेष प्ररूपण सुगम है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असादावेदनीय, वारह कृपाय, पुरुषवेद,
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कर्मण शरीर,
समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्वर्श, अगुरुल्लु, उपघात, परघात, उच्छ्वास,
प्रशस्तत्रिहायोगति, वस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायको मिथ्यादृष्टि
व सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति एवं मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनके
अपर्याप्तकालमें नरक व द्वेष गतियोंके बन्धका अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टि देवगति
व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके नरकगति और तिर्यग्गतिके बन्धका अभाव

१ अप्रतौ ' मिच्छाङ्घिसासणे व ' इति पाठः ।

मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चीओ सच्चे मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, साभाविद्यादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडणाणि मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठिणो तिरिक्ख-मणुस-गइसंजुत्तं, असंजदसम्मादिट्ठिणो मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, एदासिमण्णगईहि सह विरोहादो । उच्चागोदं मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठिणो मणुसगइसंजुत्तमेदेसिमपज्जत्तकाले उच्चागोदा-विणाभाविदेवगईए बंधाभावादो । असंजदसम्मादिट्ठिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, तस्सु-भयत्थ बंधसंभवदंसणादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसह-संघडणाणं चउगइमिच्छादिट्ठि-तिगइसासणसम्माइडि-देवणेरइयअसंजदसम्माइडिणो सामी । अवसेसाणं पयडीणं चउगइमिच्छादिट्ठि-असंजदसम्माइडिणो तिगइसासणसम्माइडिणो च सामी । बंधद्वाणं सुगमं । एदेसिमेत्थ बंधविणासो णत्थि । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारस-कसाय-भय-दुग्गुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतराइ-याणं मिच्छादिट्ठिं चउव्विहो बंधो । अण्णत्थ तिविहो, धुवबंधाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सच्चत्थ सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

है । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको सब मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वाभाविक है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और ब्रह्मसंहननको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त तथा असंयत-सम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनका अन्य गतियोंके साथ विरोध है । उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनके अपर्याप्तकालमें उच्चगोत्रकी अविनाभाविनी देवगतिके बन्धका अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उच्चगोत्रके बन्धकी सम्भावना उक्त दोनों गतियोंके साथ देखी जाती है ।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और ब्रह्मसंहननके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, तीन गतियोंके सासादनसम्यग्दृष्टि, तथा देव व नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि, तथा तीन गतियोंके सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । इनका यहां बन्धचिनाश नहीं है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्षादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्यत्र तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुवबन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र आदि व अद्भव होता है, क्योंकि, वे अद्भवबन्धी हैं ।

णिहाणिहा-पयलापयला-थीणगिद्धि--अणंताणुवंधिकोध-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइ-
पाओग्गाणुपुब्बि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-
णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ १६१ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा
अवंधा ॥ १६२ ॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— अणंताणुवंधिचउक्कित्थिवेदाणं वंधोदयां समं वोच्छिण्णा,
सासणसम्मादिद्धिम्हि तट्ठमयाभावदंसणादो । एवमण्णपयडीणं जाणिय वत्तत्वं ।

थीणगिद्धितिय-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुस्सरारणं परोदओ
वंधो, विग्गहगदीए एदासिसुदयाभावादो । अणंताणुवंधिचउक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइ-
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बि-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदय-परोदओ वंधो, एदासिमत्थ

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि, अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ,
स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत,
अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ १६१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक
हैं ॥ १६२ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध व उदय
दोनो साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका
अभाव देखा जाता है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका पूर्व या पश्चात् होनेवाला बन्ध व
उदयका व्युच्छेद जानकर कहना चाहिये ।

स्थानगृद्धिबन्ध, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति और
दुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है ।
अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय
और नीचगोत्र, इनका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयके

१ श्रद्धि 'पचसंघडण' इति पाठ ।

उदयणियमामावादे । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं गिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादे । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचामोदाणं मिच्छाइट्ठिम्हि सांतर-गिरंतरो बंधो । कथं गिरंतरो ? सत्तमपुढविणेरइएहिंतो तेउ-वाउक्काइएहिंतो च कयविग्गहाणं गिरंतरबंधदंसणादे । सासणसम्माइट्ठिम्हि सांतरो, तत्तो विणिग्गयसासणसम्माइट्ठीणं संभवाभावादे । अवसेसाणं पयडीणं सव्वत्थ सांतरो बंधो, अणियमेण बंधुवरमदंसणादे । पच्चया सुगमा । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जेवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तमवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । चउगइमिच्छाइट्ठी तिगइसासणसम्मादिट्ठिणो च सामी । बंधद्धाणं बंधविणट्ठट्ठाणं च सुगमं । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं मिच्छाइट्ठिम्हि चउव्विहो बंधो । सासणे दुविहो, अणाइ-धुवाभावादे । अवसेसाणं पयडीणं सव्वत्थ बंधो सादि-अद्दुवो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १६३ ॥

सुममं ।

नियमका अभाव है । स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियों और तेजकायिक व वायुकायिकों-मेंसे विग्रहको करनेवाले जीवोंके निरन्तर बन्ध देखा जाता है

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहांसे निकले हुए सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी सम्भावना नहीं है । शेष प्रकृतियोंका सर्वत्र सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अनियमसे उनका बन्धविश्राम देखा जाता है । प्रत्यय सुगम है ।

तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यग्गतिसे संयुक्त; तथा शेष प्रकृतियोंको तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं । चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि और तीन गतियोंके सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुबम हैं । स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनग्नि व ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अद्भुव बन्ध होता है ।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिच्छाइष्टी सासणसम्माइष्टी असंजदसम्माइष्टी सजोगिकेवली
बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ १६४ ॥

सादावेदणीयस्स बंधो उदओ वा पुवं वोच्छिण्णो किं पच्छा वोच्छिण्णो त्ति एत्थ
परिक्खा णत्थि, तद्दुमयवोच्छेदाभावाद्दो । सोदय-परोदओ बंधो, अद्दुवोदयत्तादो । सजोगि-
केवलिन्दि णिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावाद्दो । अण्णत्थ सांतरो । पच्चया सुगमा ।
णवरि सजोगिकेवलिन्दि कम्मइयकायजोगपच्चओ एक्को चव । मिच्छाइष्टि-सासणसम्मा-
इष्टिणो निरिक्ख-मणुसगइसंजुत्त असंजदसम्मादिष्टिणो देव-मणुसगइसंजुत्त बंधंति । सजोगि-
केवली अगइसंजुत्त । चउगइमिच्छाइष्टि असंजदसम्मादिष्टिणो तिगइसासणसम्मादिष्टिणो
मणुसगइसजोगिकेवलिणो च सामी । बंधद्धाणं सुगमं । एत्थ बंधवोच्छेदो णत्थि । सादि-
अद्दुवो बंधो, परियत्तमाणबंधो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-
आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ १६५ ॥

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली बन्धक हैं । ये
बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १६४ ॥

सादावेदनीयका बन्ध अथवा उदय पूर्वमे व्युच्छिन्न होता है या क्या पश्चात्
व्युच्छिन्न होता है, इसकी यहां परीक्षा नहीं है, क्योंकि, उन दोनोंके व्युच्छेदका यहां
अभाव है । स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अद्दुवोदयी प्रकृति है । सयोग-
केवली गुणस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव
है । अन्यत्र सान्तर बन्ध होता है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि सयोगकेवली
गुणस्थानमें एक ही कामेणकाययोग प्रत्यय है । मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि
तिर्यग्गति व मनुष्यगतित्से संयुक्त, तथा असंयतसम्यग्दृष्टि देव-व मनुष्य गतिसे संयुक्त
बांधते हैं । सयोगकेवली गतिसंयोगत्से रहित बांधते हैं । चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि व-
असंयतसम्यग्दृष्टि, तीन गतियोंके सासादनसम्यग्दृष्टि, तथा मनुष्यगतिके सयोगकेवली-
स्वामी हैं । बन्धाच्छान सुगम है । यहां बन्धव्युच्छेद नहीं है । सादि व अद्दुव बन्ध होता
है, क्योंकि, उसका बन्ध परिवर्तनशील है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृष्टिकासंहनन,
आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और सावारणशरीर नामकर्मका कौन बन्धक व कौन
अबन्धक है ? ॥ १६५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाद्वी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १६६ ॥

एत्थ पुत्रं पच्छ वा वंधो वोच्छिण्णो^१ ति विचारो णत्थि, एक्कगुणट्ठाणम्मि तद-
संभवादो । मिच्छत्तस्स सोदओ वंधो, अण्णहा वंधाणुवलंभादो । णत्तुंसयवेद-चउजादि-थावर-
सुहुम-अपज्जत्ताणामाणं वंधो सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उदयणियमाभावादो । हुंडसंठाण-
असंपत्तसेवट्टसंघडण-आदाव-साहाप्रणसररीरणामाणं परोदओ वंधो, विग्गहगदीए णियमेणेदासि
उदयाभावादो । मिच्छत्तस्स वंधो णिरंतरो । अवसेसाणं पयडीणं सांतरो, अणियमेण एगसमय-
बंधदंसणादो । पच्चया सुगमा । मिच्छत्त-णत्तुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-अपज्जत्ताणं
तिरिक्खि-मणुसगइसंजुत्तो, चदुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खिगइसंजुत्तो वंधो,
अण्णगईहि सह एदासि वंधविरोहादो । मिच्छत्त-णत्तुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणाणं
चउगइमिच्छाद्वी सामी, चउगइउदएण सह एदासि वंधस्स विरोहाभावादो । एइंदिय-

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ १६६ ॥

यहां उदयसे पूर्वमें अथवा पीछे बन्ध व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें वह सम्भव ही नहीं है । मिथ्यात्वका स्वोदय बन्ध होता है; क्योंकि, अपने उदयके विना उसका बन्ध पाया नहीं जाता । नपुंसकवेद, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्त नामकर्मका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनके उदयका नियम नहीं है । हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, आताप और साधारणशरीर नामकर्मका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें नियमसे इनके उदयका अभाव है ।

मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनका अनियमसे एक समय बन्ध देखा जाता है । प्रत्यय सुगम हैं । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन और अपर्याप्तका तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त तथा चार जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका तिर्यग्गतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका विरोध है । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, चारों गतियोंके- उदयके साथ इनके बन्धका

आदाव-थावराणं तिगइमिच्छाइडी सामी, णिरयगइमिच्छाइडिहिं तासिं बंधाभावादे । धीइंदियं-तीइंदिय-चउरिंदिय-सुहम-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइडी सामी, देव-णेरंइ-एसु एदासिं बंधाभावादे । बंधद्वणं बंधविणट्टड्डाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स बंधो चउव्विहो । सेसाणं सादि-अद्दुवो ।

**देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंग-देवगइपाओग्गाणु-
पुव्वि-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६७ ॥**

सुगमं ।

असंजदसम्मादिडी बंधा । एदे बंधा, अवेससा अबंधा ॥१६८॥

किं बंधो पुव्वं पच्छ वा वेोच्छिण्णो ति एत्थ विचारो णत्थि, एक्कमिहि तदसंमवादे । एदासिं पंचण्हं पि परोदओ बंधो, सोदएण सह सगबंधस्स विरोहादे । णिरंतरो बंधो, णियमेणाणेगसमयबंधदंसणादे । विग्गहगदीए दोण्हं समयाणं कधमणेगववएसो ? ण, एगं मोत्तूणवरिमसव्वसंखाए अणेगसदपवुत्तीदे । पच्चया सुगमा । णवरि णडुंसयवेदपच्चओ

विरोध नहीं है । एकेन्द्रिय, आत्माप और स्थावर प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिये मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उनके बन्धका अभाव है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके तिर्यग्गति व मनुष्य-गतिके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नारकियोंमें इनके बन्धका अभाव है । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है ।

देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १६८ ॥

क्या बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें उक्त विचार सम्भव नहीं है । इन पांचों प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके अपने उदयके साथ बन्ध होनेका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, नियमसे इनका अनेक समय तक बन्ध देखा जाता है ।

शंका—विग्रहगतिये दो समयोंका नाम अनेक समय कैसे हो सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, एकको छोड़कर ऊपरकी सब संख्यामें 'अनेक' शब्दकी प्रवृत्ति है ।

प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि यहां नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, क्योंकि,

णत्थि, विग्गह्गदीए वट्टमाणणेइयअसंजदसम्मादिट्ठीसु वेउव्वियचउक्कस्स बंधाभावादो । तित्थयरस्स पुण ते चेव तेत्तीस पच्चया, तत्थ णवुंसयवेदपच्चयदंसणादो । वेउव्वियचउक्कस्स देवगइसंजुत्तो, तित्थयरस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो बंधो । वेउव्वियचउक्कबंधस्स तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिट्ठी सामी । तित्थयरस्स तिगइअसंजदसम्मादिट्ठी सामी, तिरिक्खगइअसं-जदसम्मादिट्ठीसु तित्थयरबंधाभावादो । बंधद्धानं बंधवोच्छेदङ्काणं च सुगमं । । एदासिं बंधो सादि-अद्धवो, धुवबंधित्ताभावादो ।

वेदानुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णवुंसयवेदएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-जसकित्ति-उच्चा-गोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठिउवसमा खवा बंधा ! एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ १७० ॥

विग्रहगतिमें वर्तमान नारकी असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें वैक्रियिकचतुष्कके बन्धका अभाव है । किन्तु तीर्थंकर प्रकृतिके वे ही तेतीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें नपुंसकवेद प्रत्यय देखा जाता है । वैक्रियिकचतुष्कका देवगतिसे संयुक्त और तीर्थंकर प्रकृतिका देव एवं मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । वैक्रियिकचतुष्कके बन्धके तीर्थंच व मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । तीर्थंकर प्रकृतिके तीन गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, तीर्थंगतिके असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें तीर्थंकरके बन्धका अभाव है । बन्धाघ्वान और बन्ध-व्युच्छित्तिस्थान सुगम हैं । इनका बन्ध सादि और अद्भव होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी नहीं हैं ।

वेदमार्गानुसार स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १७० ॥

इत्थिवेदस्स ताव वुच्चदे— एत्थ उदयादो बंधो पुवं पच्छ वा वोच्छिणो - ति विचारो णत्थि, पुरिसवेदस्स एयंतेणुदयाभावादो सेसाणं च पयडीणं बंधोदयवोच्छेदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं च सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । पुरिसवेदस्स परोदओ बंधो, इत्थिवेदे उदिण्णे पुरिसवेदस्सुदयाभावादो । सादावेदणीय-चहुसंजलणाणं सोदय-परोदओ बंधो, उदएण परावत्तणपयडित्तादो । जसकितीए मिच्छाइडि-प्पहुडि जाव असंजदसम्मादिडि ति सोदय-परोदओ, एदेसु पडिवक्खुदयसंभवादो । उवरि सोदओ चव, पडिवक्खपयडीए उदयाभावादो । उच्चागोदस्स मिच्छाइडिप्पहुडि जाव संजदासंजदा ति बंधो सोदय-परोदओ, एदेसु णीचागोदुदयसंभवादो । उवरि सोदओ चव, णीचागोदस्सुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधि-त्तादो । सादावेदणीय-जसकितीणं मिच्छादिडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो बंधो, पडिवक्खपयडीए बंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खत्तादो । पुरिसवेदुच्चागोदाणं

पहले खीवेदीके विषयमें कहते हैं— यहाँ उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, नियमसे वहाँ पुरुषवेदके उदयका अभाव है, तथा शेष प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं । पुरुषवेदका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, खीवेदका उदय होनेपर पुरुषवेदके उदयका अभाव है । सातावेदनीय और चार संज्वलनका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयकी अपेक्षा ये प्रकृतियां परिवर्तनशील हैं । यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय सम्भव है । उपरिम गुणस्थानोंमें उसका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है । उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें नीचगोत्रका उदय सम्भव है । संयतासंयतसे ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ नीचगोत्रके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । सातावेदनीय और यशकीर्तिका मिथ्या-दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ इनका बन्ध प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है । पुरुषवेद और उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि एवं

मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं-णिरंतरो ? ण, पम्म-सुक्कलेस्सिएसु-तिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसवेदुच्चागोदाणं' णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिक्ख-पयडीणं बंधाभावादो ।

सन्वगुणद्वाणाणमोघपच्चएसु पुरिस-णवुंसयवेदेसु अवणिदेसु अवसेसा एत्थ एदासिं पच्चया होंति । णवरि पमत्तसंजदेसु आहार-आहारमिस्सकायजोगपच्चया अवणेदव्वा, इत्थिवेदोदइल्लाणं तदसंभावादो । असंजदसम्मादिद्वीसु ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकाय-जोगपच्चया अवणेदव्वा, तत्थ असंजदसम्मादिद्वीणमपज्जत्तकालाभावादो । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पंचतराइयाणं मिच्छाइद्वी चउगइ-संजुत्तं । सासणसम्माइद्वी तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए अभावादो । सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मा-दिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्तं । उवरिमा देवगइसंजुत्तं अगइसंजुत्तं च बंधंति । सादावेदणीय-पुरिसवेद-जसकितीओ मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिद्वि-असंजद-

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पद्म और शुक्ल लेश्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें पुरुषवेद और उच्चगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

सब गुणस्थानोंके ओघप्रत्ययोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदको कम करनेपर शेष थहां इन प्रकृतियोंके प्रत्यय होते हैं । विशेषता इतनी है कि प्रमत्तसंयतोंमें आहारक और आहारकमिश्र काययोगप्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, स्त्रीवेदके उदय युक्त जीवोंके वे दोनों प्रत्यय सम्भव नहीं हैं । असंयतसम्यग्दष्टियोंमें औदारिकमिश्र, वैकियिकमिश्र और कर्मण काययोग प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, स्त्रीवेदियोंमें असंयत-सम्यग्दष्टियोंके अपर्याप्तकालका अभाव है । शेष प्ररूपणा सुगम है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायको मिथ्यादष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, तथा सासादनसम्यग्दष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टियोंमें नरकगतिके बन्धका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि देवगति व मनुष्यगतिके संयुक्त बांधते हैं । उपरिम स्त्रीवेदी जीव देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं । सातावेदनीय, पुरुषवेद और यशक्रीतिको मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्दष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त; सम्यग्मिथ्यादष्टि

सम्मादिडिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं, उवरिमा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च बंधंति । उच्चागोदं सव्वे देव-मणुसगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च बंधंति ।

तिगइमिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडिणो सामी, णिरयगदीए इत्थिवेदस्सुदयाभावादो । दुगइसंजदासंजदा सामी, देव-णेरइएसु अणुव्वईण-मभावादो । उवरि मणुस्सा चेव, अणत्थुवरिमणुणाभावादो । बंधद्धानं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि । पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइडीसु चउव्विहो बंधो । अणत्थ ति विहो, धुवाभावादो । सेसपयडीणं सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

वेद्वणी ओघं ॥ १७१ ॥

वेद्वणी^१ मिच्छाइडि-सासणसम्माइडीसु बंधपाओगगभावेण अवडिदाणि ति वुत्तं होदि । तेसिं परूवणा ओघं होदि ओघतुल्लेत्ति जं वुत्तं होदि । एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, ओघादो एदमिं थोवभेदुवलंभादो । तं भण्णमाणसुत्तत्थेण^२ सह सिस्साणुगहइं परूवेमो—थीणगिद्धितिय-

और असंयतसम्यग्दृष्टि देवगति व मनुष्यगतिसे संयुक्त; तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं । उच्चगोत्रको सब स्त्रीवेदी जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त तथा गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं ।

तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिसमें स्त्रीवेदके उदयका अभाव है । दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव-नारकियोंमें अणुव्रतियोंका अभाव है । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उपरिम गुणस्थानोंका अभाव है । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद है नहीं । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संव्वलन और पांच अन्तरार्योंका मिथ्यादृष्टियोंमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि च अश्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अश्रुवबन्धी हैं ।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७१ ॥

द्विस्थानिकका अर्थ मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें बन्धकी योग्यतासे अवस्थित प्रकृतियां है । उनकी प्ररूपणा ओघ है अर्थात् ओघके समान है, यह अभिप्राय है । यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, ओघसे इसमें थोड़ा भेद पाया जाता है । प्रस्तुत सूत्रके अर्थके साथ शिष्योंके अनुग्रहार्थ उक्त भेदकी प्ररूपणा करते हैं—

१ प्रतियु ' वेद्वणि ' इति पाठ । २ प्रतियु ' सण्णमाणे वृत्तत्थेण ' इति पाठः ।

अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओ-
ग्गाणुपुण्वि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि वेद्वाणियाणि ।
एदेषु अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा । अण्णपयडीणं^१ सव्वासिं पि पुच्चं
बंधो पच्छा उदओ वोच्छेदुमुवगओ । कुदो ? तधोवलंभादो ।

थीणंगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चदुसंठाण-चदुसंघडण-
तिरिक्खाणुपुण्वि-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधो सोदय-
परोदओ, उभयथा वि बंधाविरोहादो । इत्थिवेदस्स सोदएणेव बंधो, तद्दुदयमहिकिच्च^२
परूवणापरंभादो । ओघादो एत्थ विसो एसो, तत्थ सोदय-परोदएहि बंधोवदेसादो ।

थीणंगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं बंधो णिरंतरो । तिरिक्खगइ-
तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुण्वी-णीचागोदाणं मिच्छाइडिभिह सांतर-णिरंतरो, सत्तमपुढवीणेरइएहितो
तेउ-वाउकाइएहितो च णिप्फिडिदूणित्थिवेदेसुप्पण्णाणं मुहुत्तस्संतो णिरंतरबंधुवलंभादो ।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, चार संस्थान,
चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर,
अनादेय और नीचगोत्र, ये द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं । इनमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध
और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होने हैं । अन्य सब ही प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और
पश्चात् उदय व्युच्छेदको प्राप्त होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है ।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार
संहनन, तिर्यगानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और
नीचगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे ही उनके बन्धके
विरोधका अभाव है । स्त्रीवेदका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, उसके उदयका
अधिकार करके इस प्ररूपणका प्रारम्भ हुआ है । ओघसे यहां यह विशेष है, क्योंकि, वहां
स्वोदय-परोदयसे बन्धका उपदेश है ।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है ।
तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-
निरन्तर होता है, क्योंकि, सत्तम पृथिवीके नारकियोंमेंसे तथा तेजकायिक व वायुकायिक
जीवोंमेंसे निकलकर र्विविदियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त काल तक निरन्तर बन्ध

१-प्रतिष्ठा 'अण्णपयडीण' इति पाठः ।

२-प्रतिष्ठा 'तद्दुदयमहिकिच्च' इति पाठः ।

सासणम्भि सांतरो, ततो तेसिमुववादाभावाद्दो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सांतरो, अणियमेणग-
समयबंधुवलंभाद्दो । एसा परूवणा ओवाद्दो शोवेण वि ण विरुञ्जदि, समाणत्तुवलंभाद्दो ।

पच्चया ओघपच्चयतुल्ला । णवरि मिच्छादिङ्गि-सासणसम्मादिङ्गीणं जहाकमेण
तेवण्णट्टेत्तालीसुत्तरपच्चया, पुरिस-णत्तुंसयवेदपच्चयाणमभावाद्दो । तिरिक्खाउअस्स मिच्छादिङ्गि-
सासणसम्मादिङ्गीसु कमेण पंचास पंचेतालीस पच्चया, ओरालिय-वेउच्चियामिस्स-कम्मइयकाय-
जोग-पुरिस-णत्तुंसयवेदपच्चयाणमभावाद्दो । तदभावो वि इत्थिवेदोदइल्लाणमपज्जतकाले
आउअकम्मस्स बंधाभावाद्दो ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओनगाणुपुच्चि-उज्जोवाणि मिच्छादिङ्गि-सासण-
सम्मादिङ्गिणो तिरिक्खगइसंजुतं बंधंति । अप्पसत्थविहायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-
गोदाणि मिच्छादिङ्गिणो तिगइसंजुतं बंधंति, देवगईए बंधाभावाद्दो । सासणसम्मादिङ्गिणो तिरिक्ख-
मणुसगइसंजुतं बंधंति, देव-णिरयगईए सह बंधाभावाद्दो । चउसंठाण-चउसंधडणाणि तिरिक्ख-
मणुसगइसंजुतं बंधंति, एदासिं णिरय-देवगईहि सह बंधाभावाद्दो । थीणगिद्धितिय-अर्णताणु-

पाया जाता है । सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उस
गुणस्थानसे उक्त जीवोंके उत्पादका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है,
क्योंकि, बिना नियमके उनका एक समय बन्ध पाया जाता है । यह प्ररूपणा ओघसे थोड़ी
भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि, समानता पायी जाती है ।

प्रत्यय ओघप्रत्ययोंके समान हैं । विशेषता इतनी है कि मिथ्यादृष्टि और
सासादनसम्यग्दृष्टियोंके यथाक्रमसे तिरपेन और अइतालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि,
उनके पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है । तिर्यगायुके मिथ्यादृष्टि और
सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे पचास और पैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके
औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र, कार्मणकाययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव
है । उनका अभाव भी ख्रविदेदय युक्त जीवोंके अपर्याप्तकालमें आयु कर्मके बन्धका
अभाव होनेसे है ।

तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको मिथ्यादृष्टि व
सासादनसम्यग्दृष्टि जीव तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं । अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग,
दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको मिथ्यादृष्टि जीव तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं,
क्योंकि, उनके देवगतिके बन्धका अभाव है । सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति व मनुष्य-
गतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके देव व नरक गतिके साथ उनका बन्ध नहीं होता ।
चार संस्थान और चार संहननको तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि,
इनका नरकगति व देवगतिके साथ बन्ध नहीं होता । स्थानगुद्धित्रय और अनन्तासु-

बंधिचउक्काणि मिच्छाद्विणो चउगइसंजुत्तं, सासणसम्माद्विणो तिगइसंजुत्तं बंधंति, गिरयगईए अभावादो ।

सन्वासिं पयडीणं तिगइमिच्छाद्विणो-सासणसम्माद्विणो सामी, गिरयगईए इत्थिवेदु-दयाभावादो । बंधद्धाणं बंधविणहड्डाणं च सुगमं, सुजुद्विज्जादो । सत्तहं धुवपयडीणं मिच्छा-इत्थिहि चउव्विहो बंधो । सासणे दुविहो बंधो, अणाइ-धुवाभावादो । अवसेसाणं सन्वत्थ सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

णिद्दा पयला य ओघं ॥ १७२ ॥

एदासिं दोणहं पयडीणं जहा ओघम्मि परूवणा कदा तहा कायव्वा । णवरि परूवणसु पुरिस-णहुंसयवेदपच्चया अवणदव्वा । णवरि असंजदसम्माद्विणो ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकायजोगां च, इत्थिवेदाहियारादो । पमत्तसंजदमिहं पुरिस णहुंसयवेदेहि सह आहारदुगं च अवणेदव्वं, अप्पसत्थवेदोदइल्लाणमाहारसरीरस्सुदयाभावादो । तिगइमिच्छाद्विणो-सासणसम्मा-द्विणो-सम्मादिद्वि-असंजदसम्माद्विणो सामी, गिरयगईए इत्थिवेदोदइल्लाणमभावादो ।

बन्धिचतुष्कको मिथ्यादृष्टि चार गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके नरकगतिका बन्ध नहीं होता ।

सब प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी है, क्योंकि, नरकगतिमें स्त्रीवेदके उदयका अभाव है । बन्धाभ्यान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं, क्योंकि, वे सूत्रमें ही निर्दिष्ट हैं । सात भुवप्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता, क्योंकि, वहां अनादि व भुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अणुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे-अणुवबन्धी हैं ।

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७२ ॥

इन दो प्रकृतियोंकी जैसे ओघमें प्ररूपणा की गई है वैसे करना चाहिये । विशेष यह है कि प्रत्ययोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । इतनी और भी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कर्मण काययोग प्रत्ययोंको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, स्त्रीवेदका अधिकार है । प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें पुरुष और नपुंसक वेदोंके साथ आहारकद्विकको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीवोंके आहारकशरीरके उदयका अभाव है । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें स्त्रीवेदोदय युक्त जीवोंका अभाव है । केवल इतनी ही ओघसे

१ प्रतिषु ' कायजोगो ' इति पाठः ।

२ काप्रतौ ' सासणसम्माद्विणोअसंजदसम्माद्विणो ' इति पाठः ।

एत्तिओ चैव विसेसो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि । तेण दव्वड्डियण्यं पडुच्च ओघमिदि वुत्तं ।
असादावेदणीयमोघं ॥ १७३ ॥

असादावेदणीयमिच्छेदेण पयडिणिद्दिसो ण कदो, किंतु असादावेदणीय-अरदि-सोग-
अथिर-असुह-अजसकित्ति' त्ति छप्पयडिघडिओ असाददंडओ असादावेदणीयमिदि णिद्दिहो । जहा
सच्चहामा भामा, भीमसेणो सेणो, बलदेवो देवो त्ति । एदासिं छण्णं परूवणा ओघ-
तुल्ला । णवरि एत्थ वि पच्चयविसेसो सामित्तविसेसो च णायव्वो ।

एककट्टाणी ओघं ॥ १७४ ॥

एकम्मि मिच्छाइड्डिगुणट्टाणे जाओ पयडीओ वंघपाओग्गा होदूण चिड्ढंति तासिमेगट्टाणि
त्ति सण्णा । तिरसे एककट्टाणीए परूवणा ओघतुल्ला । तं जहा — मिच्छत्तस्स वंघोदया समं
वोच्छिण्णा । णत्तुंसयवेद-णिरया उ-णिरयाइ-णिरयाइपाओग्गाणुपुव्वी-एइंदिय-वीइंदिय-त्तीइंदिय-
चउरिंदियजादि-आदाव-थावर-सुद्धम-अपज्जत्त-साहारणाणं वंघोदयवोच्छेदविचारो णत्थि,

विशेषता है, अन्यत्र और कहीं भी विशेषता नहीं है । इसीलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा
कर 'ओघके समान है,' ऐसा कहा गया है ।

असातावेदनीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७३ ॥

असातावेदनीय इस पदसे प्रकृतिका निर्देश नहीं किया है, किन्तु असातावेदनीय,
अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति, इन छह प्रकृतियोंसे सम्बद्ध असातादण्डकं
'असातावेदनीय' पदसे निर्दिष्ट किया गया है । जैसे सत्यभामाको 'भामा', भीमसेनको
'सेन' और बलदेवको 'देव' पदसे निर्दिष्ट किया जाता है । इन छह प्रकृतियोंकी प्ररूपणा
ओघके समान है । विशेष इतना है कि यहाँ भी प्रत्ययभेद और स्वामित्वभेद जानना चाहिये ।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७४ ॥

एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे जो प्रकृतियां वन्धयोग्य होकर स्थित हैं उनकी
'एकस्थानिक' संज्ञा है । उन एकस्थानिकोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । वह इस प्रकार
है— मिथ्यात्वका वन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं । नर्गुंसकवेद, नारकायु,
नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति,
आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनके वन्ध और उदयके व्युच्छेदका विचार

१ कामती 'असुह-जस अजसकित्ति' इति पाठ ।

एदासिमैत्थ णियमेण उदयाभावादे । अवसेसाणं पुच्चं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, बंधे फिट्ठे वि उवरिमगुणहाणेसु एदासिमुदयदंसणादे ।

मिच्छत्तस्स सोदओ बंधो । णउंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-णिरयाणुपुच्चि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं परोदओ बंधो, इत्थिवेदोदएण सह एदासिमुदयविरोहादे । एसो एत्थ ओघादो विसेसो, तत्थ सोदय-परोदएणेदासिं बंधोवदेसादे । हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइसंघडणणं सोदय-परोदओ बंधो, इत्थिवेदोदएण सह एदासिमुदयस्स विपडिसेहाभावादे । मिच्छत्त-णिरयाउआणं णिरंतरो बंधो । अवसेसाणं सांतरो, अणियदेगसमयबंधदंसणादे ।

मिच्छत्त-णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइसंघडण-एइंदिय-आदाव-थावराणं तेवण्ण पच्चया, पुरिस-णउंसयवेदाणमभावादे । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्चिणमेगुण-वंचास पच्चया, ओघपच्चएसु ओरालियामिस्स-कम्मइय-वेउच्चियदुग-पुरिस-णउंसयवेदाण-मभावादे । बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं एककवंचास पच्चया, ओघपच्चएसु वेउच्चियदुग-पुरिस-णउंसयवेदपच्चयाणमभावादे । सेसं सुगमं ।

नहीं है, क्योंकि, यहां नियमसे इनके उदयका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय वृत्तिल्लभ होता है, क्योंकि, बन्धके नष्ट होनेपर भी उपरिम गुणस्थानोंमें इनका उदय देखा जाता है ।

मिथ्यात्वका स्वोदय बन्ध होता है । नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नारकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्म, इनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्त्रीवेदके उदयके साथ इनके उदयका विरोध है । यह यहां ओघसे विशेषता है, क्योंकि, यहां स्वोदय-परोदयसे इनके बन्धका उपदेश है । हुण्डसंस्थान ओर असंप्राप्तसूपाटिकासंहननका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्त्रीवेदके उदयके साथ इनका विरोध नहीं है । मिथ्यात्व ओर नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनका नियम रहित एक समय बन्ध देखा जाता है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसूपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप ओर स्थावर प्रकृतियोंके तिरपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है । नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्राप्त्यगानुपूर्वीके उन्नंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमें औदारिकमिश्र, कामर्ग, वैक्रियिकादिक, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमें वैक्रियिकादिक, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है । शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है ।

मिच्छत् चरुगइसंजुत्तं वंघइ । णउंसयवेद-हुंडसंठाणाणि तिगइसंजुत्तं, देवगइए सह वंघाभावादो । णिरयाउ- [णिरयगइ-] णिरयगइपाओग्गाणुपुञ्चीओ णिरयगइसंजुत्तं वंघइ । कुदो ? सामावियादो । अपञ्जत्तासंपत्तसेवइसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, णिरय-देवगइहि सह वंघाभावादो । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्तं, तत्थ ताणं णियमदंसणादो । मिच्छत्त-णउंसयवेद-एइंदियादाव-धावर-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइसंघडणाणं तिगइमिच्छाइटी सामी, णिरयगइए इत्थिवेदुदयाभावादो । णिरयाउ-णिरयगइ-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-णिरयाणुपुञ्चि-सुहुम-अपञ्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुस्सा सामी । वंघद्धानं वंघविणइड्डाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स चउव्विहो वंघो । सेसाणं सादि-अद्दुओ ।

अपच्चक्खाणावरणीयमोधं ॥ १७५ ॥

एत्थ वि पुच्चं व परूवेदव्वं । अहवा अपच्चक्खाणावरणीयपहाणो दंडओ अपच्चक्खाणा-वरणीयमिदि भणइ । जहा णिंवच-कयंव-जंतु-जंवीरवणमिदि । अपच्चक्खाणचरुक्क-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणु-

मिथ्यात्वको चारों गतियोंसे संयुक्त बांधता है । नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानको तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, देवगतिके साथ उनके बन्धका अभाव है । नारकायु, [नरकगति] और नरकगतिप्रयोग्यानुपूर्वको नरकगतिके संयुक्त बांधता है, क्योंकि, पेसा स्वभाव है । अपर्याप्त और असंप्राप्तसृपाटिकासंहननको तिर्यग्गति और मनुष्यगतिके संयुक्त बांधता है, क्योंकि, नरकगति और देवगतिके साथ इनके बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंको तिर्यग्गतिके संयुक्त बांधता है, क्योंकि, तिर्यग्गतिके साथ उनके बन्धका नियम देखा जाता है । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय, आताप, स्थावर, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृपाटिकासंहननके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें स्त्रीवेदके उदयका अभाव है । चारकायु, नरकगति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नारकानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन प्रकृतियोंके बन्धके तिर्यच व मनुष्य स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वका चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अश्रुच बन्ध होता है ।

अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७५ ॥

यहां भी पूर्वके समान प्ररूपणा करना चाहिये । अथवा अप्रत्याख्यानावरणीय-प्रधान ढण्डकको अप्रत्याख्यानावरणीय शब्दसे कहा जाता है । जैसे कि नीम, आम, कदम्ब, जामुन और जर्मीर, इन वृक्षोंकी प्रधानतासे इतर वृक्षोंसे भी युक्त बनोको नीमवन, आमवन, कदम्बवन, जामुनवन और जर्मीरवन शब्दोंसे कहा जाता है । अप्रत्याख्यान-चतुष्क, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभवज्रनाराचशरीर-संहनन और मनुष्यगतिप्रयोग्यानुपूर्वी, इन अप्रत्याख्यानावरणीयसंज्ञित प्रकृतियोंकी

पुव्वीणमपच्चवखाणावरणीयसण्णिदाणं परूवणा ओघतुल्ला । तं जहा— अपच्चवखाणचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिट्ठिम्हि चेव तदुभयदंसणादो । मणुसगइपाओग्गाणु-पुव्वीए पुव्वं उदओ पच्छा बंधो, सासणसम्माइट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु तव्वोच्छेददंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, तहोवलंभादो ।

सव्वारिं पयडीणं बंधो सव्वत्थ सोदय-परोदओ । णवरि सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु मणुसगइदुग-ओरालियदुग-वज्जरिसहसंवडणाणं परोदओ बंधो, देवसुदया-भावादो । अपच्चवखाणावरणचउक्कस्स बंधो णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । मणुसगइ-मणुसगइ-पाओग्गाणुपुव्वीणं मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठीसु सांतर-णिरंतरो । कुदो णिरंतरो ? आणदादि-देवेहिंतो इत्थिवेदमणुस्सेसुप्पण्णाणं अंतोसुहुत्तकालं णिरंतरत्तेण तदुभयबंधदंसणादो । उवरि णिरंतरो, देवसम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु णिरंतरबंधुवलंभादो । एवमोरा-लियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं पि वत्तव्वं, सणक्कुमारादिदेवेहिंतो इत्थिवेदसुप्पण्णाणं णिरंतरबंधुवलंभादो । वज्जरिसहसंवडणस्स मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठीसु बंधो सांतरो ।

प्ररूपणा ओघके समान है । वह इस प्रकारसे है — अग्रत्याख्यानचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें ही उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है । मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वमे उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमशः उनका व्युच्छेद देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंका पूर्वमे बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है ।

सब प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र स्वोदय-परोदय होता है । विशेष इतना है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्रपर्मसंहननका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, देवोंमे इनका उदयाभाव है । अग्रत्याख्यानवरणचतुष्कका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, आनतादिक देवोंमेंसे स्त्रीवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त काल तक निरन्तर रूपसे उन दोनों प्रकृतियोंका बन्ध देखा जाता है ।

सासादनसे ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । इसी प्रकार औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगोपांगके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सनत्कुमारादिक देवोंमेंसे स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । वज्रपर्मसंहननका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है । उपरि म

उवरि णिरंतरो, षड्वक्खपयङ्गीणं वंधाभावादो ।

अपच्चक्खणचउक्कस्स सच्चगुणङ्गणेषु ओघपच्चया चेव । णवरि पुरिस-
णलुंसयपच्चया सच्चत्थ अवणेदच्चा । असंजदसम्मादिङ्किहि ओरालियवेउच्चियमिस्स-
कम्मइयपच्चया च अवणेदच्चा । एवं वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघटणस्स वि वत्तच्चं ।
णवरि सम्मामिच्छादिङ्कि-असंजदसम्मादिङ्गीसु ओरालियकायजोगपच्चओ अवणेदच्चो । मणुसगइ-
मणुसगइपाओगणुपुच्ची-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगणं मिच्छादिङ्कि-सासणसम्मादिङ्गीसु
दुरूणोघपच्चया चेव होति, पुरिस-णलुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । सम्मामिच्छादिङ्कि-
असंजदसम्मादिङ्गीसु चालीस पच्चया, पुरिस-णलुंसयवेदेहि सह ओरालियदुगाभावादो,
असंजदसम्मादिङ्किहि वेउच्चियमिस्स-कम्मइयपच्चयाभावादो च' । सेसं सुगमं ।

अपच्चक्खणचउक्कं मिच्छादिङ्गी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, उवरिमा
दुगइसंजुत्तं वंधति । मणुसगइ-मणुसगइपाओगणुपुच्चीओ मणुसगइसंजुत्तं सच्चे वंधति ।

गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका
अभाव है ।

अप्रत्याख्यानानवरणचतुष्कके सब गुणस्थानोंमें ओघप्रत्यय ही हैं । विशेषता
केवल इतनी है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोको सर्वत्र कम करना चाहिये ।
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको
भी कम करना चाहिये । इसी प्रकार वज्रर्षभवज्रनाराचशरीरसंहननके भी कहना
चाहिये । विशेष इतना है कि सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें
औदारिक काययोग प्रत्यय कम करना चाहिये । मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,
औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगोपांगके मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्दष्टि
गुणस्थानोंमें दो कम ओघप्रत्यय ही हैं, क्योंकि, पुरुष और नपुंसक वेदप्रत्ययोंका अभाव
है । सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि,
वहां पुरुष और नपुंसक वेदोंके साथ औदारिकद्विकका अभाव है तथा असंयतसम्यग्दष्टि
गुणस्थानमें वैक्रियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोका अभाव भी है । शेष प्रत्ययप्ररूपणा
सुगम है ।

अप्रत्याख्यानानवरणचतुष्कको मिथ्यादष्टि चार गतियोंसे संयुक्त, सासादन-
सम्यग्दष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, और उपरिम जीव दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं ।
मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको मनुष्यगतितसे संयुक्त सभी खीवेदी जीव

१ काप्रती । पुरिस-णलुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । सम्मामिच्छादिङ्की-असंजदसम्मादिङ्गीसु वेउच्चियमिस्स-
कम्मइयपच्चयानाभावादो च' इति पाठः ।

अवसेसतिण्णपयडीओ मिच्छादिङ्गि-सासणसम्मादिङ्गिणो तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छा-दिङ्गि-अंसंजदसम्मादिङ्गिणो मणुसगइसंजुत्तं वंधंति ।

अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स तिगइचदुगुणङ्गाणिणो सामी । अवसेसाणं पयडीणं तिगइमिच्छादिङ्गि सासणसम्मादिङ्गिणो देवगइसम्मामिच्छादिङ्गि-अंसंजदसम्मादिङ्गिणो च सामी । वंधद्धानं वंधविणद्धानं च सुगमं । अपच्चक्खाणचउक्कस्स मिच्छादिङ्गिहि चउव्विहो वंधो । अणत्थ तिविहो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्दुवो ।

पच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १७६ ॥

एत्थ ओघरूवणं किंचिविसाणुविद्धं संभरिय वत्तव्वं ।

हस्स-रदि जाव तित्थयरेत्ति ओघं ॥ १७७ ॥

ओघादो एदेसु' सुत्तेसु अवड्ढिदथेवभेयसंदरिसिणहं मंदबुद्धिसिस्साणुगहहं च पुणरवि परूवेमो— हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं वंधोदया समं वोच्छिज्जंति, अपुव्वकरणचरिमसमए

वांधते है । शेष तीन प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तीर्थगति एवं मनुष्यगतितसे संयुक्त, तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतितसे संयुक्त वांधते है ।

अप्रत्याख्यानानावरणचतुष्कके तीन गतियोंके चार गुणस्थानवर्ना स्त्रीविदी जीव स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तथा देव-गतिके सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । वन्धाध्वान और वन्धविनष्ट-स्थान सुगम है । अप्रत्याख्यानानावरणचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका और अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अष्टुव वन्ध होता है ।

प्रत्याख्यानानावरणीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७६ ॥

यहां कुछ विशेषतासे सम्बद्ध ओघप्ररूपणाको स्मरणकर कहना चाहिये ।

हास्य व रतितसे लेकर तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ १७७ ॥

ओघकी अपेक्षा इन सूत्रोंमें अवस्थित कुछ थोड़ीसी विशेषताको दिखलाने तथा मन्दबुद्धि शिष्यके अनुग्रहके लिये फिर भी प्ररूपणा करते है— हास्य, रति, भय और जुगुप्साका वन्ध व लज्ज दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, अपूर्वकरणके अन्तिम

दोषहं वोच्छेदुवलंभादो । सव्वगुणङ्काणेसु वंघो सोदय-परोदओ, परोदए वि संते वंधविरोहा-
भावादो । भय-दुगुछाणं सव्वगुणङ्काणेसु गिरनरो वंघो, धुवबंधितादो । हस्स-रदीणं मिच्छाडिडि-
प्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति वंघो सांनरो, एत्थ पडिन्नक्खपयडिबंधुवलंभादो । उवरि गिरंतरो,
पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । पच्चया सुगमा, बहुसो परूनिदत्तादो । मिच्छाडिडो चउगइसंजुत्तं
बंधंति । णवरि हस्स-रदीओ तिगइसंजुत्तं, गिरयगईए सह वंधविरोहादो । सव्वपयडीओ
सासणो तिगइसंजुत्तं वंधइ, तत्थ गिरयगईए वंधाभावादो । सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मा-
दिडिणो दुगइसंजुत्तं, तत्थ गिरय-तिरिक्खगईणं वंधाभावादो । उवरिमा देवगइसंजुत्तं, तत्थ
सेसगईणं वंधाभावादो । णवरि अपुच्चकरणे चरिमसत्तभागे अगइसंजुत्तं वंधंति । तिगइ-
मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि सम्मामिच्छादिडि-अमंजदसम्मादिडिणो सामी, गिरयगईए
गिरुद्धित्थिवेदाभावादो । दुगइसंजदासंजदा सामी, देवगईए देसव्वईणंभावादो । उवरिमा
मणुस्सा चव, अण्णत्थ महच्चणमभावादो । वंधद्वारणं वंधविणडुङ्काणं च सुगमं । भय-दुगुछाणं

समयमें उनके बन्ध व उदय दोनोका व्युच्छेद पाया जाता है । सब गुणस्थानोंमें उनका
बन्ध स्वेदय-परोदय होता है, क्योंकि, अन्य प्रकृतियोंके उदयके भी होनेपर इनके बन्धका
कोई विरोध नहीं है । भय और जुगुप्साका सब गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है,
क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । हास्य और रतिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक
सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनको प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता
है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव
है । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, उनका बहुत बार प्ररूपण किया जा चुका है ।
मिथ्यादृष्टि जीव उन्हें चार गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं । विशेष इतना है कि
हास्य और रतिको तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिके साथ
उनके बन्धका विरोध है । सब प्रकृतियोंको सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त
बांधता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें नरकगतिका बन्ध नहीं होता । सम्यग्मिथ्यादृष्टि
और असंयतसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें नरकगति
और तिर्यग्गतिके बन्धका अभाव है । उपरिम जीव देवगतिके संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि,
उपरिम गुणस्थानोंमें शेष गतियोंके बन्धका अभाव है । विशेषता यह है कि अपूर्वकरणके
अन्तिम सप्तम भागमें गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादन-
सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें
छांविदके उदय सहित जीवोका अभाव है । दो गतियोंके संयतसंयत स्वामी हैं, क्योंकि,
देवगतिमें देशत्रतियोंका अभाव है । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी है, क्योंकि,
अन्य गतियोंमें महात्रतियोंका अभाव है । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं ।

१ प्रतिपु ' चडुण्हं ' इति पाठ ।

२ अर्थात् ' गिरयगईण ' इति पाठ ।

३ प्रतिपु ' देसव्वगईण ' इति पाठ ।

मिच्छाद्विद्भिर्ह बंधो चउच्चिहो । उवरि तिविहो, ध्रुवबंधाभावाद्दो । ह्रस्व-रदीणं सव्वत्थ सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

मणुस्साउअस्स पुच्चं बंधो पच्छा उदओ वोच्चिण्णो, असंजदसम्मादिद्धि-अणियट्ठीसु जहाकमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । मिच्छादिद्धि-सासणसम्मादिद्धीसु सोदय-परोदएण बंधो । असंजदसम्मादिद्धीसु परोदएणेव । कुदो ? साभावियादो । सव्वत्थ बंधो णिरंतरो, जहण्णबंध-कालस्स वि अंतोसुहुत्तपमाणुवलंभादो । मिच्छादिद्धिस्स पंचास,सासणस्स पंचेतालीस पच्चया; ओरालिय-वेउच्चियमिस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस-णुंसयपच्चयाणमभावाद्दो । असंजदसम्मा-दिद्धीसु चालीस पच्चया, ओषपच्चएसु' ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउच्चियमिस्स-कम्मइय-कायजोग-पुरिस-णुंसयवेदानमभावाद्दो । सेसं सुगमं । सव्वे वि मणुसगइसंजुत्तं चेव बंधति, अण्णगईहि सह विरोहादो । तिगइमिच्छादिद्धि-सासणसम्मादिद्धिणो सामी । असंजदसम्मा-दिद्धिणो देवा चेव सामी, अण्णत्थित्थिवेदोदइल्लार्णं सम्मादिद्धीणं मणुस्साउअस्स बंधाभावाद्दो । बंधद्वारणं बंधविणइद्वारणं च सुगमं । सव्वत्थ सादि-अद्भवो बंधो ।

भय और जुगुप्साका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । उपरिस गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ ध्रुव बन्धका अभाव है । हास्य और रतिका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

मनुष्यायुका पूर्वमे बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, असंयत-सम्यग्दृष्टि और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, पेसा स्वभाव ही है । सर्वत्र निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उसका जघन्य बन्धकाल भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण पाया जाता है । मिथ्यादृष्टिके पचास और सासादनसम्यग्दृष्टिके पैंतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहाँ औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद और ननुंसकवेद, प्रत्ययोंका अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओषमृत्ययोंमेंसे औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद और ननुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है । शेष प्रत्ययरूपणा सुगम है । सब ही मनुष्यगतितसे संयुक्त ही वांछते हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । असंयतसम्यग्दृष्टि देव ही स्वामी है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें छौबिदेदय युक्त सम्यग्दृष्टियोंके मनुष्यायुके बन्धका अभाव है । वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थानं सुगम हैं । सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है ।

देवाउवस्स पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, अप्पमत्तासंजदसम्मादिड्डीसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सव्वगुणद्वाणेषु परोदएणेव बंधो, सोदयम्हि बंधस्स अचंताभावस्स अवद्वाणादो । णिरंतरो बंधो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । मिच्छाईड्ढिस्स एगूणवंचास, सासणस्स चउवेतालीस, असंजदसम्मादिड्ढिस्स चालीसुत्तरपच्चया, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा-लियमिस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस-णवुंसयवेदानमभावादो । उवरि पुरिस-णवुंसयवेदाहारदुवेहि विणा ओघपच्चया चेव वत्तच्चा । सेसं सुगमं । सव्वत्थ देवगइसंजुतो बंधो, अण्णगईहि सह बंध-विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस-मिच्छाईड्ढि-सासणसम्माईड्ढि-असंजदसम्माईड्ढि-संजदासंजदा सामी, अण्णत्थ द्वियाणं तव्वंधविरोहादो । उवरिमा मणुसा चेव, अण्णत्थ महव्वईणमभावादो । बंधद्धाणं सुगमं । अप्पमत्तद्वाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । कुदो ? सुत्ताणुसारि-गुरूवेदसादो । सादि-अद्दुवो बंधो ।

देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइषाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-त्तस-वाद्दर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणेषु देवगइ-देव-

देवायुका पूर्वमे उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । सब गुणस्थानोंमें परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके होनेपर उसके बन्धका अत्यन्ताभाव है । उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है । मिथ्यादृष्टिके अनंचास, सासादनसम्यग्दृष्टिके चवालीस और असंयतसम्यग्दृष्टिके चालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदारिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानके ऊपर पुरुषवेद, नपुंसकवेद और आहारकादिकके विना ओघप्रत्यय ही कहना चाहिये । शेष प्रत्ययरूपण सुगम है । सर्वत्र देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है । तिर्यंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि एवं संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र स्थित जीवोंके उसके बन्धका विरोध है । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें महाव्रतियोंका अभाव है । बन्धाव्वान सुगम है । अप्रमत्तकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, ऐसा सूत्रानुसारी गुरुका उपदेश है । सादि व अद्भुत बन्ध होता है ।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वासास, प्रशस्तविहाययोगति, त्रस, वाद्दर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय व निर्माण, इनमेंसे देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर

गइपाओग्माणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगणं पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छि-
ज्जदि, अपुव्वासंजदसम्माइड्डीसु देवगइपाओग्माणुपुव्वीए अपुव्व-सासणेसु कमेण बंधो-
दयवोच्छेदुवलंभादो । तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्लहुअं-
उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुस्सर-णिमिणाणं पुव्वं बंधो पच्छा
उदओ वोच्छिज्जदि, अपुव्व-अणियट्ठीसु कमेण बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । पंचिंदियजादि-तस-
वादर-पज्जत्त-सुभगादिज्जाणं पि एवं चैव वत्तव्वं ।

देवगइ-देवगइपाओग्माणुपुव्वि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगणं परोदएणेव
सव्वत्थ बंधो, सोदएणेदासिं बंधविरोहादो । पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-
अगुरुवल्लहुअ-तस-वादर-पज्जत्त-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदओ सव्वगुणट्ठाणेसु बंधो, एत्थेदासिं
धुवोदयत्तदंसणादो । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सरणं सव्वत्थ सोदय-परोदओ
बंधो, उभयहा वि बंधविरोहादो । उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिडि-
सासणसम्मादिड्डीसु बंधो सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए केसिचि अपज्जत्तकाले च उदएण

और वैक्रियिकशरीरान्गोपांगका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि,
अपूर्वकरण और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें तथा देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वकी अपूर्वकरण
और सासादनसम्यग्दष्टिगुणस्थानोंमें क्रमसे बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । तैजस
व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुस्वर और निर्माण, इनका
पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण
गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । पंचेन्द्रियजाति,
ब्रह्म, वादर, पर्याप्त, सुभग और आदेयके भी इसी प्रकार कहना चाहिये ।

देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरान्गोपांगका
परोदयसे ही सर्वत्र बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है । पंचेन्द्रियजाति,
तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, ब्रह्म, वादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ
और निर्माणका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रकृतियां भ्रुवोदयी
देखी जाती हैं । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वरका सर्वत्र स्वोदय-
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है । उपघात,
परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका बन्ध मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि
गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें और किन्हीके अपर्याप्तकालमें

विणा बंधुवलंभादो । उवरिमेसु गुणङ्गाणेषु सोदएणेव, अपज्जत्तद्वाए तेसिं गुणाणमभावादो । मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छाद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु सुभगादेज्जाणं सोदय-परोदओ बंधो । उवरि सोदओ चैव, साभावियादो ।

तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिणाणं बंधो णिरं-तरो, ध्रुवबंधितादो । पंचिंदियजादि-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-अंगोवंगणं मिच्छाद्विद्वि-सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, असंखेज्जवाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधु-वलंभादो । एवं सासणस्स वि वत्तव्वं । णवरि पंचिंदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं बंधो णिरंतरो चैव । सम्मामिच्छाद्विद्वि-उवरिमाणं सासणभंगो । णवरि देवगइ-वेउव्वियसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-सुभग-सुस्सरादेज्जाणं णिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाद्विद्वि-ज्जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्ख-

भी इनका उदयके विना बन्ध पाया जाता है । उपरिम गुणस्थानोंमें खोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उन गुणस्थानोंका अभाव है । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सुभग व आदेयका स्वादय-परोदय बन्ध होता है । उपरिम गुणस्थानोंमें खोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है ।

तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी है । पंचेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायगेति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकियिकशरीर और वैकियिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें-सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका— निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यच और मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

इसी प्रकार सासादन गुणस्थानके भी कहना चाहिये । विशेषतः केवल यह है कि पंचेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक-शरीरका बन्ध निरन्तर ही होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टिसे लेकर उपरिम गुणस्थानोंकी प्ररूपणा सासादनसम्यग्दृष्टिके समान है । विशेष यह है कि देवगति, वैकियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, सुभग, सुस्वर और आदेयका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । स्थिर और शुभका मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । ऊपर इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,

पयडिबंधाभावादो । पच्चया सुगमा, बहुसो परुविदत्तादो । णवरि देवगइ-वेउव्वियदुगाणं वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया पुरिस-णवुंसयवेदेहि सह अवणेदव्वा । सेसं सुगमं ।

देवगइ-वेउव्वियदुगाणि सच्चत्थ देवगइसंजुत्तं वज्झंति । णवरि वेउव्वियदुगं मिच्छा-इड्डीं देव-णिरयगइसंजुत्तं वंधंति । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जणामाओ मिच्छादिड्ढि-सासणसम्मादिड्ढिणो तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए सह बंधाभावादो । सम्मामिच्छादिड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं । सेसा देवगइसंजुत्तं वंधंति । अवसेसाओ पयडीओ मिच्छाइड्डीं चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिणो देवगइ-मणुसगइसंजुत्तमुवरिमा देवगइसंजुत्तं वंधंति ।

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइड्ढि-सासणसम्माइड्ढि-सम्मामिच्छाइड्ढि-असंजदसम्माइड्ढि-संजदासंजदा सामी । उवरिमणुसा चेव, अण्णत्थ तेसिमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं तिगइमिच्छादिड्ढि-सासणसम्मादिड्ढि-सम्मामिच्छादिड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढि दुगइसंजदा-

वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, उनकी प्ररूपणा बहुत बार की जा चुकी है । विशेषता यह है कि देवगति और वैक्रियिकद्विकके वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको पुरुष और नपुंसक वेदोंके साथ कम करना चाहिये । शेष प्रत्ययरूपणा सुगम है ।

देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विक सर्वत्र देवगतिले संयुक्त बांधते हैं । विशेषता इतनी है कि वैक्रियिकद्विकको मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीव देव व नरक गतिले संयुक्त बांधते हैं । सम-चतुरस्सस्थान, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय नामकर्मोंको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिके साथ इनके बन्धका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिले संयुक्त बांधते हैं । शेष गुणस्थानवर्ती देवगतिले संयुक्त बांधते हैं । शेष प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवगति एवं मनुष्यगतिले संयुक्त, तथा उपरिम गुणस्थानवर्ती देवगतिले संयुक्त बांधते हैं ।

देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उन गुणस्थानोंका अभाव है । शेष प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; दो गतियोंके

संजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धानं बंधविणद्धाणं च सुगमं । ध्रुवबंधीणं मिच्छादिद्धिम्हि बंधो चउच्चिहो । अण्णत्थ तिविहो, ध्रुवबंधाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्धुवो, अद्धुवबंधितादो ।

आहारशरीर-आहारशरीरगोवंगाणं ओघपरूवणमवहारिय वत्तव्वं । तित्थयरस्स वि ओघपरूवणं चेव णादूण वत्तव्वं । णवरि वेउच्चिय-वेउच्चियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइय-कायजोग-पुरिस-णत्तुंसयवेदा असंजदसम्मादिद्धिपच्चएसु अवणेदव्वा । अण्णत्थ पुरिस-णत्तुंसय-पच्चया चेव अवणेदव्वा । तित्थयरबंधस्स मणुसा चेव सामी, अण्णत्थिवेदोदइल्लाणं तित्थयरस्स बंधाभावादो । अपुच्चकरणउवसामएसु तित्थयरस्स बंधो, ण क्खवएसु; इत्थि-वेदोदएण तित्थयरकम्मं बंधमाणाणं खवगसेडिसमारोहणाभावादो ।

जहा इत्थिवेदोदइल्लाणं सव्वसुत्ताणि परूविदाणि तहा णत्तुंसयवेदोदइल्लाणं पि वत्तव्वं । णवरि सव्वत्थ इत्थिवेदमि मणिदपच्चएसु इत्थिवेदमवणिय णत्तुंसयवेदो पक्खिवि-दव्वो । असंजदसम्मादिद्धिपच्चएसु वेउच्चियमिस्स-कम्मइयकायजोगपच्चया पक्खिविदव्वा,

संयतासंयत; तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अश्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अश्रुवबन्धी हैं ।

आहारकशरीर और आहारकशरीरगोपांगकी प्ररूपणा ओघप्ररूपणाका निश्चय कर कहना चाहिये । तीर्थंकर प्रकृतिकी भी ओघप्ररूपणाको ही जानकर कहना चाहिये । विशेषता केवल यह है कि वैक्यिक, वैक्यिकमिश्र, औदारिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको असंयतसम्यग्दृष्टिके प्रत्ययोंमेंसे कम करना चाहिये । तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें स्त्रीवेदोदय युक्त जीवोंके तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका अभाव है । अपूर्वकरण उपशामकोंमें तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होता है, क्षपकोंमें नहीं; क्योंकि, स्त्रीवेदके उदयके साथ तीर्थंकरकर्मको बांधनेवाले जीवोंके क्षपकश्रेणीके आरोहणका अभाव है ।

जिस प्रकार स्त्रीवेदोदय युक्त जीवोंकी अपेक्षा सब स्त्रियोंकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार नपुंसकवेदोदय युक्त जीवोंके भी कहना चाहिये । विशेषता केवल इतनी है कि सर्वत्र स्त्रीवेदमें कहे हुए प्रत्ययोंमेंसे स्त्रीवेदको कम कर नपुंसकवेदको जोड़ना चाहिये । असंयतसम्यग्दृष्टिके प्रत्ययोंमें वैक्यिकमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंको जोड़ना

गेरइएसु आउअबंधवसेण सम्मादिट्टीणसुप्पत्तिदंसणादो । गिरयाउ-गिरयदुग-इत्थिवेदाणं सव्वत्थं पुरिसवेदस्सेव परोदएण बंधो । णवुंसयवेदस्स सोदएण । एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-जादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं सोदय-परोदओ बंधो, एदेसु वुत्तहाणेसु एदेसिं पडिवक्खद्वाणेसु च णवुंसयवेदुदयदंसणादो ।

तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-णीचागोदाणं -सांतर-णिरंतरो बंधो । कुदो ? तेउ-व्राउकाइएसु सत्तमपुढविणेरइएसु च दोसु वि गुणद्वाणेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सांतर-णिरंतरो मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिट्टीसु बंधो । कुदो ? आणदादिदेवैहिंतो णवुंसयवेदोदइल्लमणुस्सेसुप्पणाणं तित्थयरसंतकम्मेण गेरइएसुप्पणमिच्छा-इट्टीणं च णिरंतरबंधुवलंभादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं मिच्छादिट्टि-सासण-सम्मादिट्टीसु सणक्कुमारादिदेव-गेरइए अस्सिदूण णिरंतरो बंधो । अण्णत्थ सांतरो वत्तव्वो, असंखेज्जवासाउएसु णवुंसयवेदुदयाभावादो । तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सियणवुंसयवेदोदइल्लतिरिक्ख-मणुस्समिच्छादिट्टि-सासणे अस्सिदूण देवगइ-वेउव्वियसरीरदुगाणं णिरंतरो बंधो वत्तव्वो ।

चाहिये, क्योंकि, आयुबन्धके वशसे सम्यग्दृष्टियोंकी नारकियोंमें उत्पत्ति देखी जाती है । नारकायु, नरकगतित्थिक-और स्त्रीवेदका सर्वत्र पुरुषवेदके समान परोदयसे बन्ध होता है । नपुंसकवेदका स्वोदयसे बन्ध होता है । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन उक्त स्थानोंमें तथा इनके प्रतिपक्ष स्थानोंमें नपुंसकवेदका उदय देखा जाता है ।

तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेज-व वायु-कायिक तथा सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें मिथ्यादृष्टि व सासादन-सम्यग्दृष्टि-इन दोनों ही गुणस्थानोंमें निरन्तर-बन्ध पाया जाता है । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, आनतादिक-देवोंमेंसे नपुंसकवेदोदय युक्त मनुष्योंमें उत्पन्न हुए तथा तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ नारकियोंमें उत्पन्न हुए मिथ्यादृष्टियोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है । औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सनत्कुमारादि देव व नारकियोंका आश्रयकर निरन्तर बन्ध होता है । अन्यत्र सान्तर बन्ध कहना चाहिये, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नपुंसकवेदके उदयका अभाव है । तेज, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले नपुंसकवेदोदय युक्त तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका आश्रयकर देवगतित्थिक और वैक्रियिकशरीरत्थिकका निरन्तर बन्ध कहना चाहिये ।

उवघादं-परघादुस्सांसं-पत्तैयंसरीरंणं असंजदंसम्मोदिट्ठीसु सोदयं-परोदओं बंधो, णिरयगईए अपज्जत्तासंजदसम्मोदिट्ठीसु वि एदासिं वधुवलंभादो । तसं-वादर-पज्जत्त-पत्तैयंसरीर-पंचिदियजादीणं मिच्छाइडिम्हि बंधो सोदय-परोदओ, थावर-सुहुमापज्जत्त-साहारण-विगालिदिएसु एदासिं बंधुवलंभादो । सच्चपयडीणं बंधस्स णत्थि देवाणं सामित्तं तत्थ णत्तुंसयवेदुदयाभावादो । एहंदि-आदाव-थावराणं तिरिक्खंगइ-मणुसगइ-मिच्छाइट्ठी चैव सामी, देवा ण होंति; तेसु णत्तुंसयवेदुदयाभावादो । अण्णो वि जदि भेदो अत्थि सो संभालियं वत्तव्वो ।

जघा इत्थिवेदस्स परूवणा कदा तथा पुरिसवेदस्स वि कायच्चा । णवरि ओघपच्चएसु इत्थि-णत्तुंसयवेदपच्चया चैव सच्चगुणहाणेषु अवणेदच्चा, सेसासेसपच्चयाणं तत्थ संभवादो । इत्थि-णत्तुंसयवेदाणं बंधो परोदओ, पुरिसवेदस्स सोदओ । उवघाद-परघादुस्सांसं-पत्तैय-सरीरणंसंजदसम्मोदिट्ठीसु सोदय-परोदओ बंधो । तित्थयरस्सं परूवणा ओघतुल्लं । एव-मण्णो वि जदि भेदो अत्थि सो संभालिय वत्तव्वो ।

उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, नरकंगतिमें अपर्याप्त असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें भी इनका बन्ध पाया जाता है । जस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर और पंचेन्द्रियजातिका मिथ्यादृष्टि-गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और विकलेन्द्रियोंमें इनका बन्ध पाया जाता है । सब प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी देव नहीं हैं, क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उदयका अभाव है । एकेन्द्रिय, आर्तापं और स्थावरके तिर्यग्गति व मनुष्यगतिके मिथ्यादृष्टि ही स्वामी हैं, देव नहीं हैं; क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उदयका अभाव है । अन्य भी यदि भेद है तो उसको स्मरणकर कहना चाहिये ।

जिस प्रकार स्वोदयकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार पुरुषवेदकी भी करना चाहिये । विशेष इतना है कि ओघप्रत्ययोंमेंसे स्वोदय और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको ही सब गुणस्थानोंमें कम करना चाहिये, क्योंकि, शेष सब प्रत्ययोंकी वहां सम्भावना है । स्वोदय और नपुंसकवेदका बन्ध परोदय होता है । पुरुषवेदका स्वोदय बन्ध होता है । उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । तीर्थंकर प्रकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है । इसी प्रकार अन्य भी यदि भेद है तो उसको स्मरण कर कहना चाहिये ।

१ अग्रतो ' एहदिये अण्णो ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' सा समरिय ', अग्रतो ' सा संभालिय ' इति पाठः ।

अवगदवेदएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसकित्ति-
उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १७८ ॥

सुगमं ।

अणियट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा ।
सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।
एदे बंधा, अवेससा अबंधा ॥ १७९ ॥

देसामासियसुत्तमेदं, बंधद्धाणं बंधविणइट्ठाणं दोण्णं चैव परूवणादो । तेणेदेण
सुइदत्थपरूवणा कीरदे । तं जथा— एदासिं सोलसण्हं पयडीणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ
वोच्छिज्जदि, तहोवलंभादो । एत्थुवउज्जंती गाहा—

आगमचक्खू साहू इंदियचक्खू असेसजीवा जे ।

देवा य ओहिचक्खू केवलचक्खू जिणा सव्वे ॥ २४ ॥

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइय-जसकित्ति-उच्चागोदाणं सोदओ चैव

अपगतवेदियोमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और
पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १७८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अनिवृत्तिकरणसे लेकर सूक्ष्मसाम्प्रायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । सूक्ष्म-
साम्प्रायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं,
शेष अबन्धक हैं ॥ १७९ ॥

यह सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान इन दोनोंका
ही प्ररूपण करता है । इसीलिए इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार
है— इन सोलह प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि,
वैसा पाया जाता है । यहाँ उपयुक्त गाथा—

साधु आगम रूप चक्षुसे संयुक्त, तथा जितने सब जीव हैं वे इन्द्रिय-चक्षुके
धारक होते हैं । अवधिज्ञान रूप चक्षुसे सहित देव, तथा केवलज्ञानरूप चक्षुसे युक्त सब
जिन होते हैं ॥ २४ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पांच अन्तराय, यशकीर्ति और उच्च-

बंधो, एत्थ एदासिं ध्रुवोदयत्तदंसणादो । गिरंतरो बंधो, एत्थ बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओधम्मि परूविदत्तादो । अगइसंजुतो बंधो, अवगदवेदेसु चटुण्णं^१ गईणं बंधाभावादो । मणुसा चैव सामी, अण्णत्थ खवगुवसामगाणमभावादो । बंधद्धणं बंधविणट्टडाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं तिविहो बंधो, ध्रुवत्ताभावादो । जसकित्ति-उच्चगोदाणं सादि-अद्धुवो, अद्धुवर्बवित्तादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८० ॥

सुगमं ।

अणियट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा ! सजोगिकेवलि-
अद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा ॥ १८१ ॥

एदस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा— पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सजोगि-

गोत्रका खोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इन प्रकृतियोंके ध्रुवोदयित्व देखा जाता है । बन्ध इनका निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओधमें उनकी प्ररूपणा की जा चुकी है । अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अपगतवेदियोंमें चारों गतियोंके बन्धका अभाव है । मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें क्षपक और उपशामकोंका अभाव है । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है । यशकीर्ति और उच्चगोत्रका सादि व अशुच बन्ध होता है, क्योंकि, ये अशुचबन्धी हैं ।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अनिवृत्तिकरणसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १८१ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें क्रमसे

१ प्रतिपु ' चट्टाणं ' इति पाठ ।

अजोगिचरिमसमयम्मि बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदओ बंधो, परावत्तणुदयत्तादो । गिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । पच्चया सुगमं, ओघम्मि परूविदत्तादो । अगइसंजुत्तो बंधो, अवगदवेदेसु गइचउक्कस्स बंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ अवगयवेदाणमभावादो । बंधद्धानं बंधविणह्हाणं च सुगमं । सादि-अद्दुवो बंधो, अद्दुव-बंधित्तादो ।

कोधसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८२ ॥

सुगमं ।

अणियट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियट्टिबादरद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥१८३॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, बंधे वोच्छिण्णे संते उदया-णुवल्भादो । सोदय-परोदओ बंधो, उभयहा वि बंधविरोहाभावादो । गिरंतरो, सुवबंधित्तादो ।

उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । सोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, परिधर्तित होकर उसके प्रतिपक्षभूत असाता वेदनीयका उदय पाया जाता है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघमें उनकी प्ररूपणा की जासुकी है । अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अपगतवेदियोंमें चारों गतियोंके बन्धका अभाव है । मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें अपगतवेदियोंका अभाव है । बन्धाघ्नान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । सादि च अद्दुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अद्दुवगन्धी प्रकृति है ।

संज्वलनक्रोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपशमक व क्षपक बन्धक हैं । बादर अनिवृत्तिकरण-कालके संख्यात बहु भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १८३ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— संज्वलनक्रोधका बन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, बन्धके व्युच्छिन्न होनेपर फिर उदय पाया नहीं जाता । सोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी बन्ध होनेका विरोध नहीं है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है । अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि,

अगइसंजुतो, एत्थ चउगइबंधाभावादे । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादे । मणुसा चैव सामी, अण्णत्थेदेसिमभावादे । बंधद्धाणं णत्थि, एकम्मि अद्धानविरोहादे । अधवा अत्थि, पच्चवड्डियणए अवलंविच्चमाणे अवगदवेदाणमणियट्ठीणं संखेजाणमुवलंभादे । अणियट्ठिकालं संखेजाणि खंडाणिं करिय तत्थ बहुखंडेमु अइक्कतेसु एगखंडावसेसे कोष-संजलणस्स बंधो वोच्छिण्णो । तिविहो बंधो, धुवबंधितादे ।

माण-मायांसंजलणाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १८४ ॥-

सुगमं ।

अणियट्ठी उवसमा खवा बंधा । अणियट्ठिवादरद्दाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १८५ ॥

एदासिं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, विणइबंधाणमुदयाणुवलंभादे । सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादे । गिरंतरो, धुवबंधितादे । अवगयपच्चओ, ओघपच्चएहिंतो अविसिइ-

यहां चारो गतियोंके बन्धका अभाव है । प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, ओघप्रत्ययोसे यहां कोई भेद नहीं है । मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें अपगतवेदियोंका अभाव है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । अथवा बन्धाध्वान है, क्योंकि पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अपगतवेदी अनिवृत्तिकरणोंके संख्यात पाये जानेसे अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात खण्ड करके उनमें बहुत खण्डोंके वीत जाने और एक खण्डके शेष रहनेपर संज्वलनक्रोधका बन्ध व्युच्छिन्न होता है । तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है ।

संज्वलनमान और मायाका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १८४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षयक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरणवादरकालके शेष शेष कालमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ १८५ ॥

इन दोनों प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, बन्धके नष्ट हो जानेपर इनका उदय नहीं पाया जाता । स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी बन्ध पाया जाता है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे

पञ्चवत्तादो । अगइसंखुतो, एत्थ चउगइबंधाभावादो । मणुससामिओ^१, अपण्णथवगदवेदाभावादो । बंधद्धानवज्जिओ, दव्वड्डियणयविसयम्मि सच्चसंगहे अद्धानाणुववत्तीदो^२ । अधवा अद्धानसमण्णिओ, अवलंबियपज्जवड्डियणयत्तादो । कोषबंधवोच्छिण्णद्धानादो उवरिममद्धानं संखेज्जखंडाणि काऊण बह्खंडेसु अइक्कतेसु एयखंडावसेसे माणबंधो वोच्छिज्जदि । पुणो सेसमेयं खंडं संखेज्जाणि खंडाणि करिय तत्थ बह्खंडेसु अइक्कतेसु एयखंडावसेसे मायबंधो वोच्छिज्जदि । एदं कुदो वगम्भे ? सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतूणे ति जिणवयणादो वगम्भे । ति विहो, धुवत्ताभावादो ।

लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८६ ॥

सुगमं ।

धुवबन्धी प्रकृतियां हैं । प्रत्यय अवगत हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई विशेषता नहीं है । अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ चारों गतियोंके बन्धका अभाव है । मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें अपगतवेदियोंका अभाव है । वन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयके विषयभूत सर्व संग्रहके होनेपर अध्वान वनता नहीं है । अथवा पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेसे अध्वानसे सहित वन्ध होता है । क्रोधके बन्धव्युच्छित्तिस्थानसे ऊपरके कालके संख्यात खण्ड करके बहुत खण्डोंको विताकर एक खण्डके शेष रहनेपर मानका बन्ध व्युच्छिन्न होता है । तत्पश्चात् शेष एक खण्डके संख्यात खण्ड करके उनमें बहुत खण्डोंको विताकर एक खण्डके शेष रहनेपर मायाका बन्ध व्युच्छिन्न होता है ।

शंका—यह कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—‘शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर’ इस जिनवचनसे उक्त बन्धव्युच्छित्तिक्रम जाना जाता है ।

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, भुव बन्धका अभाव है ।

संज्वलनलोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८६ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

१ प्रतिष्ठा ‘मणुससामिओ’ इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठा ‘अप्याणववत्तीदो’ इति पाठः ।

अणियट्टी उवसमा खवा वंधा। अणियट्टिवादरद्धाए चरिमसमयं
गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १८७ ॥

एदस्स अत्थो वुच्चदे— वंधो पुव्वमुदओ पच्छा वोच्छिज्जदि, अणियट्टि-सुहुम-
सांपराइयचरिमसमयम्मि वंधेदयवोच्छेदुवलंभादो। सोदय-परोदओ, उभयहा वि वंधुवलंभादो।
णिरंतरो वंधो, धुवबंधित्तादो। अवगयपच्चओ, ओर्षपच्चएहिंदो अविंसिद्धपच्चयत्तादो। अगइ-
संखुत्तो, चउगइबंधाभावादो। मणुससामिओ, अण्णत्थ खवगुवसामगाणमभावादो। वंधद्धाणं
णत्थि, सुत्ते अणुवदिद्धत्तादो। किमइमणुवदिद्धं ? दव्वड्डियावलंवणादो। तिविहो वंधो, धुव-
बंधित्तादो।

कसायाणुवादेण कोधकसाईसु पंचणाणावरणीय- [चउदंसणा-
वरणीय-सादावेदणीय-] चदुसंजलण-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं
को वंधो को अवंधो ? ॥ १८८ ॥

अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक वन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणवादरकालके अन्तिम
समयको जानकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये वन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ १८७ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— वन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय
व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम
समयमें क्रमसे वन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। स्वोदय-परोदय वन्ध
होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारसे वन्ध पत्या जाता है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि,
उक्त प्रकृति भ्रुवबन्धी है। ओघप्रत्ययोसे यहाँ कोई विशेषता न होनेसे उक्त प्रकृतिके वन्धके
प्रत्यय अत्रगत हैं। अगतिसंयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ चारों गतियोंके वन्धका अभाव
है। मनुष्य स्वामी है, क्योंकि, अन्य नतियोंमें क्षपक व उपशमकोंका अभाव है। वन्धाध्वान
है नहीं, क्योंकि, सूत्रमें उसका उपदेश नहीं है।

शंका—सूत्रमें वन्धाध्वानका उपदेश क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करनेसे सूत्रमें उसका उपदेश नहीं
किया गया है।

तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वह भ्रुवबन्धी प्रकृति है।

कषायमार्गणासुरा क्रोधकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, [चार दर्शनावरणीय,
सातावेदनीय], चार संज्वलन, यशकृति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन
वन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १८८ ॥

१ प्रतिशु ' अहगयपच्चओष ' इति पाठ ।

२ प्रतिशु ' मणुससामिओ ' इति पाठ. ।

सासणसम्मादिङ्गीसु सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख-भणुस्सेसु सुहुलेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, षड्वक्खपयडीए बंधाभावादो ।

मिच्छाइङ्गिहि तेदालीसुत्तरपच्चया, सासणे अट्ठत्तीस, वारसकसायाणमभावादो । सम्मामिच्छादिङ्गि-असंजदसम्मादिङ्गीसु जहाकमेण चोत्तीस-सत्तत्तीसपच्चया, णवकसायपच्चया-भावादो । संजदासंजदेसु एकत्तीसपच्चया, छक्कसायाभावादो । पमत्तसंजदेसु एकक्वीस-पच्चया, कसायतियाभावादो । अप्पमत्त-अपुच्चकरणेसु एककूणवीसपच्चया, कसायतिया-भावादो । उवरि तेरसआदिं कादूण एगूणादिकमेण पच्चया जाणिय वत्तव्वा । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणि मिच्छाइङ्गी चउगइ-संजुत्तं, सासणसम्माइङ्गी तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइङ्गि-असंजदसम्माइङ्गिणो देव-मणुसगइ-संजुत्तं, उवरिसा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च वंधंति । सादावेदणीय-जसकित्तीओ मिच्छाइङ्गि-सासणसम्माइङ्गिणो तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए सह बंधाभावादो । उवरि णाणावरणभंगो । उच्चा-

उच्चगोत्रका मिथ्याहाष्टि और सासादनसम्यग्हाष्टि गुणस्थानोमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच और मनुष्योंमें तथा शुभ लेख्यावाले संख्यातवर्षायुष्कोमें भी उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है ।

मिथ्याहाष्टि गुणस्थानमें तेजालीस और सासादन गुणस्थानमें अट्ठत्तीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां वारह कपायोका अभाव है । सम्यग्मिथ्याहाष्टि और असंयतसम्यग्हाष्टि गुणस्थानोमें यथाक्रमसे चौत्तीस और सैत्तीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां नौ कपाय प्रत्ययोका अभाव है । संयतासंयतोमें इक्कीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें छह कपायोका अभाव है । प्रमत्तसंयतोमें इक्कीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें तीन कपायोका अभाव है । अप्रमत्त और अपूर्वकरण संयतोमें उन्नीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां भी तीन कपायोका अभाव है । ऊपर तेरहको आदि लेकर एक कम दो कम इत्यादि क्रमसे प्रत्ययोको जानकर कहना चाहिये । शेष प्रत्ययरूपणा सुगम है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायको मिथ्याहाष्टि चार गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्हाष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्याहाष्टि और असंयतसम्यग्हाष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं । सातावेदनीय और यशकीर्तिको मिथ्याहाष्टि व सासादनसम्यग्हाष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिके साथ इनके बन्धका अभाव है । उपरिम गुणस्थानोंमें ज्ञानावरणके समान प्ररूपणा है ।

गोदं मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो देव-मणुसगइसंजुतं बंधंति, अण्णगईहि बंधविरोहादो । उवरिमा देवगइसंजुतमणियडिणो अगइसंजुतं बंधंति ।

चउगइमिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा' । अवसेसा मणुसा, अण्णत्थ तेसिमणुवलंभादो । बंधद्धाणं सुगमं । बंधविणासो पात्थि, बंधुवलंभादो । धुवबंधीणं मिच्छाइडिहि चउक्विहो बंधो । उवरिमणुणुसु तिविहो, धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्धुवो^१, अद्धुवबंधितादो ।

बेडाणी ओघं ॥ १९० ॥

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्चि-उज्जोव अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचामोदाणं बेडाणियसण्णा, दोसु गुणङ्गाणेसु चिडंति त्ति उप्पत्तीदो । एदासिं परूवणा

उच्चगोत्रको मिथ्याहाष्टि, सासादनसम्यग्हाष्टि, सम्यग्मिथ्याहाष्टि और असंयतसम्यग्हाष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है । उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त, तथा अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती अगति-संयुक्त बांधते हैं ।

चारों गतियोंके मिथ्याहाष्टि, सासादनसम्यग्हाष्टि, सम्यग्मिथ्याहाष्टि और असंयत-सम्यग्हाष्टि स्वामी हैं । दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । शेष गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें वे गुणस्थान पाये नहीं जाते । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धविनाश है नहीं, क्योंकि, उनका बन्ध पाया जाता है । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्याहाष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९० ॥

स्थालगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंकी द्विस्थानिक संज्ञा है, क्योंकि, 'जो दो गुणस्थानोंमें रहें वे द्विस्थानिक हैं' ऐसी व्युत्पत्ति है । इनकी प्ररूपणा ओघके समान है, क्योंकि,

ओयतुल्ला, विसैसाभावादो । तं जहा— अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणम्मि तदुभयाभावदंसणादो । श्रीणगिद्धितियस्स पुच्चं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सासणसम्माइड्ढि-पमत्तंसजदेसु कमेण बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-उज्जेव-गीचागोदाणमेवं चेव । णवरि संजदासंजदम्मि उदयवोच्छेदो । एवमित्थिवेदस्स वि । णवरि अणियद्धिम्हि तदुच्छेदो । चउसंठाण-अप्पसत्थविहायगइ-दुस्सराणमेवं चेव । णवरि एत्थ उदयवोच्छेदो णत्थि । चउसंघड्ढाणमेवं चेव । णवरि अप्पमत्तंसजदेसु विदिय-त्तदिय-संघड्ढाणमुदयवोच्छेदो । चउत्थ-पंचमाणं णत्थि उदयवोच्छेदो, उवसंतकसाएसु तदुच्छेद-दंसणादो । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-दुभग-अणादेज्जाणं पुच्चं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, सासणसम्मादिड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढीसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो ।

अणंताणुबंधिकोवस्स सोदओ बंधो । तिण्हं कसायाणं परोदओ, तेसिमेत्थुदयाभावादो । अवसेसपयडीणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधविरोहाभावादो । इत्थिवेद-चउसंठाण-चउ-

ओयसे इनमें कोई भेद नहीं है । वह इस प्रकार है— अनन्तानुबन्धिचउत्फका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है । स्थानगुडिन्नयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और प्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें क्रमसे बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । तिर्यगायु, तिर्यग्गति, उद्योत और नीचगोत्रकी भी प्ररूपणा इसी प्रकार ही है । विशेषता केवल इतनी है कि संयतासंयत गुणस्थानमें उनका उदयव्युच्छेद होता है । इसी प्रकार स्त्रीवेदकी भी प्ररूपणा है । विशेष इतना है कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उसके उदयका व्युच्छेद होता है । चार संस्थान, अप्रशस्तविहायोगति और दुस्वरकी प्ररूपणा भी इसी प्रकार ही है । विशेष इतना है कि यहां उनका उदयव्युच्छेद नहीं है । चार संहननोंकी प्ररूपणा भी इसी प्रकार ही है । विशेष इतना है कि अप्रमत्तसंयतोंमें द्वितीय और तृतीय संहननका उदयव्युच्छेद होता है । चतुर्थ और पंचम संहननका उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, उपशान्तकपार्योंमें उनके उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । तिर्यग्गति-प्रायोग्यानुपूर्वों, दुर्भंग और अनदेयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है ।

अनन्तानुबन्धिकोवका खोदय बन्ध होता है । तीन कपार्योंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है । श्रेय प्रकृतियोंका खोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धका कोई विरोध नहीं है ।

स्त्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर,

संघडण-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं बंधो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्चि-णीचामोदाणं दोसु वि गुणट्ठणेसु सांतर-णिरंतरो बंधो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुढविणेरइएसु च णिरंतरबंधुवरलभादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्चि-उज्जेवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं बंधंति । इत्थि-वेदं तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए बंधाभावादो । चउसंठाण-चउसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, अण्णगईहि बंधाभावादो । अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचामोदाणि तिगइसंजुत्तं बंधंति, देवगईए बंधाभावादो । सासणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधइ, तस्सण्ण-गईहि विरोहादो । चउगइमिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठिणो सामी । उवरि सुगमं, बहुसो परूविदत्तादो ।

जाव पच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १९१ ॥

बेड्डाणदंडयं परूविय पच्छ जेणेदं सुत्तं परूविदं तेण णिद्दादंडयमार्दिं कारूणे ति अत्थावत्तीदो अवगममेदं । णिद्दा-असादेगट्ठाण-अपच्चक्खाण-पच्चक्खाणदंडयाणं परूवणाए

और अनादेयका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम देखा जाता है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिक तथा सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । शेष प्रकृतियोंके बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम है ।

तिर्यग्गायु, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं । स्त्रीवेदको तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिके साथ उसके बन्धका अभाव है । चार संस्थान और चार संहननको तिर्यग्गति और मनुष्यगतिके संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्धका अभाव है । अपशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, देवगतिके साथ इनके बन्धका अभाव है । सासादनसम्यग्दृष्टि इन्हें तिर्यग्गति व मनुष्यगतिके संयुक्त बांधता है, क्योंकि, उसके अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका विरोध है । चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । उपरिम प्ररूपणा सुगम है, क्योंकि, वह बहुत धार की जा चुकी है ।

प्रत्याख्यानानवरणीय तक सब प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९१ ॥

द्विस्थानदण्डककी प्ररूपणा करके पीछे चूंकि इस सूत्रकी प्ररूपणा की गई है अत एव 'निद्रादण्डकको आदि करके', यह अर्थापत्तिसे जाना जाता है । निद्रा, असातावेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दण्डकोंकी प्ररूपणा ओघके समान है । उसके

ओघभंगो । सो वि चितिय एत्थ वत्तव्वो ।

पुरिसवेदे ओघं ॥ १९२ ॥

एसो पुरिसवेदग्गिदेसो जेण देसामासियो तेण पुरिसवेददंडय-माणदंडय-लोहदंडयाणं गहणं । जहा एदेसिं' दंडयाणमोघम्मि परूवणा कदा तहा एत्थ वि कायव्वा । णवरि पच्चयविसेसो जाणिय वत्तव्वो ।

हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओघं ॥ १९३ ॥

हस्स-रदिसुत्तमदिं कादूण जाव तित्थयरसुत्तं ति ताव एदेसिं' सुत्ताणमोघपरूवण-मवहारिय परूवेदव्वं ।

माणकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-तिण्णिसंजलण-जसकित्ति-उच्चगोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ १९४ ॥

सुगमं ।

भी विचार कर यहां कहना चाहिये ।

पुरुषवेदकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९२ ॥

यह पुरुषवेद पदका निर्देश चूंकि देशामर्शक है, अतः इससे पुरुषवेददण्डक, मानदण्डक और लोभदण्डकका ग्रहण करना चाहिये । जिस प्रकार इन दण्डकोंकी ओघमें प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये । विशेष इतना है कि प्रत्ययभेद जानकर कहना चाहिये ।

हास्य व रतिसे लेकर तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ १९३ ॥

हास्य-रति सूत्रको आदि करके तीर्थकर सूत्र तक इन सूत्रोंकी ओघप्ररूपणाका निश्चय कर प्ररूपणा करना चाहिये ।

मानकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, तीन संज्वलन, यशक्रीति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका कौन वन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १९४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

१ प्रतिपु ' एदासि ' इति पाठ ।

२ अ-आप्रत्ययो ' जाणिव्वो ' इति पाठ ।

मिच्छाद्विष्णुहृदि जाव अणियद्वि उवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अवंधा णत्थि ॥ १९५ ॥

कोधसंजलणमेत्थ एदाहि सह किण्ण परूविदं ? ण, तस्स माणसंजलणबंधादो पुव्वमेव वोच्छिण्णबंधस्स माणादीहि बंधद्धानं णडि पच्चासच्चैए अभावादो । एदस्स सुत्तस्स परूवणाए कोधबंधो । णवरि माणस्स सोदओ, अण्णेसिं कसायाणं परोदओ बंधो । पच्चएसु माणकसायं मोत्तूण सेसकसाया अवणेदव्वा । सेसं जाणिय वत्तव्वं ।

वेड्डाणि जाव पुरिसवेद-कोधसंजलगाणमोघं ॥ १९६ ॥

वेड्डाणि ति वुत्ते वेड्डाणिय-णिदा-असादं-मिच्छत-अचक्खाण-पच्चक्खाणदंडया धेत्तव्वा, देसामासियत्तादो । पुरिसवेद-कोधसंजलणे ति वुत्ते तस्स एकस्सेव सुत्तस्स गहणं कायव्वं । एदेसिं सुत्ताणमोघपरूवणमनहारिय वत्तव्वं ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपशमक व क्षयक तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ १९५ ॥

शंका—यहां इन प्रकृतियोंके साथ संज्वलन क्रोधकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संज्वलनमानके बन्धसे उसका बन्ध पूर्वमें ही व्युच्छिन्न हो जाता है, अत एव मानादिकोंके साथ बन्धाध्वानके प्रति उसकी प्रत्यासत्तिका अभाव है । इसी कारण उसकी प्ररूपणा यहां नहीं की गई है ।

इस सूत्रकी प्ररूपणा क्रोधके समान है । विशेष इतना है कि मानका स्वेदय और अन्य कपार्योंका परोदय बन्ध होता है । प्रत्यर्थोंमें मानकपायको छोड़कर शेष कपार्योंको कम करना चाहिये । शेष प्ररूपणा जानकर कहना चाहिये ।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंको लेकर पुरुषवेद और संज्वलनक्रोध तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ १९६ ॥

‘द्विस्थानिक’ ऐसा कहनेपर द्विस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानानावरण और प्रत्याख्यानावरण दण्डकोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यह देशामशोक पद है । पुरुषवेद व संज्वलनक्रोध, ऐसा कहनेपर उस एक ही सूत्रका ग्रहण करना चाहिये । इन सूत्रोंकी ओघप्ररूपणाका निश्चय कर व्याख्यान करना चाहिये ।

हस-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओघं ॥ १९७ ॥

सुगममेदं, बहुसो परूविदत्थत्तादो ।

मायकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-
दोणिसंजलण-जसकित्ति-उच्चगोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को
अवंधो ? ॥ १९८ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठी उवसमा खवा वंधा । एदे
वंधा, अवंधा णत्थि ॥ १९९ ॥

एदं पि सुत्तं सुगमं ।

वेट्ठाणि जाव माणसंजलणे त्ति ओघं ॥ २०० ॥

वेट्ठाणि-णिद्दासादेगैट्ठाण-अपच्चक्खाण-पच्चक्खाण-पुरिस-कोध-माणसुत्ताणमोघपरू-
वणमवहारिय परूवेदव्वं ।

हास्य व रतिसे लेकर तीर्थकर तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ १९७ ॥

यह सूत्र सुगम है. क्योंकि. इसके अर्थकी बहुत धार प्ररूपणा की जा चुकी है ।

मायाकषायी जीवमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, दो
संजलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक
है ? ॥ १९८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनितृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । ये बन्धक
हैं, अवन्धक कोई नहीं हैं ॥ १९९ ॥

यह भी सूत्र सुगम है ।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंको लेकर संजलनमान तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ २०० ॥

द्विस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान,
पुरुषवेद. क्रोध और मान सुत्रोंकी ओघप्ररूपणाका निश्चय कर प्ररूपणा करना चाहिये ।

हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओघं ॥ २०१ ॥

सुगममेदं ।

लोभकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-
जसकित्ति-उच्चवागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥२०२॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा ।
एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २०३ ॥

एदं सुगमं ।

सेसं जाव तित्थयरे त्ति ओघं ॥ २०४ ॥

सुगमं ।

अकसाईसु सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥१०५॥

सुगमं ।

हास्य व रतिसे लेकर तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ २०१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

लोभकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, यशकीर्ति,
उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २०२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्प्रायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । ये बन्धक
हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ २०३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तीर्थकर प्रकृति तक शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २०४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अकषायी जीवोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥२०५॥

यह सूत्र सुगम है ।

उवसंतकसायवीदरागछद्दुमत्था खीणकसायवीदरागछद्दुमत्था
सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो
वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २०६ ॥

एदस्स अत्थो । तं जहा — सादावेदणीयस्स' पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो,
सजोगि-अजोगिकेवलीसु कमेण वंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदओ, उमयहा वि बंध-
विरोहादो । णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । उवसंत-खीणकसाएसु णव जोगपचया ।
सजोगीसु सत्त । अगइसंजुतो बंधो । मणुसा सामी । सादि-अद्दुवो बंधो, अद्दुवबंधितादो ।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु पंच-
णाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-अट्टणोकसाय-
तिरिक्खाउ-मणुसाउ-देवाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदिय-
जादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसररि-पंचसंठाण-ओरालिय-

उपशान्तकषाय वीतरागछद्मस्थ, क्षीणकषाय वीतरागछद्मस्थ और सयोगकेवली
बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये
बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २०६ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है — सातावेदनीयका पूर्वमे बन्ध
और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें
क्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । उसका खोदय-परोदय बन्ध होता
है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उसके बन्धका विरोध नहीं है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका यहां अभाव है । उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय जीवोंमें नौ
योग प्रत्यय तथा सयोगी जिनोंमें सात है । अगतिसंयुक्त बन्ध होता है । मनुष्य स्वामी है ।
सादि व श्शुच बन्ध होता है, क्योंकि, वह श्शुचबन्धी है ।

ज्ञानमार्गणके अनुसार मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच
ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, आठ चोकषाय,
तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु, तिर्यगगति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक,
वैक्रियिक, तैजस व कर्मण शरीर, पांच संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक शरीरांगोपांग, पांच

१ अप्रती 'सादासादवेदणीयस्स', आप्रती 'सादासादयस्स' इति पाठ ।

२ प्रतिपु 'वधविरोहादो' इति पाठः ।

वेउव्वियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगइ-
मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुच्ची-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-
उस्सास-उज्जोव-दोविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-
सुहासुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-
अजसकित्ति-णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?
॥ २०७ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि
॥ २०८ ॥

एत्थ उदयादो बंधो पुवं पच्छा वा वोच्छिज्जदि त्ति विचारो णत्थि, एदासिं पयडीणं
बंधोदयवोच्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-
फास-अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, ध्रुवोदयत्तादो ।
देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुच्चीणं परोदओ बंधो,

संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गति, मनुष्यगति व देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु,
उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर,
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति,
अयशकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ २०७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं
हैं ॥ २०८ ॥

यहां उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है,
क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्ध व उदयके व्युच्छेदका यहां अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध,
रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका
स्वादय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । देवायु, देवगति, वैक्रियिकशरीर,
वैक्रियिकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्विका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन

एदासिं बंधोदयाणमक्कमेण वुत्तिविरोहादो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-
अट्टणोकसाय-तिरिक्ख-मणुसाउ-तिरिक्ख-मणुसगइ-ओरालियसरीर-पंचसंठाण-ओरालियसरीर-
अंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्ख-मणुसगइपाओग्गाणुपुवी-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोव-
दोविहायगइ-पतेयसरीर-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकिति-अजसकिति-
णीचागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो, दोहिं वि पयारेहि बंधविरोहाभावादो । पंचिंदिय-तस-
बादर-पज्जताणं मदि-सुदअण्णाणिमिच्छइड्डीसु सोदय-परोदओ बंधो । सासणसम्माइड्डीसु सोदओ
चेव, एदासिं षड्विक्खपयडीणं तत्थुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुस-देवाउ-
तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो
बंधो, एगसमइयबंधाणुवलंभादो । सादासाद-पंचणोकसाय-पंचसंठाण-पंचसंघडण-उज्जोव-
अप्पसत्यविहायगइ-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकिरीणं सांतरो बंधो, एग-

प्रकृतियोंके बन्ध व उदयके एक साथ रहनेका विरोध है । पांच दर्शनावरणीय, साता व
असाता वेदनीय, सोलह कषाय, आठ नोकणय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति,
औदारिकशरीर, पांच संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यग्गति व
मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगतियां,
प्रत्येकशरीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और
नीचगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारोंसे उनके बन्ध होनेमें
कोई विरोध नहीं है । पंचेन्द्रियजाति, अस, बादर और पर्याप्तका मति व ध्रुत अज्ञानी
मिथ्यादृष्टियोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें स्वोदय ही बन्ध
होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वहां उदयाभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगायु,
मनुष्यायु, देवायु, तैजस व कामर्ण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात,
निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समयिक बन्ध
नहीं पाया जाता । साता व असाता वेदनीय, पांच नोकषाय, पांच संस्थान, पांच संहनन,
उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और
यशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम देखना

१ प्रतिषु ' हि दोहि ' इति पाठः ।

२ अप्रतौ ' सुस्वर ' इति पाठः ।

समएण वि एदासिं बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेदस्स सांतर-णिरंतरो । कुदो णिरंतरो ? पम्म-सुक्क-लेस्सियतिरिक्ख-मणुसमिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु पुरिसवेदस्स णिरंतरबंधुवलंभादो । मणुस-गइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सांतर-णिरंतरो बंधो । होदु सांतरो, कुदो णिरंतरो ? ण, सुक्कलेस्सियमिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्ढिदेवाणं णिरंतरबंधुवलंभादो । ओरालियसरीरअंगो-वंगणं सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो ? ण, णेरइएसु सणक्कुमारादिदेवेषु च णिरंतर-बंधुवलंभादो । देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग देवगइपाओग्गाणु-पुव्वि-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्स-आदेज्ज-उच्चगोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कधं णिरंतरो ? ण, असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुसमिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सिय-संखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुसमिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । परघा-

जाता है । पुरुषवेदका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे सम्भव है ?

समाधान—क्योंकि, पद्म और शुक्ल लेख्यावाले तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—इनका सान्तर बन्ध भले ही हो, पर निरन्तर बन्ध कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, शुक्ललेख्यावाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

औदारिकशरीर और औदारिकशरीरान्गोपांगका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नारकियों तथा सनकुमारादि देवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरान्गोपांग, देवगतिप्रायो-ग्यानुपूर्विका, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? नहीं, क्योंकि, असंख्यात वर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियों तथा तेज, पद्म व शुक्ल लेख्यावाले संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध

दुस्सास-तस-वाद्र-पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइड्ढिमिह वंधो सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? देव-णेरइएसु असंखेच्चवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिड्डीसु णिरंतरो, तत्थ पडिक्खपयडिबंधाभावादो परघादुस्सासबंधविरोहिअपञ्जत्तस्स बंधाभावादो च । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गणुपुव्वि-णीचागोदाणं पि बंधो सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउकाइयमिच्छाइड्डीसु सत्तमपुढविमिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्डीसु च णिरंतर-बंधुवलंभादो ।

पच्चया सुगमा, ओधपच्चएहिंतो भेदाभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्ख-गइपाओग्गणुपुव्वि-उज्जोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइ-पाओग्गणुपुव्वीणं मणुगइसंजुत्तो बंधो । देवाउ- [देवगइ-] देवगइपाओग्गणु-पुव्वीणं देवगइसंजुत्तो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंठाण-पंचसंघडणाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णगईहि बंधविरोहादो । णवरि समचउरससंठाणस्स तिगइ-संजुत्तो, णिरयगईए अभावादो । वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगणां मिच्छाइड्ढिमिह देव-गइ-णिरयगइसंजुत्तो । सासणे देवगइसंजुत्तो । सादवेदणीय-इत्थि-पुरिस-इस्स-रदि-पसत्थविहाय-

पाया जाता है । परघात, उच्छ्वास, त्रस, वाद्र, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है । निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? क्योंकि, देव-नारकियों और असंख्यातचर्पायुक्त तिर्यञ्च व मनुष्योंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है, तथा परघात और उच्छ्वासके बन्धके विरोधी अपर्याप्तके भी बन्धका अभाव है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भी बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है । निरन्तर बन्ध कैसे होता है ? नहीं, क्योंकि, तेज व वायु कायिक मिथ्यादृष्टियों तथा सप्तम पृथिवीके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है । तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतका तिर्यग्गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । देवायु, [देवगति] और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संस्थान और पांच संहननका तिर्यञ्च व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्धका विरोध है । विशेष इतना है कि समचतुरस्रसंस्थानका तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगतिके साथ उसके बन्धका अभाव है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक-शरीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें देवगति व नरकगतिसे संयुक्त, तथा सासादन गुणस्थानमें देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । साताविदनीय, स्त्रीविद, पुरुषवेद, हास्य,

गइ-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकितीणं तिगइसंजुत्तो बंधो, गिरयगईए अभावादो । अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं तिगइसंजुत्तो बंधो, देवगईए अभावादो । णवरि सासणे तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । उच्चगोदस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णगईहि विरोहादो । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-असादावेदणीय-सोलसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्लुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-वादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-अजसकित्ति-णिमिण पंचंतराइयाणं मिच्छ-इड्ढिम्हि चउगइसंजुत्तो बंधो । सासणे तिगइसंजुत्तो, गिरयगईए अभावादो ।

देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वीणं बंधस्स तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिट्ठिणो सामी । अवसेसाणं चउगइया । बंधद्धाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अबंधा णत्थि' ति सुत्तुहिट्ठत्तादो । धुवबंधीणं मिच्छाइड्ढिम्हि बंधो चउव्विहो । सासणे तिविहो, धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो । एवमेसा मदि-सुदअण्णाणीणं परूवणा कदा ।

रति, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, और यशकीर्तिका तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगतिके साथ इनके बन्धका अभाव है । अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिके साथ उसके बन्धका अभाव है । विशेषता इतनी है कि सासादन गुणस्थानमें तिर्यग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । उच्चगोत्रका देवगति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है । पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, असातावेदनीय, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, -वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगतिके साथ इस गुणस्थानमें उनके बन्धका अभाव है ।

देवायु, देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरंगोपांग और देवगतिप्रायोभ्याउ-पूर्वके बन्धके तिर्यच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धके चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद है नहीं, क्योंकि, वह 'अबन्धक नहीं है' इस प्रकार सूत्रोक्त ही है । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है । सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, चहां ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं । इस प्रकार यह मति-श्रुत अज्ञानियोंकी प्ररूपणा की गई है ।

विभंगणाणीणं पि एवं चैव वत्तव्वं, विसेसाभावादो । णवरि उवघाद-परघाद-उत्सास-पतेयसरिराणं सोदओ वंधो, अउज्जत्तकाले विभंगणाणाभावादो । तस-वादर-पज्जत्ताणं मिच्छा-इड्ढिहि सोदओ वंधो, थावर-सुहुम-अपज्जत्तएसु विभंगणाणाभावादो । तिण्णमाणुपुच्चीणं वंधो परोदओ, अपज्जत्तकाले विभंगणाणाभावादो । पच्चएसु^१ ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्म-इयपच्चया अवणेदव्वा, विभंगणाणस्स अपज्जत्तकालेण सह विरोहादो । अण्णो वि जइ अत्थि भेदो^२ सो संमालिय वत्तव्वो ।

एकदृग्णी ओघं ॥ २०९ ॥

मिच्छत्त-णत्तंसयवेद-णिरयाउ णिरयगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्वसंधण-णिरयाणुपुवी-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणमेक-द्वानिसण्णा, एककमिह चैव मिच्छाइड्ढिगुणद्वाने^३ वंधसरूत्तेण अवद्वानादो । एदासिं परूवणा ओघतुल्ला । णवरि विभंगणाणीसु एइंदिय-वेइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-आदाव-थावर-

विभंगज्ञानियोंके भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, मति-श्रुत अज्ञानियोंसे इनके कोई विशेषता नहीं है । भेद केवल इतना है कि उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येक-शरीर, इनका स्वेद्य बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें विभंगज्ञानका अभाव है । अस, वादर और पर्याप्तका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वेद्य बन्ध होता है, क्योंकि, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्तकालमें विभंगज्ञानका अभाव है । तीन आनुपूर्वी नामकर्मोंका बन्ध परोद्य होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें विभंगज्ञानका अभाव है । प्रत्ययोंमें औदारिकमिश्र, वैक्रियकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, विभंगज्ञानका अपर्याप्तकालके साथ विरोध है । और भी यदि कोई भेद है तो उसको स्मरणकर कहना चाहिये ।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २०९॥

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, नारकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनकी एकस्थानिक संज्ञा है, क्योंकि, एक ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें इनका बन्ध स्वरूपसे अवस्थान है । इनकी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेषता यह है कि विभंगज्ञानियोंमें एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय

१ अ-आप्रलो: ' पचह एसु ', काप्रतौ ' एसु पचह ' इति पाठः ।

२ अप्रतौ ' इत्थि भेदो ', आ-काप्रसो. ' इत्थि वेदो ' इति पाठः ।

३ प्रतिद्व ' मिच्छाइड्ढीसु गुणद्वाने ' इति पाठः ।

सुहुम-अपञ्जत-साहारण-गिरयाणुपुव्वीणं परोदओ वंधो, एदेसु विभंगणाणीणमभावादे ।
सेसं सुगमं ।

आभिणिवोहिय-सुद-ओहिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणा-
वरणीय-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ?
॥ २१० ॥

एदं सुगमं ।

असंजदसम्माइट्ठिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा
बंधा । सुहुमसांपराइयअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।
एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २११ ॥

एदासिमुदयादो बंधो पुव्वं वोच्छिण्णो, वंधे वोच्छिण्णे संते वि पच्छा उदयदंसणादो ।
पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ वंधो । जसकित्तीए असंजदसम्मा-
दिट्ठिभिह सोदय-परोदओ, पडिवक्खुदयदंसणादो । उवरि सोदओ चव, पडिवक्खुदयाभावादे ।

जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और नारकानुपूर्वीका परोदय बन्ध
होता है, क्योंकि, इनमें विभंगज्ञानी जीवोंका अभाव है । शेष प्ररूपणा सुगम है ।

आभिनिचोधिक, श्रुत और अवधि ज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञाणावरणीय, चार दर्शना-
वरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक
है ? ॥ २१० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं ।
सूक्ष्मसाम्परायिककालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष
अबन्धक हैं ॥ २११ ॥

इन प्रकृतियोंका बन्ध उदयसे पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, बन्धके व्युच्छिन्न
हो जानेपर भी पीछे इनका उदय देखा जाता है । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय
और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है । यशकीर्तिका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें
स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय देखा जाता
है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है ।

१ प्रतिपु ' साहारणा ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' सेस ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' जाव सुहुमसांपराइयअद्धाए ' इति पाठः ।

उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदेसु सोदय-परोदओ, पडिवक्खुदयदंसणादो । उवरि सोदओ चैव ।

पंचाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-उच्चाभोद-पंचंतराड्याणं णिरंतरो बंधो, एत्थ बंधुवरमाभावादो । असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ताव जसक्कित्तीए बंधो सांतरो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्ख मयडिबंधाभावादो । पच्चया सुगमा । असंजदसम्मा-दिट्ठीणं देव-मणुसगइसंजुतो । उवरिमेसु देवगइसंजुतो । चटुगइअसंजदसम्मादिट्ठी, दुगइ-संजदासंजदा सामी । उवरिमा मणुसा चैव । बंधद्धानं बंधवोच्छिण्णट्ठाणं च सुगमं । धुव-बंधीणं तिविहो बंधो, धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

णिद्दा पयला य ओघं ॥ २१२ ॥

णवरि 'असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि' जाव भणिदव्वं' । ओघम्मि 'मिच्छाइट्ठिप्पहुडि' त्ति वुत्तं; एत्थ पुण असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि त्ति वत्तव्वं, सण्णाणस्स हेट्ठिमगुणट्ठाणेसु अभावादो ।

उच्चगोत्रका असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणस्थानोंमें स्वेदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय देखा जाता है । ऊपर उसका स्वेदय ही बन्ध होता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके बन्धविश्रामका अभाव है । असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक यशक्रीलिका बन्ध सान्तर होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । असंयतसम्यग्दष्टियोंके देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । उपरिम जीवोंके देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दष्टि और दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं । वन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम है । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

निद्रा और प्रचलाकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २१२ ॥

विशेषता केवल यह है कि 'असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर' कहना चाहिये । ओघमें 'मिथ्यादष्टिसे लेकर' ऐसा कहा गया है, परंतु यहां 'असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर' कहना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंमें सम्यग्ज्ञानका अभाव है । इतना ही यहां

एत्तिओ चेव विसैसो, णत्थि अणत्थ कत्थ वि ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २१३ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था
बंधा ! एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २१४ ॥

सादावेदणीयस्स बंधो उदयादो पुर्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णत्थि, एत्थ बंधोदयाणं वोच्छेदाभावादो । सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवोदयत्तादो, असंजदसम्मादिट्ठि-प्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति बंधो सांतरो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । पच्चया सुगमा । असंजदसम्मादिट्ठो देव-मणुसगइसंजुत्तं; उवरिमा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च बंधंति, साहावियादो । चउगइअसंजदसम्मादिट्ठिणो, दुगइसंजदासंजदा सामी । उवरि मणुसा चेव । बंधद्वाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अबंधा णत्थि' ति सुत्तुहिड्ढत्तादो । सादि-अद्भुवो बंधो, अद्भुवबंधित्तादो ।

विशेष है, अन्यत्र कहीं भी और कुछ विशेषता नहीं है ।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणकसायवीतरागछदुमस्थ तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २१४ ॥

सातावेदनीयका बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, यहाँ उसके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है । स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अद्भुवोदयी है । असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक उसका बन्ध सान्तर होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । असंयतसम्यग्दृष्टि जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं; उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त और अगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि और दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, वह 'अबन्धक नहीं हैं' इस प्रकार सूत्रमें ही निर्दिष्ट है । सादि व अद्भुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अद्भुवबन्धी है ।

सेसमोधं जाव तित्थयरे त्ति । णवरि असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि
त्ति भाणिदब्बं ॥ २१५ ॥

एदस्स अत्थो जदि वि सुगमो तो वि सण्णाणपक्खवाएणाक्खित्तचित्तो दुम्मेहजणाणु-
ग्गहट्ठं च पुणरवि परूवेमि — असादावेदणीयस्स पुब्बं वंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदो णत्थि,
केवल्लणाणीसु वि तद्दुदयदंसणादो । एवमथिरासुहाणं पि वत्तव्वं । अरदि-सोगाणं पुब्बं वंधो
पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, पमत्तापुच्चेसु वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । अजसकित्तीए पुब्बमुदओ
पच्छा वंधो वोच्छिण्णो, पमत्तासंजदसम्मादिट्ठीसु वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । असादावेदणीय-
अरदि-सोगाणं वंधो सोदय-परोदओ, अद्दुवोदयत्तादो । अथिरासुहाणं सोदओ, धुवोदयत्तादो ।
अजसकित्तीए असंजदसम्मादिट्ठिम्हि वंधो सोदय-परोदओ । उवरि परोदओ चेव । एदासिं
पयडीणं सञ्चासिं पि वंधो सांतरो, एगसमएण वि वंशुवरमदंसणादो । पच्चया सुगमा ।
असंजदसम्मादिट्ठिम्हि सव्वपयडीणं दुगइसंजुत्तो, उवरिमाणं देवगइसंजुत्तो वंधो । चउगइ-
असंजदसम्मादिट्ठी दुगइसंजदामंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि

शेष प्ररूपणा तीर्थकर प्रकृति तक ओषके समान है । विशेषता केवल इतनी है कि
' असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर ' ऐसा कहना चाहिये ॥ २१५ ॥

इस सूत्रका अर्थ यद्यपि सुगम है तो भी सम्यग्ज्ञानके पक्षपातसे आक्षिप्तचित्त
अर्थात् आकृष्ट होकर और दुर्बुद्धि जनोके अनुग्रहार्थ फिरसे भी प्ररूपणा करते हैं—
असातावेदनीयका पूर्वमें बन्ध व्युत्तिष्ठन्न होता है । उदयव्युच्छेद उसका नहीं है, क्योंकि,
केवल्लनानियोमें भी उसका उदय देखा जाता है । इसी प्रकार अस्थिर और अशुभके भी
कहना चाहिये । अरति व शोकका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युत्तिष्ठन्न होता है,
क्योंकि, प्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया
जाता है । अयशकीर्तिका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युत्तिष्ठन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त
और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता
है । असातावेदनीय, अरति और शोकका बन्ध स्रोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे
अधुवोदयी हैं । अस्थिर और अशुभका स्रोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं ।
अयशकीर्तिका बन्ध असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें स्रोदय-परोदय होता है । ऊपर उसका
परोदय ही बन्ध होता है । इन सब ही प्रकृतियोंका बन्ध सात्तर होता है, क्योंकि, एक
समयसे भी उनका बन्धविश्रान देखा जाता है । प्रत्यय सुगम हैं । असंयतसम्यग्दष्टि
गुणस्थानमें सब प्रकृतियोंका दो गतियोंसे संयुक्त तथा उपरिम जीवोंके देवगतिसे संयुक्त
बन्ध होता है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, और
मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धाध्वान

जाव पमत्तसंजदो ति बंधद्धानं । पमत्तसंजदम्मि बंधवोच्छेदो । एदासिं बंधो सादि-अद्दुवो ।

अपच्चक्खाणावरणचउक्क-मणुसगइ-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायण-सरीरसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीओ एककम्हि असंजदसम्मादिडिगुणहाणे चञ्जति ति एदासिमेत्थ एगहाणसण्णा । एत्थ अपच्चक्खाणचउक्क-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं बंधोदया समं वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिट्ठिं मोत्तूणुवरिं' बंधुदयाणुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीण-मेत्थ खओवसमियणाणमग्गाए बंधोवोच्छेदो चैव, उदयवोच्छेदो णत्थि, केवलणाणीसु वि उदयदंसणादो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स बंधो सोदय-परोदओ, अद्दुवोदयत्तादो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं बंधो परोदओ, सम्मादिट्ठीसु एदासिं सोदएण बंधस्स विरोहादो । णिरंतरो बंधो, असंजदसम्मादिट्ठिम्हि एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुग्गा । णुवरि मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणमसंजदसम्मादिट्ठिम्हि ओरालियकायजोग-ओरालियमिस्सकायजोगपच्चया णत्थि, तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिट्ठीसु एदासिं बंधाभावादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो बंधो । अण्णासिं पयडीणं मणुस-

है । प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें बन्धव्युच्छेद होता है । इन प्रकृतियोंका बन्ध सादि और अद्भुव होता है ।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभवज्रनाराचशरीरसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, ये प्रकृतियां एक असंयत-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बंधती हैं, अत एव इनकी यहां एकस्थान संज्ञा है । यहां अप्रत्याख्यान-चतुष्क और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानको छोड़कर उपरिम गुणस्थानोंमें इनका बन्ध और उदय नहीं पाया जाता । शेष प्रकृतियोंका यहां क्षायोपशमिक ज्ञानमार्गणामें बन्धव्युच्छेद ही है, उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, केवलज्ञानियोंमें भी उनका उदय देखा जाता है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वह अद्भुवोदयी है । मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्रर्षभसंहननका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, सम्यग्दृष्टियोंमें इनके स्वोदयसे बन्धका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें एक समयसे बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुग्ग है । विशेषता इतनी है कि मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्रर्षभवज्रनाराचशरीरसंहननके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिक और औदारिकमिश्र काययोग प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें इनके बन्धका अभाव है । अप्रत्याख्यान-चतुष्कका देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा अन्य प्रकृतियोंका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध

गइसंजुतो, अण्णगईहि सह विरोहादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स चउगइअसंजदसम्माइड्डी
सामी । अवसेसाणं पयडीणं देव-णेरइया सामी । वंधद्धानं पात्थि, एककम्हि गुणङ्काणे भूओगुण-
ङ्काणजणियद्धानविरोहादो । असंजदसम्मादिड्ढिम्हि वंधो वोच्छिज्जदि । अपच्चक्खाणचउक्कस्स
तिविहो वंधो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्दुवो ।

पच्चक्खाणावरणचउक्कमेत्थ वेङ्काणियमसंजदसम्मादिड्ढि-संजदासंजददोगुणङ्काणेसु
समं चेव वंधुवलंभादो । वंधोदया समं वोच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि तदुभयाभावदंसणादो ।
सोदय-परोदओ वंधो, धुवोदयत्तादो । णिरंतरो वंधो, धुवबंधितादो । पच्चया सुगमा ।
असंजदसम्मादिड्डीसु देव-मणुसगइसंजुतो । संजदासंजदेसु देवगइसंजुतो । चउगइअसंजद-
सम्मादिड्डी दुगइसंजदासंजदा सानी । असंजदसम्मादिड्ढिप्पहुडि जाव संजदासंजदो त्ति
बंधद्धानं । संजदासंजदम्मि वंधो वोच्छिज्जदि । दोसु वि गुणङ्काणेसु तिविहो वंधो,
धुवाभावादो ।

पुरिसिवेद-चउसंजलण-हस्स-रदि-मय-दुगुंछाणं सोदय-परोदओ वंधो । सांतर-णिरंतर-

होता है, क्योंकि. अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका विरोध है । अप्रत्याख्यानचतुष्कके
चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं ।
बन्धाध्वान नहीं है. क्योंकि, एक गुणस्थानमें बहुत गुणस्थान जनित अध्वानका विरोध
है । असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । अप्रत्याख्यानचतुष्कका तीन
प्रकारका बन्ध होता है. क्योंकि, उसके ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व
अध्रुव बन्ध होता है ।

प्रत्याख्यानवरणचतुष्क यहां द्विस्थानिक है. क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि और
संयतासंयत इन दो गुणस्थानोंमें समान ही बन्ध पाया जाता है । बन्ध और उदय दोनों
साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा
जाता है । सोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवोदयी है । निरन्तर बन्ध होता
है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है । प्रत्यय सुगम हैं । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें देव व मनुष्य गतिसे
संयुक्त तथा संयतासंयतोंमें देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । चारों गतियोंके असंयत-
सम्यग्दृष्टि और दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर संयता-
संयत तक बन्धाध्वान है । संयतासंयत गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । दोनों ही
गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है ।

पुरुषवेद, चार संज्वलन, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका सोदय-परोदय बन्ध

पच्चय-गइसंजोग-सामित्तद्धान-बंधवियप्पा जाणिय वत्तन्वा' ।

मणुसाउअस्स पुन्नावरकालसंबंधिबंधोदयपरिक्खा सुगमा । परोदओ बंधो, मणुसाउ-बंधोदयाणमसंजदसम्मादिट्ठिम्हि अक्कमेण वुत्तिविरोहादो । गिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । चाएत्तालीस पच्चया, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । मणुसगइसंजुत्तो बंधो । देव-णेरइया सामी । बंधद्धानं णत्थि, एकक्कम्हि गुणट्ठोणे अद्धानविरोहादो । असंजदसम्मादिट्ठिम्हि बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

देवाउअस्स पुव्वसुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, अप्पमत्तसंजदसम्मादिट्ठीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । परोदओ, सोदएण बंधविरोहादो । गिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया ओधतुल्ला । देवगइसंजुत्तो बंधो । तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मा-दिट्ठि-संजदासंजदा मणुससंजदा च सामी, अण्णत्थ बंधाणुवलंभादो । असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा त्ति बंधद्धानं । अप्पमत्तसंजदद्दाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो

होता है । सान्तर-निरन्तरता, प्रत्यय, गतिसंयोग, स्वामित्व, अध्वान और बन्धविकल्प, इनको जानकर कहना चाहिये ।

मनुष्यायुके पूर्वापर काल सम्बन्धी बन्ध और उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा सुगम है । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, मनुष्यायुके बन्ध और उदयके असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें एक साथ अस्तित्वका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है । ध्यालीस प्रत्यय है, क्योंकि, औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका अभाव है । मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । देव व नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है ।

देवायुका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे उसके बन्धका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्गृहीतके बिना उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय ओघके समान हैं । देव-गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तिर्यंच व मनुष्य असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत, तथा मनुष्य संयत स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उसका बन्ध पाया नहीं जाता । असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धाध्वान है । अप्रमत्तसंयतकालके संब्यातवै भाग जाकर बन्ध

वोच्छिञ्जदि । सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामाणं वुच्चदे— देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंगणं पुव्वसुदओ पच्छा वंधो वोच्छिञ्जदि, अपुव्वासंजदसम्मादिट्ठीसु वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । अवसेसतेवीसपयडीणं एत्थु-दयवोच्छेदो णत्थि, वंधवोच्छेदो चेव; केवलणाणीसु उदयवोच्छेदुवलंभादो ।

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं सच्चगुणट्ठाणेसु परोदओ वंधो, एदासिसुदयवंधाणमक्कमेण वुत्तिविरोहादो । पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-वादर-पज्जत्त-थिर-सुभ-णिमिणणं सोदओ वंधो । समचउरससंठाण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेय-सरीराणमसंजदसम्मादिट्ठिण्हि सोदय-परोदओ वंधो । उवरीमेसु गुणट्ठाणेसु सोदओ चेव, तेसिमपज्जत्तद्वाए अभावादो । णवरि समचउरससंठाणस्स सच्चगुणट्ठाणेसु सोदय-परोदओ वंधो । पसत्थविहायगइ-सुस्सरणं सच्चगुणट्ठाणेसु सोदय-परोदओ वंधो । सुभग-आदेज्जाणं

व्युच्छिन्न होता है । सादि व अद्भव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अद्भवबन्धी है ।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस व कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण नामकमौकी प्ररूपणा करते हैं— देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरंगोपांगका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमशः उनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । शेष तेईस प्रकृतियोंका यहाँ उदयव्युच्छेद नहीं है, केवल बन्ध-व्युच्छेद ही है, क्योंकि, केवलज्ञानियोंमें उनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है ।

देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका सब गुणस्थानोंमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके उदय और बन्धके एक साथ रहनेका विरोध है । पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और निर्माणका स्वोदय बन्ध होता है । समचतुरस्रसंस्थान, उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है । उपरिम गुणस्थानोंमें उनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपर्याप्तकालका अभाव है । विशेष इतना है कि समचतुरस्रसंस्थानका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । प्रशस्तविहायोगति और सुस्वरका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । सुभग और आदेयका

असंजदसम्मादिट्ठिग्घि सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चैव, पडिवक्खुदयाभावादे ।

थिर-सुभाणमसंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा त्ति सांतरो बंधो । उवरि गिरंतरो । अवसेसाणं पयडीणं सच्चगुणहाणेषु बंधो गिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादे ।

देवगइ-वेउच्चियदुगाणं वेउच्चिय-वेउच्चियमिस्सपच्चया असंजदसम्मादिट्ठिमि अवणे-दव्वा । सेसपयडीणं पच्चया ओघतुल्ला । देवगइ-वेउच्चियदुगाणं बंधो सच्चगुणहाणेषु देवगइ-संजुत्तो । अवसेसाणं पयडीणं' बंधो असंजदसम्मादिट्ठिग्घि देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवरिमेसु गुण-हाणेषु देवगइसंजुत्तो । देवगइ-वेउच्चियदुगाणं दुगइअसंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदा मणुसगइ-संजदा सामी । सेसाणं पयडीणं चउगइअसंजदसम्मादिट्ठिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अपुच्चकरणे त्ति बंधद्धाणं । अपुच्चकरणद्धाप संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । णिमिणस्स तिविहो बंधो, धुवाभावादे । अवसेसाणं बंधो सादि-अद्दुवो ।

आहारदुग-तित्थयराणमोघपरूवणमवहारिय माणिदच्चं ।

असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है ।

स्थिर और शुभका असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सब गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

देवगति और वैकिकधिकदिकके वैकिकिक और वैकिकिकमिश्र काययोगप्रत्ययोंको असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें कम करना चाहिये । शेष प्रकृतियोंके प्रत्यय ओघके समान हैं । देवगतिदिक और वैकिकिकदिकका बन्ध सब गुणस्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त होता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है । उपरिम गुणस्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । देवगतिदिक और वैकिकिकदिकके दो गतियोंके असंयतसम्यग्दष्टि व संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है । अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । निर्माण नामकर्मका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उसका ध्रुव बन्ध नहीं होता । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है ।

आहारकदिक और तीर्थकर प्रकृतिकी प्ररूपणा ओघप्ररूपणाका निर्णय करके करना चाहिये ।

मणपज्जवणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसकित्ति-
उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २१६ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा ।
सुहुमसांपराइयसंजदद्वाए चरिमसममं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।
एदं बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २१७ ॥

एत्थ एदासिं पयडीणं मदिणाणमग्गणाए पमत्तसंजदप्पहुडिगुणङ्गणेसु जघा परूवणा
कदा तथा परूवेदव्वा । णवरि एत्थ सच्चत्थित्थि-णउंसयवेदपच्चया अवणेदव्वा, अप्पसत्थ-
वेदोदइल्लाण मणपज्जवणाणाणुप्पत्तीदो । पमत्तपच्चएसु आहारदुगमवणदेव्वं, मणपज्जवणाणस्स
आहारसरीरदुगोदएण सह विरोहादो । पुरिसवेदस्स सोदओ बंधो । एवमणो वि विसैसो
जदि अत्थि सो संभरिय वत्तवो ।

णिहा-पयलाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २१८ ॥

मनःपर्ययज्ञाना जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र
और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २१६ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयतसे लेकर सूक्ष्मसाम्प्रायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । सूक्ष्म-
साम्प्रायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं,
शेष अवन्धक हैं ॥ २१७ ॥

यहां इन प्रकृतियोंकी मतिज्ञानमार्गणामें प्रमत्तसंयतादिक गुणस्थानोंमें जैसे
प्ररूपणा की गई है वैसे प्ररूपणा करना चाहिये । विदोष इतना है कि यहां सर्वत्र त्वविद
और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीवोंके
मन-पर्ययज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती । प्रमत्तसंयत गुणस्थान सम्बन्धी प्रत्ययोंमें आहारक-
द्विकको कम करना चाहिये, क्योंकि, मन-पर्ययज्ञानका आहारशरीरद्विकके उदयके साथ
विरोध है । पुरुषवेदका स्वोदय बन्ध होता है । इसी प्रकार अन्य भी यदि भेद है तो उसको
स्मरण कर कहना चाहिये ।

निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २१८ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपइट्टुवसमा खवा बंधा ।
अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २१९ ॥

एदं पि सुगमं, ओघम्मि वुत्तत्थत्तादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २२० ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा ।
एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २२१ ॥

सुगममेदं ।

सेसमोघं जाव तित्थयरे त्ति ! णवरि पमत्तसंजदप्पहुडि त्ति
भाणिदव्वं ॥ २२२ ॥

एदं पि सुगमं ।

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण-
कालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥२१९॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघमें इसका अर्थ कहा जा चुका है ।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषायवीतराम छद्मस्थ तक बन्धक हैं । । ये बन्धक हैं,
अबन्धक नहीं हैं ॥ २२१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

शेष प्ररूपणा तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान है । विशेष इतना है कि ' प्रमत्त-
संयतसे लेकर ' ऐसा कहना चाहिये ॥ २२२ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

केवलणाणीसु सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ? ॥२२३॥

सुगमं ।

सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्वाए चरिमसमयं गंतूण
बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसैसा अवंधा ॥ २२४ ॥

एदस्स बंधो पुवं वोच्छिज्जदि, उदओ पच्छा वोच्छिज्जदि; सजोगि-अजोगिचरिम-
समएसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्दुवोदयत्तादो । णिरंतरो, पडि-
वक्खपयडीए बंधाभावादो । सच्चमणजोगो असच्चमोसमणजोगो सच्चवच्चिजोगो असच्च-
मोसवच्चिजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो कम्मइयकायजोगो त्ति सत्त एदस्स
बंधपच्चया । बंधो अगइसंजुतो, एत्थ गइबंधेण विरुद्धबंधादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ
केवलीणमभावादो । बंधद्धानं णत्थि, एक्कग्धि गुणट्ठाणे अद्धानंविरोहादो । अजोगिचरिमसमए
बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्दुवो बंधो, अद्दुवबंधित्तादो ।

केवलज्ञानियोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २२३ ॥

यह सज सुगम है ।

सयोगकेवली बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न
होता है । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ २२४ ॥

इसका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, उदय पश्चात् व्युच्छिन्न होता है; क्योंकि,
सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंके अन्तिम समयमें क्रमसे उसके बन्ध और
उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । बन्ध उसका स्वोदय-परोदय होता है; क्योंकि, वह अश्रुवो-
दयी प्रकृति है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है ।
सत्यमनोयोग, असत्य-मृयामनोयोग, सत्यवचनयोग, असत्य-मृपावचनयोग, औदारिक-
काययोग, औदारिकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोग, ये सात इसके बन्धप्रत्यय हैं ।
बन्ध गतिबन्ध रहित होता है, क्योंकि, यहां गतिबन्धसे विरुद्ध बन्ध है । मनुष्य स्वामी
है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें केवलियोंका अभाव है । वन्याध्वान नहीं है, क्योंकि, एक
गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता
है । सादि व अश्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अश्रुवबन्धी है ।

१ प्रतिशु ' सजोगकेवली बंधाए ' इति पाठः ।

२ प्रतिशु ' अत्याण ' इति पाठः ।

संजमाणुवादेण संजदेसु मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २२५ ॥

जधा मणपज्जवणाणमग्गणाए परूवणा कदा तथा एत्थ कायव्वा । णवरि पच्चयादि-
विसेसो जाणिय वत्तव्वो । एत्थ विसेसपडुप्पायणइमुत्तरसुत्तं भणादि—

णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ?
॥ २२६ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलि-
अद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा ॥ २२७ ॥

सुगममेदं ।

सामाइय-छेदोवट्ठावणसुद्धिसंजदेसु पंचंगाणावरणीय-सादावेद-
णीय-लोभसंजलण-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ २२८ ॥

संयसमार्गणानुसार संयत जीवोंमें मनःपर्ययज्ञानियोंके समान प्ररूपणा है ॥ २२५॥

जिस प्रकार मनःपर्ययज्ञानमार्गणमें प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार यहाँ करना
चाहिये । विशेष इतना है कि प्रत्ययादिके भेदको जानकर कहना चाहिये । यहाँ विशेषता
बतलानेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

विशेषता इतनी है कि सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥२२६॥

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयतसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम
समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २२७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, सातावेदनीय, संज्वलनलोभ,
यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?
॥ २२८ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदपह्नुडि जाव अणियट्टिउवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अवंधा णत्थि ॥ २२९ ॥

एदासिं पयडीणमेत्थ बंधोदयवोच्छेदाभावादो ' उदयादो किं पुत्तं पच्छा वा बंधो वोच्छिण्णो ' ति विचारो णत्थि । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसकित्ति-उच्चोदोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ ध्रुवोदयत्तादो । सादावेदणीय-लोभसंजलणाणं सोदय-परोदओ, अद्भुवोदयत्तादो । सादावेदणीय-जसकित्तीणं पमत्तसंजदम्मि सांतरो बंधो, पडिक्खपयडि-बंधुवलंबादो । उवरि णिरंतरो, तदभावादो । सेसाणं पयडीणं बंधो सन्वत्थ णिरंतरो, अप्पिद-संजदेसु बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । एदासिं सन्व-पयडीणं पमत्तसंजदपह्नुडि जाव अपुव्वकरणद्वाए छसत्तभागो ति बंधो देवगइसंजुत्तो । उवरि अगइसंजुत्तो, तत्थ गइणं बंधाभावादो । मणुसां सामी, अण्णत्थ संजदाभावादो । बंधद्धानं

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ २२९ ॥

यहां इन प्रकृतियोंके बन्ध और उदयका व्युच्छेद न होनेसे ' उदयसे क्या पूर्वमें या पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है ' यह विचार नहीं है । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका ध्रुव उदय है । सातावेदनीय और संज्वलनलोभका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अद्भुवोदयी प्रकृतियां हैं । सातावेदनीय और यशकीर्तिका प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र निरन्तर है, क्योंकि, विवक्षित संयतोंमें इनके बन्धविध्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है । इन सब प्रकृतियोंका बन्ध प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणकालके छह सप्तम भाग तक देवगतिसे संयुक्त होता है । ऊपर अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां गतियोंके बन्धका अभाव है । मनुज्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयतोंका अभाव है ।

सुगमं, सुत्तुद्विद्वत्तादो । बंधवोच्छेदो णत्थि, उवरि वि बंधुवलंभादो 'अर्बधा णत्थि' त्ति सुत्तादो वा । चोदसण्णं धुवबंधीणे बंधो तिविदो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

सेसं मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २३० ॥

जहां मणपज्जवणाणीसु सेसपयडीणं परूवणा कदा तथा एत्थ वि कायव्वा । को वि विसेसो अत्थि', णत्तंसयवेदाहारदुगपच्चयाणं तत्थासंताणंभेत्थत्थित्तदंसणादो' ।

णिद्दा-पयलाणं पुवं बंधो वोच्छिणो । उदयवोच्छेदो णत्थि, सुहुमसांपराइय-जहा-क्खादंसजदेसु वि तद्दुदयदंसणादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्दुवोदयत्तादो । णिरंतरो, धुव-बंधितादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहितो विसेसाभावादो । देवगइसंजुत्तो, गत्तंतरस्स' बंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ संजमाभावादो । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्वकरणो

बन्धाध्वान सुगम है, क्योंकि, वह सूत्रमें निर्दिष्ट है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है; अथवा 'अबन्धक नहीं है' इस सूत्रसे भी बन्धव्युच्छेदका अभाव सिद्ध है । चौदह भुवबंधी प्रकृतियोंका बन्ध तीन प्रकार होता है, क्योंकि, धुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबंधी हैं ।

शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है ॥ २३० ॥

जिस प्रकार मनःपर्ययज्ञानियोंमें शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये । यहां कुछ विशेषता भी है, क्योंकि, नपुंसकवेद और आहारद्विकके प्रत्यय, जो मनःपर्ययज्ञानियोंमें नहीं थे, यहां देखे जाते हैं ।

निद्रा और प्रचलाका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । उनका उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, सूक्ष्मसाम्प्रतयिक और यथाख्यातसंयतोंमें भी उनका उदय देखा जाता है । बन्ध स्वादय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, धुव-बंधी हैं । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई भेद नहीं है । देवगतिले संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, संयतोंमें अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है । मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयमका अभाव है । प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है । अपूर्व-

१ अ-आप्रलो: ' को विसेसो अत्थि णत्थि', काप्रती ' को वि विसेसो अत्थि णत्थि ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' तथासंताण ' इति पाठः । ३ काप्रतावन ' बंधो सोदय-परोदओ ' इत्थिकः पाठः ।

४ प्रतिपु ' गन्मतस्स ' इति पाठः ।

ति बंधद्वाणं । अपुव्वकरणद्वाए सत्तमभागचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि । कंधमेदं णव्वदे ? सुत्ताविरुद्धाइरियवयणादो । तिविहो' बंधो, धुवाभावादो ।

एवं चैव पुरिसवेदस्स वत्तव्वं । णवरि अद्धानमणियट्ठिअद्दाए संखेज्जा भागा ति वत्तव्वं । देवगइ-अगंइसंजुतो । दुविहो बंधो, अद्भवबंधितादो ।

कोधसंजलणस्स लोभसंजलणभंगो । णवरि अद्धानमणियट्ठिअद्दाए संखेज्जा भागा ति । एवं माण-मायासंजलणाणं पि वत्तव्वं । णवरि कोधबंधवोच्छिण्णुवरिमद्दाए संखेज्जाभागे गंतूण माणबंधद्धानं समप्पदि' । सेसद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण मायबंधद्धानं समप्पदि' ति वत्तव्वं ।

हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं बंधोदया समं वोच्छिण्णा, अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमए तदभावदंसणादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्भवोदयत्तादो । हस्स रदीणं बंधो पमत्तामि सांतरो ।

करणकालके सप्तम भागके अन्तिम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है ।

शंका— यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान— सूत्रसे अविरुद्ध आचार्योंके वचनसे यह जाना जाता है ।

उनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है ।

इसी प्रकार ही पुरुषवेदके भी कहना चाहिये । विशेषता यह है कि बन्धाध्वानं अनिवृत्तिकरणकालका संख्यात बहुभाग है, ऐसा कहना चाहिये । देवगतिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त बन्ध होता है । दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुवबन्धी है ।

संज्वलनक्रोधकी प्ररूपणा संज्वलनलोभके समान है । विशेष इतना है कि बन्धाध्वानं अनिवृत्तिकरणकालका संख्यात बहुभाग है । इसी प्रकार संज्वलन मान और मायाके भी कहना चाहिये । विशेषता यह है कि संज्वलनक्रोधके बन्धके व्युच्छिन्न होनेके उपरिम कालका संख्यात बहुभाग वितारकर मानबन्धाध्वान समस्त होता है । शेष कालके संख्यात बहुभाग जाकर मायाबन्धाध्वान समस्त होता है, ऐसा कहना चाहिये ।

हास्य, रति, भय और जुगुप्साका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें उनका अभाव देखा जाता है । बन्ध उनका स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । हास्य और रतिका बन्ध प्रमत्त-

१ प्रतिषु ' विविहो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' समप्पदि ' इति पाठः ।

३ अ-आप्तयोः ' समप्पदि ' इति पाठः ।

उवरि गिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । भय-दुगुंछाणं सव्वत्थ गिरंतरो, धुवबंधित्तादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । देवगइसंजुत्तो अगइसंजुत्तो वि, अपुव्वकरणद्दाए चरिमसत्तमभागे गईए बंधाभावादो । मणुसा सामी । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्वकरणो त्ति बंधद्धानं । अपुव्वकरणचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि । भय-दुगुंछाणं ति विहो बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्दुवो, तच्चिवरीयबंधादो ।

देवाउअस्स पुव्वावरकालेसु बंधोदयवोच्छेदपरिक्खा णत्थि, उदयाभावादो । परोदओ बंधो, साभावियादो । गिरंतरो, अतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । देवगइसंजुत्तो । मणुसा चैव सामी । पमत्त-अप्पमत्तसंजदा बंधद्धानं । अप्पमत्तद्दाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्दुवो बंधो, अद्दुवबंधित्तादो ।

संपहि देवगइसहगयाणं सत्तावीसपयडीणं भण्णमाणे पुव्वावरकालेसु बंधोदयवोच्छेद-परिक्खा जाणिय कायव्वा । देवगइ-वेउच्चियदुगाणं बंधो परोदएण, साभावियादो । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराण सोदय-परोदओ, संजदेसु पडिवक्खपयडीणं पि उदय-

संयत गुणस्थानमें सान्तर होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । भय और जुगुप्साका सर्वत्र निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है । देवगतिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त भी बन्ध होता है, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके अन्तिम सतम भागमें गतिके बन्धका अभाव हो जाता है । मनुष्य स्वामी है । प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है । अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । भय और जुगुप्साका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे उनसे विपरीत (अध्रुव) बन्धवाली हैं ।

देवायुके पूर्वापर कालभावी बन्ध व उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहाँ उसका उदयाभाव है । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके बिना उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । मनुष्य ही स्वामी हैं । प्रमत्त और अप्रमत्त संयत बन्धाध्वान हैं । अप्रमत्तकालके संख्यातवै भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुवबन्धी है ।

अब देवगतिके साथ रहनेवाली [परमविक नामकर्मकी] सत्ताईस प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते समय पूर्वापर कालोंमें बन्ध व उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा जानकर करना चाहिये । देवगतिके और वैक्रियिकदिकका बन्ध परोदयसे होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रज्ञास्तविहायो-गति और सुस्वरका सोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, संयतोंमें इनकी

दंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सोदओ, ध्रुवोदयत्तादो । थिर-सुभाणं पमत्तसंजदम्मि बंधो सांतरो, षड्विक्खपयडिबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, तदभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो णिरंतरो, एत्थ ध्रुवबंधितादो । पच्चया सुगमा । सन्वासिं पयडीणं बंधो देवगइसंजुत्तो । मणुसा सामीओ । बंधद्धानं बंधविणड्डधानं च सुगमं । ध्रुवबंधीणं बंधो तिविहो । अवसेसाणं सादि-अद्भवो ।

असादवेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-अजसकित्तीणमेगड्डाणियाणं सांतरबंधीणमोघ-पच्चयाणं देवगइसंजुत्ताणं मणुससामियाणं बंधद्धानविरहियाणं पमत्तसंजदम्मि वोच्छिण्णबंधाणं बंधेण सादि-अद्भवाणं बंधो सोदओ परोदओ सोदर्य-परोदओ वे ति जाणिय परूवेदव्वो । आहारदुग-तिस्थयराणं पि जाणिय वत्तव्वं ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादा-वेदणीय-चदुसंजुलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिंदिय-

प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी उदय देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं । स्थिर और शुभका बन्ध प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सान्तर होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां वे ध्रुवबन्धी हैं । प्रत्यय सुगम है । सब प्रकृतियोंका बन्ध देवगति-संयुक्त होता है । इनके बन्धके स्वामी मनुष्य हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध तीन प्रकारका होता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अद्भव होता है ।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति, इन एकस्थानिक, सान्तर बन्धवाली, ओघ प्रत्ययोंसे युक्त, देवगतिसंयुक्त, मनुष्यस्वामिक, बन्धाध्वानसे रहित, प्रमत्तसंयत गुणस्थानभावी बन्धव्युच्छेदसे सहित, तथा बन्धकी अपेक्षा सादि व अद्भव प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय, परोदय अथवा स्वोदय-परोदय है: इसकी जानकर प्ररूपणा करना चाहिये । आहारदिक और तीर्थकर प्रकृतिकी भी प्ररूपणा जानकर करना चाहिये ।

परिहारसुद्धिसंयतोमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, सुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस

जादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीर-
अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फ़ास-देवाणुपुव्वि-अंगुरुवलहुअ-उवघाद-परघादु-
स्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-
सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्थयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को
बंधो को अबंधो ? ॥ २३१ ॥

सुगमं ।

प्रमत्त-अप्रमत्तसंज्ञदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा-णत्थि ॥२३२॥

उदयादो बंधो पुवं पच्छा वा वोच्छिज्जदि ति एत्थ विचरो णत्थि, एदासिं
बंधवोच्छेदाभावादो उदहल्लणसुदयवोच्छेदाभावादो च । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-
वेउव्वियदुग-तित्थयरारणं परोदओ बंधो, एदासिं बंधोदयाणमक्कमवुत्तिविरोहादो । णिहा-
पयला-सादावेदणीय-चदुसंजलण-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-
सुस्सरारणं -सोदय-परोदओ बंधो, एदासिं पडिवक्खपयडीणं पि उदयदंसणादो । अवसेसाणं
पयडीणं सोदओ बंधो, एत्थ एदासिं पयडीणं धुवेदयत्तुवलंभादो ।

व-कर्मण-शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ष, गन्ध, रस, स्पर्श, देवानु-
पूर्वी, अंगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोध, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र
और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्त और अप्रमत्त-संयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २३२ ॥

उदयसे बन्ध-पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है,
क्योंकि, इनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है, तथा उदय युक्त प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका
भी अभाव है । देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकीद्विक और तीर्थकर, इनका
परोदय-बन्ध होता है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके एक साथ अस्तित्वका
विरोध है । निद्रा, प्रचला, सातावेदनीय, चार संज्वलन, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा,
समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है,
क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी उदय देखा जाता है । शेष प्रकृतियोंका स्वोदय
बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इन प्रकृतियोंका भुव उदय-पाया जाता है ।

सादावेदणीय-हस्त-रदि-थिर-सुभ-जसकितीणं पमत्तसंजदाम्भि बंधो सांतरो । उवरि
णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं वंधाभावादे । अवसेसाणं पयडीणं बंधो णिरंतरो, अंतोसुहुत्तेण
विणा बंधुवरमाभावादे । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादे । णवरि इत्थि-
णवुंसयवेदपच्चया णत्थि, अप्पसत्थवेदोदइल्लाणं परिहारसुद्धिसंजमाभावादे । आहारदुगपच्चया
वि णत्थि, परिहारसुद्धिसंजमेण आहारदुगोदयविरोहादे तित्थयरपादमूले द्वियाणं गयसंदेहाणं
आणाकणिइदासंजमवहुलतादिआहारुइवणकारणविरुहिदाणमाहारसरीरोवादाणासंभवादे वा ।

देवगइसंजुतो वंधो, एत्थण्णगइबंधाभावादे । मणुसा सामी, अण्णत्थ संजमाभावादे ।
बंधद्धाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अबंधा णत्थि' ति सुत्तण्हिसादे । धुवबंधीणं वंधो
तिविहो, धुवाभावादे । अवसेसाणं सादि-अद्धुवो, अद्धुवबंधित्तादे ।

**असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-अजसकित्तिणामाणं
को वंधो को अबंधो ? ॥ २३३ ॥**

सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशकीर्तिका प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें
सान्तर वन्ध होता है । ऊपर उनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके
वन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना
उनके वन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई भेद नहीं
है । विशेष इतना है कि स्त्रीवेद और नर्पुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, अप्रशस्तवेदोदय
युक्त जीवोंके परिहारशुद्धिसंयमका अभाव है । आहारकद्विक प्रत्यय भी नहीं है, क्योंकि,
परिहारशुद्धिसंयमके साथ आहारकद्विककी उत्पत्तिका विरोध है; अथवा तीर्थकरके
पादमूलमें स्थित, सन्देह रहित, तथा आह्लाकनिष्ठता अर्थात् आप्तवचनमें सन्देहजनित
शिथिलता और असंयमबहुलतादि रूप आहारशरीरकी उत्पत्तिके कारणोंसे रहित परिहार-
शुद्धिसंयमके आहारकशरीरकी उत्पत्ति असंभव है ।

देवगतिसंयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, यहां अन्य गतियोंके वन्धका अभाव है ।
मनुष्य स्वामी है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयमका अभाव है । वन्धाध्वान सुगम है ।
वन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि 'अवन्धक नहीं है' ऐसा सूत्रमें कहा गया है । इनमें ध्रुवबन्धी
प्रकृतियोंका वन्ध तीन प्रकारका होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव वन्धका अभाव है । शेष
प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव वन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन
वन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २३३ ॥

१ आ-काप्रलो 'मूलद्वियाणं' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः 'बहुलावादि', 'का मप्रसो. बहुलावादि' इति पाठः ।

सुगमं ।

पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा,अवसेसा अबंधा ॥ २३४ ॥

असादावेदणीय-अरदि-सोगाणमेत्थ वंधवोच्छेदो चेव, उदयवोच्छेदो णत्थि; उवरि तदुदयवोच्छेदुत्तलंभादो । अथिर-असुभाणं पि एवं चेव वत्तव्वं, पमत्त सजोगीसु बंधोदय-वोच्छेददंसणादो । अजसकित्तीए पुव्वसुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, पमत्तासंजदसम्मादिहीसु बंधोदयवोच्छेददंसणादो । अथिर-असुहाणं सोदओ, अजसकित्तीए परोदओ, सेसाणं बंधो सोदय-परोदओ । सांतरो बंधो, एदासिभेगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । इत्थि-णत्तुंसयवेदाहार-दुगविरहिदोघपच्चया एत्थ वत्तव्वा । देवगइ [-संजुतो] वंधो । मणुसा सामी । बंधद्वाणं णत्थि, एगगुणट्ठाणम्हि' तदसंभवदो । पमत्तसंजदचरिमसमए बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्भवो बंधो, अद्भवबंधित्तादो ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २३५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २३४ ॥

असातावेदनीय, अरति और शोकका यहां बन्धव्युच्छेद ही है उदयव्युच्छेद नहीं है; क्योंकि, ऊपर उनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है । अस्थिर और अशुभके भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । अयशकीर्तिका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमशः उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है । अस्थिर और अशुभका स्वोदय, अयशकीर्तिका परोदय, तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है । सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंका एक समयसे भी बन्धविभ्राम देखा जाता है । त्रिविद, नपुंसकवेद और आहारकादिकसे रहित यहां ओघप्रत्यय कहना चाहिये । देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । मनुष्य स्वामी है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें उसकी सम्भावना नहीं है । प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अन्तिम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । सादि व अद्भव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अद्भवबन्धी प्रकृतियां हैं ।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३५ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तसंजदद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२३६॥

उदयादो बंधो पुञ्च पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति विचारो णत्थि, संजदेसु देवाउअस्स उदयाभावादो । परोदओ घंधो, बंधोदयाणमक्कमवुत्तिविरोहादो । गिरंतरो, अंतोसुहुत्तेण विणा वंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । णवरि आहारदुगित्थि-णत्तुंसयवेदपच्चया णत्थि । देवगइसंजुत्तो, मणुसा सामीओ, अत्रगयबंधद्वाणो, अप्पमत्तद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण वोच्छिण्णबंधो । सादि-अद्दुवो ।

आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ?

॥ २३७ ॥

सुगमं ।

अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२३८॥

यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अप्रमत्तसंयतकालका संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २३६ ॥

उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, संयत जीवोंमें देवायुके उदयका अभाव है । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्ध और उदयके एक साथ रहनेका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है । विशेष इतना है कि आहारकछिक, खीविद और नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं हैं । देवगति संयुक्त बन्ध होता है । मनुष्य स्वामी हैं । बन्धाध्वान सूत्रसे जाना जाता है । अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । सादि व अधुव बन्ध होता है ।

आहारकशरीर और आहारकशरीरंगोपांग नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक है ॥ २३८ ॥

एदासिं देवाउअमंगो । णवरि बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि गुणद्वाणे अद्धानासभवादो ।
बंधवोच्छेदो णत्थि, उवरिं पि बंधुवलंभादो ।

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-
सादावेदणीय-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?
॥ २३९ ॥

सुगमं ।

सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अबंधा
णत्थि ॥ २४० ॥

एदासिं बंधोदयवोच्छेदाभावादो उदयादो बंधो पुवं पच्छा वा वोच्छिणो
त्ति ण परिक्खा कीरेदे । सादावेदणीयस्स बंधो सोदय-परोदओ, अणुदए वि बंधविरोहा-
भावादो । णिरंतरा सव्वपयडीणं बंधो, एत्थ गुणद्वाणेषु बंधुवरमाभावादो । ण एगसमयमच्छिय
मुदसुहुमसांपराइएहि वियहिचारो, सुहुमसांपराइयगुणद्वाणम्मि ति विसेसणादो । ओराठिय-

इन दोनों प्रकृतियोंकी प्ररूपणा देवायुके समान है । विशेष इतना है कि बन्धाध्वान
नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानकी सम्भावना नहीं है । बन्धव्युच्छेद नहीं है,
क्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है ।

सूक्ष्मसाम्परायिकसुद्धिसंयत्तोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय,
यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?
॥ २३९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक और क्षपक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं
॥ २४० ॥

इन प्रकृतियोंके बन्ध व उदयके व्युच्छेदका अभाव होनेसे उदयसे बन्ध पूर्वमें
व्युच्छिन्न होता है या पश्चात्, यह परीक्षा यहां नहीं की जाती है । सातावेदनीयका बन्ध
स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, उदयके न होनेपर भी उसके बन्धमें कोई विरोध नहीं
है । इन सब प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें बन्धविश्रामका
अभाव है । ऐसा माननेपर एक समय रहकर मृत्युको प्राप्त हुए सूक्ष्मसाम्परायिक संयत्तोंसे
व्यभिचार होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि, 'सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमें'
ऐसा विशेषण दिया गया है । औदारिक काययोग, लोभ कषाय, चार मनोयोग और चार

कायजोग-लोभकसाय-चद्रुमण-वचिजोगा त्ति देस पच्चया । अगइसंजुत्तो बंधो, एत्थ चउगइ-बंधाभावादे । मणुसा सामो, अण्णत्थ सुहुमसांपराइयाणमभावादे । बंधद्धानं णत्थि, सुहुमसांपरायप्पहुडि त्ति सुत्ते अणुवदिट्ठत्तादे । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अबंधा णत्थि' त्ति वयणादे । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं तिविहो बंधो, धुवाभावादे । सेसाणं सादि-अद्धवो ।

जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २४१ ॥

सुगमं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदुमत्था सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्दाए चरिमसममं गंतूण [बंधो] वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २४२ ॥

सुगममेदं, केवलणामगणापरूवणाए समाणत्तादे ।

वचनयोग, ये दश प्रत्यय हैं । गतिसंयोगसे रहित बन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियोंके बन्धका अभाव है । मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें सूक्ष्मसाम्परायिक संयतोंका अभाव है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, 'सूक्ष्मसाम्परायिक आदि' ऐसा सूत्रमें निर्देश नहीं किया गया है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अबंधक नहीं है' ऐसा सूत्रका वचन है । पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अश्रुव बन्ध होता है ।

यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४१ ॥

• यह सूत्र सुगम है ।

उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थ, क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ और सयोगकेवली बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर [बन्ध] व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २४२ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, केवलज्ञानमार्गणाकी प्ररूपणासे इसकी समानता है ।

१ प्रतिष्ठा 'अजोगिकेवलि' इति पाठ ।

संजदासंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-
 अट्टकसाय पुरिसवेद-हस्स-रदि-सोग-भय-दुगुंछ-देवाउ-देवगइ-पंचिंदिय-
 जादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीर-
 अंगोवंग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उव-
 घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर--पज्जत्त-पत्तेयसरीर-
 थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-
 णिमिण-तित्थयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?
 ॥ २४३ ॥

सुगमं ।

संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २४४ ॥

उदयादो पुवं पच्छा वा बंधो वोच्छिण्णो त्ति एत्थ विचरो णत्थि, बंधवोच्छेदा-
 भावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-
 अगुरुअलहुअचउक्क-थिराथिर-सुहासुह-सुभगादेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ

संयतासंयतोमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ
 कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियजाति,
 वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध,
 रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति,
 ऋस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय,
 यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक
 और कौन अबन्धक है ? ॥ २४३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

संयतासंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २४४ ॥

इन प्रकृतियोंका बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां
 नहीं है, क्योंकि, उनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है । पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,
 पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु आदिक चार, स्थिर,
 अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय

बंधो, एत्थ धुवोदयत्तुवलंभादो । देवाउ-देवगइ-वेउच्चियसरीर-अंगोवंग-देवगइपाओगगाणुपुच्ची-अजसकित्ति-तित्थयराणं परोदओ वंधो, वंधोदयाणमण्णोणविरोहादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-अड्कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सरुच्चागोदाणं वंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि वंधविरोहाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अड्कसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-देवाउ-देवगइ-पंचि-दियजादि-वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउच्चियसरीर-अंगोवंग-वण्णचउक्क-देवगइपाओगगाणुपुच्ची-अगुरुवल्लुवचउक्क-पसत्थविहायगइ-तसचउक्क-सुभग-सुस्सारादेज्ज-णिमिण-तित्थयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं वंधो णिरंतरो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीणं वंधो सांतरो, एगसमएण वंधु-वरमदंसणादो । पच्चया सुगमा, ओथाणुव्वइपच्चयंहितो भेदाभावादो । सव्वासिं पयडीणं देवगइ-संजुतो वंधो, अण्णगइणं वंधाभावादो । दुगइदेसव्वइणो सामी, अण्णत्थ तेसिमभावादो । वंधद्धाणं णत्थि, एक्कगुणइाणे तदसंभवादो । अथवा अत्थि, पच्चवट्ठियणयावलंवणादो ।

बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ इनका ध्रुव उदय पाया जाता है । देवायु, देवगति, वैक्रियिक-शरीर व वैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशक्रीर्ति और तीर्थकरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयका परस्परमें विरोध है । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, आठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुस्वर और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, तैजस व कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्णादिक चार, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगति, त्रसादिक चार, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, द्रुम, अद्रुम, यशक्रीर्ति और अयशक्रीर्तिका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका बन्धविश्राम देखा जाता है । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, सामान्य अणुव्रतीके प्रत्ययोंसे कोई भेद नहीं है । सब प्रकृतियोंका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके बन्धका वहाँ अभाव है । दो गतियोंके देशव्रती स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उनका अभाव है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें उसकी सम्भावना नहीं है । अथवा पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करके बन्धाध्वान है ।

बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अबंधा णत्थि' त्ति वयणादो । ध्रुवबंधीणं तिविहो बंधो, ध्रुवाभावादो । सेसाणं सादि-अद्धवो, अद्धवबंधितादो ।

असंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस-कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगोवंग-वज्जरिसहसंधडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइ-देवगइपाओगगाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २४५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २४६ ॥

बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं हैं' ऐसा सूत्रमें कहा गया है । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अद्धव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अद्धवबन्धी हैं ।

असंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, चारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक व वैक्रियिक अंगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, चादर, पर्याप्त, पत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्याद्यष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २४६ ॥

एत्योदइल्लणं बंधोदयवोच्छेदामावादो उदयादो बंधो किं पुत्रं पच्छा वा वोच्छिण्णो
 ति विचारो गत्थि । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउवक-
 अगुरुअलहुअ-थिराधिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । देवगइ-
 वेउच्चियसरीर-वेउच्चियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुच्चीणं परोदओ बंधो, बंधोदयाणं परो-
 प्परविरोहादो । णिहा-पयला-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-
 समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चारोदाणं
 बंधो सोदय-परोदओ उहयहा वि बंधुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-ओरालिय-
 सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंधडणाणं मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मदिट्ठीसु-सोदय-परो-
 दओ, उहयहा वि बंधुवलंभादो । सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु परोदओ, सोदएण सग-
 बंधस्स तत्थ विरोहदंसणादो । पंचिंदियजादि-त्तस-वादर-पज्जत्ताणं मिच्छादिट्ठीसु सोदय-परोदओ ।
 उवरि सोदओ चेव, विगलिंदिय-थावर-सुहुमापज्जत्तपसु सासणादीणमभावादो । उवघाद-
 परघाद-उस्सुस-पचेयसरीराणं मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु सोदय-

यहां उदय युक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव होनेसे उदयकी
 अपेक्षा बन्ध क्या पूर्वमें और या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है । पांच
 ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु,
 स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है,
 क्योंकि, ये भ्रुवोदयी प्रकृतियां हैं । देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और
 देवगतिप्रायोग्यानुपूर्विका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयके परस्पर
 विरोध है । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति,
 अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान. प्रशस्ताविहायोगति, सुभग, सुस्वर,
 आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि,
 दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है । मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,
 औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रयभसंहननका मिथ्यादृष्टि और
 सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां दोनों प्रकारसे
 भी इनका बन्ध पाया जाता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें
 परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ अपने बन्धका वहां विरोध देखा जाता है ।
 पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, वादर और पर्याप्तका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें स्वोदय-परोदय होता है ।
 ऊपर इनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्द्रिय. स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्तकोंमें
 सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव है । उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका
 मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय

परोदओ । सम्मामिच्छाद्विद्धि सोदओ चेव, अपज्जत्तद्वाए तस्साभावादो ।

पंचाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-भय-दुगुंछ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-चउक्क-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादो । सादासाद-इस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीणं बंधो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरसुवलंभादो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्नी-वेउव्वियसरीर वेउव्वियसरीरअंगोवंग-समचउ-रससंठाणाणं बंधो मिच्छादिद्धि-सासणसम्मादिद्धीसु सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? ण, असंखेज-वासाउअतिरिक्ख-मणुसमिच्छादिद्धि-सासणसम्मादिद्धीसु सुहतिलेस्सियसंखेजवासाउएसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । पुरिसवेदस्स मिच्छा-दिद्धि-सासणसम्मादिद्धीसु सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? मम्म-सुक्कलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसवेदस्सेव बंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । मणुसगइ-मणुस-

बन्ध होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उस गुणस्थानका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कर्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अराति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम पाया जाता है । देवगति, देवगतिप्रायेण्यानु-पूर्वी, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और समचतुरस्रसंस्थानका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि-एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तथा-शुभ तीन लक्ष्यावाले संख्यातवर्षायुष्कोंमें भी उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पुरुषवेदका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, पद्म और शुक्ल लक्ष्यावाले तिर्यंच एवं मनुष्योंमें पुरुषवेदका ही बन्ध पाया जाता है ।

ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका

गह्वाभोग्गाणुपुञ्जीणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु बंधो सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? ण, आणदादिदेवेषु' णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाद्वीसु सासणसम्मादिद्वीसु च सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, देव-णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । वज्जरिसहसंधणस्स मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो । उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्ख-बंधादो । पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सरादेज्जुचागोदाणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो, असंखेज्जवासाउएसु णिरतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । पंचिंदियजादि-परधादुस्सास-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं बंधो मिच्छाद्विद्वि-सांतर-णिरंतरो,

अभाव है । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोन्यानुपूर्वाका मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आनतादिक देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां-वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है ।

औदारिकशरीर और औदारिकशरीरअंगोपांगका मिथ्यादृष्टियों और सासादन-सम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—इनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि देव और नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है । वज्रर्मयसंहननका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है । प्रशस्त-विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेश और उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है । पंचेन्द्रिय जाति, परधात, उच्छवास, त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, देव व नारकियोंमें इनका

देव-गेरइएसु गिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि गिरंतरो, गिण्णडिवक्खबंधादो ।

पंचया सुगमा, ओघपंचएहिंतो विसैसाभावादो । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-आरसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-अजसकित्ति-गिमिण-पंचंतइयाणं मिच्छाइडिडि चउगइसंजुतो । सासणे गिरयगईए विणा तिगइसंजुतो । सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडिसु देव-मणुसगइसंजुतो । सांदावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-समचउरससंघण-पसत्थविहायगइ थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्तीणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडिसु बंधो तिगइसंजुतो, गिरयगईए अभावादो । सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडिसु दुगइसंजुतो, गिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जरिसहसंघडणाणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडिसु बंधो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो । सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडिसु मणुसगइसंजुतो । मणुसगइ-मणुस-गइपाओग्गाणुपुव्वीणं मणुसगइसंजुतो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वीणं देवगइसंजुतो ।

निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है ।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई विशेषता नहीं है । पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अ्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरात्माका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादन गुणस्थानमें नरकगतिके बिना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्तिका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तिर्यग्गतिका अभाव है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीरगोपांग और वज्रभ्रंसंहननका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तिर्यग्गति और मनुष्यगतिके संयुक्त होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उनका बन्ध मनुष्यगतिके संयुक्त होता है । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका मनुष्यगतिके संयुक्त बन्ध होता है । देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्विका बन्ध

वेडव्वियसरीर-वेडव्वियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइड्डीसु दुगइसंजुत्तो, तिरिक्ख-मणुसगईण-ममावादो । सासणसम्मादिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिड्डीसु देवगइसंजुत्तो । उच्चा-गोदस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णत्थ तस्सुदयाभावादो ।

चउगइमिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिड्डी सामी । वंधज्जाणं सुगमं । वंधवेच्छेदो णत्थि, 'अंधा णत्थि' ति वयणादो । धुवंधीणं मिच्छा-इड्डीसु चउव्विहो वंधो । सासणादीसु तिविहो, धुवंधाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धुवो, अद्धुवंधित्तादो ।

वेद्वणी ओधं ॥ २४७ ॥

वेद्वानपवढीणं जवा मूलोषम्मि परूवणा कदा तथा कायव्वा, विसेसामावादो ।

एक्कट्टणी ओधं ॥ २४८ ॥

सुगममेदं ।

मणुस्साउ-देवाउआणं को वंधो को अंधो ? ॥ २४९ ॥

देवगतिसे संयुक्त होता है । वैकियिकशरीर और वैकियिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्या-दृष्टियोंमें दो गतियोंसे संयुक्त होता है. क्योंकि, उनके साथ तिर्यग्गति और मनुष्यगतिके बन्धका अभाव है । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुण-स्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त उनका बन्ध होता है । उच्चगोत्रका बन्ध देवगति और मनुष्य-गतिसे संयुक्त होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उसके उदयका अभाव है ।

चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धन्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं हैं' ऐसा सूत्रमें कहा गया है । धुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें चारों प्रकारका होता है । सासादनादिकोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओषके समान है ॥ २४७ ॥

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा जैसे मूलोषमें की गई है उसी प्रकार करना चाहिये. क्योंकि, मूलोषसे यहां कोई विशेषता नहीं है ।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओषके समान है ॥ २४८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मनुष्यायु और देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २५० ॥

सुगमं ।

तित्थयरणामस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २५१ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २५२ ॥

सुगमं ।

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणीणमोघं णेद्व्वं जाव तित्थयरे त्ति ॥ २५३ ॥

तिण्णं जाईणमादाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं चक्खुदंसणीसु परोदयत्तुवलंमादो ओघ-

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २५० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २५२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

दर्शनमार्गणानुसार चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये ॥ २५३ ॥

शंका—तीन जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंका चक्षुदर्शनियोंमें चूंकि परोक्ष बन्ध पाया जाता है, अत एव 'उनकी प्ररूपणा ओघके समान

मिदि ण घड्ढे ? ण, दच्चड्डियणयमवलंविचय द्विददेसामासियसुत्तेसु विरोहामावादो । पयडि-
बंधद्धाणगयभेदपटुप्पायणड्डमुत्तरसुत्तं मणदि—

णवरि विसेसो, सादावेदणीयस्स को बंधो- को अबंधो ?
॥ २५४ ॥ .

सुगमं ।

मिच्छाड्डिप्पहुडि जाव खीणकसायवीरयायछ्दुमत्था बंधा ।
एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २५५ ॥

सुगममेदं ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ २५६ ॥

सुगमं ।

केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ २५७ ॥

सुगमं ।

है' यह घटित नहीं होता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन कर
स्थित देशामर्शक सूत्रोंमें विरोधका अभाव है ।

प्रकृतिबन्धाध्वानगत भेदके प्ररूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय वीतराग छ्दमस्थ तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं,
अबन्धक नहीं हैं ॥ २५५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २५६ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

केवलदर्शनियोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २५७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

लेस्साणुवादेण किणहलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियाण- मसंजदभंगो ॥ २५८ ॥

किणहलेस्साए ताव उच्चदे — पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस-
कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछ-मणुसगइ-देवगइ-पंचिन्द्रियजादि-ओरालिय-
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरंगोवंग-वज्जिरिसहसंधण-
वण्णचउक्क-मणुसगइ-देवगइपाओगाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअचउक्क-पसत्थविहायगइ-तसचउक्क-
थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्वर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणि
किणहलेस्सियचउगुणट्ठाणजीवेहि बज्झमाणाणि । तत्थुदयादो बंधो पुव्वं पच्छा वा वेच्छिण्णो
त्ति परिकखाए' असंजदभंगो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुअ-थिरा-
थिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाण बंधो सोदओ, धुवोदयत्तादो । देवगइदुग-वेउव्वियदुगाणं
परोदओ, बंधोदयाणं समाणकालउत्तिविरोहादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-

लेश्यामार्गणानुसार कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंकी
प्ररूपणा असंयतोंके समान है ॥ २५८ ॥

पहले कृष्णलेश्याके आश्रित प्ररूपणा करते हैं— पांच ज्ञानावरणीय, छह
दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति,
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक,
वैक्रियिक, तैजस व कामण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक और वैक्रियिक
शरीरगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्णादिक चार, मनुष्यगति और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी,
अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगति, त्रसादिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, ये
प्रकृतियां कृष्णलेश्यावाले चार गुणस्थानवर्ती जीवों द्वारा बध्यमान हैं । उनमें 'उदयसे बन्ध
पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है या पश्चात्' इस प्रकारकी परीक्षा यहां असंयत जीवोंके समान है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कामण शरीर, वर्णादिक चार,
अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध खोदय
होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं । देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका परोदय बन्ध होता
है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयके समान कालमें रहनेका विरोध है । निद्रा, प्रचला,
साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय,

हृस्व-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्यविहायगइ-सुभग-सुस्वर-आदेज-जस-
कित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि वंशुवलंभात्ते । मणुसगइदुगोरा-
लियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं मिच्छादिङ्कि-सासणसम्मादिङ्कीसु सोदय-परोदओ, उभयहा वि
वंशुवलंभादे । सम्मामिच्छादिङ्कि-असंजदसम्मादिङ्कीसु परोदओ, सोदयवंशानमेदेसु गुणङ्काणेसु
अक्कमउत्तिविरोहादे । पंचिदियजादि-तस-वादर-पज्जत्ताणं मिच्छाइङ्कीसु सोदय-परोदओ,
एत्थ पडिवक्कलपयडीणं पि उदयसंभवादे । उवरि सोदओ चेव, विगळिदिय-धावर्-सुहुम-
अपज्जत्तएसु सासणादीणमभावादे । उवघाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीरणं मिच्छादिङ्कि-सासण-
सम्मादिङ्कीसु सोदय-परोदओ । असंजदसम्मादिङ्कीसु सोदय-परोदओ, छड्डपुढवीपच्छायदाण-
मपज्जत्तकाले असंजदसम्मादिङ्कीणं परोदएण वंशसंभवादे । सम्मामिच्छाइङ्कीसु सोदओ,
एदेसिमपज्जत्तदाभावादे ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-नारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-
चउक्क-अगुरुस्वलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं वंशो गिरंतरो, धुववंचित्तादे । सादासाद-

जुगुप्सा, समचउरससंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति,
अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी
इनका बन्ध पाया जाता है । मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और बज्रर्षभसंहननका
मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि,
वहां दोनों प्रकारसे भी बन्ध पाया जाता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि
गुणस्थानोंमें उनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियोंके अपने
बन्ध और उदयके एक साथ रहनेका विरोध है । पंचेन्द्रिय जाति, ब्रह्म, वादर और पर्याप्तका
मिथ्यादृष्टियोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी
उदय सम्भव है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्द्रिय, स्थावर, सूक्ष्म
और अपर्याप्तकोंमें सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव है । उपघात, परघात, उच्छ्वास
और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय
बन्ध होता है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, छठी पृथिवीसे
पीछे आये हुए असंयतसम्यग्दृष्टियोंके परोदयसे बन्ध सम्भव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें
स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अपर्याप्तताका अभाव है ।

पांच भ्रानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व
कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध
निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति,

१ प्रतिशु ' धात्रे ' इति पाठः ।

हसस-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-मुहासुह-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो, अद्धवबंधितादो । पुरिसवेद-देवगइदुग-वेउविचयसरीर-थेउविचयसरीरअंगोवंग-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंधडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुरसर-ओदेज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइट्ठि-सासणसम्मादिट्ठीसु सांतरो । उवरि गिरंतरो, णिण्डिवकसबंधादो । मणुमगइ-मणुमगइपाओग्गाणुपुच्चीणं मिच्छाइट्ठि-सासण-सम्मादिट्ठीसु गिरंतरो । कथं गिरंतरो ? ण, आरणञ्जुदेवाणं मणुस्सेसुववण्णाणं सुक्कलेस्सा-विणासेण किण्हलसाए परिणदाणमंतोमुहुत्तकालं गिरंतरबंधुवलंभादो । सुक्कलेस्साए^१ ट्ठिदो पम्म-तेउ-काउ-णील्लेस्साओ वोलिय कथमकामेण किण्हलेस्सापरिणदो होज ? ण, सुक्कलेस्सादो कमेणं काउ-णील्लेस्सासु परिणमिय पञ्जा किण्हलेस्सापज्जाएण परिणमणञ्जुवगमादो । ण च मणुसगइ-बंधगद्धा काउ-णील्लेस्साकालादो थोवा, ततो तस्स बहुत्तुवलंभादो । अथवा मज्झिमसुक्कलस्सिओ देवो जहा छिण्णाउओ होदण जहणणसुक्काइणा अपरिणमिय अमुहत्तिलेस्साए^२ णिवददि

श्लोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं । पुरुषवेद, देवगतिछिक, वैक्यिकशरीर, वैक्यिकशरीरंगोपांग, समचतुरन्त्रसंस्थान, वज्रपंभसंहनन, प्रदास्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंन सान्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रातपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि शुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मनुष्योंमें उत्पन्न हुए आरण-अच्युत देवोंके शुद्धलेइयाके बिनाशसे कृणलेइयामें परिणत होनेपर अन्तर्मुहूर्त काल तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

शंका—शुद्धलेइयामें स्थित जीव पद्म, तेज, कापोत और नील लेइयाओंको लांघकर कैसे परु साथ कृणलेइयामें परिणत हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, शुद्धलेइयासे क्रमशः कापोत और नील लेइयाओंमें परिणमन करके पीछे कृणलेइया पर्यायसे परिणमन स्वीकार किया गया है । और मनुष्यगतिबन्धककाल कापोत और नील लेइयाके कालसे थोड़ा नहीं है, क्योंकि, वह उन्मसे बहुत पाया जाता है । अथवा, मध्यम शुक्कलेइयावाला देव जिस प्रकार आयुके क्षीण होनेपर जघन्य शुक्कलेइयादिकसे परिणमन न करके अशुभ तीन लेइयाओंमें गिरता

१ अ-गप्रलो ' -मतोमुहुत्त काल ' इति पाठः । २ अप्रती ' सुक्कलेस्साए ' इति पाठः ।

३ अप्रती ' अपराणामेह अइहातेस्साए ' इति पाठः ।

तहा सन्वे देवा मुदयक्खणेण' चेव अणियमेण असुहतिलेस्सासु णिवदंति त्ति गहिदे जुज्जदे । अणेण पुण आइरिया किण्णलेस्साए मज्जुसगइद्दुगस्स णिरंतरं वंधं णेच्छंति, मणुसगदि-
बंधगद्धाए काउलेस्साबंधगद्धाबहुत्तञ्चुवगमादो । तं पि कुदो ? मुददेवाणं सन्वेसिं पि काउ-
लेस्साए चेव परिणामञ्चुवगमादो । उवरि णिरंतरो । ओरालियसरीर-अंगोवंगणं मिच्छाइड्ढि-
सासणसम्मादिड्ढीसु सांतर-णिरंतरो । कुदो ? णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो,
पडिवक्खपयडिवंधाभावादो । पंचिदियजादि-परघाट्टुस्सास-तस-वाद्द-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं
मिच्छाइड्ढीसु सांतर-णिरंतरो, णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं
बंधाभावादो ।

पच्चयाणमोषधंणो । णवरि असंजदसम्माइड्ढिपच्चएसु वेउच्चियमिस्सपच्चओ अवणेदव्वो ।
ओरालियदुग-मणुसगइ-मणुसगइपाओगाणुपुञ्जीणं सम्मामिच्छाइड्ढिहि^१ ओरालियकयजोगीरिथि-

है, उसी प्रकार सब देव मरणक्षणमें ही नियम रहित अशुभ तीन लेइयाओंमें गिरते हैं,
पेसा ग्रहण करनेपर उपर्युक्त कथन संगत होता है ।

अन्य आचार्य कृष्णलेइयामें मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध नहीं मानते हैं,
क्योंकि, मनुष्यगति बन्धककालसे कापोतलेइयाका बन्धककाल बहुत स्वीकार किया
गया है ।

शंका — वह भी कैसे ?

समाधान — क्योंकि, सब ही सृत देवोंका कापोतलेइयामें ही परिणजन स्वीकार
किया गया है ।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होना है । औदारिकशरीर और औदारिकशरीरंगोपांगका
मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है क्योंकि, वहां
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पंचेन्द्रिय जाति, दरघात, उच्छ्वास, जल, वाद्द,
पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

प्रत्यर्थोंकी प्ररूपणा ओधके समान है । विशेष इतना है कि असंयत-
सम्यग्दृष्टिके प्रत्यर्थोंमें वैकिकमिश्र प्रत्यर्थको काम करना चाहिये । औदारिकद्विक,
मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वके सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें औदारिक-

१ अर्थात् ' देवा मुदयक्खणेण ', आ-आप्रत्यो. ' देवाणमुदयक्खणेण ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' सम्मामिच्छाइड्ढीहि ' इति पाठः ।

पुरिसवेदपच्चएहि विणा चालीसपच्चया । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुच्ची-वेउव्वियसरीर-वेउ-
व्वियसरीरंगोवंगाणं वेउव्विय-वेउव्वियमिस्सपच्चया सच्चगुणङ्गाणपच्चएसु सच्चत्थ अवणेदच्चा ।
ओरालियदुग-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चीणं असंजदसम्मादिङ्किम्हि चालीस पच्चया,
वेउव्वियमिस्स-ओरालिय-ओरालियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसवेदपच्चयाणमभावादे । वज्जिरि-
सहसंधणस्स सम्मामिच्छाइङ्किम्हि चालीस पच्चया, ओरालियकायजोगित्थि-पुरिसवेदपच्चयाण-
मभावादे । असंजदसम्माइङ्किम्हि चालीस पच्चया, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-
कम्मइयकायजोगित्थि-पुरिसवेदपच्चयाणमभावादे ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-बारसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुग्गुछा-
पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-अजसकित्ति-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइङ्किम्हि चउ-
गइसंजुत्तो बंधे । सासणे तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादे । असंजदसम्माइङ्कि-सम्मा-
मिच्छाइङ्कीसु दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादे । सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-
समचउरससंठाण-पसत्थाविहायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकितीणं मिच्छाइङ्कि-सासण-

काययोग, स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्ययोंके विना चालीस प्रत्यय हैं । देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरान्गोपांगके वैक्रियिक और वैक्रियिकमिश्र प्रत्ययोंको सब गुणस्थानोंके प्रत्ययोंमें सर्वत्र क्रम करना चाहिये । औदारिकद्विक, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहाँ वैक्रियिकमिश्र, औदारिक, औदारिकमिश्र, कामेण काययोग, स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्ययोंका वहाँ अभाव है । वज्रपर्मसंहननके सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिककाययोग, स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्ययोंका वहाँ अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उसके चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र, कामेण काययोग, स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्ययोंका वहाँ अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आसाता वेदनीय, बारह कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलहु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, अयशाकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें बारों गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ नरकगतिका अभाव है । असंयतसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ नरकगति और तिर्यग्गतिका अभाव है । साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोत्ताति, स्थिर, शुभ, सुभग,

सम्मादिङ्गीसु तिगइसंजुतो, गिरयगईए अभावादो । सम्मामिच्छाडिङ्गि-असंजदसम्मादिङ्गीसु दुगइ-संजुतो, गिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गणुपुव्वीणं सव्वगुणङ्गणेसु बंधो मणुसगइसंजुतो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जरिसहसंधडणाणं मिच्छाडिङ्गि-सासण-सम्मादिङ्गीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो । सम्मामिच्छादिङ्गि-असंजदसम्माइङ्गीसु मणुसगइसंजुतो, अण्णगइबंधाभावादो । देवगइद्दुगस्स देवगइसंजुतो । वेउव्वियदुगस्स मिच्छाडिङ्गीसु दुगइ-संजुतो, तिरिक्ख-मणुसगईणमभावादो । सासणसम्मादिङ्गि-सम्मामिच्छादिङ्गि-असंजदसम्मा-दिङ्गीसु देवगइसंजुतो, अण्णगइबंधेण संजोगविरोहादो । उच्चागोदस्स सव्वगुणङ्गणेसु देवगइ-मणुसगइसंजुतो बंधो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-शरसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुग्गुच्छा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्लुवचउक्क-पसत्थविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदञ्ज-जसकिति-अजसकिति-णिमिण-पंचंतराइय-उच्चागोदाणं चउगइमिच्छाडिङ्गि-सासण-

सुस्वर, आदेय और यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगतिका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तिर्यग्गतिका अभाव है । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वका सब गुणस्थानोंमें मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीररंगोपांग और वज्रपर्मसंहननका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तिर्यग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है । देवगतिद्विकका देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । वैक्रियिकाद्विकका मिथ्यादृष्टियोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, तिर्यग्गति और मनुष्यगतिके बन्धका अभाव है । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके बन्धके साथ उसके संयोगका विरोध है । उच्चगोत्रका सब गुणस्थानोंमें देवगति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ष, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्यन्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, पांच अन्तराय और उच्चगोत्रके चारों गतियोंके

सम्मादिट्ठिणो, तिगइसम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मामिच्छिणो सामी, देवगईए अभावादे । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंधडणाणं चउगइमिच्छाइट्ठि-सासणसम्मामिच्छिणो . गिरयगइसम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मामिच्छिणो च सामी । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं दुगइमिच्छाइट्ठि-सासणसम्मामिच्छि-सम्मामिच्छाइट्ठि-असंजद-सम्मामिच्छिणो च सामी, गिरय-देवगईणमभावादे ।

बंधद्वानं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अबंधा णत्थि' ति वयणादे । ध्रुवबंधीणं मिच्छदिट्ठिम्ह बंधो चउव्विहो । अणत्थ तिविहो, ध्रुवाभावादे । अद्भुवबंधीणं सव्वत्थ सादि-अद्भुवो, अणादि-ध्रुवाणमभावादे ।

संपहि दुड्डाणपयडीणं परूवणा कीरदे—अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, सासणसम्मामिच्छिम्ह तदुभयवोच्छेदुवलंभादे । एवं तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए वि.वत्तव्वं । असंजदसम्मामिच्छिम्ह वि तदुदओ अत्थि ति चे ण, किण्णलेस्साए गिरुद्धाए

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि, तथा तीन गतियोंके सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, यहां देवगतिसमें इनके बन्धका अभाव है । मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रपर्मसंहननके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि और नरकगतिके सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । देवगतिद्विक और वैकिकिकद्विकके दो गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरक और देव गतिसमें इनके बन्धका अभाव है ।

बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं है' ऐसा सूत्रमें कहा गया है । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है । अध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि च अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अनादे और ध्रुव बन्धका अभाव है ।

अव-द्विस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं—अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है । इसी प्रकार तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीके भी कहना चाहिये ।

शंका—असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें भी तो तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका उदय है, फिर उसका उदयव्युच्छेद सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें कैसे सम्भव है ।

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेख्याका अनुपंग होनेपर उसका वहां उदय

तदुदयासंभवादे । अवसेसाणं पयडीणं उदयवोच्छेदो णत्थि, वंधवोच्छेदो चैव । सव्वसिं पयडीणं वंधो सोदय-परोदओ, अद्धुवोदयत्तादे । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्के-तिरिक्खाउआणं वंधो णिंरंतरो, एगसमएण वंधुवरमाभावादे । इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंधेण-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं वंधो सांतरो, एगसमएण वि वंधुवरसुव-लेभादे । निरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्नी-णीचागोदाणं वंधो सांत-णिंरंतरो । कुदो ? सत्तमपुढवीद्धिंदमिच्छाहडि-सासणसम्मादिट्ठीसु तेउ-वाउकाइयमिच्छाहड्डीसु च णिंरंतरबंधु-वलंभादे । पच्चया सुगसा । णवरि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाहडिह्मि वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-पच्चया अवणेदव्वा । सासणसम्मादिट्ठिमिह ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया अव-णेदव्वा । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं वंधो चउगइसंजुतो । इत्थिवेदस्स तिगइसंजुतो, णिरयगइए अभावादे । चउसंठाण-चउसंधेणणं दुगइसंजुतो, णिरय-देवगइणमभावादे । अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं मिच्छाहड्डीसु तिगइसंजुतो, देवगइए

असम्भव है ।

शेष प्रकृतियोंका उद्दययुच्छेद नहीं है, केवल बन्धव्युच्छेद ही है । सब प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अद्धुवोदयी हैं । स्थानशुद्धित्रय, अनन्तानुबन्धि-चतुष्क और तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है । स्त्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रदास्तविहायोगाति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम पाया जाता है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वा और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि सप्तम पृथिवीमें स्थित मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि नारकियोंमें तथा तेज व वायु कायिक मिथ्यादृष्टि जीवोंमें भी उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि तिर्यगायुके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें वैक्रियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको क्रम करना चाहिये । सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिकामिश्र, वैक्रियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको क्रम करना चाहिये । स्थानशुद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है । स्त्रीवेदका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उसके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है । चार संस्थान और चार संहननका बन्ध दो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उनके साथ नरकगति और देवगतिके बन्धका अभाव है । अप्रदास्तविहायोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टियोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिका वहां अभाव है ।

अभावादे । सासणे दुगइसंजुतो, गिरय-देवगईणमभावादे । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्ख-
गइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जेवाणं तिरिक्खगइसंजुतो, साभावियादे । शीणगिद्धितियादीणं पयडीणं
बंधस्स चउग्गइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो सामी, अविरोहादे । बंधद्धानं बंधविणड्डाणं
च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छाइडिडि चउज्जिहो बंधो । सासणे दुविहो, अणाइ-धुवबंधाभावादे ।
अवसेसाणं बंधो सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादे ।

एगहाणपयडीणं परूवणा कीरदे— मिच्छेइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-
गिरयाणुपुव्वी-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति,
मिच्छाइडिडि चैव तदुभयवोच्छेदुवलंभादे । अवसेसाणं पयडीणं उदयवोच्छेदो णत्थि,
बंधवोच्छेदो चैव । मिच्छत्तस्स बंधो सोदओ । गिरयाउ-गिरयगइ-गिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीणं
परोदओ, सोदएण बंधविरोहादे । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सोदय-परोदओ, उभयहा वि
अविरुद्धबंधादे । मिच्छत्त-गिरयाउआणं बंधो गिरंतरो । अवसेसाणं सांतरो, एगससएण वि
बंधुवरमदंसणादे । पच्चया सुगमा । णवरि गिरयाउ-गिरयगइ-गिरयाणुपुव्वीणं वेउज्जिय-

सासादनमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और देवगतिका
अभाव है । तिर्यंगाणु, तिर्यंगति, तिर्यंगतिप्रायोग्यानुपूर्वीं और उद्योतका तिर्यंगतिसे
संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, पेसा स्वभाव है । स्त्यानगृद्धिन्नय आदि प्रकृतियोंके बन्धके
चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध
नहीं है । बन्धाघ्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता
है, क्योंकि, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि और
अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

एकस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं— मिथ्यात्व, -पकेन्द्रिय, हीन्द्रिय,
धीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नारकानुपूर्वीं, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और
साधारणशरीरका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि
गुणस्थानमें ही उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है । शेष प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद
नहीं है, केवल बन्धव्युच्छेद ही है । मिथ्यात्वका बन्ध स्वोदय होता है । नारकायु,
नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वींका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके
साथ इनके बन्धका विरोध है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि,
दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धमें कोई विरोध नहीं है । मिथ्यात्व और नारकायुका बन्ध
निरन्तर होता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी
उनका बन्धविध्वामका देखा जाता है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि नारकायु,

वेउञ्चियमिस्स ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया णत्थि, अपज्जत्तकाले एदासिं- बंधाभावादो । एइंदिय-आदाव-थावराणं वेउञ्चियकायजोगपच्चओ अवणेयच्चो । वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं वेउञ्चिय-वेउञ्चियमिस्सपच्चया अवणेदच्चा, देव-णेरइएसु एदासिं- बंधाभावादो । मिच्छत्तस्स चउगइसंजुतो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं तिगइसंजुतो, देवगदीए अभावादो । असंपत्तसेवइसंघडण-अपज्जत्ताणं दुगइसंजुतो, णिरय-देवगईणमभावादो । णिरयाउ-णिरयदुगाणं णिरयगइसंजुतो । अवसेसाणं पयडीणं तिरिक्खगइसंजुतो बंधो । णिरयाउ-णिरयदुग-चीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइसंघडणाणं चउगइमिच्छाइडी सामी । एइंदिय-आदाव-थावराणं तिगइमिच्छाइडी सामी । बंधद्धानं णत्थि, एकमिह अद्धानविरोहादो । बंधवोच्छेदो सुगमो । मिच्छत्तस्स बंधो चउच्चिहो । अवसेसाणं सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

मणुसाउअस्स मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु बंधो सोदय-परोदओ । असंजदसम्मा-दिडीसु परोदओ । सच्चत्थ णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया ओघसिद्धा ।

नरकगति और नारकानुपूर्विके वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं हैं, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनके बन्धका अभाव है । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके वैक्रियिककाययोग प्रत्यय कम करना चाहिये । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण शरीरके वैक्रियिक और वैक्रियिकमिश्र प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, देव और नारकियोंमें इनके बन्धका अभाव है ।

मिथ्यात्वका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है । नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ देवगतिके बन्धका अभाव है । असंप्राप्तसुपाटिकासंहनन और अपर्याप्तका बन्ध दो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरक और देव गतिके बन्धका अभाव है । नारकायु और नरकद्विकका बन्ध नरकगतिसे संयुक्त होता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध तिर्यग्गतिसे संयुक्त होता है । नारकायु, नरकद्विक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके तिर्यंच और मनुष्य स्वामी है । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसुपाटिकासंहननके स्वामी चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीव हैं । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छेद सुगम है । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अद्भुच बन्ध होता है, क्योंकि, वे अद्भुचबन्धी हैं ।

मनुष्यायुका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादन्नसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय होता है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें उसका परोदय बन्ध होता है । सर्वत्र निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय ओघसे सिद्ध हैं ।

णवरि मिच्छाद्द्विद्दिं वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया, सासणे वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्म-इयपच्चया, असंजदसम्मादिद्दिं ओरालियदुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसवेदपच्चया अवणेद्वंवा; असुंइतिलेस्सासु मणुसाउअं बंधमाणणं देवासंजदसम्मादिद्दिणमणुवलंभादे । ण च देवेषु पज्जत्तएसु असुहतिलेस्साओ अत्थि, भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिपसु अपज्जत्तयदेवेषु चेव तासिसुवलंभादे । ण च देवा णेरइथा वा पज्जत्तणामकम्मोदयतिरिक्ख-मणुसा अपज्जत्तयदा संता आउअं बंधंति, तिरिक्ख-मणुसअपज्जत्ते मोत्तूण अण्णत्थ तव्वंधाणुव-लंभादे । मणुसगइसंजुत्तो । तिगइमिच्छाद्द्वि-सासणसम्मादिद्दिणो णिरयगइअसंजदसम्मादिद्दिणो च सामी । बंधद्धानं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, किण्हलेस्साए वट्टमाणसंजदासंजदाणमणुव-लंभादे । सादि-अद्दुवो बंधो, अद्दुवबंधितादो ।

देवाउअस्स सव्वत्थ बंधो परोदओ, बंधोदएसु उदयबंधाणमचंचताभावावट्टाणादो । णिरंतरो, अंतोसुहुत्तेण विणा बंधुवरमामावादो । सव्वेसिं पि वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालिय-मिस्स-कम्मइयपच्चया सग-सगोघपच्चएहिंतो अवणेयव्वा । देवगइसंजुत्तो । तिरिक्ख-मणुसा

विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें वैकियिकमिश्र और कामेण-प्रत्ययोंको, सासादन गुणस्थानमें वैकियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोंको, तथा असंयत-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिकद्विक, वैकियिकमिश्र, कामेण, ह्यविद और पुरुषवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये; क्योंकि, अशुभ तीन लेइथाओंमें मनुष्यायुको बांधनेवाले देव असंयतसम्यग्दृष्टि पाये नहीं जाते । और देव पर्याप्तकोंमें अशुभ तीन लेइथायें होती नहीं हैं, क्योंकि भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी अपर्याप्तक देवोंमें ही वे पाई जाती हैं । तथा देव, नारकी अथवा पर्याप्त नामकमौदय युक्त तिर्यंच व मनुष्य अपर्याप्त होकर आयुको बांधते नहीं हैं, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्य अपर्याप्तोंको छोड़कर अन्यत्र उसका बन्ध पाया नहीं जाता । मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तथा नरकगतिके असंयत सम्यग्दृष्टि भी स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेइथामें वर्तमान संयतासंयत पाये नहीं जाते । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है ।

देवायुका सर्वत्र परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, बन्ध और उदयके होनेपर क्रमसे उसके उदय और बन्धका अत्यन्ताभाव अवस्थित है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है । सभी जीवोंके वैकियिक, वैकियिक-मिश्र, औदारिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोंको अपने अपने ओघप्रत्ययोंमेंसे कम करना चाहिये । देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । तिर्यंच और मनुष्य ही स्वामी हैं । बन्धाध्वान

चेव सामी । बंधद्वाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, उवरिन्दि बंधुवलंभादो । सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

तित्थयरस्स बंधो परोदओ, बंधे उदयविरोहादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । ओघपच्चएसु वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवणेद्ववा । देवगइसंजुत्तो, किण्ण-लेस्सियणेरइएसु तित्थयरबंधाभावेण मणुसगइसंजुत्तत्ताभावादो । सामी मणुसा चेव, अण्णत्थां-संभवात्ते । बंधद्वाणं णत्थि, एक्कन्दि असंजइसम्मादिट्ठिहाणे अद्दवाणविरोहादो । बंधवोच्छेदो णत्थि, उवरिं पि बंधदंसणादो । सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

एवं चेव णील्लेसाए परूवेदव्वं । णवरि तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचाओदाणं सासणसम्माइट्ठिम्हि सांतरो बंधो, सत्तमपुढवीसासणसम्माइट्ठिणो मोत्तूणणत्थेदासिं सासणेसु णिरंतरबंधाणुवलंभादो । ण च सत्तमपुढवीणील्लेस्सिया सासणसम्माइट्ठिणो अत्थि, तत्थ किण्णलेस्सं मोत्तूणणत्थेस्साभावादो । कंभं मिच्छाइट्ठीं णील्लेस्साए णिरंतरो बंधो ? ण,

सुगम है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर बन्ध पाया जाता है । सादि व अद्दुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अद्दुवबन्धी है ।

तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध परोदय होता है, क्योंकि, बन्धके होनेपर उसके उदयका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविभ्रामका अभाव है । ओघप्रत्ययोंमें वैकिकिक, वैकिकिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, कृष्णलेइयावाले नारकियोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका अभाव होनेसे मनुष्यगतिके संयोगका अभाव है । स्वामी मनुष्य ही हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके कृष्णलेइया युक्त जीवोंमें उसके बन्धकी सम्भावना नहीं है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर भी बन्ध देखा जाता है । सादि व अद्दुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अद्दुवबन्धी है ।

इसी प्रकार ही नील लेइयामें प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वा और नीचगोत्रका सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके सासादनसम्यग्दृष्टियोंको छोड़कर अन्यत्र इनका सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध पाया नहीं जाता । और सप्तम पृथिवीमें नीललेइयावाले सासादनसम्यग्दृष्टि हैं नहीं, क्योंकि, वहां कृष्णलेइयाको छोड़कर अन्य लेइयाओंका अभाव है ।

शंका—नीललेइयामें मिथ्यादृष्टियोंके उँनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

तेउ-चाउकाइएसु णीललेस्सिएसु तिरिक्खगइदुग-णीचागोदाणं गिरंतरबंधुवलंभादो । तदियपुढवीए णीललेस्साए वि संभवादो तित्थयरबंधस्स मणुस्सा इव णेरइया वि सामिणो होंति त्ति किण्ण परू-विज्जदे ? तत्थ हेड्डिमइंदए णीललेस्सासहिए^१ तित्थयरसंतकम्मियमिच्छाइडीणमुववादाभावादो । कुदो ? तत्थ तिस्से पुढवीए उक्कस्साउदंसणादो । ण च उक्कस्साउएसु तित्थयरसंतकम्मिय-मिच्छाइडीणमुववादो अत्थि, तहोवरसाभावादो । तित्थयरसंतकम्मियमिच्छाइडीणं णेरइएसुववज्ज-माणणं सम्माइडीणं व काउलेस्सं मोत्तूण अण्णलेस्साभावादो वा ण णील-किण्हलेस्साए तित्थयरसंतकम्मिया अत्थि ।

एवं काउलेस्साए वि वत्तवं । णवरि तित्थयरस्स मणुसा इव णेरइया वि सामिणो । मणुस-देवगइसंजुतो बंधो । ओषपच्चएसु एक्को वि पच्चओ णावणेयव्वो, वेउव्वियदुगोराणिय-मिस्स-कम्मइयपच्चयाणं भावादो । ओराणियदुग-मणुसगइदुग-वज्जरिसहसंवडणणं असंजद-सम्मादिट्ठिमिह वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया णावणेयव्वा । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्चीए

समाधान—नहीं, क्योंकि तेज व वायु कायिक नीललेइयावाले जीवोंमें तीर्थगति-द्विक और नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

शंका—तृतीय पृथिवीमें नीललेइयाकी भी सम्भावना होनेसे तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके मनुष्योंके समान नारकी भी स्वामी होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, वहां नीललेइया युक्त अधस्तन इन्द्रकमें तीर्थकर प्रकृतिके सत्त्ववाले मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्तिका अभाव है । इसका कारण यह है कि वहां उस पृथिवीकी उत्कृष्ट आयु देखी जाती है । और उत्कृष्ट आयुवाले जीवोंमें तीर्थकरसंतकर्मिक मिथ्यादृष्टियोंका उत्पाद है नहीं, क्योंकि, वैसा उपदेश नहीं है । अथवा नारकियोंमें उत्पन्न होनेवाले तीर्थकरसन्तकर्मिक मिथ्यादृष्टि जीवोंके सम्यग्दृष्टियोंके समान कापोत लेइयाको छोड़कर अन्य लेइयाओंका अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेइयामें तीर्थकरकी सत्तावाले जीव नहीं होते ।

इसी प्रकार कापोतलेइयामें भी कहना चाहिये । विशेषता इतनी है कि तीर्थकर प्रकृतिके मनुष्योंके समान नारकी भी स्वामी हैं । मनुष्य और देव गतिले संयुक्त बन्ध होता है । ओषप्रत्ययोंमेंसे एक भी प्रत्यय कम नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वैकियिकद्विक, औदारिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका यहां सद्भाव है । औदारिकद्विक, मनुष्यगतद्विक और वज्रपर्मसंहननके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें वैकियिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंको कम नहीं करना चाहिये । तीर्थगतिप्रायोग्यानुपूर्विका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय

बंधो पुव्वमुदओ पच्छा वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिट्ठि-असंजदसम्मादिइसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । अण्णो वि जइ भेदो अत्थि सो वि चितिय वत्तव्वो ।

तेजलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु पंचणाणावरणीय-छहदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचि-दियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्विय-सरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुव-लहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेय-सरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंच-तराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २५९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २६० ॥

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि । अवसेसाणं पयडीण-

व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सालादनसभ्यगृष्टि और असंयतसभ्यगृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । अन्य भी यदि भेद है तो उसे भी विचारकर कहना चाहिये ।

तेज और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरोंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, चादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २६० ॥

देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता

सुदयादो बंधो पुर्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति परिकखा णत्थि, एत्थ बंधोदयवोच्छेदाभावादे । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-वादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, ध्रुवोदयत्तादे । णिदा पयला-सादावेदणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थ-विहायगइ-सुस्सराणं सच्चगुणट्ठाणेसु सोदय-परोदओ बंधो, अन्धुवोदयत्तादे । देवगइ-देवगइ-पाओग्माणुपुव्वी-वेउच्चियसरीर-वेउच्चियसरीरअंगोवंगाणं बंधो परोदओ, सोदएण बंधविराहादे । उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाहट्ठि-सासणसम्माइट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणं सोदय-परोदओ, अपज्जत्तकाले उदयाभावादे । सेसेसु बंधो सोदओ, तेसिमपज्जत्तद्वाए अभावादे । सुभग-आदेज्ज-जसकित्तीणं मिच्छाहट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ठि त्ति बंधो सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चैव, पडिक्खुदयाभावादे । उच्चागोदस्स मिच्छाहट्ठिपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति बंधो सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ, पडिक्खुदयाभावादे ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसंजलण-भय-दुगुंछ-देवगइ-वेउच्चियदुग-तेजा-

है । शेष प्रकृतियोंके उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उनके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, घर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, व्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी हैं । निद्रा, प्रचला, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वरका सव गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे अन्धुवोदयी हैं । देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकियिकशरीर और वैकियिक-शरीरअंगोपांगका बन्ध परोदय होता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ इनके बन्धका विरोध है । उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंके स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनके उदयका अभाव है । शेष गुणस्थानोंमें स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपर्याप्त-कालका अभाव है । सुभग, आदेय और यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत-सम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है । उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, देवगति,

कम्मइयसरीर-वण्ण-बंध-रस-फास-अगुरुबलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-
णिमिण-पंचंतराड्याणं बंधो णिरंतरो, एत्थ धुवबंधितादो । सादावेदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुह-
जसक्तिणं मिच्छाइड्ढिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा त्ति बंधो सांतरो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्ख-
पयडीणं बंधाभावादो । पंचिदियजादि-तसणामाणं मिच्छाइड्ढिम्हि बंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्खेसु
सणक्कुमारादिदेवेसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो ।
पुरिसवेदस्स मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढिसु सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमुवलंभादो । उवरि
णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो ।

पच्चया सुगमा, ओषपच्चएहितो विसेसाभावादो । णवरि देवगइ-वेउव्वियदुगाणं
मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढिसु ओरालियमिस्स-वेउव्वियदुग-कम्मइयकायजोगपच्चया अव-
ण्येयव्वा, देव-णेरइएसु अपज्जत्ततिरिक्ख-मणुसेसु च एदासि बंधाभावादो । सम्माभिच्छाइड्ढिम्हि
वेउव्वियकायजोगपच्चओ, असंजदसम्मादिड्ढिम्हि वेउव्वियदुगपच्चओ अवणेदव्वो । मिच्छा-
इड्ढि-सासणसम्माइड्ढिसु सव्वपयडीणं पि ओरालियमिस्सपच्चओ अवण्येयव्वो, तिरिक्ख-मणुस-

वैक्यिकद्विक, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अंगुरुलघु, उपघात,
परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध
निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां थे ध्रुवबन्धी हैं । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ
और यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयतों तक सान्तर बन्ध होता है । ऊपर
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पंचेन्द्रिय-
जाति और त्रस नामकर्मका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
तिर्यंचों और सनत्कुमारादि देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध
होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पुरुषवेदका मिथ्यादृष्टि
और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी
उसका बन्धविश्राम पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष
प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओषप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है । भेद इतना है कि
देवगतिद्विक और वैक्यिकद्विकके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदा-
रिकमिश्र, वैक्यिकद्विक और कर्मण काययोग प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि,
देव-नारकियों तथा अपर्याप्त तिर्यंच व मनुष्योंमें भी इनके बन्धका अभाव है । सम्य-
ग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें वैक्यिक काययोग प्रत्यय तथा असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें
वैक्यिक और वैक्यिकमिश्र प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि और सासादन-
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सभी प्रकृतियोंके औदारिकमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये,

मिच्छाईडि-सासणसम्मादिहीणमपञ्जत्तकाले सुहलेस्साणमभावादो ।

पंचपाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-पंचिदिय-तेजा-कम्मइय-समचउरससंठाण-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुअचउक्क-पसरथ-विहायगदि-थिर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-पंचंतराड्याणं मिच्छाईडि-सासणसम्मा-दिहीसु बंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादो । सम्मामिच्छाईडि-असंजदसम्मादिहीसु दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणममावादो । उवरिमेसु देवगइसंजुत्तो, तत्थण्णगईणं बंधा-भावादो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं देवगइसंजुत्तो, अण्णगईहि बंधविरोहादो । उच्चावोदस्स मिच्छाईडि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवरि देवगइसंजुत्तो बंधो ।

सव्वासिं पयडीणं तिगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजद-सम्मादिहिणो सामी, णिरएसु तेउलेस्सादिसुहलेस्साभावादो । दुगइसंजदासंजदा, मणुसगइसंजदा

क्योंकि, तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अपर्याप्तकालमें शुभ लेश्याओंका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, राति, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णादिक चार, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगतिका अभाव है । सम्यग्मिथ्या दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तिर्यग्गतिका अभाव है । उपरिम गुणस्थानोंमें देवगति संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है । देवगतिद्विक और वैकल्पिकद्विकका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका विरोध है । उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है ।

सब प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या-दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं. क्योंकि, नारकियोंमें तेजोलेश्यादि शुभ लेश्याओंका अभाव है । दो गतियोंके संयतासंयत और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं ।

सामी । णवरि वेउव्वियचउक्कस्स तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मा-
मिच्छाइडि-असंजदसम्माइडि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । वंधद्धणं धुगमं ।
बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अवंधा णत्थि' ति वयणादो । धुवबंधीणं मिच्छाइडिमिह् वंधो,
चउव्विहो । अण्णत्थ ति विहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं सव्वत्थ सादि-अडुवो,
अडुवबंधितादो ।

वेद्वणी ओधं ॥ २६१ ॥

तं ज्हा— अणंताणुबंधिचउक्कस्स वंधोदया समं वोच्छिणां, सासणसम्मा-
दिडिमिह् दोणं वोच्छेदुवलंमादो । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए पुणो उदओ चैव णत्थि,
तेउलेस्साहियारादो । सेसाणं पयडीणं वंधवोच्छेदो चैव, उदयवोच्छेदाभावादो । थीणगिद्धित्थि-
अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं सोदय-परोदओ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुग-चउसंठाणं-चउसं-
घडण-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दूमग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं दोसु वि गुणट्ठाणेषु वंधो

विशेषता इतनी है कि वैकृतिकचतुष्कके तिर्यच और मनुष्य गतिके मिथ्यादृष्टि, सासादन-
सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत; तथा मनुष्यगतिके संयत
स्वामी हैं । वन्धध्वान सुगम है । वन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अवन्धक नहीं है'
पेसा सूत्रमें निर्दिष्ट है । धुवबंधी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका
वन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव
वन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अंधुव वन्ध होता है, क्योंकि, वे
अंधुवबन्धी हैं ।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६१ ॥

वह इस प्रकार है—अनन्तानुबन्धिचतुष्कका वन्ध और उदय दोनों साथमें
व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया
जाता है । परन्तु तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्विका यहां उदय ही नहीं है, क्योंकि, तेजोलेइयांका
अधिकार है । शेष प्रकृतियोंका केवल वन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, उनके उदयव्युच्छेदका
अभाव है । स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और खीवेदका स्वोदय-परोदय वन्ध होता
है । तिर्यगायु, तिर्यग्गतिद्विक, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अग्रशस्तधिहायोगति,
दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानोमें स्वोदय-परोदय

१ प्रतिउ 'वोच्छिणो' इति पाठ ।

२ क जाप्रसो 'गइदुगसठाण-चउसंघडण', काप्रसो 'गइदुगसठाणचउसंघडण-चउसंघडण' इति पाठ ।

सोदय-परोदओ । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं बंधो णिरंतरो । सेसाणं सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमुवलंभादो । सच्चपयडीणं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिड्डीसु चउवण्णेगूणंवासा पच्चया, ओरालियमिस्सपच्चयाभावादो । णवरि तिरिक्खाउअस्स ओरालिय-दुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-णलुंसयवेदपच्चया अवणेदव्वा, पज्जत्तदेवे मोत्तूण अणत्थ बंधाभावादो । तिरिक्खगइदुगुज्जोव-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं ओरालियदुग-णलुंसयवेदपच्चया अवणेयव्वा, तिरिक्ख-मणुस्से मोत्तूण देवाणमेदासि पज्जत्तापज्जत्तावत्थासु बंधुवलंभादो ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुज्जोवाणं बंधो तिरिक्खगइसंजुत्तो । चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगइणमभावादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं बंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगइए अभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुज्जोव-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधस्स देवा चैव सामी, सुहातिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु एदासि

बन्ध होता है । स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम पाया जाता है । सब प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे चौवन और उनंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्र प्रत्ययका यहां अभाव है । विशेष इतना है कि तिर्यगायुके औदारिकद्विक, वैक्रियिकमिश्र व कर्मण काययोग और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, पर्याप्त देवोंको छोड़कर अन्यत्र उसके बन्धका अभाव है । तिर्यग्गतिद्विक, उद्योत, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके औदारिकद्विक एवं नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, तिर्यच और मनुष्योंको छोड़कर देवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें इनका बन्ध पाया जाता है ।

* तिर्यगायु, तिर्यग्गतिद्विक और उद्योतका बन्ध तिर्यग्गतिसे संयुक्त होता है । चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध दो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, नरक और देव गतिके साथ इनके बन्धका अभाव है । स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, यहां नरकगतिके बन्धका अभाव है । तिर्यगायु, तिर्यग्गतिद्विक, उद्योत, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच-गोत्रके बन्धके देव ही स्वामी हैं, क्योंकि, शुभ तीन लेश्यावाले तिर्यच व मनुष्योंमें इनके

बंधाभावाद्दो । शीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि च उक्कित्थिवेदाणं तिगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो सामी, गिरयगईए सुहतिलेस्साभावाद्दो । बंधद्वाणं बंधवोच्छिण्णद्वाणं च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छाइडिम्हि चउव्विहो बंधो । सासणे' दुविहो, अणाइ-धुवाभावाद्दो । सेसाणं पयडीणं बंधो सव्वत्थ सादि-अद्दुवो ।

असादावेदणीयमोधं ॥ २६२ ॥

देसामासियसुत्तेणेदेण सुइदत्थपरूवणा कीरदे । तं जहा—अजसकितीए पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, पमत्तासंजदसम्मादिट्ठीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिरासुहाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, तहोवलंभादो । अथिर-असुहाणं बंधो सोदओ, धुवोदयत्तादो । अजसकितीए मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइडि ति सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चव । असादावेदणीय-अरदि-सोगाणं सोदय-परोदओ, सव्वत्थ अद्दुवोदयत्तादो । सांतरो बंधो, सव्वासिमेदासिमेगसमणण वि सव्वगुणद्वाणेसु बंधुवरसुवलंभादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चपरहितो विसेसाभावाद्दो । णवरि मिच्छाइडि-

बन्धका अभाव है । स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें शुभ तीन लेख्याओंका अभाव है । वन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, जहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सादि च अद्भुत होता है ।

असातावेदनीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६२ ॥

इस देशमर्शक सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—अयशकीर्तिका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रसक्त और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें कमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर और अशुभका पूर्वमें बन्ध व पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है । अस्थिर और अशुभका बन्ध स्वोदय होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं । अयशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिले लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है । असातावेदनीय, अरति और शोकका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये सर्वत्र अद्भुतोदयी हैं । सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इन सबका एक समयसे भी सब गुणस्थानोंमें बन्धविश्राम पाया जाता है । प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है । विशेषता

सासणसम्मादिट्ठीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवणोयव्वो । तिगइसंजुतो बंधो मिच्छाइट्ठि-
सासणसम्मादिट्ठीसु । सम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु दुगइसंजुतो । उवरि देवगइसंजुतो ।
तिगइमिच्छाइट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो, दुगइसंजदासंजदा,
मणुसगइसंजदा च सामी । मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति अद्धाणं । बंधवोच्छेदद्वाणं
सुगमं । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधित्तादो ।

**मिच्छत्त-णत्तुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंध-
डण-आदाव-थावरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २६३ ॥**

सुगमं ।

मिच्छाइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २६४ ॥

मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा । णत्तुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंधडण-
एइंदिय-आदाव-थावरणामाणं बंधवोच्छेदो चेव, उदयाभावादो । मिच्छत्तस्स सोदएण बंधो,
उदयाभावे बंधाणुवलंभादो । णत्तुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंधडण-एइंदिय-आदाव-थावराणं

इतनी है कि मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्यय कम
करना चाहिये। मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उनका बन्ध तीन गतियोंसे
संयुक्त होता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त
बन्ध होता है। ऊपर उनका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासा-
दनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; दो गतियोंके संयतासंयत, तथा
मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धाध्वान है।
बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम है। सादि व अद्भव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अद्भवबन्धी हैं।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन,
आताप और स्थावर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २६३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २६४ ॥

मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। नपुंसकवेद, हुण्ड-
संस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर नामकर्मका केवल
बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है। मिथ्यात्वका स्वोदयसे बन्ध
होता है, क्योंकि, उदयके अभावमें उसका बन्ध पाया नहीं जाता। नपुंसकवेद, हुण्ड-
संस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका बन्ध परोदय

चवो परोदओ, एदासि देवेसु उदयानावादो । मिच्छत्तचवो पिरंतरो, धुवचंचित्तादो ।
अण्णपयडीणं सांतरो, एगसमएण वि वंजुवरमुवलंभादो । पच्चया सुगमा, ओषपच्चपहितो
विसेसानावादो । णवरि ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वो, तत्थ सुहलेत्साए अभावादो ।
पउंसयवेदंहुंडसंठाण-असपत्तेवहंसंघडग-एइंदिय-आदाव-धावरणं ओरालियदुग-कम्मइय-
पनुंसयवेदपच्चया अवणेयव्वा । मिच्छत्तचवो निगइसंजुत्तो । णुंसयवेदंहुंडसंठाण-असंपत्तसेवह-
संघडगाणं दुगइसंजुत्तो, देवगईए अभावादो । एइंदिय-आदाव-धावरणं तिरिक्खगइसंजुत्तो ।
मिच्छत्तचंवत्त तिगइमिच्छइत्तिणो सानी । अवत्तेसपं पयडीणं देवा चैव सामी । चंवद्धाणं
चंववोच्छिग्गहाणं च सुगमं । मिच्छत्तस चंचो चअविहो, धुवचंचित्तादो । सेसाणं सादि-अद्धवो
अद्धवचंचित्तादो ।

अपच्चक्खणावारणीयसोधं ॥ २६५ ॥

एदं देसानासियजुत्तं । तेपेदेग सुइदत्थपरुवणा कीरदे — अपच्चक्खणावारणीयस्स
चंवोदया समं वोच्छिज्जंति, असंपदमन्नादिइत्तिह तदुभयवोच्छेदुवलंभादो । अवसेसाणं
चंववोच्छेदो चैव । अपच्चक्खणावउक्कस्स चंचो सोदय-परोदओ । मणुसगइदुगोरालियदुग-

होता है, क्योंकि, इनका देवोंके उदयाभाव है । मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है,
क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है । अन्य प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे
भी उनका बन्धविश्राम पाया जाता है । प्रत्यक्ष सुगम हैं, क्योंकि, ओषधत्वयोंसे कोई भेद
नहीं है । विशेष इतना है कि यहाँ औद्गारिकनिश्च प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, उसमें
शुभ लेख्याका अभाव है । नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्वपाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय,
आताप और स्थावरके औद्गारिकद्विक, कर्मण और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये ।
मिथ्यात्वका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है । नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्त-
स्वपाटिकासंहननका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, इनके साथ देवगतिके
बन्धका अभाव है । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका तिर्यग्गतिले संयुक्त बन्ध होता है ।
मिथ्यात्वके बन्धके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं । दोय प्रकृतियोंके देव ही स्वामी
हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका
होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है । दोय प्रकृतियोंका सादि व अश्रुव बन्ध होता है,
क्योंकि, वे अश्रुवबन्धी हैं ।

अप्रत्याख्यानारणीयकी प्ररूपणा ओधके समान है ॥ २६५ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है, इसीलिये इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं—
अप्रत्याख्यानारणीयका बन्ध और उदय दोनों सायमं व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि,
असंयतसन्त्यगदृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है । दोय प्रकृतियोंका
बन्धव्युच्छेद ही है । अप्रत्याख्यानारण्यनुष्कका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है ।

वज्जरिसहवइरणारायणसंघडणाणं बंधो परोदओ, सुहलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु एदासिं बंधा-
भावादो । अपच्चक्खणाणचउक्क-ओरालियसरीराणं बंधो णिरंतरो । बंधो मणुसगइदुगस्स मिच्छ-
इड्ढि-सासणसम्मादिड्ढीसु सांतरो । उवरि णिरंतरो । एवं वज्जरिसहसंघडणस्स वि वत्तव्वं ।
ओरालियसरीरअंगोवंगस्स बंधो मिच्छइड्ढिह्मि सांतरो । उवरि णिरंतरो, एइंदियबंधाभावादो ।
पच्चया सुगमा । णवरि अपच्चक्खणाणचउक्कस्स दोसु गुणट्ठणेसु ओरालियमिस्सपच्चओ
अवणेयव्वो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं ओरालियदुग-णुंसयवेदपच्चया
तिसु गुणट्ठणेसु अवणेयव्वो । सम्मामिच्छाइड्ढिह्मि दो चव अवणेयव्वो', ओरालियमिस्सपच्चयस्स
पुक्खेवाभावादो । अपच्चक्खणाणचउक्कस्स मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढीसु तिगइसंजुतो बंधो ।
उवरि दुगइसंजुतो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । मणुसगइदुगस्स मणुसगइसंजुतो ।
ओरालियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढीणो दुगइसंजुत्तमुवीरि मणुसगइ-
संजुत्तमण्णगइबंधाभावादो । अपच्चक्खणाणचउक्कस्स तिगइमिच्छादिड्ढि-सासणसम्मादिड्ढि-
सम्मामिच्छादिड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढीणो सामी । अवसेसाणं पयडीणं देवा सामी । बंधद्वणं

मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्रर्षभवज्जनाराचसंहननका बन्ध परोदय होता है, क्योंकि, शुभ लेख्यावाले तिर्यच व मनुष्योंमें इनके बन्धका अभाव है । अप्रत्याख्यानावरण-
चतुष्क और औदारिकशरीरका बन्ध निरन्तर होता है । मनुष्यगतिद्विकका बन्ध मिथ्यादृष्टि
और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर होता है । ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता
है । इसी प्रकार वज्रर्षभसंहननके भी कहना चाहिये । औदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर होता है । ऊपर निरन्तर होता है, क्योंकि, वहां एकेन्द्रियके
बन्धका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके
दो गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये । मनुष्यगतिद्विक, औदारिक-
द्विक और वज्रर्षभसंहननके औदारिकद्विक और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको तीन गुणस्थानोंमें
कम करना चाहिये । सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें दो प्रत्ययोंको ही कम करना चाहिये,
क्योंकि; औदारिकमिश्र प्रत्ययका पहले ही अभाव हो चुका है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका
मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है ।
ऊपर दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तिर्यग्गतिका
अभाव है । मनुष्यगतिद्विकका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है । औदारिकद्विक और
वज्रर्षभसंहननका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त
तथा ऊपर मनुष्यगतितसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका
अभाव है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि,
सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं ।

बंधवोच्छिन्नद्वानं च सुगमं । ध्रुवबंधीणं मिच्छाइड्ढिमि बंधो चउच्चिहो । अण्णस्य तिचिहो,
ध्रुवाभावादो । सेसाणं बंधो सादि-अद्धुवो, अद्धुवबंधितादो ।

पच्चक्खणाणचउक्कमोघं ॥ २६६ ॥

बंधोदया समं वोच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि तेसिं दोण्णमक्कमेण वोच्छेदुवलंभादो ।
सोदय-परोदओ, दोहि वि ण्योरोहि बंधाविरोहादो' । गिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो ।
पच्चया सुगमा, अपच्चक्खणाणपच्चयतुल्लत्तादो । मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढीसु बंधो तिगइ-
संजुतो । सम्मामिच्छाइड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढीसु दुगइसंजुतो । उवरि देवगइसंजुतो । तिगइ-
मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढि-सम्मामिच्छादिड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा
सामी । बंधद्धानं बंधवोच्छिन्नद्वानं च सुगमं । मिच्छाइड्ढिमि बंधो चउच्चिहो । उवरि
तिचिहो, ध्रुवाभावादो ।

मणुस्साउअस्स ओघभंगो ॥ २६७ ॥

बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता
है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है,
क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६६ ॥

प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं,
क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें दोनोंका एक साथ व्युच्छेद पाया जाता है । स्वोदय-
परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों भी प्रकारोंसे उसके बन्धमें कोई विरोध नहीं है ।
निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रांति का अभाव है । प्रत्यय सुगम
हैं, क्योंकि, वे अप्रत्याख्यानावरणके प्रत्ययोंके समान हैं । मिथ्यादृष्टि और सासादन-
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि और
असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है । ऊपर देवगतिसे
संयुक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि
और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान
और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता
है । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है ।

मनुष्यायुकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६७ ॥

तं जहा— बंधो परोदओ, तेउलेस्साए सच्चगुणद्वाणेसु सोदएण बंधविरोहादो । गिरंतरो, अंतोसुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघाविससादो । णवरि तिसु वि गुणद्वाणेसु ओरालियदुग-वेउच्चियमिस्स-कम्मइय-णउंसयवेदपच्चया अवणेयच्चा । मणुसगइसंजुत्तो । देवा चेव सामी । मिच्छादिद्धि-सासणसम्मादिद्धि असंजदसम्मादिद्धि ति बंधद्धानं । बंधवोच्छेदो सुगमो । बंधो सादि-अद्भवो ।

देवाउअस्स ओघभंगो ॥ २६८ ॥

एदएण सुइत्थपरूवणा कीरदे । तं जहा— बंधो परोदओ, सोदएण बंधविरोहादो । गिरंतरो, अंतोसुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया ओघतुल्ला । णवरि ओघे वि वेउच्चियदुगोरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवणेयच्चा । बंधो देवगइसंजुत्तो । तिरिक्ख-मणुससामीओ । बंधद्धानं सुगमं । अप्पमत्तद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधवोच्छेदो । सादि-अद्भवो बंधो ।

**आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ?
अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २६९ ॥**

वह इस प्रकार है— वन्ध उसका परोदय होता है, क्योंकि, तेजोलेइयामें सब गुणस्थानोंमें स्वोदयसे उसके वन्धका विरोध है । निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके वन्धविधामका अभाव है । प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, उनमें ओघसे कोई भेद नहीं है । विशेष इतना है कि तीनों ही गुणस्थानोंमें औदारिकद्विक, वैक्रियिकमिश्र, कर्मण और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । मनुष्यगतिसंयुक्त वन्ध होता है । देव ही स्वामी हैं । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, यह वन्धाध्यान है । वन्धव्युच्छेद सुगम है । सादि व अधुव वन्ध होता है ।

देवायुकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६८ ॥

इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— वन्ध उसका परोदय होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इसके वन्धका विरोध है । निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके वन्धविधामका अभाव है । प्रत्यय ओघके समान है । विशेषता इतनी है कि ओघमें भी वैक्रियिकद्विक, औदारिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । देवगतिसंयुक्त वन्ध होता है । तिर्यच और मनुष्य स्वामी हैं । वन्धाध्यान सुगम है । अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर वन्धव्युच्छेद होता है । सादि व अधुव वन्ध होता है ।

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मका कौन वन्धक और कौन अवन्धक है ? अप्रमत्तसंयत वन्धक हैं । ये वन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ २६९ ॥

सुगममेदं । कुदो ? अप्पमत्तसंजदा भेव बंधआ, उवरि तेउलेस्साए अभावादो ।

**तित्थयरुणामाणं को बंधो को अबंधो ? असंजदसम्माइट्टी जाव
अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २७० ॥**

सुगमं । णवरि देव-अणुससामीओ बंधो । एवं तेउलेस्साए एसां परूवणा कदा । जहा तेउलेस्साए परूवणा कदा तहा पम्मलेस्साए वि कायच्चा । णवरि पुरिसवेदस्स जम्हि सांतरो बंधो परूविदो तम्हि सांतर-णिरंतरो ति वत्तव्वो, पम्मलेस्सियतिरिक्ख-अणुस्सेसु पुरिसवेदं मोत्तूण अणुवेदस्स बंधाभावादो । जासिं पयडीणं बंधस्स देवा चेव सामी तासिमित्थिवेदपच्चओ अवण्येव्वो, देवेसु पम्मलेस्साए इत्थिवेदाणुवलंभादो । पंचिदिय-तसपयडीणं बंधो णिरंतरो ति वत्तव्वो, तेउलेस्साए एदासिं बंधस्स सांतर-णिरंतरत्तुवलंभादो । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स बंधो परोद्वओ । णिरंतरो, पम्मलेस्साए अंगोवणेण विणा अंधत्तभावादो । पम्मलेस्साए पयडिबंधगयभेदपरूवणइमाह—

यह सूत्र सुगम है । कारण कि अप्रमत्तसंयत ही बन्धक हैं, क्योंकि, इससे ऊपरके गुणस्थानोंमें तेजोलेइयाका अभाव है ।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ २७० ॥

यह सूत्र सुगम है । विशेष इतना है कि इसके बन्धके स्वामी देव न मनुष्य हैं । इस प्रकार तेजोलेइयाका आश्रयकर-यह प्ररूपणा की गई है । जिस प्रकार तेजोलेइयामें प्ररूपणा की है उसी प्रकार पद्मलेइयामें भी करना चाहिये । विशेषता यह है कि पुरुष-वेदका जहां सान्तर बन्ध कहा गया है वहां 'सान्तर-निरन्तर' ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि, पद्मलेइया युक्त तीर्थं च मनुष्योंमें पुरुषवेदको छोड़कर अन्य वेदके ब्रह्मका अभाव है । जिन प्रकृतियोंके बन्धके देव ही स्वामी हैं उनके खीवेद प्रत्ययको क्रम करना चाहिये, क्योंकि, देवोंमें पद्मलेइयामें खीवेद नहीं पाया जाता । प्रचेन्द्रिय जाति और अस-प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिये; क्योंकि, तेजोलेइयामें इनके बन्धके सान्तर-निरन्तरता पाई जाती है । औद्गारिकशरीरांगोपांगका बन्ध परोद्वसे होता है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पद्मलेइयामें अंगोपांगके विना बन्धका अभाव है । पद्मलेइयामें प्रकृतिबन्धगत भेदके प्ररूपणार्थ अंगोका सूत्र कहते हैं—

१ प्रतिष्ठा ' बंधओ ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठा ' तेवलेस्तापसा ' इति पाठः ।

पम्मलेस्सिएसु मिच्छत्तदंडओ णेरइयभंगो ॥ २७१ ॥

एइंदिय-आदाव-थावराणं बंधाभावादो । एत्तिओ चेव भेदो, अण्णो णत्थि । जदि अत्थि सो चित्थिय वत्तव्वो ।

सुककलेस्सिएसु जाव तित्थयरे त्ति ओघभंगो ॥ २७२ ॥

एदेणे, सुइदत्थपरूवणा कीरदे— पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइय-खीणकसाएसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । जसक्ति-उच्चंगोदाणं पि एयं चेव वत्तव्वं । णवरि उदयवोच्छेदो एत्थ णत्थि, अजोगिम्हि उदयवोच्छेददंसणादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिडि त्ति जसक्तिए सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चेव बंधो, पडिवक्खुदयाभावादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जाव संजदासंजदो त्ति उच्चंगोदबंधो सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चेव, णीचागोदुदयाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं बंधो णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । जसक्तिए मिच्छाइडिप्पहुडि

पद्मलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वदण्डककी प्ररूपणा नारकियोंके समान है ॥२७१॥

क्योंकि, उनके एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके बन्धका अभाव है । केवल इतना ही भेद है, और कुछ भेद नहीं है । यदि कुछ भेद है तो उसे विचारकर कहना चाहिये ।

शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ २७२ ॥ इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सूक्ष्मसाम्परायिक और क्षीणकषाय गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । यशकीर्ति और उच्चगोत्रके भी इसी प्रकार कहना चाहिये । विशेष इतना है कि उमका उदयव्युच्छेद यहाँ नहीं है, क्योंकि, अयोगकेवली गुणस्थानमें उनका उदय व्युच्छेद देखा जाता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं । मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक यशकीर्तिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ नीचगोत्रके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अंतरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक

जाव पमतसंजदो त्ति वंधो सांतरो, एगसमएण वि वंधुवरमदंसणादो । उवरि णिरंतरो, पडिक्खपयडिबंधाभावादो । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिट्ठीसु उच्चगोदस्स वंधो सांतर-णिरंतरो, सुक्कलेसियतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो । पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छाइडि-सासणसम्मादिट्ठिपच्चएसु' ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वा, तिरिक्ख-मणुसामिच्छाइडि-सासणसम्मादिट्ठीणमपज्जत्तकाले सुहत्तिलेसाणमभावादो । मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु वंधो देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवरि देवगइसंजुत्तो चैव, अण्णगइबंधाभावादो । तिगइमिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्मामिच्छा-दिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धानं बंधवोच्छिण्णद्धानं च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छाइडिन्दि वंधो चउव्विहो । सासणादीसु तिविहो, धुवबंधाभावादो । सेसाणं सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

एगहाण-चेट्ठाणपयडीओ ठविय उवरिमाओ ताव परूवेमो— णिद्दा-पयलं पुवं वंधो

सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी वहां उसका बन्धविश्राम देखा जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उच्चगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, शुक्ललेइयावाले तिर्यच और मनुष्योंमें उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानके प्रत्ययोंमेंसे औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, तिर्यच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अपर्याप्तकालमें शुभ तीन लेइयाओंका अभाव है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । ऊपर देवगति संयुक्त ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि-दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चार प्रकारका बन्ध होता है । सासादनादिक गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अद्दुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अद्दुवबन्धी हैं ।

एकस्थानिक और द्विस्थानिक प्रकृतियोंको छोड़कर उपरिम प्रकृतिओंकी प्ररूपणा

पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, अपुव्व-खीणकसाएसु बंधौदयवोच्छेदुवलंभादौ । सोदय-परौदओ बंधो, अद्दुवोदयत्तादौ । गिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादौ । पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिट्ठीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेषव्वो । मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिट्ढि-सम्माभिच्छादिट्ढि-असंजदसम्मादिट्ठीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवरि देवगइसंजुत्तो । तिगइ-मिच्छादिट्ढि-सासणसम्मादिट्ढि-सम्माभिच्छादिट्ढि-असंजदसम्मादिट्ढिणो दुंगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सांमी । बंधद्धाणं सुगमं । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।

असादावेदणीयस्स पुव्वं बंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदो णत्थि । अरदि-सोगाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, पमत्तापुव्वेसु बंधौदयवोच्छेदुवलंभादौ । अथिर-असुभाणं बंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्सिएसु सव्वत्थुदयदंसणादौ । अजसकितीए पुव्वमुदयस्स पच्छो बंधस्स वोच्छेदो, पमत्तासंजदसम्मादिट्ठीसु बंधौदयवोच्छेदुवलंभादौ । असादावेदणीय-अरदि-सोगाणं बंधो सोदय-परौदओ, अद्दुवोदयत्तादौ । अथिर-असुहाणं सोदओ चेव, धुवोदयत्तादौ । अजसकितीए मिच्छाइड्ढिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्ढि ति सोदय-

करते हैं— निद्रा और प्रचलाका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और क्षीणकषाय गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । अपूर्वकरणकालके संख्यातवै भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है ।

असातावेदनीयका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । उदयव्युच्छेद नहीं है । अरति और शोकका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अपूर्व-करण गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । अस्थिर और अशुभका बन्ध व्युच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्ललेइयावाले जीवोंमें सर्वत्र उनका उदय देखा जाता है । अयशक्रीतिके पूर्वमें उदयका और पश्चात् बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, प्रमत्त और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है ।

असातावेदनीय, अरति और शोकका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं । अस्थिर और अशुभका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं । अयशक्रीतिके मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता

परोदओ । उवरिं परोदओ चैव, जसकिंतीए गियमेणुदयदंसणादो । छण्णं पि पयहीणं बंधो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । पच्चया ओघतुल्ला । जवरि मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मदिट्ठिसु ओराक्खियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वो । मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मदिट्ठि-सम्मामिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मदिट्ठिसु छण्णं पयहीणं बंधो देव-मणुसगइसंजुतो । उवरि देवगइसंजुतो । तिगइअसंजदा दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णट्ठाणं च सुगमं । बंधो छण्णं पि सादि-अद्धवो, अद्धवुबंधित्तादो ।

अपच्चक्खाणावरणीयस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, असंजदसम्मदिट्ठिमिह दोण्णं वोच्छेदुवलंभादो । सेसाणं बंधवोच्छेदो चैव, उदयवोच्छेदाणुवलंभादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स सोदय-परोदएण वि बंधो, अद्धवोदयत्तादो । अवसेसाणं बंधो परोदओ, सुक्कलेस्साए सव्वगुणट्ठणैसु सोदएणेदासिं बंधविरोहादो । अपच्चक्खाणचउक्क-मणुसगइदुगोराणियदुगाणं बंधो गिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । वज्जरिसहसंधणस्स मिच्छादिट्ठि-सासण-सम्मदिट्ठिसु बंधो सांतरो । उवरि गिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । पच्चया सुगमा ।

है । ऊपर परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नियमसे यशकौर्तिका उदय देखा जाता है । छहों प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम देखा जाता है । प्रत्यय ओषके समान हैं । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें छहों प्रकृतियोंका बन्ध देव और मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके असंयत, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्यगतिके संयत स्वामी है । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । छहों प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।

अप्रत्याख्यानवरणीयका बन्ध और उदय दोनों साथमे व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध-व्युच्छेद ही है, क्योंकि, उनका उदयव्युच्छेद नहीं पाया जाता । अप्रत्याख्यानचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवोदयी है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध परोदय होता है, क्योंकि, शुक्ललेत्रयामं सब गुणस्थानोंमें स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है । अप्रत्याख्यानवरणचतुष्क, मनुष्यगतिके और औदारिकद्विकका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है । वज्रपर्मसंहननका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है । ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं ।

णवरि मिच्छाद्दि-सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वो । मणुसगइदुगोरालियदुग-
वज्जरिसहसंघडणाणमोरालियदुगिथि-णवुंसयवेदपच्चया अवणेयव्व्या, देवेसु एदासिमभावो ।
अपच्चक्खाणचउक्कस्स दुगइसंजुतो बंधो । अवसेसाणं मणुसगइसंजुतो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स
तिगइजीवा सामी । अवसेसाणं पयडीणं देवा सामी । बंधद्धानं बंधवोच्छिण्णद्धानं च सुगमं ।
अपच्चक्खाणचउक्कस्स मिच्छाद्दिमिह्दि बंधो चउच्चिहो । उवरि तिथिहो, धुवाभावो ।
अवसेसाणं सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

पच्चक्खाणावरणीयस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, संजदासंजदग्मि तदुहयवोच्छेद-
दंसणादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्दुवोदयत्तादो । णिरंतरो, एगसमएण धंघुवरमाभावादो ।
पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छाद्दि-सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वो,
तिरिक्ख-मणुसमिच्छाद्दि-सासणसम्मादिद्वीसु अपज्जत्तकाले सुहलेस्साणमभावो । असंजदेसु
बंधो देव-मणुसगइसंजुतो, संजदासंजदेसु देवगइसंजुतो । तिगइअसंजदगुणद्धानाणि, दुगइ-
संजदासंजदा च सामी । बंधद्धानं बंधवोच्छिण्णद्धानं च सुगमं । मिच्छाद्दिमिह्दि बंधो चउच्चिहो ।

विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र
प्रत्ययको कम करना चाहिये । मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्रभसंहननके
औदारिकद्विक, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि,
देवोंमें यहाँ इन प्रत्ययोंका अभाव है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका दो गतियोंसे
संयुक्त बन्ध होता है । शेष प्रत्ययोंका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है ।
अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन गतियोंके जीव स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी
हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता
है, क्योंकि, यहाँ भ्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि च अधुव बन्ध होता
है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।

प्रत्याख्यानावरणायका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि,
संयतासंयत गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है । स्वोदय-परोदय बन्ध
होता है, क्योंकि, वह अधुवोदयी प्रकृति है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे
उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और
सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये, क्योंकि,
तिरिक्ख और मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अपर्याप्तकालमें शुभ लेट्या-
ओंका अभाव है । असंयतोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । संयतासंयतोंमें
देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके असंयत गुणस्थान और दो गतियोंके
संयतासंयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं । मिथ्यादृष्टि
गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि,

उवरि तिविहो, धुवाभावादो ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं वंधोदया समं वोच्छिण्णा, अणियट्टिमि तदुहयवोच्छेद-
दंसणादो । सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादो । कोधसंजलणस्स वंधो णिरंतरो,
धुवबंधितादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढीसु सांतर-णिरंतरो, मुक्कलेस्सिय-
तिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसवेदं मोत्तूणणवेदाणं वंधाभावादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडि-
बंधाभावादो । पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढीसु ओरालियमिस्सपच्चओ
अवणेयव्वो । चटुसु असंजदगुणङ्गाणेषु दुगइसंजुत्तो, उवरि देवगइसंजुत्तो वंधो अगइसंजुत्तो
वा । तिगइअसंजदगुणङ्गाणाणि दुगइसंजदासंजदां मणुसगइसंजदां च सामी । वंधद्वानं तुगमं ।
अणियट्टिअद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । कोधसंजलणस्स मिच्छाइड्ढिमि
चउप्पिहो वंधो । उवरि तिविहो, धुवाभावादो । पुरिसवेदस्स सादि-अद्दुवो, अद्दुव-
बंधितादो ।

माण-माया-लोहसंजलणाणं कोहसंजलणभंगो । णवरि वंधवोच्छेदपदेसो जाणिय
वत्तव्वो ।

वहां धुव वन्धका अभाव है ।

पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधका वन्ध व उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं,
क्योंकि, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है । स्वोदय-
परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे ही वन्ध पाया जाता है । संज्वलन-
क्रोधका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वह ध्रुववन्धी है । पुरुषवेदका मिथ्यादृष्टि
और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, शुक्ल-
लेइयावाले तिर्यच व मनुष्योंमें पुरुषवेदको छोड़कर अन्य वेदोंके वन्धका अभाव है ।
ऊपर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है ।
प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें
औदारिकमिश्र प्रत्यय काम करना चाहिये । चार असंयत गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त
और ऊपर देवगतिसे संयुक्त अथवा अगतिसंयुक्त वन्ध होता है । तीन गतियोंके असंयत
गुणस्थान, दो गतियोंके संयतासंयत. और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । वन्धाध्वान
सुगम है । अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है ।
संज्वलनक्रोधका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारो प्रकारका वन्ध होता है । ऊपर तीन
प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव वन्धका अभाव है । पुरुषवेदका सादि व अधुव
वन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी है ।

संज्वलन मान, माया और लोभकी प्ररूपणा संज्वलनक्रोधके समान है । विशेषता
इतनी है कि वन्धव्युच्छेदस्थानको जानकर कहना चाहिये ।

हस्स-रदि-भय-दुर्गुच्छाणं बंधोदया समं वोच्छिण्णा, अपुक्वरणचरिमत्साए तद्दुहय-
बोच्छेददंसणादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्दुवोदयत्तादो । मिच्छाद्दिट्पिप्पहुडि ज्ञाव पमत्तसंजदो
त्ति हस्स-रदीणं बंधो सांतरो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । भय-दुर्गुच्छाणं
णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छाद्दिट्-सासणसम्मादिट्ठीसु ओरालियमिस्स-
पच्चओ अवणोयच्चो । मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु
मणुस-देवगइसंजुत्तो । उवरि देवगइसंजुत्तो अगइसंजुत्तो च । तिगइमिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-
सम्माभिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं
बंधवोच्छिण्णङ्गाणं च सुगमं । भय-दुर्गुच्छाणं मिच्छाद्दिट्ठिम्ह चउन्विहो बंधो, धुवबंधित्तादो ।
उवरि तिविहो, धुवाभावादो । हस्स-रदीणं सच्चत्य सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

मणुसाउअस्स बंधवोच्छेदो चैव, सुक्कलेस्साए उदयवोच्छेदाणुवलंभादो । परोदओ बंधो,
सुक्कलेस्साए सच्चत्य सोदएण बंधविरोहादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो ।
पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु ओरालियदुग-

हास्य, रति, भय और जगुप्साका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है । बन्ध उनका स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं । मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक हास्य व रतिका सान्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । भय और जगुप्साका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें मनुष्य और देव गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । ऊपर देवगतिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त बन्ध होता है । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, दो-गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाधान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । भय और जगुप्साका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ ध्रुवबन्धका अभाव है । हास्य और रतिका सर्वत्र सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।

मनुष्यायुका केवल बन्धव्युच्छेद ही होता है, क्योंकि, शुक्ललेद्यामें उसका उदय व्युच्छेद नहीं पाया जाता । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, शुक्ललेद्यामें सर्वत्र स्वोदयसे उसके बन्धका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके बिना-उसके बन्ध-विश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम है । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि

वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-णउंसयवेदपच्चया अवणेदव्वा । मणुसगइसंजुत्तो । देवा सामी । मिच्छाइड्ढि-सासणसम्माइड्ढि-असंजदसम्मादिड्ढिणो त्ति वंधद्धाणं । वंधवोच्छिण्णट्ठाणं सुगमं । सादि-अद्भुवो वंधो, अद्भुवबंधितादो ।

देवाउअस्स पुव्वसुदयस्स पच्छा वंधस्स वोच्छेदो, अप्पमत्तासंजदसम्मादिड्ढिसु वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । परोदओ वंधो, सोदएण वंधविरोहादो । णिरंतरो, अंतोसुहुत्तेण विणा वंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छादिड्ढि-सासणसम्मादिड्ढि-असंजदसम्मा-दिड्ढिसु वेउव्वियदुगोरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवणेयव्वा । देवगइसंजुत्तो वंधो । मिच्छाइड्ढिपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति तिरिक्ख-मणुसा सामी । उवरि मणुसा चेव । वंधद्धाणं सुगमं । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधितादो ।

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं पुव्वसुदयस्स पच्छा वंधस्स वोच्छेदो, अप्पुव्वासंजदसम्मादिड्ढिसु वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीणं वंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उदयवोच्छेदाणुवलंभादो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं परोदओ वंधो, सोदएण वंधविरोहादो । पंधिदियजादि-तेजा-

और असंयतसम्यदृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकद्विक, वैकियिकमिश्र, कार्मण काययोग, स्त्रीवेद और मणुसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है । देव स्वामी हैं । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान बन्धाध्वान है । बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम है । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है ।

देवायुके पूर्वमें उदयका और पश्चात् बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, सोदयसे उसके बन्धका विरोध है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें वैकियिकद्विक, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये । देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक तिर्यच व मनुष्य स्वामी हैं । ऊपर मनुष्य ही स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है ।

देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकके पूर्वमें उदयका और पश्चात् बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण व असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमशः उनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । शेष प्रकृतियोंका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, सुक्कलेद्वयामें उनका उदयव्युच्छेद नहीं पाया जाता । देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकका परोदय बन्ध

कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-तस-वादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिणाणं - सोदओ
बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादो । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं सोदय-परोदओ,
उभयत्ता वि बंधाविरोहादो । उवघाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिड्ढि-सासणसम्मादिड्ढि-
असंजदसम्मादिड्ढि बंधो सोदय-परोदओ । अण्णत्थ सोदओ चैव, अपज्जत्तद्धाभावादो ।
णवरि पमत्तसंजदेसु परघादुस्सासाणं सोदय-परोदओ । सुभगादेज्जाणं मिच्छाइड्ढिप्पहुडि जाव
असंजदसम्मादिड्ढि त्ति बंधो सांदय-परोदओ । उवरि सोदओ चैव, पडिवक्खुदयाभावादो ।
देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वेउच्चियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-रस-गंध-फास-
देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-
णिमिणाणामाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधित्तुवलंभादो । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-
सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छाइड्ढि-सासणसम्माइड्ढीसु सांतर-णिरंतरो । होदु णाम सुक्कलेस्सिय-
तिरिक्ख-मणुस्सेसु देवगइसंजुत्तं बंधमाणेसु णिरंतरो बंधो, ण सांतरो ? ण, देवेसु सुक्कलेस्सिएसु

होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है । पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर,
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और निर्माणका
स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवोदयी हैं । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायो-
गति और सुस्वरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही इनके
बन्धमें कोई विरोध नहीं है । उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि,
सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है ।
अन्य गुणस्थानोंमें स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तकालका अभाव है ।
विशेषता इतनी है कि प्रमत्तसंयतोंमें परघात और उच्छ्वासका स्वोदय-परोदय बन्ध
होता है । सुभग और आदेयका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय परोदय
बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके
उदयका अभाव है ।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, वैक्रियिकशरीरंगोपांग,
वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास,
त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर और निर्माण नामकमौका निरन्तर बन्ध होता है,
क्योंकि, यहां इनमें ध्रुवबन्धीपना पाया जाता है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त-
विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें-
सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

शंका—इन प्रकृतियोंको देवगतिसे संयुक्त बांधनेवाले शुक्ललेइयात्राले तिर्यंच-ध
निरन्तर बन्ध भले ही हो, परन्तु सान्तर बन्ध होना सम्भव नहीं है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, शुक्ललेइयावाले देवोंमें उनका सान्तर बन्ध

सांतंरंधुचलंभादो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । थिर-सुमाणं मिच्छाद्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति सांतरो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो ।

पच्यया सुगमा । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधो देवगइसंजुत्तो । सेसाणं पयडीणं मिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवरि देवगइसंजुत्तो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं दुगइमिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । अवसेसाणं पयडीणं बंधस्स तिगइमिच्छादिट्ठि-सासणसम्मादिट्ठि-सम्माभिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धानं सुगमं । अपुव्वकरणद्द्याए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुलहुव-उवघाद-णिमिणाणं' मिच्छाद्विप्पिह्म बंधो चउव्विहो । उवरि तिविहो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्धुवो बंधो ।

आहारदुगस्स ओघभंगो । तित्थयरस्स वि ओघभंगो । दुगइअसंजदसम्मादिट्ठिणो मणुस-

पाया जाता है ।

ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । स्थिर और शुभका मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

प्रत्यय सुगम हैं । देवगति और वैकियिकद्विकका बन्ध देवगतिसंयुक्त होता है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है । ऊपर देवगतिसे संयुक्त होता है ।

देवगति और वैकियिकद्विकके दो गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि व संयतासंयत; तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके बन्धके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है ।

तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारो प्रकारका बन्ध होता है । ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । शेष प्रकृतियोंका सादि व अद्रुव बन्ध होता है ।

आहारकद्विककी प्ररूपणा ओघके समान है । तीर्थंकर प्रकृतिकी भी प्ररूपणा ओघके समान है । विशेषता इतनी है कि उसके दो गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि और

गहसंजदासंजदप्पहुडिओ च' सामी ।

णवरि विसेसो सांदावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ॥ २७३ ॥

औषादो को एत्थ विसेसो ? ण, औषम्मि अबंधगाणसुवलंभादो । एत्थ पुण ते णत्थि, अजोगीसु लेस्साभावादो । का लेस्सा णाम ? जीव-कम्माणं संसिलेसणयैरी, मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगां ति मणिदं होदि । सेसं जसकित्तिभंगो ।

बेट्ठाणि-एक्कट्ठाणीणं णवगेवज्जविमाणवासियदेवाणं भंगो ॥ २७४ ॥

एदस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थो उच्चदे । तं जहा — थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि-चउक्कित्थिवेद-चउसंठाण-चउसंधण-अपसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अप्पादेज्ज-णीचा-

मनुष्यगतिके संयतासंयतादिक स्वामी हैं ।

परन्तु विशेष इतना है—कि सातावेदनीयकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥२७३॥

शंका—ओघसे यहाँ क्या भेद है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ओघमें सातावेदनीयके अवन्धक पाये जाते हैं । किन्तु यहाँ वे नहीं हैं, कारण कि अयोगी जीवोंमें लेइयाका अभाव है । ९

शंका—लेइया किसे कहते हैं ?

समाधान—जो जीव व कर्मका सम्बन्ध कराती है वह लेइया कहलाती है । अभिप्राय यह कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये लेइया हैं ।

शेष विवरण थशाकीर्ति के समान है ।

द्विस्थानिक और एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा नौ त्रैवेयक विमलवासी देवोंके समान है ॥ २७४ ॥

इस देशामर्शक सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—स्त्यानयुद्धिन्नय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, खीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अपशस्तविहायोगति, दुर्भंग,

१ आप्रती 'संजदासंजदप्पहुडिसजदाओ च' इति पाठः ।

२ अ-आमलो: 'सकिल्लित्तणयरि', आप्रती 'सकिल्लित्तणेररय' इति पाठः ।

३ अप्रती 'कसायाजोगा' इति पाठः ।

गोदाणि वेङ्गानपयडीओ । एत्थ अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदयां समं वोच्छिण्णा । सेसाणं पयडीणं पुवं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, तहोवलंभादो । एदासिं सव्वासिं पयडीणं पि बंधो परोदओ । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं बंधो णिरंतरो, धुवबंधितादो । इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंबडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमुवलंभादो ! पच्चया सुगमा । णवरि ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वो । इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंबडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं ओरालियदुगित्थि-णउंसयवेदपच्चया अवणेयव्वा, सुक्कलेस्साए एदासिं बंधाभावादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं देव-मणुसगइसंजुतो । सेसाणं मणुसगइ-संजुतो, वेगईए सह बंधविरोहादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं तिगइजीवा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स देवा सामी । बंधद्धानं बंधवोच्छिण्णद्धानं च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छाइद्धिमिह चउन्विहो बंधो । सासणे दुविहो, अणाइ-धुवाभावादो । सेसाणं पयडीणं

दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, ये द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं । इनमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं । शेष प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है । इन सब ही प्रकृतियोंका बन्ध परोदय होता है । स्थानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं । खीविदका, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम पाया जाता है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये । खीविद, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके औदारिकद्विक, खीविद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, शुक्ललेइयामें इन प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । स्थानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका देव व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिके साथ उनके बन्धका विरोध है । स्थानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कके तीन गतियोंके जीव स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके बन्धके देव स्वामी हैं । बन्धाघ्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, बहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है,

—

१ अ-नाप्रत्योः ' सुक्कलेस्साए तिगइमणुस्सेसा एदासिं ', आपत्तो ' सुक्कलेस्साए तिगइमणुस्सस्स एदासिं ' इति पाठः ।

सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधितादो ।

मिच्छत्त-णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणाणि एगट्ठाणपयडीओ । एत्थ मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, मिच्छाइडिभिद्द चेव तदुहर्यंदसणादो । णउंसयवेद-असंपत्तसेवट्टसंघडणाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वेच्छिज्जदि, तहोवलंभादो । हुंडसंठाणस्स बंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उदयवोच्छेद्दाभावादो । मिच्छत्तस्स बंधो सोदओ । सेसाणं तिण्णं पि परोदओ । मिच्छत्तस्स णिरंतरो । सेसाणं सांतरो । मिच्छत्तस्स दुगइसंजुत्तो । संसाणं मणुसगइसंजुत्तो । मिच्छत्तस्स तिगइया सामी । सेसाणं देवा । बंधद्धाणं बंधवेच्छिण्णट्ठाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स चउव्विहेो बंधो । सेसाणं सादि-अद्भुवो ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धियागमोधं ॥ २७५ ॥

णत्थि एत्थ ओघपरूवणादो को वि विसेसो, तेण ओघमिदि जुज्जदे ।

क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, ये एकस्थान प्रकृतियां हैं । इनमें मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही वे दोनों देखे जाते हैं । नपुंसकवेद और असंप्राप्त-सृपाटिकासंहननका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है । हुण्डसंस्थानका बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्कलेइयामें उसके उदयव्युच्छेदका अभाव है । मिथ्यात्वका बन्ध स्वोदय होता है । शेष तीनों प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है । मिथ्यात्वका निरन्तर और शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है । मिथ्यात्वका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । मिथ्यात्वके बन्धके तीन गतियोंके जीव स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं । अधाभ्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । मिथ्यात्वका चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है ।

भव्यमार्गणानुसार भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २७५ ॥

चूंकि यहां ओघप्ररूपणासे कोई अर्थ नहीं है अत एव 'ओघके समान है' ऐसा कहना योग्य है ।

अभवसिद्धिः पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-
मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-चदुआउ-चदुगइ-पंचजादि-ओरा-
लिय-वेउविय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउवियअंगो-
वंग-छसंघडण-वणण-गंध-रस-फास-चत्तारिआणुपुन्वी-अगुरुवलहुव-उव-
घाद-परघाद-उस्सास-आदावुज्जोव-दोविहायगइ-तस-बादर-थावर-सुहुम-
पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-
सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-
णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २७६ ॥

सुगमं ।

सव्वे एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २७७ ॥

एदस्स-देसामासियसुत्तस्स अत्थपरुवणा कीरेदे— एदासु पयडीसु एत्थ ण कासिं पि
बंधोदयवोच्छेदो अत्थि, उवलंभमाणं वोच्छेदविरोहादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-

अभवसिद्धिक जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, चार आयु, चार गतियां, पांच जातियां,
औदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कर्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक अंगोपांग,
छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, चार आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास,
आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, बादर, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक,
साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय
यशक्रीति, अयशक्रीति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक
और कौन अबन्धक है ? ॥ २७६ ॥

यह-सूत्र सुगम है ।

ये सभी बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २७७ ॥

इस देशामर्शक सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— इन प्रकृतियोंमें यहां किन्हीं
के भी बन्ध और उदयका व्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, विद्यमान होनेसे उन दोनोंके व्युच्छेदका
विरोध है। पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, तैजस-व कर्मण शरीर,

मिच्छत्-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-गिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्ख-मणुस्साउ-तिरिक्ख-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालियसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरंगोवंग-छसंधण-तिरिक्ख-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदावुज्जोव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णीचुच्चागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो । देवाउ-णिरयाउ-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीरंगोवंगाणं परो-दओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-चत्तारिआउ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-गिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-इत्थि-णउंसयवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-णिरयगइ-एइंदिय-चीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-पंचसंठाण-छसंधण-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदा-उज्जोव-अपसत्थविहायगइ-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

वर्णादिक चार, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका खोदय बन्ध होता है । पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरंगोपांग, छह संहनन, तिर्यग्गति व मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और नीच व ऊंच गोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । देवायु, नारकायु, देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, नरकगति नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और वैक्यिकशरीरंगोपांगका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, चार आयु, तैजस व कामेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । साता व असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, छह संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशकीर्ति और अयशकीर्तिकां सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम देखा

पुरिसवेदस्सं वंओ सांतरं-णिरंतरो । कुदो ? पम्म-सुक्कलेस्सिएसु णिरंतरंभुवलंभादो । देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्वियसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणु-पुव्वी-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चगोदाणं सांतर-णिरंतरो वंओ । कुदो ? असखेज्जवासाउअ-सुहतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु च णिरंतरंभुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं वंओ सांतर-णिरंतरो । कुदो ? आणदादिदेवेषु णिरंतरंभुवलंभादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं वंओ सांतर-णिरंतरो । कुदो ? तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढवीणेरइएसु च णिरंतरंभुवलंभादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगणं सांतर-णिरंतरो, सणक्कुमारादि-देव-भेरइएसु णिरंतरंभुवलंभादो ।

संव्वकम्मंमाणं पंचवंचास पच्चया । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणं तेवंचासं पच्चया, वेउव्वियमिस्स-कम्मइयंपच्चयाणमभावादो । देव-णिरयाउआणं एकवंचास पच्चया, वेउव्वियदुगोरालियमिस्स-कम्मइयंपच्चयाणमभावादो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंगणमेक्कवंचास पच्चया, वेउव्विय-

जाता है। पुरुषवेदका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पदम और शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अलंभ्यातवर्पायुष्क और शुभ तीन लेश्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, आनतादिक देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। तिर्यंगति, तिर्यंगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेज व वायु कार्याक जीवोंमें तथा सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। औदारिकशरीर और औदारिकशरीरंगोपांगका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सनत्कुमारादि देव व नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सब क्रमोंके पचवन प्रत्यय हैं। विशेष इत्थन है कि तिर्यंगायु और मनुष्यायुके तिरपेन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैक्रियिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका अभाव है। देवायु और नारकायुके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैक्रियिकादिक, औदारिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका अभाव है। देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरंगोपांगके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैक्रियिकादिक,

दुगोरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-सुहुम-अपच्चत्त-साहारणाणं तेवंचास पच्चया, वेउव्वियदुगाभावादो ।

. सादावेदणीय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदि-पसत्थविहायगइ-समचउरससंठाण-थिर-सुभ-सुभग-सुस्वर-आदेज्ज-असकित्तीणं तिगइसंजुत्तो बंधो, गिरयगईए अभावादो । गिरयाउ-गिरयगइ-गिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीणं गिरयगइसंजुत्तो । देवाउ-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वीणं देवगइसंजुत्तो । मणुसाउ-अणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं मणुसगइसंजुत्तो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीणं चदुजादि-आदावुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं देव-गिरयगइसंजुत्तो । ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-चउसंठाण-छसंधडण-अपच्चत्तणामकम्माणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो बंधो । हुंडसंठाण-अप्पसत्थविहायगइ-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं तिगइसंजुत्तो, देवगईए अभावादो । उच्चागोदस्स दुगइसंजुत्तो, गिरय-तिरिक्खगइसंजुत्तो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो चउगइसंजुत्तो ।

देवाउ-गिरयाउ-देवगइ-गिरयगइ-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-वेउव्वियस्सरीर-

औदारिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका अभाव है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके तिरपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके वैकृतिकद्विकका अभाव है ।

सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, राति, प्रशस्ताविहायोगति, समचतुरस्र-संस्थान, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्तिका तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, इनके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है । नारकायु, नरकगति और नरकगति-प्रायोग्यानुपूर्वीका नरकगतिसंयुक्त बन्ध होता है । देवायु, देवगति और देवगतिप्रायोग्यानु-पूर्वीका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानु-पूर्वीका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है । तिर्यगायु, तिर्यगति व तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी तथा चार जातियाँ, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका तिर्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है । वैकृतिकशरीर और वैकृतिकशरीरंगोपांगका देव एवं नरक गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीरंगोपांग, चार संस्थान, छह संहनन और अपर्याप्त नामकमौंका तिर्यगति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । हुण्डसंस्थान, अप्रशस्ताविहायोगति, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, इनके साथ देवगतिके बन्धका अभाव है । उच्चगोत्रका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, उसके साथ नरकगति और तिर्यगतिका बन्ध नहीं होता । शेष प्रकृतियोंका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है ।

देवायु, नारकायु, देवगति, नरकगति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति,

अंगोवंग-णिरयगइ-देवगइपाओग्गणुपुब्बी-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणं बंधस्स तिरिक्खे-मणुसा सामी । एइंदियजादि-आदाव-थावराणं तिगइभिच्छाइडी सामी, णेरइयाणमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं चउगइभिच्छाइडी सामी, तेसिं तन्बंधविरोहाभावादो ।

बंधद्धारणं णत्थि, एक्कमिह गुणट्ठाणे अद्धारणविरोहादो । बंधवोच्छेदो वि णत्थि, एत्थ उत्तासेसपयडीणं बंधुवलंभादो । बज्जमाणपयडीसु धुवबंधीणमणादिओ धुवो बंधो । अवसेसाणं सादि-अद्धुवो ।

संमत्ताणुवादेण सम्माइट्टीसु खइयसम्माइट्टीसु आभिणिबोहिय-णाणिभंगो ॥ २७८ ॥

जहा आभिणिबोहियणाणपरूवणा कदा तथा णिरवसेसा कायन्वा, विसेसाभावादो । णवरि खइयसम्माइट्टिसंजदासंजदेसु उच्चगोदस्स सोदओ णिरंतरो बंधो, तिरिक्खेसु खइय-सम्माइट्टीसु संजदासंजदाणमणुवलंभादो । मणुसाउअं बंधमाणाणमित्थिवेदपच्चओ णत्थि, देव-णेरइयसु इत्थिवेदखइयसम्माइट्टीणमभावादो । एत्तिओ चेव विसेसो । अण्णो जदि अत्थि सो

बैक्रियिकशरीर, बैक्रियिकशरीरांगोपांग, नरकगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर, इनके बन्धके तिर्यंच व मनुष्य स्वामी हैं । एकेन्द्रिय जाति, आताप और स्थावरके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नारकियोंके इनका बन्ध नहीं होता । शेष प्रकृतियोंके बन्धके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, उनके इन प्रकृतियोंके बन्धका कोई विरोध नहीं है ।

बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, यहाँ सूत्रोक्त सब प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । बध्यमान प्रकृतियोंमें ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका अबादि व ध्रुव बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है ।

सम्यत्त्वमार्गणानुसार सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिक-ज्ञानियोंके समान प्ररूपणा है ॥ २७८ ॥

जिस प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार पूर्णरूपसे यहाँ भी करना चाहिये, क्योंकि, उनसे यहाँ कोई भेद नहीं है । विशेष इतना है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयतोंमें उच्चगोत्रका स्वोदय एवं निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तिर्यंच क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें संयतासंयत जीव पाये नहीं जाते । मनुष्यायुको बांधनेवाले जीवोंके स्त्रीवेद प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, देव व नारकियोंमें स्त्रीवेदी क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका अभाव है । इतनी ही यहाँ विशेषता है । अन्य कोई यदि

चित्तिर्य, वन्नव्वो-। पर्यडिबंधगयभेदपरुवणइमुत्तरसुत्तं भणदि—

णवरि सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ २७९ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगि-
केवलिअद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ २८० ॥

एदं पि सुगमं, बहुसो उत्तत्थत्तादो ।

वेदयसम्मादिट्टीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेद-
णीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ-देवगदि-पंचिंदियजादि-
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच्चउरससंठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-
गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-
उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-

विशेषता है तो उसे विचारकर कहना चाहिये । प्रकृतिबन्धगत भेदके प्ररूपणार्थ उत्तर
सूत्र कहते हैं—

विशेष गृह कि सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥२७९॥

यह सूत्र सुगमं है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम
समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २८० ॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ बहुत बार कहा जा चुका है ।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार
संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, तैजस
व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति-
प्रायोन्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर,

सुस्वर-आदेज्ज-जसकिति-णिमिण-तित्थयस्सुच्छागोद-पंचंतराइयाणं को
बंधो को अबंधो ? ॥ २८१ ॥

एत्थं अक्खसंचारं काऊणं पण्णारसं पण्णमंगां उप्पाएयन्वा । सेसं सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे
बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २८२ ॥

एदस्स देसामासियसुत्तसं परूवणा कीरदे— देवगइ-वेउव्वियदुगाणमसंजदसम्मा-
दिट्ठिम्हि उदओ वोच्छिणो पुव्वमेव । बंधवोच्छेदो णत्थि, उवरिम्हि बंधुवलंभादो । तित्थ-
यरस्स णत्थि उदयवोच्छेदो, एदेसु उदयाभावादो । बंधवोच्छेदो वि णत्थि, उवलंभमाणत्तादो ।
अवसेसाणं पयडीणं बंधोदयाणं दोणं पि वोच्छेदाभावादो उदयादो बंधो पुव्वं पच्छा वा
वोच्छिणो त्ति ण परीक्खा कीरदे ।

पंचणागावरणीय-चउदसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-बंधं रस-
प्पास-अगुरुवलहुव-तस-बादर-यज्जत्त-थिर-सुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवो-

पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र
और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २८१ ॥

यहां अक्षसंचार करके चौदह गुणस्थान और सिद्धोंके आश्रयसे एक संयोगी
पन्द्रह प्रश्नमंगोंको उत्पन्न करना चाहिये । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक
नहीं हैं ॥ २८२ ॥

इस देशमार्शक सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं—देवगति और वैक्रियिकद्विकका
उदय असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पूर्वमें ही व्युच्छिन्न हो जाता है । बन्धव्युच्छेद नहीं
है, क्योंकि, ऊपर बन्ध पाया जाता है । तीर्थकर प्रकृतिका उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि,
क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टियोंमें उसको उदयका अभाव है । उसके बन्धका व्युच्छेद भी नहीं है,
क्योंकि, वह पाया जाता है । शेष प्रकृतियोंके बन्ध और उदय दोनोंके भी व्युच्छेदका
अभाव होनेसे उदयकी अपेक्षा बन्ध पूर्वमें अथवा पश्चात् व्युच्छिन्न होता है यह
परीक्षा नहीं की जाती है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व क्षार्मण शरीर,
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अंगुरुलघु; त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ; निर्माण और पांच

दयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादवेदणीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ-समचउरस-संठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं सोदय-परोदओ बंधो, दोहि वि पयोरोहि बंधुवलंभादो । देवगइ-वेउच्चियदुग-तित्थयराणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो । उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं असंजदसम्मादिट्ठिम्हि बंधो सोदय परोदओ । उवरि सोदओ चैव, तत्थ अपज्जत्तद्धाए अभावादो । णवरि पमत्तसंजदम्मि परघादुस्सासाणं सोदय-परोदओ । सुभगादेज्ज-जसकित्तीणमसंजदसम्मादिट्ठिम्हि बंधो सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चैव, पडिवक्खुदया-भावादो । उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिट्ठीसु संजदासंजदेसु बंधो सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चैव, पडिवक्खुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ-देवगइ-पंचिंदिय-जादि-वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउच्चियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुस्वलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयस्सुच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधो णिरंतरो,

अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवोदयी हैं । निद्रा, प्रचला, स्ततावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति और सुस्वरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों भी प्रकारोंसे उनका बन्ध पाया जाता है । देवगतिद्विक, वैक्रियिकद्विक और तीर्थकरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है । उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तकालका अभाव है । विशेषता इतनी है कि प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें परघात और उच्छ्वासका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । सुभग, आदेय और यशकीर्तिका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । उच्चगोत्रका असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, तैजस व कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक-शरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,

एगसमएण बंधुवरमाभावादे । सादावेदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसकित्तीणं असंजदसम्मादिडि-
पहुडि जाव पमत्तसंजदे ति बंधो सांतरो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादे ।

पञ्चया सुगमा, ओघपञ्चएहिंते विसेसाभावादे । देवगइ-वेउञ्चियदुगाणं देवगइ-
संजुतो । सेसाणं पयडीणं असंजदसम्मादिडिसु बंधो दुगइसंजुतो । उवरिमेसु देवगइसंजुतो ।
देवगइ-वेउञ्चियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिडि-संजदासंजदा सामी । तित्थयरस्स
तिगइअसंजदसम्मादिडिणो सामी, तिरिक्खगइए अभावादे । उवरिमा मणुसा चैव,
तेसिमण्णत्थाभावादे । सेसाणं पयडीणं चउगइअसंजदसम्मादिडिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइ-
संजदा च सामी । बंधद्दणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अबंधा णत्थि' ति वयणादे ।
धुवबंधीणं तिविहो बंधो, धुवाभावादे । सेसाणं सादि-अद्धुवो, अद्धुवबंधितादे ।

**असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-जसकित्तिगामाणं
को बंधो को अबंधो ? ॥ २८३ ॥**

एत्थ पण्णभंगा जाणिय वत्तत्वा ।

एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ
और यशकीर्तिका असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है ।
ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है । देवगतिद्विक और
वैक्रियिकद्विकका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें
दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है । उपरिम गुणस्थानोंमें देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है ।
देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके तिर्यंच व मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टि एवं संयतासंयत
स्वामी हैं । तीर्थंकर प्रकृतिके तीन गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यंगतिमें
उसके बन्धका अभाव है । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, उनका
अन्य गतियोंमें अभाव है । शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियोंके
संयतासंयत और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद
नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं है' ऐसा सूत्रमें निर्दिष्ट है । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन
प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव
बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकिर्ति नामकर्मका कौन
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २८३ ॥

यहां प्रश्नभंगोंको जानकर कहना चाहिये ।

असंजदसम्मादिट्टिण्हडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ २८४ ॥

एदस्सत्थो वुच्चदे— अरदि-सोग-असादावेदणीय-अथिर-असुभाणं बंधवोच्छेदो चेव । उदयवोच्छेदो-परिथि, उवरिहि उदयस्सुवलंभादो । अजसकित्तीए पुच्चसुदयस्स पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, पमतासंजदसंम्मादिट्टीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । असादावेदणीय-अरदि-सोगाणं बंधो सोदय-परोदओ, दोहि वि पयोरेहि बंधुवलंभादो । अथिर-असुहोणं सोदओ चेव, धुवोदियत्तादो । अजसकित्तीए असंजदसम्मादिट्टिभिह सोदय-परोदओ । उवरि परोदओ चेव, पडिवेक्खुदयामावांदो । एदासिं छण्हं-पयडीणं बंधो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । पच्चयां सुगमा, बहुसो उत्तत्तादो । देव-मणुसगइसंजुतो चेव, अण्णगइवंधाभावादिं । चउंगइअसंजदसंम्मादिट्टिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं बंध-वोच्छिण्णह्माणं च सुगमं । सव्वासिं बंधो सादि-अद्धुवो, अद्धुवबंधित्तादो ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २८४ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—अरति, शोक, असातावेदनीय, अस्थिर और अशुभका बन्धव्युच्छेद ही है । उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर उनका उदय पाया जाता है । अयशकीर्तिके पूर्वमें उदयका और पश्चात् बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । असातावेदनीय, अरति और शोकका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारोंसे बन्ध पाया जाता है । अस्थिर और अशुभका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं । अयशकीर्तिका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहाँ प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है । इन छह प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविधाम देखा जाता है ।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, बहुत बार कहे जा चुके हैं । देव और मनुष्य गतिसे संयुक्त ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्यगतिके संयत स्वामी है । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । सब प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं ।

अपञ्चक्खणावरणीयकोह-माण-माया-लोह-मणुस्साउ-मणुसगह-
ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंधडण-मणुसाणु-
पुब्बीणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २८५ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा
॥ २८६ ॥

अपञ्चक्खणावरणचउक्क-मणुसगहपाओमगाणुपुब्बीणं बंधोदया समं वोच्छिण्णा,
असंजदसम्मादिट्ठिहि तदुहयवोच्छेदुवलंभादो । मणुसगह-मणुसाउ-ओरालियसरीरअंगोवंग-
वज्जरिसहसंधडणाणं बंधवोच्छेदो चेव, उव्वरिं पिं उदयदंसणादो । अपञ्चक्खणाणचउक्कस्सं
बंधो सोदय-परोदओ । सेसाणं परोदओ चेव, सोदएण बंधविरोहादो । दसणं पयडीणं बंधो
णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । अपञ्चक्खणाणचउक्कस्सं चालीस पच्चया । मणुसाउक्कस्स
बादालीस, ओरालियदुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणंमभावादो । सेसाणं चोदालीस,

अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिक-
शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रधर्मसंहनन और मनुष्यानुपूर्वी नामकर्मका कौन बन्धक
और कौन अबन्धक है ? ॥ २८५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २८६ ॥

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका बन्ध च उदय दोनों
साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका द्युच्छेद
पाया जाता है । मनुष्यगति, मनुष्यायु, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रधर्मसंहननका
केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, ऊपर भी उनका उदय देखा जाता है । अप्रत्याख्याना-
वरणचतुष्कका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है । शेष प्रकृतियोंका परोदय ही बन्ध होता है,
क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है । दशों प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है,
क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके चालीस
प्रत्यय हैं । मनुष्यायुके व्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकद्विक, वैक्रियिकमिश्र और
कार्मेण प्रत्ययोंका अभाव है । शेष प्रकृतियोंके चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके औदा-

१ प्रतिपु ' व ' इति पाठ ।

ओरालियदुगाभावादो । अपच्चक्खणाणचउक्कस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं मणुसगइसंजुत्तो, सामावियादो । अपच्चक्खणाणचउक्कस्स चउगइअसंजदसम्मादिट्ठिणो सामी । सेसाणं देव-णेरइया । बंधद्धानं णत्थि, एककम्हि अद्धानविरोहादो । बंधवोच्छिण्णद्धानं सुगमं । अपच्चक्खणाणचउक्कस्स तिविहो बंधो, धुवाभावादो । सेसाणं सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधितादो ।

पच्चक्खणाणावरणीयकोह-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २८७ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठी संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २८८ ॥

एदासिं संजदासंजदम्हि अक्कमेण वोच्छिण्णबंधोदयाणं, सोदय-परोदएहि गिरंतर-बंधीणं, असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदेसु जहाकमेण छादाल-सत्तत्तीसपच्चयाणं, देव-मणुसगइ-संजुत्तबंधाणं, चउगइ-दुगइअसंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदसामीयाणं, असंजदसम्मादिट्ठि-संजदा-

रिक्कट्ठिका अभाव है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २८७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २८८ ॥

इन चार प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों एक साथ संयतासंयत गुणस्थानमें व्युच्छिन्न होते हैं । स्वोदय-परोदय सहित निरन्तर बन्ध होता है । असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें छयालीस और संयतासंयत गुणस्थानमें सैंतीस प्रत्यय हैं । देव और मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि और दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत बन्धाध्वान हैं । संयतासंयत गुण-

संजदद्वाणाणं, संजदासंजदम्मि वोच्छिण्णबंधाणं, धुवेण' विणा तिविहबंधुवगयाणं परूवणा सुगमा ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २८९ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अप्पमतसंजदा बंधा । अप्पमतद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९० ॥

एदस्स अत्थो उच्चदे । तं जहा — पुव्वमुदओ पच्छा [बंधो] वोच्छिज्जदि, अप्पमत्तासंजदसम्मादिट्ठीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । परोदओ, गिरंतरो, असंजदसम्मादिट्ठीसु वेउन्वियदुगोरालियमिस्स-क्रम्मइय-पच्चयाणमभावादो वादालीसपच्चओ, उवरिमेसु गुणट्ठाणेसु ओघपच्चओ, देवगइसंजुतो, दुगइअसंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजद-मणुसगइसंजदसामीओ, असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजद-पमत-अप्पमतसंजदद्वाणो, अप्पमतद्वाए संखेज्जेसु भागोसु पत्तविलओ, सादि-अद्भुवो, देवाउअस्स बंधो त्ति अवगंतव्वो ।

स्थानमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ध्रुव बन्धके बिना शेष तीन प्रकारका बन्ध होता है । इस प्रकार इनकी प्ररूपणा सुगम है ।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २८९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । अप्रमत्तसंयतकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २९० ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— देवायुका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है । परोदय और निरन्तर बन्ध होता है । असंयत-सम्यग्दृष्टियोंमें वैक्रियिकादिक, औदारिकमिश्र और कर्मण काययोग प्रत्ययोंका अभाव होनेसे ध्यालीस प्रत्यय हैं । उपरिम गुणस्थानोंमें ओघके समान प्रत्यय हैं । देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । दो गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि व संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत बन्धाध्वान हैं । अप्रमत्त-कालके संख्यात बहुभागोंके धीतनेपर बन्धव्युच्छेद होता है । सादि व अध्रुव बन्ध होता है । इस प्रकार देवायुके बन्धकी प्ररूपणा जानना चाहिये ।

१ प्रतिधु ' धुवेण ' इति पाठः ।

२ अप्रतौ ' -पचपस ' इति पाठः ।

आहारशरीर-आहारशरीरंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ?
॥ २९१ ॥

सुगमं ।

अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९२ ॥
एदस्स अत्थो सुगमो ।

उवसमसम्मादिट्ठीसु पंचणाणावरणीयं-चउदंसणावरणीयं-जस-
कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९३ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा बंधा ।
सुहुमसांपराइयउवसमद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।
एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९४ ॥

पंचणाणावरणीयं-चउदंसणावरणीयं-जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधवोच्छेदो

आहारकशरीर और आहारकशरीरंगोपांग नामकमौका कौन बन्धक और कौन
अबन्धक है ? ॥ २९१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अप्रमत्तसंयत बन्धके हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २९२ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, ऊंच-
गोत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक तक बन्धक हैं । सूक्ष्मसाम्परा-
यिकउपशमककालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष
अबन्धक हैं ॥ २९४ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्त-

चेव । उदयवोच्छेदो णत्थि, खीणकसायादिसु वि एदासिं पयडीणं उदयदंसणो । तेण उदय-
वोच्छेदादो बंधवोच्छेदो पुत्वं पच्छ वा होदि त्ति विचारो णत्थि, संतासंताणं सणियास-
विरोहादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । जसकित्तीए
असंजदसम्मादिड्डीसु सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो । उच्चा-
गोदस्स असंजदसम्मादिड्डी-संजदासंजदेसु सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चेव, पडिवक्खु-
दयाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधो णिरंतरो, धुव-
बंधितादो । जसकित्तीए असंजदसम्मादिड्डीप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो त्ति बंधो सांतरो । उवरि
णिरंतरो, पडिवक्खपयडिवंधाभावादो । पच्चया सुगमा । णवरि असंजदसंम्मादिड्डीसु ओरा-
ल्लियमिस्सपच्चओ, पमत्तसंजदेसु आहारदुगपच्चओ णत्थि । असंजदसम्मादिड्डीसु एदासिं
पयडीणं बंधो देव-भणुसगइसंजुतो । उवरिमेसु गुणङ्गाणेसु देवगइसंजुतो अगइसंजुतो वा ।
चउगइअसंजदसम्मादिड्डी दुगइसंजदासंजदा-भणुसगइसंजदा सामीओ । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण-
द्धाणं च सुगमं । धुवबंधीणं तिविहो बंधो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अच्चुवो, अद्धुव-
बंधितादो ।

रायका बन्धव्युच्छेद ही है । उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, क्षीणकसायादिक गुणस्थानोंमें
भी इन प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है । इसी कारण उदयव्युच्छेदसे बन्धव्युच्छेद पूर्वमें
या पश्चात् होता है, यह विचार नहीं है-क्योंकि, सत् और असत्की तुलनाका विरोध है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध
होता है । यशकीर्तिका असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है । ऊपर स्वोदय
ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है । उच्चगोत्रका
असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय-बन्ध होता है । ऊपर
स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदयाभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका बन्ध
निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं । यशकीर्तिका असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर
प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है । ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ऊपर
प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है ।

प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिकमिश्र प्रत्यय
और प्रमत्तसंयतोंमें आहारकद्विक प्रत्यय नहीं हैं । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें इन प्रकृतियोंका
बन्ध देव व मनुष्य गतिसंयुक्त होता है । उपरि गुणस्थानोंमें देवगतिसंयुक्त या अगति-
संयुक्त बन्ध होता है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, और
मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । ध्रुवबन्धी
प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव बन्धका अभाव है । शेष
प्रकृतियोंका सादि व अश्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९५ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणउवसमा बंधा ।
अपुव्वकरणउवसमद्दाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।
एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २९६ ॥

एदासिं बंधो पुव्वं वोच्छज्जदि । उदयवोच्छेदो णत्थि, खीणकसाएसु वि उदय-
दंसणादो । सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । णिरंतरो, धुवबंधितादो । असंजदसम्मा-
दिट्ठीसु पंचेतालीस पच्चया, ओरालियमिस्सपच्चयाभावादो । पमतसंजदग्धि बावीस^१ पच्चया,
आहारदुगाभावादो । सेसगुणङ्गणेसु ओघवच्चओ, विसेसाभावादो । असंजदसम्मादिट्ठिग्धि
देव-मणुसगइसंजुत्तो, उवरिमेसु देवगइसंजुत्तो, चउगइअसंजदसम्मादिट्ठि-दुगइसंजदासंजद-

निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? २९५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण उपशम-
कालका संख्यातवां भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक
हैं ॥ २९६ ॥

इनका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है । उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, क्षीणकषाय
जीवोंमें भी उनका उदय देखा जाता है । स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे
अद्भुवोदयी हैं । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी हैं । असंयतसम्यग्दष्टियोंमें
पैंतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्र प्रत्ययका वहां अभाव है । प्रमतसंयत गुण-
स्थानमें द्वाईस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां आहारकद्विकका अभाव है । शेष गुणस्थानोंमें ओघ-
प्रत्ययोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, ओघसे वहां कोई विशेषता नहीं है । असंयत-
सम्यग्दष्टि गुणस्थानमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त तथा उपरिम गुणस्थानोंमें देवगति-
संयुक्त होता है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्य-

१ अग्रतो ' पमतसंजदा हि बावीस ', आग्रतो ' पमतसंजद० बावीस ', काग्रतो ' पमतसंजदा बावीस '
इति पाठः ।

मणुसगइसंजदसामीओ, अवगयबंधद्धानो, अपुञ्चकरणद्वाए संखेज्जदिमे भागे गयविणासो, धुवबंधितादो तिविहाणो णिद्दा-पयलाणं बंधो ।

सातावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ॥ २९७ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव उवसंतकसायवीयरागछुदुमत्था
बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २९८ ॥

बंधवोच्छेदं मोत्तूण उदयवोच्छेदाभावो, सोदय-परोदयबंधो, असंजदप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरं बंधिदूणुवरि णिरतरबंधितादो, ओवपच्चएहितो असंजदसम्मादिट्ठि-पमत्तसंजदे मोत्तूण अण्णत्थ समाणपच्चयत्तादो, असंजदसम्मादिट्ठि-पमत्तसंजदेसु ओरालिय-मिस्साहारदुगाभावो, असंजदसम्मादिट्ठिसु दुगइसंजुत्तादो उवरि देवगइसंजुत्तबंधो, चउगइअसंजदसम्मादिट्ठि-दुगइसंजदासंजद-मणुसगइसंजदसामिबंधो, बंधेण सादि-अद्धुव-त्तादो सुगममेदं ।

गतिके संयत स्वामी हैं । बन्धाध्यान ज्ञात ही है । अपूर्वकरणकालका संख्यातवां भाग वीतनेपर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ध्रुवबन्धी होनेसे निद्रा व प्रचलाका तीन प्रकार बन्ध होता है ।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थ तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २९८ ॥

सातावेदनीयके बन्धव्युच्छेदको छोड़कर उदयव्युच्छेदका अभाव होनेसे, स्वोदय-परोदय बन्ध होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बंधकर ऊपर निरन्तरबन्धी होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टि और प्रमत्तसंयतको छोड़कर अन्यत्र ओघके समान प्रत्यय युक्त होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें औदारिकमिश्र और प्रमत्तसंयतोंमें आहारद्विकका अभाव होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें दो गतियोंसे संयुक्त तथा ऊपर देवगतिसंयुक्त बन्ध होनेसे; चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्यगतिके संयत स्वामी होनेसे; तथा बन्धसे सादि व अध्रुव होनेसे यह सूत्र सुगम है ।

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-अजसकित्तिणामाणं
को बंधो को अबंधो ? ॥ २९९ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ ३०० ॥

सुगममेदं, मदिणाणमग्गणाए परूविदत्थत्तादो ।

अपच्चक्खाणावरणीयमोहिणाणिभंगो ॥ ३०१ ॥

अपच्चक्खाणचउक्क-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरसिंह-
संघडण-मणुसगइपाओग्गणुपुच्चीणं एत्थ गहणं कायव्वं, देसामासियत्तादो । सेसं सुगमं ।
णवरि ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वो । कथं वेउविज्जयमिस्स-कम्मइयाणमुत्तलंभो ? उव-
समसम्मत्तेण उवसमसेहिं चडिय कालं काऊण देवेसुप्पण्णाणं तदुवलंभादो ।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकमौका कौन
बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक
हैं ॥ ३०० ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, मतिज्ञान मार्गणामे इसके अर्थकी प्ररूपणा की
जाचुकी है ।

अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा-अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३०१ ॥

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग,
वज्रर्धभसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका यहां ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यह
सूत्र देशामर्शक है । शेष प्ररूपणा सुगम है । विशेष हतना है कि औदारिकमिश्र प्रत्ययको
कम करना चाहिये ।

शंका—वैक्रियिकमिश्र और कार्मण काययोग यहां कैसे पाये जाते हैं ?

समाधान—उपशमसम्यक्त्वके साथ उमशमश्रेणि चढ़कर और भरकर देवोंमें
उत्पन्न हुए जीवोंके वे दोनों प्रत्यय पाये जाते हैं ।

णवरि आउवं णत्थि ॥ ३०२ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छाइडिस्सेव सच्चुवसमसम्माइड्डीणमाउअस्स वंधाभावादो ।

परुवक्खाणावरणचउक्कस्स को वंधो को अवंधो ? ३०३ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठी संजदासंजदा [बंधा] । एदे वंधा, अवसेसा
अबंधा ॥ ३०४ ॥

एदं पि सुगमं, सुदण्णाणपरुवणापरुविदत्थत्तादो ।

पुरिसवेद-क्रोधसंजलणाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ३०५ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठी उवसमा वंधा । अणि-
यट्ठिउवसमद्दाए सेसे संखेज्जे भागे गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०६ ॥

विशेष इतना है कि उनके आयु कर्मका बन्ध नहीं है ॥ ३०२ ॥

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादाष्टिके समान ही सर्व उपशमसम्यग्दृष्टियोंके आयुके बन्धका
अभाव है ।

प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ३०३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत [बन्धक] हैं । ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक
हैं ॥ ३०४ ॥

यह भी सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्ररूपणा श्रुतज्ञानप्ररूपणामें की
जा चुकी है ।

पुरुषवेद और संज्वलन क्रोधका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ३०५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरण-
उपशमककालके शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष
अवन्धक हैं ॥ ३०६ ॥

सुगममेदं ।

माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०७ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठी उवसमा बंधा । अणियट्ठी उवसमद्दाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०८ ॥

एदं पि सुगमं, बहुसो परूविदत्तादो ।

लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०९ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठी उवसमा बंधा । अणियट्ठी उवसमद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३१० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३०७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरण-उपशमकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३०८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, बहुत बार इसकी प्ररूपणा की जा चुकी है ।

संज्वलन लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३०९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरण-उपशमकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३१० ॥

एदं पि सुगमं ।

ह्रस्व-रदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३११ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्माइट्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणउवसमा बंधा ।
अपुव्वकरणुवसमद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा ॥ ३१२ ॥

एदं पि सुगमं ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-
संठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-
उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-
थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरणामाणं को बंधो को
अबंधो ? ॥ ३१३ ॥

सुगमं ।

यह सूत्र भी सुगम है ।

हास्य, रति, भय और जुगुंसाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३११ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण उपशम-
कालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक
हैं ॥ ३१२ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान,
वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, द्रस, घादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर,
आदेय, निर्माण और तीर्थकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३१३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंजसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणउवसमा बंधा ।
अपुव्वकरणुवसमद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे
बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३१४ ॥

एदं पि सुगमं, बहुसो कयपरूवणादो ।

आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगाणं को बंधो को अबंधो ?
॥ ३१५ ॥

सुगमं ।

अप्पमत्तापुव्वकरणउवसमा बंधा । अपुव्वकरणुवसमद्वाए संखेजे
भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा
॥ ३१६ ॥

एदं पि सुगमं ।

सासणसम्मादिट्ठी मदिणाणिभंगो ॥ ३१७ ॥

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण उपशम-
कालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक
हैं । ३४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, बहुत बार इसकी प्ररूपणा की जा चुकी है ।

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांगका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?
॥ ३१५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अप्रमत्त और अपूर्वकरण उपशमक बन्धक हैं । अपूर्वकरण उपशमकालके संख्यात
बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३१६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा मतिज्ञानियोंके समान है ॥ ३१७ ॥

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-अट्टणोकसाय-तिरिक्ख-मणुस-देवाउ-तिरिक्ख-मणुस-देवगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-पंच-संठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगोवंग-पंचसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्ख-मणुस-देवगइपाओ-ग्गाणुपुञ्जी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोव-दोविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पतेय-सरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णीसुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ सासणसम्मादिट्ठीहि वज्झमाणियाओ । एदासिसुदयादो बंधो पुब्बं पच्छ [वा] वोच्छिण्णो ति विचारो णत्थि, एत्थ एदासिं बंधोदयवोच्छेदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-तस-वादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । देवाउ-देवगइ-वेउव्वियदुगाणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोलसकसाय-भय-दुगुंठा-तिरिक्ख-मणुस-देवाउ-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, आठ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवाउ, तिर्यगगति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, पांच संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक अंगोपांग, पांच संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां सासादनसम्यग्दृष्टि जीवों द्वारा बध्यमान हैं। इनका बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है; क्योंकि, यहां इनके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी है। देवायु, देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदयसे होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी उनका बन्ध पाया जाता है।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, सोलह कपाय, भय, जुगुंसा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरु-

तस-वाद्र-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण वंधुवरमाणुवलंभादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोगित्थिवेद-मज्झिमचउसंठाण-पंचसंघडण-उज्जेव-दो-विहायगइ-थिराथिर-सुहासुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकितीणं सांतरो बंधो, एग-समएण वि वंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेदस्स बंधो सांतर-णिरंतरो, पम्म-सुक्कलेस्सिएसु तिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । देवगइ-वेउव्वियदुग-समचउरससंठाण-सुमग-सुस्सर-आदेज्जुच्चागोदाणं बंधो सांतर-णिरंतरो, असंखेज्जवासाउएसु सुहतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । मणुसगइदुगस्स बंधो सांतर-णिरंतरो, आणदादिदेवेषु णिरंतरबंधुवलंभादो । तिरिक्खगइदुग-णीचागोदाणं बंधो सांतर-णिरंतरो, सत्तमपुढवीणेरइएसु णिरंतर-बंधुवलंभादो । ओरालियसरीरदुगस्स वि सांतर-णिरंतरो बंधो, देव-णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो ।

देवाउ-देवगइ-वेउव्वियदुगाणं छादालीस पच्चया, वेउव्वियदुगोरालियमिस्स-कम्म-इयाणमभावादो । मणुस-तिरिक्खाउआणं सत्तेतालीस पच्चया, ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्म-इयपच्चयाणमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं पंचास पच्चया, पंचमिच्छत्तपच्चयाणमभावादो ।

लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और प्रांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम नहीं पाया जाता । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्त्रीवेद, मध्यम चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, दो विहायोगतियां, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम देखा जाता है । पुरुषवेदका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, पञ्च और शुक्ल लेइयावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । देवगतिद्विक, वैक्रियिकद्विक, समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, सुस्वर, आदेय और उरुचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क और शुभ तीन लेइयावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । मनुष्यगतिद्विकका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, आनतादिक देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । तिर्यंगतिद्विक और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । औदारिकशरीरद्विकका भी सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, देव व नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

देवायु, देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके छयालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैक्रियिकद्विक, औदारिकमिश्र और कर्मण काययोग प्रत्ययोंका अभाव है । मनुष्यायु और तिर्यगायुके सैंतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका अभाव है । शेष प्रकृतियोंके पंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टियोंके पांच मिथ्यात्व प्रत्ययोंका अभाव है ।

देवाउ-देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधो देवगइसंजुत्तो । मणुसाउ-मणुसगइदुगाणं मणुस-
गइसंजुत्तो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुच्चोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । ओरालियसरीर-
मञ्जिमचउसंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-पंचसंधडण-अप्यसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेव-
णीचागोदाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो बंधो । उच्चगोदस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो बंधो;
तिरिक्खेसुच्चगोदाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगइबंधाभावादो ।
देवाउ-देवगइ-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी चउगइ-
सासणा । बंध्रद्धाणं बंधवोच्छेदो च णत्थि । छ्मालीसधुवबंधपयडीणं तिविहो बंधो, धुवा-
भावादो । अवसेसाणं सादि-अड्डवो, अड्डवबंधितादो ।

सम्भामिच्छाइट्टी असंजदभंगो ॥ ३१८ ॥

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-चारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-
सोग-भय-दुगुंठा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउ-
रससंठाण-ओरालिय-वेउव्विय-अंगोवंग-वज्जरिसहसंधडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइ-देवगइ-

देवायु, देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है । मनुष्यायु
और मनुष्यगतिद्विकका बन्ध मनुष्यगति संयुक्त होता है । तिर्यगायु, तिर्यगतिद्विक और
उद्योतका बन्ध तिर्यगति संयुक्त होता है । औदारिकशरीर, मध्यम चार संस्थान,
औदारिकशरीर-अंगोपांग, पांच संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग दुस्वर, अनादेय और
नीचघोत्रका तिर्यगति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । उच्चगोत्रका देव च
मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, तिर्यचोमं उच्चगोत्रका अभाव है । शेष
प्रकृतियोंका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टियोंके नरक-
गतिके बन्धका अभाव है ।

देवायु, देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके तिर्यच च मनुष्य स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके
बन्धके स्वामी चारों गतियोंके सासादनसम्यग्दृष्टि हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छेद नहीं
है । छ्यालीस ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव-
बन्धका अभाव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुव-
बन्धी हैं ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान है ॥ ३१८ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता च असाता वेदनीय, बारह कपाय,
पुरुषवेद. हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति,
औदारिक, वैक्रियिक, तैजस च कामण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक च वैक्रियिक
अंगोपांग, वज्रपंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्यायु-

पाओग्गाणुपुञ्जी-अगुरुबलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेय-सरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चगोद-पंचतराइय-पयळीओ सम्मामिच्छाइडीहि वज्जमाणियाओ । उदयादो बंधो पुब्बं पच्छा [वा] वेच्छिण्णो त्ति एसो विचारो णत्थि, पयडीणमेत्थ बंधोदयवोच्छेदाणुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-बंध-रस-फास-अगुरुबलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादो । णिह-पयला-सादासाद-चारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवलंभादो । मणुसगइ-देवगइ-वेउच्चियसरीर-ओरालिय-वेउच्चियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघण-मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुञ्जीणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउच्चियअंगो-

पूर्वी, अगुरुबलहु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों द्वारा बध्यमान हैं। उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है; क्योंकि, यहां उक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयका व्युच्छेद नहीं पाया जाता है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कर्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुबलहु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवोदयी है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता चेतनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त-विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे-भी इनका बन्ध पाया जाता है। मनुष्य-गति, देवगति, वैक्यिकशरीर, औदारिक व वैक्यिक शरीरोंगोपांग, वज्रपभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैक्यिक, तैजस व कर्मण शरीर,

वंग-वज्जरिसहसंधडण-वण-गंध-रस-फास-मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुञ्जी-अगुरुवलहुअ-उव-
घाद-परघाद-उस्सास-पसत्यविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तियसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-
णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ ध्रुवबंधदंसणादो । सादासाद-हस्स-रदि-
अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-असक्ति-अजसक्तिणं सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरम-
दंसणादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुञ्जी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जरिसह-
संधडणाणं वादालीस पच्चया, ओरालियकायजोगाभावादो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुञ्जी-
वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवगाणं पि वादालीस पच्चया, वेउव्वियकायजोगा-
भावादो । अवसेसाणं तेदालीस पच्चया, पंचमिच्छताणुबंधिचउक्कोरालिय-वेउव्विय-
मिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसहसंधडणाणं बंधो
मणुसगइसंजुतो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं देवगइसंजुतो । सेससव्वपयडीणं देव-
मणुसगइसंजुतो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसहसंधडणाणं देव-णेरइया सामी ।
देवगइ-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी

समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक व वैक्रियिक शरीरंगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस,
स्पर्श, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास,
प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण,
उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ इनका ध्रुवबन्ध
देखा जाता है । साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर,
शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे
भी इनका बन्धविभ्राम देखा जाता है ।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिकशरीरंगो-
पांग और वज्रर्षभसंहननके ध्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिककाययोगका
अभाव है । देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक-
शरीरंगोपांगके भी ध्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहाँ वैक्रियिककाययोगका अभाव है । शेष
प्रकृतियोंके तेदालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, पांच मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धिचनुष्क, औदारिक-
मिश्र, वैक्रियिकमिश्र और कामेण प्रत्ययोंका मिश्रगुणस्थानमें अभाव है ।

मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्रर्षभसंहननका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त
होता है । देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है । शेष सब प्रकृ-
तियोंका बन्ध देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है । मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक व वज्र-
र्षभसंहननके देव व नारकी स्वामी हैं । देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके तिर्यंच व मनुष्य
स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी चारों गतियोंके सम्बन्धिवादादि हैं । बन्धाध्वान

चउगइसम्मामिच्छाइडिणो । बंधद्धानं णत्थि, एक्कमिह अद्धानविरोहादो । बंधवोच्छेदो वि
णत्थि, एत्थ सव्वासिं बंधुवलंभादो' । धुवबंधिपयडीणं तिविहो बंधो, धुवाभावादो । सेसाणं
सादि-अद्दुवो, अद्दुवबंधित्तादो ।

मिच्छाइट्टीणमभवसिद्धियभंगो ॥ ३१९ ॥

सुगममेदं सुत्तं, विसेसाभावादो । णवरि धुवबंधिपयडीणं चउव्विहो बंधो, सादि-सांतर-
बंधुवलंभादो ।

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु जाव तित्थयरे त्ति ओघभंगो ॥ ३२० ॥

एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदयत्तुव-
लंभादो पंचिंदियजादि-त्तस-बादराणं सोदयबंधुवलंभादो णेदं सुत्तं जुज्जदे ? ण, देसामासिय-

नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छेद भी नहीं है,
क्योंकि, ग्रहां सन्न-प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका
बन्ध होता है; क्योंकि, ध्रुवबन्धका यहां अभव है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध
होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं ।

मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अभव्यसिद्धिक जीवोंके समान है ॥ ३१९ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, यहां कोई विशेषता नहीं है । भेद इतना है कि ध्रुव-
बन्धी प्रकृतियोंका यहां चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, सादि व सान्तर अर्थात्
अध्रुव बन्ध पाया जाता है ।

संज्ञिमार्गणानुसार संज्ञी जीवोंमें तीर्थकर-प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है
॥ ३२० ॥

शंका—चूंकि यहां एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप,
स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे और पंचेन्द्रिय जाति, अस
व बादरका बन्ध स्वोदयसे पाया जाता है, अतएव यह सूत्र युक्त नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देशामार्शक सूत्रोंमें इस प्रकारकी

सुतेसु एवंविहभेदाविरोहादौ । पयडिबंधजाणनिबंधणभेदपटुप्पायणडुमाह—

णवरि विसैसो सादावेदणीयस्स चक्खुदंसणिभंगो ॥ ३२१ ॥

सुगममेदं ।

असणीसु अभवसिद्धियभंगो ॥ ३२२ ॥

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत-सोलसकसाय-णवणोक्कसाय-चउ-
आउ-चउगह-पंचजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगो-
वंग-छसंघडण-वणण-गंच-रस-फास-चउआणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-आवा-
उज्जेव-दोविहायगह-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जतापज्जत-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहा-
सुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदज्ज-अणादिज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-णीचुच्चागोद-
पंचंतराइयपयडीओ असणीहि बज्जमाणियाओ । उदयादो बंधो पुव्वं पच्छ वा वोच्छिण्णो ति
परिक्खा णत्थि, एत्थेदासिं बंधोदयवोच्छेदामावादी ।

विशेषता विरोधसे रहित है ।

प्रकृतियोंके बन्धाध्वानमिमित्तक भेदके प्ररूपणार्थं सूत्र कहते हैं—

परन्तु विशेषता इतनी है कि सातावेदनीयकी प्ररूपणा चक्षुदर्शनी जीवोंके समान
है ॥ ३२१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

असंज्ञी जीवोंमें बन्धोदयव्युच्छेदादिकी प्ररूपणा अमव्यसिद्धिक जीवोंके समान है
॥ ३२२ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व,
सोलह कपाय, नौ नोकपाय, चार आयु, चार गतियां, पांच जातियां, औदारिक, वैकियिक,
तैजस व कामेण शरीर, छह संस्थान, औदारिक व वैकियिक शरीरांगोपांग, छह संहनन,
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, चार आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप,
उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधा-
रण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर आदेय, अनादेय, यश-
कीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गोन और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां असंज्ञी
जीवोंके द्वारा बध्यमान हैं । उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह परीक्षा
यहां नहीं है; क्योंकि, यहां इन प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है ।

१ प्रतिशु ' विसैसा ' इति पाठः ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइय-तिरिक्खगईणं बंधो सोदओ । णिरय-देवाउ-णिरय-देवगइ-वेउच्चियसरीर-वेउच्चियसरीरअंगोवंग-णिरय-देवगइपाओग्गानुपुब्बी-उच्चागोद-मणुसाउ-मणुसगइदुगाणं परोदओ बंधो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलस-कसाय-णवणोकसाय-पंचजादि-ओरालियसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-तिरि-क्खाणुपुब्बी-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण-सरीर-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- [अणादेज्ज-] जसकित्ति-अजसकित्तीणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधविरोहामावादो । उवघाद-परघाद-उस्सासाणं पि सोदय-परोदओ, अपज्जत्तकाले उदएण विणा वि बंधुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछ-चउआउ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासादे-सत्तणोकसाय-णिरय-मणुस-देवगइ-पंचिदियजादि-वेउच्चियसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउच्चियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-णिरय-मणुस-देवानुपुब्बी-पर-

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण, नीचगोत्र, पांच अन्तराय और तिर्यगगतिका बन्ध स्वोदय होता है । नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, नरकगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र, मनुष्यायु और मनुष्यगतिद्विकका परोदय बन्ध होता है । पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, पांच जातियां, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, तिर्यगानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, [अनोदेय], यशकीर्ति और अयशकीर्तिका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, कर्माँक्रे, दोनों प्रकारोंसे भी इनके बन्धका कोई विरोध नहीं है । उपघात, परघात और उच्छ्वासका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उदयके विना भी इनका बन्ध पाया जाता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, चार आयु, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायकां निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है । साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, नरकगति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक शरीरांगोपांग,

घादुस्सास-आदाबुजोव-दोविहायगइ-तस-थावर-वादर-सुहुम-पञ्जतांपञ्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-उच्चा-गोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणु-पुच्ची-ओरालियसरीर-णीचागोदाणं बंधो सांतर-गिरंतरो, तेउ वाउकाइएसु गिरंतरबंधुवलंभादो ।

असगणीसु पणदालीस पच्चया सच्चपयडीणं, वेउच्चियदुग-चउविहमण-तिविहवचिजोग-माणसासंजमाभावादो । णवरि गिरय-देवाउअ-गिरय-देवगइ-गिरयगइ-देवगइपाओग्गाणुपुच्ची-वेउच्चियसरीर-वेउच्चियसरीर-अंगोवंगाणं तेदालीस पच्चया, ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाण-मभावादो । मणुस्स-तिरिक्खाउअणं चोदालीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादो । सादां-वेदणीय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदि-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्तीणं बंधो तिगइसंजुतो, गिरयगइए अभावादो । गिरयाउ-गिरयगइ-गिरयगइ-पाओग्गाणुपुच्चीणं गिरयगइसंजुतो । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चीणं मणुसगइ-संजुतो । देवाउ-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुच्चीणं देवगइसंजुतो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-

छह संहनन, नारकानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, ब्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उन्नका बन्धविश्राम देखा जाता है । तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, तेज व वायुकायिक जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

असंज्ञी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके पैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके वैकृतिकद्विक, चार प्रकारका मन, अनुभय वचनयोगके बिना तीन प्रकारका वचन योग और मन जनित असंयम प्रत्ययोंका अभाव है । विशेषता यह है कि नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, नरकगति व देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकृतिकशरीर और वैकृतिकशरीर-गोपांगके तेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्र और कर्मण प्रत्ययोंका अभाव है । मनुष्यायु और तिर्यगायुके चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, कर्मण प्रत्ययका अभाव है ।

सातावेदनीय, ह्रींवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्तविहयो-गति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्तिका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है । नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध नरकगतिसंयुक्त होता है । मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है । देवायु, देवगति और देवगति-प्रायोग्यानुपूर्वीका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है । तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानु-

तिरिक्खगइप्राओग्गणुपुव्वी-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-आदावुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणं तिरिक्खगइसंजुतो बंधो । वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगो-वंगणं देव गिरयगइसंजुतो । ओरालियसरीरअंगोवंग-मच्चिमचउसंठाण-छसंधण-अपज्जत्ताणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो बंधो । णउंसयवेद-हुंडसंठाण-अणसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं तिगइसंजुतो बंधो, देवगइए अभावादो । उच्चगोइस्स दुगइसंजुतो, गिरय-तिरिक्खगइणं अभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो चउगइसंजुतो ।

तिरिक्खा चेव सामी, अणत्थासण्णीणमभावादो । बंधद्धाणं णत्थि, एककमिह अद्धाणविरोहादो । बंधवोच्छेदो वि णत्थि, बंधुवलंभादो । सत्तेतालीसधुवबंधिपयडीणं चउ-व्विहो बंधो । सेसाणं सादि-अद्धवो, पडिवक्खबंधाणुवलंभादो ।

आहाराणुवादेण आहारएसु ओघं ॥ ३२३ ॥

एदस्स सुत्तस्स जघा ओघम्मि परूवणा कदा तथा कायव्वा । णवरि सव्वत्थ कम्म-इयपच्चओ अवणेयव्वो । चटुण्णमाणुपुव्वीणं बंधो परोदओ । उवघादस्स सोदओ ।

पूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणशरीरका तिर्यग्गतिसंयुक्त बन्ध होता है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक-शरीरअंगोपांगका देव व नरक गतिसे संयुक्त बन्ध होता है । औदारिकशरीरअंगोपांग, मध्यम चार संस्थान, छह संहनन और अपर्यप्टका तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, अग्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच-गोत्रका तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ देवगतिके बन्धका अभाव है । उच्चगोत्रका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, उसके साथ नरक और तिर्यग्गतिका बन्ध नहीं होता । शेष प्रकृतियोंका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है ।

तिर्यंच जीव ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें असंज्ञी जीवोंका अभाव है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, बन्ध पाया जाता है । सैतालीस ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, इनके प्रतिपक्ष अर्थात् अनादि व ध्रुव बन्ध नहीं पाये जाते हैं ।

आहारमार्गानुसार आहारक जीवोंमें ओघके समान प्ररूपणा है ॥ ३२३ ॥

इस सूत्रकी जैसे ओघमें प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिये । विशेषता, केवल इतनी है कि सर्वत्र कर्मण प्रत्ययको कम करना चाहिये । चार अनु-पूर्वियोंका बन्ध परोदय होता है । उपघातका स्वोदय बन्ध होता है ।

अणाहारएसु कम्मइयभंगो ॥ ३२४ ॥

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-
[अरदि]-सोग-भय-दुग्गुंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-
ओरालियअंगोवंग-वज्जरिसहसंधण-वण्ण-गंध-रस-फास मणुसगइपाओग्गानुपुञ्जी-अगुरुवलहुअ-
उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-
सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ तीहि गुणद्वेणेहि वज्ज-
माणियाओ । एदासिमुदयपुञ्जावरकालसंबंधिवंधवोच्छेदपरीक्खा णत्थि, सव्वासिमेत्थ बंधोदय-
दंसणादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरु-
लहुव-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । ओरालियसरीर-
समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंधण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ-
विहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सराणं परोदओ बंधो, सोदएण एत्थ बंधविरोहादो । णिद्दा-पयला-
असादावेदणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुग्गुंछा-सुभग-आदेज्ज-जस-

अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगियोंके समान प्ररूपणा है ॥ ३२४ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, [अरति], शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां तीन [मिथ्याद्विष्ट, सासादन, अविरतसम्पग्दष्टि] गुणस्थानों द्वारा वधमान हैं । इन प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदके पूर्वपर कालसम्बन्धी बन्धव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, सब प्रकृतियोंका यहां बन्ध और उदय देखा जाता है ।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय; तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्त्रोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी हैं । औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, प्रत्येकशरीर और सुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्त्रोदयसे यहां इनके बन्धका विरोध है । निद्रा, प्रचला, असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका स्त्रोदय-

किति-अजसकिति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधविरोहाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं बंधो मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिट्ठीसु सोदय-परोदओ । असंजद-सम्मादिट्ठीसु परोदओ चेव, सोदएण बंधविरोहादो । पंचिंदियजादि-तस-बादर-पज्जत्ताणं मिच्छाइड्ढिसु बंधो सोदय-परोदओ, पडिवक्खुदयदंसणादो । सासणसम्मादिड्ढि-असंजदसम्मा-दिट्ठीसु सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-भय-दुगुंछ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादो । असादानेदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसकिति-अजसकितिणं सांतरो बंधो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिट्ठीसु सांतरो । असंजदसम्मादिट्ठीसु णिरंतरो, पडिवक्ख-पयडिबंधाभावादो । एवं समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंधण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्वर-आदेज्जुच्चागोदाणं पि वत्तवं । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं मिच्छाइड्ढि-सासणसम्मा-दिट्ठीसु सांतरो णिरंतरो, आणदादिदेवसुप्पज्जिय विग्गहगईए वट्टमाणेसु णिरंतरबंधुवलंभादो ।

परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है । मनुष्य-गति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका बन्ध मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुण-स्थानोंमें स्वोदय-परोदय होता है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है । पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर और पर्याप्तका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है । सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है ।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मेण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं । असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है । पुरुषवेदका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सान्तर होता है । असंयतसम्यग्-दृष्टियोंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आद्रेय और उच्चगात्रके भी कहना चाहिये । मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, आनतादिक देवोंमें उत्पन्न होकर विग्रहगतिमें वर्तमान जीवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है ।

असंजदसम्मादिङ्गीसु गिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावो । पंचिंदियजादि-ओरालियसरीर-अंगोवंग-परवाहुस्सास-त्तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाङ्गिदिग्धि सांतर-गिरंतरो, सण-क्कुमारादिदेव-णेइएसु गिरंतरवंबुवलभादो । विग्गहगदीए कधं गिरंतरदा ? ण, सत्तिं पडुच्चं गिरंतरत्तुवदेसादो । सासणसम्मादिङ्गि-असंजदसम्मादिङ्गीसु गिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधा-भावादो । एवमेरालियसरीरस्स वि वत्तव्वं ।

मिच्छाङ्गिस्स तेदालीस, सासणस्स अट्ठीस, असंजदसम्मादिङ्गिस्स तेत्तीस पच्चया । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चीणं वंधो मणुसगइसंजुतो । ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरंगोवंगणं मिच्छाङ्गि-सासणसम्मादिङ्गीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो । असंजदसम्मादिङ्गीसु मणुसगइसंजुतो । एवं वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंधणस्स वि वत्तव्वं । उच्चागोदस्स मिच्छाङ्गि-सासणसम्मादिङ्गीसु मणुसगइसंजुतो, असंजदसम्मा-दिङ्गीसु देव-मणुसगइसंजुतो । सेसाणं पयडीणं वंधो मिच्छाङ्गि-सासणसम्मादिङ्गीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो, एदेसिमपज्जत्तकाले देव-णिरयगईणं वंधाभावादो । असंजदसम्मादिङ्गीसु देव-

असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीरांगोपांग, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सनत्कुमारादि देव और नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका—विग्रहगतिमें बन्धकी निरन्तरता कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, शक्तिकी अपेक्षा उसकी निरन्तरताका उपदेश है।

सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनके प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार औदारिकशरीरके भी कहना चाहिये।

मिथ्यादृष्टिके तेतालीस, सासादनसम्यग्दृष्टिके अट्ठीस, और असंयतसम्यग्दृष्टिके तेत्तीस प्रत्यक्ष हैं। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विका बन्ध-मनुष्यगतिसंयुक्त होता है। औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तिर्यग्गति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। इसी प्रकार वज्रर्पभवज्जनाराचशरीरसंहननके भी कहना चाहिये। उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें मनुष्यगतिसंयुक्त, तथा असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तिर्यग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त-होता है, क्योंकि, इनके अपर्याप्तकालमें देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है। असंयतसम्य-

मणुसगइसंजुतो, तत्थण्णगईणं बंधाभावादे ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गानुपुव्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं चउगइ-मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडी सामी, देव-णिरयगइअसंजदसम्मादिडी सामी । एवं वज्ज-रिसहसंधडणस्स वि वत्तव्वं । सेसाणं पयडीणं चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडि-असंजद-सम्मादिडिणो सामी । बंधद्धानं सुगमं । बंधवोच्छेदो च सुगमो । धुवबंधीणं बंधो मिच्छाइडीसु चउव्विहो, सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडीसु तिविहो । सेसाणं पयडीणं सव्वत्थ सादि-अट्टुवो ।

शीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंधण-चउसंठाण-तिरिक्ख-गइपाओग्गानुपुव्वी-उज्जेव-अप्पसत्थविहायगइ-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं दुड्ढाण-पयडीणं वुच्चदे — अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं बंधोदया समं वोच्छिण्णा । दुभगाणादेज्ज-णीचागोद-तिरिक्खदुगाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि । अवसेसाणं पयडीणं बंधवोच्छेदो चैव, एत्थुदयविरोहादे । अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइदुग-दुभगाणा-देज्ज-णीचागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उह्यहा वि बंधविरोहाभावादे । सेसाणं परोदओ

गृह्णित्योर्मे देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है ।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगो-पांगके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि, तथा देवगति व नरक-गतिके असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । इसी प्रकार वज्रब्रह्मसंहननके भी कहना चाहिये । शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद भी सुगम है । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें चारों प्रकारका होता है । सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्य-ग्दृष्टियोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है । शेष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है ।

स्थानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, चार संहनन, चार संस्थान, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनदेय और नीचगोत्र, इन द्विस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं — अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध व उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं । दुर्भग, अनादेय, नीचगोत्र और तिर्यग्गतिद्विकका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है । शेष प्रकृतियोंका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, यहां उनके उदयका विरोध है । अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यग्गतिद्विक, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है । शेष प्रकृतियोंका परोदय बन्ध

बंधो, एत्युदयाभावाद्दे । शीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरो बंधो, अपणेगसमय-
 बंधसत्तिंसंजुत्तादो^१ । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्चि-णीचागोदाणं मिच्छाइड्डीसु सांतर-
 णिरंतरो, तेउ-वाउकाइएसु विग्गहं काऊणुप्पण्णाणं तदो^२ विग्गहगइए गयाणं सत्तमपुढवीदो
 विग्गहं काऊण णिग्गयाणं च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणम्मि सांतरो, एगसमएण वि बंधु-
 वरमसत्तिदंसणादो ।-सेसाणं पयडीणं बंधो सच्चत्थ सांतरो, साभावियादो । पच्चया सुग्गमा ।
 तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्चि-उज्जोत्ताणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । चउसंठाण-चउसंचहणाणं तिरिक्ख-
 मणुसगइसंजुत्तो । इत्थिवेदस्स दुग्गइसंजुत्तो, देव-णिरयगईणमभावाद्दे । अप्पसत्थविहायगइ-
 दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधो मिच्छाइड्ढिंहा सासणे दुग्गइसंजुत्तो, देव-णिरय-
 गईणमभावाद्दे । शीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं मिच्छाइड्ढिंहा सासणे दुग्गइसंजुत्तो,
 णिरय-देवगईणमभावाद्दे । चउगइमिच्छाइड्ढि-सासणसम्मादिड्ढिणो सामी । बंधद्धाणं बंध-
 वोच्छेदद्धाणं च सुग्गं । धुवबंधीणं बंधो मिच्छाइड्ढिंहा चउच्चिहो । सासणे तिविहो,

होता है, क्योंकि, यहाँ उनका उदयाभाव है । स्थानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका
 निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये अनेक समयरूप बन्धशक्तिसे संयुक्त हैं । तिर्यग्गति, तिर्य-
 ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वा और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
 तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें विग्रह करके उत्पन्न हुए, उनमेंसे विग्रहगतियोंमें
 गये हुए, तथा सप्तम पृथिवीसे विग्रह करके निकले हुए जीवोंके उनका निरन्तर बन्ध पाया
 जाता है । सासादन गुणस्थानमें उनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी
 बन्धविभ्रामशक्ति देखी जाती है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सान्तर होता है, क्योंकि,
 ऐसा स्वभाव है । प्रत्यय सुग्गं हैं । तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वा और उद्योतका तिर्यग्गतिसे
 संयुक्त बन्ध होता है । चार संस्थान और चार संहननका तिर्यग्गति और मनुष्यगतिके संयुक्त
 बन्ध होता है । स्त्रीवेदका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ उक्त दो गुणस्थानोंमें
 देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है । अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और
 नीचगोत्रका बन्ध मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयुक्त होता है,
 क्योंकि, देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है । स्थानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका
 मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि,
 नरक व देव गतिके बन्धका अभाव है । चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि
 स्वामी हैं । बन्धाध्वान व बन्धव्युच्छेदस्थान सुग्गं हैं । ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध
 मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है । सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध

१ प्रतिपु ' संजुत्तादो ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' तरो ' इति पाठः ।

३ आप्तौ ' मिच्छाइड्ढिंहा चउच्चिहो सासणे ' इति पाठः ।

धुवाभावादो ।

मिच्छत्त-णत्तुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंधडण-आदाव-धावर-सुहुम-अपञ्जत्त-साहारणसरीराणमेगङ्गाणां लुच्चदे— उदयादो वंधो पुवं पच्छ वा वोच्छिण्णो ति [विचारो] मिच्छत्त-चउजादि-धावर-सुहुम-अपञ्जत्ताणं णत्थि, अक्कमेण वंधोदयवोच्छेददंसणादो । णत्तंसयवेदस्स पुवं वंधो पच्छ उदओ वोच्छिञ्जदि, असंजदसम्मादिद्धिम्हि उदयवोच्छेद-दंसणादो । हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंधडण-आदाव-साहारणसरीराणं वंधोवोच्छेदो चेव, उदय-वोच्छेदो णत्थि, अभावस्स भावपुरंगमत्तदंसणादो । ण च एदासिं पयडीणं विग्गहगदीए उदओ अत्थि, अणुवलंमादो । मिच्छत्तस्स वंधो सोदएण, णत्तंसयवेद-चउजादि-धावर-सुहुम-अपञ्जत्ताणं सोदय-परोदएण, हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंधडण-आदाव-साहारणाणं परोदएण । मिच्छत्तस्स वंधो णिरंतरो । सेसाणं सांतरो, णियमाभावादो । पच्चया सुगमा । मिच्छत्त-णत्तंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंधडण-अपञ्जत्ताणं वंधो तिरिक्ख-भणुसगइसंजुत्तो । चउ-जादि-आदाव-धावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । मिच्छत्त-णत्तुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंधडणाणं चउगइमिच्छाइडी सामी । एइंदिय-आदाव-धावराणं तिगइमिच्छाइडी

होता है, क्योंकि, वहां भ्रुवबन्धका अभाव है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर, इन एकस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं— उदयसे बन्ध पूर्व या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है यह विचार मिथ्यात्व, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्त प्रकृतियोंके नहीं है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद एक साथ देखा जाता है । नपुंसकवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उसका उदयव्युच्छेद देखा जाता है । हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, उदयव्युच्छेद नहीं है; क्योंकि, अभाव भावपूर्वक देखा जाता है । और इन प्रकृतियोंका विग्रहगतिमें उदय है नहीं, क्योंकि, वहां वह पाया नहीं जाता । मिथ्यात्वका बन्ध खोदयसे; नपुंसकवेद, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्तका खोदय-परोदयसे; तथा हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका परोदयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है । शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनके बन्धका नियम नहीं है । प्रत्यय सुगम हैं । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन और अपर्याप्तका बन्ध तिर्यग्गति व मनुष्य-गतिसे संयुक्त होता है । चार जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका तिर्यग्गति-संयुक्त बन्ध होता है । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृपाटिका-संहननके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं । एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तीन

सामी, गिरयगईए अभावादे । चीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-सुहुम-अपंचजैत-साहारणाणं-
तिरिक्ख-मणुसा सामी, देव-गेरइएसु एदासिं वंधाभावादे । वंधद्धानं णत्थि, एककेभिद्दि
अद्धानविरोहादे । वंधवोच्छेदद्धानं सुगमं । मिच्छतबंधो चउच्चिहो । सेसाणं सादि-अद्दुवो ।

सादावेदणीयस्स अणाहारीसु वंधवोच्छेदे चेव, उदयवोच्छेदाभावादे । सवत्थ
बंधो सोदय-परोदओ । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडीसु सांतरो, पडिवक्ख-
पयडिबंधुवलंभादे । सजोगिभिद्दि गिरंतरो, पडिक्खसपयडिबंधाभावादे । पच्चया सुगमा ।
णवरि सजोगिभिद्दि कम्मइयकायजोगपच्चओ एक्को चेव, अण्णेसिमसंभवादे । मिच्छाइडि-
सासणसम्मादिडीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । असंजदसम्मादिडीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो ।
सजोगीसु अगइसंजुत्तो । चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडिणो मणुसगइ-
केवल्लिणो च सामी । वंधद्धानं वंधवोच्छिणद्धानं च सुगमं । सादि-अद्दुवो बंधो,
साभावियादे ।

देवगइ-वेउच्चियसरीर-वेउच्चियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गणुपुवी-तित्थयरणामाण-

गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें इनके बन्धका अभाव है । इन्द्रिय,
अन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके तिर्यंच और मनुष्य स्वामी हैं,
क्योंकि, देव व नारकियोंमें इनके बन्धका अभाव है । बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक
गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है । बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम है । मिथ्यात्वका बन्ध
चारों प्रकारका होता है । शेष प्रकृतियोंका सादि व अद्भव बन्ध होता है ।

सातावेदनीयका अनाहारी जीवोंमें केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वहां उसके
उदयव्युच्छेदका अभाव है । सर्वत्र उसका स्वोदय परोदय बन्ध होता है । मिथ्यादृष्टि, सासा-
दनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रति-
पक्ष प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है । सयोगकेवली गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता
है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि
सयोगकेवली गुणस्थानमें केवल एक कार्मण काययोग प्रत्यय ही है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंकी
वहां सम्भावना नहीं है । मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तिर्यंगति
व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है । असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें देवगति और मनुष्यगतिसे
संयुक्त बन्ध होता है । सयोगकेवली जीवोंमें गतिसंयोगसे रहित बन्ध होता है । चारों
गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, तथा मनुष्यगतिके
केवली स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं । सादि व अद्भव बन्ध
होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है ।

देवगति, वैकृतिकशरीर, वैकृतिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोगानुपूर्वी और

मसंजदसम्मादिट्ठिणो बज्झमाणणं पयडीणं उच्चदे — एदासिं परोदएण बंधो । कुदो, साहा-
वियादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमसत्तीए अभावादो । पच्चया सुगमा । णवरि देवगइ-
चउक्कस्स णउंसयपच्चओ णत्थि । तित्थयरस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो । तित्थयरस्स तिरिक्खगईए
विणा तिगइअसंजदसम्मादिट्ठिणो सामी । सेसाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । बंधद्धाणं बंध-
वोच्छिण्णहाणं च सुगमं । सादि-अद्दुवो बंधो, अद्दुवबंधित्तादो ।

एवं बंधसामित्तविचओ समतो ।

तीर्थंकर नामकर्म, इन असंयतसम्यग्दृष्टि जीवों द्वारा बध्यमान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं-
इनका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
एक समयसे इनके बन्धविध्वांसशक्तिका अभाव है । प्रत्यय सुगम हैं । विशेषता इतनी है कि
देवगतिचतुष्कके नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है । तीर्थंकर प्रकृतिका देव और मनुष्य गतिसे
संयुक्त बन्ध होता है । तीर्थंकर प्रकृतिके तिर्यग्गतिके बिना तीन गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि
स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंके तिर्यंच व मनुष्य स्वामी हैं । बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्न-
स्थान सुगम हैं । सादि व अद्दुव, बन्ध होता है, क्योंकि, वे अद्दुवबन्धी प्रकृतियां हैं ।

इस प्रकार बन्धस्वामित्त्वविचय समाप्त हुआ ।

पारिशिष्ट

१
बंधसामित्तविचय-सुताणि ।

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	जो सो बंधसामित्तविचओ णाम तस्स इमो दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण य ।		गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	१३
२	ओघेण बंधसामित्तविचयस्स चोहसजीवसमासाणि णाद-व्वाणि भवंति ।	१	७ णिहाणिहा-पयलापयला-थीण-गिद्धि-अणंताणुबंधि-कोह-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-च उसंठाण-चउसंघ-डण-तिरिक्खगइपाओग्गाणु-पुव्वि-उज्जोव-अण्णसत्थविहायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणं को बंधो को अवंधो ?	३०
३	मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्मा-इट्ठी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अण्णमत्तसंजदा अपुव्वकरणपइट्ठ-उवसमा खवा अणियट्ठिवादर-सांपराइयपइट्ठउवसमा खवा सुहुमसांपराइयपइट्ठउवसमा खवा उवसंतकसायवीयरागल्लदुमत्था खीणकसायवीयरायल्लदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवली ।	४	८ मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	३१
४	एदेसि चोहसण्हं जीवसमासाणं पयडिवंधवोच्छेदो कादव्वो भवदि ।	५	९ णिहा-पयलाणं को बंधो को अवंधो ?	३५
५	पंचणं णाणावरणीयाणं चतुण्हं दंसणावरणीयाणं जसकित्ति-उच्चागोद-पंचणहमंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ?	६	१० मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्व-करणपविट्ठसुद्धिसंजदेसु उव-समा खवा बंधा । अपुव्वकरण-द्वाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	३६
६	मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सुहुम-सांपराइयसुद्धिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइय-सुद्धिसंजदद्वाए चारिमसमयं	७	११ सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ?	३८
			१२ मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सजोगि-केवलि त्ति बंधा । सजोगि-केवलिअद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	३९
			१३ असादावेदणीय-अरदि-सोग-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	अथिर-असुह-अजसकक्ति- णामाणं को बंधो को अबंधो ?	४०	२२	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणि- यट्टिवादरसांपराइयपविट्टुवसमा- खवा बंधा । अणियट्टि- वादरद्दाए सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	५२
१४	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमस- संजदा बंधा । एदे बंधा, अव- सेसा अबंधा ।	४१	२३	माण-भायंसंजलणाणं-को बंधो को अबंधो ?	५५
१५	मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ- णिरयगइ-पईदिय-वेईदिय-ती- ईदिय-चउरिदियजादि-हुंडसंठाण- असंपत्तसेवट्टसरीरसंधडण- णिरयगइपाओग्गाणुपुवि आदाव- थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारण- सरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ?	४२	२४	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणि- यट्टिवादरसांपराइयपविट्टुवसमा खवा बंधा । अणियट्टिवादरद्दाए सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	५६
१६	मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	४३	२५	लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ?	५८
१७	अपुच्चक्खाणावरणीय-कोध- माण-भाया-लोभ मणुसगइ-ओरा- लियसरीर-ओरालियसरीरअंगो- वंग-वज्जरिसहवइरणारायणंसंध- डण-मणुसगइपाओग्गाणुपुवि- णामाणं को बंधो को अबंधो ?	४६	२६	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणि- यट्टिवादरसांपराइयपविट्टुव- समा खवा बंधा । अणियट्टि- वादरद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	”
१८	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजद- सम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अव- सेसा अबंधा ।	”	२७	हस्सरदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ?	५९
१९	पुच्चक्खाणावरणीयकोध-माण- माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ?	५०	२८	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुच्च- करणपविट्टुवसमा खवा बंधा । अपुच्चकरणद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।	६०
२०	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदा- संजदा बंधा । एदे बंधा, अव- सेसा अबंधा ।	”	२९	मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ?	६१
२१	पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ?	५२	३०	मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	६२

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ-सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
३१	देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ?	६४	बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोळ्ळिज्जदि । एदे बंधा, अबसेसा अबंधा ।	७३
३२	मिच्छादट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तसंजदद्वाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोळ्ळिज्जदि । एदे बंधा, अबसेसा अबंधा ।	३९	कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयर-णामगोदं कम्मं बंधंति ?	७६
३३	देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइ-पाओगाणुपुण्वि-अगुरुवल्लुव-उवघाद्-परघाद्-उरसास-पसत्य-विहायगइ-त्तस-वाद्द-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामाणं को बंधो को अबंधो ?	४०	तत्थ इमेहि-सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं बंधंति ?	७८
३४	मिच्छादट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्व-करणपइड्डउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोळ्ळिज्जदि । एदे बंधा, अबसेसा अबंधा ।	४१	दंसणविज्जुज्जदाए विणयसंपण्ण-दाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए आवासयसु अपरिहीणदाए खण-लवपडिबुज्जणदाए लखिसंवेग-संपण्णदाए जअथामे तथा तवे साइणं पासुअपरिचागदाए साइणं समाहिसंधारणाए साइणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंत-भत्तीए बहुसुदभत्तीए पवयण-भत्तीए पवयणवच्छलदाए पव-यणप्पभावणदाए अभिक्खणं अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चवेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंति ।	६६
३५	आहारसरीर-आहारसरीर-अंगो-वंगणामाणं को बंधो को अबंधो ?	४२	जस्स इणं तित्थयरणामगोद-कम्मस्स उदएण सदेवासुरमाणु-सस्स लोगस्स अच्चणिज्जा पूज-णिज्जा बंदणिज्जा णमंसणिज्जा पेदारा धम्मतित्थयरा जिणा केवल्लिणो हवंति ।	७९
३६	अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरण-पइड्डउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोळ्ळिज्जदि । एदे बंधा, अबसेसा अबंधा ।	४३	आदेसेण गदियाणुवादेण णिरय-गदीए णेरइएसु पंचणाणावरण-छंदसणावरण-सादासाद्-वारस-कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-अय-दुगुंछा-मणुस-गदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-	९१
३७	तित्थयरणामस्स को बंधो को अबंधो ?	७३		
३८	असंजदसम्माइट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपइड्डउवसमा खवा			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस- संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग- वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध- रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणु- पुण्वि-अगुरुलहुग-उवघाद-पर- घाद-उस्सास-पसत्थविहायगदि- तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर- आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति- णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	५०	मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	१०३
		५१	तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अबंधो ?	"
		५२	असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
		५३	एवं तिसु उवरिमासु ० पुढवीसु ण्येयव्वं ।	१०४
४३	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजद- सम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	९३	५४ चउत्थीए पंचमीए छट्ठीए पुढवीए एवं चेव णेदव्वं । णवरि विसेसो, तित्थयरं णत्थि ।	१०५
४४	णिहाणिहा-पयलापयला-थीण- गिद्धिअणंताणुबंधिकोध-माण- माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खलउ- तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघ- डण-तिरिक्खगइपाओग्गाणु- पुण्वी-उज्जोव-अणपसत्थविहाय- गइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज- णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?	"	५५ सत्तमाए पुढवीए णेरइया पंच- णाणावरणीय-छदंसणावरणीय- सादासाद-बारसकसाय-पुरिस- वेद-हस्सरदि-अरदि-सोग-भय- दुगंछा-पंचिदियजादि-ओरालिय- तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस- संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग- वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध- रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद- परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय- गइ-तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेय- सरीर-थिराथिर- [सुहा-] सुह- सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति- अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतरा- इयाणं को बंधो को अबंधो ?	१०६
४५	मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	५६ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असं- जदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	१०६
४६	मिच्छत्त-णउंसयवेद-हुंडसंठाण- असंपत्तसेवहसरीरसंघडण- णामाणं को बंधो को अबंधो ?	१०१	५७ णिहाणिहा-पयलापयला-थीण- गिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण- माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्ख- गइ-उसंठाण-चउसंघडण-	
४७	मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"		
४८	मणस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ?	१०२		

मूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी— उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-डुभग- दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?	१०९	किञ्चित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंत- राइयाणं को बंधो को अबंधो ?	११२
५८	मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	६४ मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव संजदा- संजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	११३
५९	मिच्छत्त-णडुंसयवेद-तिरिक्खाउ- हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण- णामाणं को बंधो को अबंधो ?	१११	६५ णिहाणिहा-पयलापयला-थीण- गिद्धि-अणंताणुबंधिकोघ-माण- माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ- मणुसाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ- ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरा- लियसरीर-अंगोवंग-पंचसंघडण- तिरिक्खगइ — मणुसगइ पाओ— ग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-अप्पसत्थ- विहायगइ-डुभग-दुस्सर-अणा- देज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?	११९
६०	मिच्छाइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	६६ मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
६१	मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणु- पुव्वी-उच्चागोदाणं को बंधो को अबंधो ?	"	६७ मिच्छत्त-णडुंसयवेद-णिरयाउ- णिरयगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइं- दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण- असंपत्तसेवट्टसंघडण-णिरय- गइपाओग्गाणुपुव्वि-आदाव- थावर-सुहुम-अपज्जस-साहारण- सरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ?	१२३
६२	सम्माभिच्छाइट्ठी असंजदसम्मा- इट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	११२	६८ मिच्छाइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
६३	तिरिक्खगदीए तिरिक्खा पंचि- दियतिरिक्खा पंचिदियतिरिक्ख- पज्जत्ता पंचिदियतिरिक्खजोगि- णीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणा- वरणीय-सादासाद-अट्टकसाय- पुरिसवेद-इस्स-रदि-अरादि-सोग- भय-डुगुछा-देवगइ-पंचिदिय- जादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइय- सरीर-समचउरससंठाण-वेउ- व्वियसरीर-अंगोवंग-वणण-गंध- रस-फास-देवगइपाओग्गाणु- पुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-पर- घाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ- तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- [थिरा-] थिर-सुहासुह-सुभग- सुस्सर-आदेज्ज-जसक्कित्ति-अजस-		६९ अपचक्खणकोघ-माण-माया- लोभाणं को बंधो को अबंधो ?	१२५
			७० मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असं- जदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"

सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

७१ देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ?

१२६

७२ मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी
असंजदसंम्माइट्ठी संजदासंजदा
बंधा । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा ।

७३ पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता पंच-
णाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-
सादासाद-मिच्छत्त—सोलस—
कसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-
मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुस-
गइ-एइदिय-अइदिय-तीइदिय-
अउरिदिय-पंचिदियजादि-ओरा-
लिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छ-
संठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-
छसंघडण-वण-गंध-रस-फास-
तिरिक्खगइ—मणुसगइपाओ—
ग्गणुपुव्वी-अगुस्सलहुग-उव-
घाद-परघाद-उस्सास—आदा—
उज्जोव दोविहायगइ-तस-थावर-
बादर सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-
पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-
सुहासुह-सुभग- [दुभग-]
सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणा-
देज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति—
णिमिण-णीञ्चुच्चागोद-पंचंतराइ-
याणं को बंधो को अबंधो ?

१२७

७४ सव्वे एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।

७५ मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-
मणुसिणीसु ओधं णेयव्वं जाव
तित्थयेरंत्ति । णवरि विसेसो;
वेट्ठणे अपक्कक्खणाणावरणीयं
जघा पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

१३०

७६ मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदिय-
तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

१३४

७७ देवगदीए देवसु पंचणाणावर-
णीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-
वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-
रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-
मणुसगइ-पंचिदियजादि-ओरा-
लिय-तेजा-कम्मइयसरीर-सम-
चउरससंठाण-ओरालियसरीर-
अंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण—
वण-गंध-रस-फास-मणुसाणु-
पुव्वि-अगुस्सलहुव-उवघाद-पर-
घाद-उस्सास-पसत्थविहायगदि-
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-
थिराथिर सुहासुह-सुभग-सुस्सर-
आदेज्ज जसकित्ति-अजसकित्ति-
णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं
को बंधो को अबंधो ?

१३७

७८ मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असंजद-
सम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा,
अबंधा णत्थि ।

१३८

७९ णिहाणिहा पयलापयला शीण—
गिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण—
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-
तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघ-
डण-तिरिक्खगइपाओग्गणुपुव्वी-
उज्जोव-अणसत्थविहायगइ—
दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-
गोदाणं को बंधो को अबंधो ?

१४१

८० मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी
बंधा । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा ।

”

८१ मिच्छत्त-णुसुसयवेद-एइदिय—
जादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्ठ-
संघडण-आदाध-थावरणामाणं को
बंधो को अबंधो ?

१४३

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
८२	मिच्छाद्वी-बंधा । एदे-बंधा, अवसेसा अबंधा ।	१४३		जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	१४९
८३	मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ?	१४४	९१	मिच्छाद्विप्पहुडि जाव असंजद-सम्मादिद्वी-बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	"
८४	मिच्छाद्विप्पुत्ति सासणसम्माद्विप्पुत्ति असंजदसम्माद्विप्पुत्ति बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	९२	णिद्वाणिद्वा-पयलापयला-धीण— विद्धि-अणंताणुबंधिकोध-भाण— माया-लोभ-इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणं को बंधो को अबंधो ?	१५२
८५	तित्थयरणात्मकम्मस्स को बंधो को अबंधो ?	१४५			
८६	असंजदसम्माद्विप्पुत्ति बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"			
८७	भवणवासिय-वाणवंतर-जोदि-सियदेवाणं देवभंगो । णवरि विसेसो तित्थयरं णत्थि ।	१४६	९३	मिच्छाद्विप्पुत्ति सासणसम्माद्विप्पुत्ति बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
८८	सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवाणं देवभंगो ।	१४७	९४	मिच्छत्त णत्तुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणगामाणं को बंधो को अबंधो ?	१५३
८९	सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवाणं पढ-माए पुढवीए णेरइयाणं भंगो ।	१४८	९५	मिच्छाद्विप्पुत्ति बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
९०	आणद जाव णवगेचज्जविमाण-वासियदेवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय—सादासाद— वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स— रदि-भय-दुग्गंछा-मणुसगइ पंचि-दियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्म-इयसरीर समचउरससंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-चज्जरिसह-संघडण वण्ण-गंधरस-फास— मणुसगइपाओग्गानुपुब्बी अगुरुव-लहुव उवघाद परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस—बादर— पज्जत्त-पत्तेयसरीर थिराथिर— सुहासुह सुभग-सुस्सर आदेज्ज-		९६	मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ?	१५४
			९७	मिच्छाद्विप्पुत्ति सासणसम्माद्विप्पुत्ति असंजदसम्माद्विप्पुत्ति बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
			९८	तित्थयरणात्मकम्मस्स को बंधो को अबंधो ?	"
			९९	असंजदसम्माद्विप्पुत्ति बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	१५५
			१००	अणुदिस जाव सब्वट्टसिद्धि-विमाणवासियदेवेसु पंचणाणा-वरणीय-छदंसणावरणीय-सादा-साद-वारसकसाय-पुरिसवेद—	

- हस्स रदि-अरदि-सोग-भय —
दुगुंछा-मणुस्साउ-मणुसगइ —
पंचिदियजादि ओरालिय-तेजा-
कम्मइयसरीर-समचउरस-
संठाण-ओरालियसरीर-अंगो-
वंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-
गंध रस-फास-मणुसगइपाओ-
ग्गाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-उव-
घाद परघाद उरुसास-पसस्थ-
विहायगइ तस बादर-पज्जत्त-
पत्तयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-
सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-
किसि-अजसकिसि-णिमिण-
तित्थयर उच्चागोद-पंचतराइ-
याणं को बंधो को अबंधो ? १५५
- १०१ असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । अबंधा
णात्थि । १५६
- १०२ इंदियाणुवादेण एइंदिया वादरा
सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता
बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-
पज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिदिय-
अपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्ख-
अपज्जत्तभंगो । १५८
- १०३ पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तपसु
पंचणाणावरणीय चउदंसणा-
वरणीय-जसकिसि-उच्चागोद-
पंचतराइयाणं को बंधो को
अबंधो ? १७०
- १०४ मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सुहुम-
सांपराइयसुद्धिसंजदेसु उव-
समा खवा बंधा । सुहुमसांप-
राइयसुद्धिसंजदद्दए चरिम-
समयं गंतूण बंधो वोच्छि-
ज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा । १७२
- १०५ णिहाणिहा-पयलापयला-थीण-
गिद्धि अणंताणुवंधिकोभ-माण-
माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरि-
क्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-
चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओ-
ग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-अप्पसस्थ-
विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणा-
देज्ज-णीचागोदाणं को बंधो
को अबंधो ? १७३
- १०६ मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी
बंधा । एदे बंधा, अवसेसा
अबंधा । ”
- १०७ णिहा पयलाणं को बंधो को
अबंधो ? १७४
- १०८ मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्व
करणपविट्ठसुद्धिसंजदेसु उव-
समा खवा बंधा । अपुव्वकरण-
संजदद्दए संखेज्जदिमं भागं
गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे
बंधा, अवसेसा अबंधा । ”
- १०९ सादावेदणीयस्स को बंधो को
अबंधो ? ”
- ११० मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सजोगि-
केवली बंधा । सजोगिकेवलि-
अद्दए चरिमसमयं गंतूण बंधो
वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अव-
सेसा अबंधा । १७८
- १११ असादावेदणीय-अरदि-सोग-
अथिर-असुह-अजसकिसि-
णामाणं को बंधो को अबंधो ? ”
- ११२ मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव पमत्त-
संजदो स्ति बंधा । एदे बंधा,
अवसेसा अबंधा । १७९

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
११३	मिच्छत्त-णुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजदि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-णिरयाणु-पुव्वी-आदाव-थावर-सुहुम-अप-ज्जत्त—साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ?	१८०	१२१	माण-मायासंजलणाणं को बंधो को अबंधो ?	१८५
११४	मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	१२२	मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव आणि-यट्टी उवसमा खवा बंधा । आणियट्टिवादरद्धाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
११५	अपच्चक्खाणावरणीयकोध—माण-माया-लोभ-मणुसगइ—ओरालियसरीर—ओरालिय—सरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवहर-णारायणसरीरसंघडण-मणुस-गइपाओग्गाणुपुव्विणामाणं को बंधो को अबंधो ?	१८२	१२३	लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ?	"
११६	मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असं-जदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	१८३	१२४	मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव आणि-यट्टी उवसमा खवा बंधा । आणियट्टिवादरद्धाए चरिम-समयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
११७	पच्चक्खाणावरणकोध-माण—माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ?	१८४	१२५	हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ?	१८६
११८	मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव संजदा-संजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	१२६	मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अपुव्व-करणपविट्टुउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा अवसेसा अबंधा ।	"
११९	पुरिसवेद कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ?	"	१२७	मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ?	"
१२०	मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव आणि-यट्टिवादरसांपराइयपविट्टुउव-समा खवा बंधा । आणियट्टि-वादरद्धाए सेसे संखेज्जाभागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	१२८	मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
		"	१२९	देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ?	१८७
		"	१३०	मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तद्धाए संखे-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	ज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छि- ज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	१८७	१३७ कायाणुवादेण पुढविकाइय- आउकाइय-वणप्फदिकाइय- णिगोदजीव-वादर-सुहुम- पज्जत्तापज्जत्ताणं वादरवण- प्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता- पज्जत्ताणं च पंचिदियनिरिक्ख- अपज्जत्तभंगो ।	१९२
१३१	देवगइ-पंचिदियजादि-वेउविय- तेजा-कम्मइयसरीर-समच्चउरस- संठाण-वेउवियसरीर-अंगोवंग- वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइ- पाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव- उवघाद-परघाद-उस्सास- पसत्यविहायगइ-तस-वादर- पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ- सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण- णामाणं को बंधो को अबंधो ?	”	१३८ तेउकाइय-वाउकाइय-वादर- सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ताणं सो चेव भंगो । णवरि विसेसो मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइ- पाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदं णत्थि ।	१९९
१३२	मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्व- करणपइट्टउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	१८८	१३९ तसकाइय तसकाइयपज्जत्ताण- मोयं णेद्वं जाव तित्थयेरे त्ति ।	२००
१३३	आहारसरीर-आहारअंगोवंग- णामाणं को बंधो को अबंधो ?	१९१	१४० जोगाणुवादेण पंचमणजोगि- पंचवच्चिजोगि-कायजोगीसु ओधं णेत्यं जाव तित्थयेरे त्ति ।	२०१
१३४	अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरण- पइट्टउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	”	१४१ सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	२०२
१३५	तित्थयरणामाए को बंधो को अबंधो ?	”	१४२ ओरालियकायजोगीणं मणुस- गइभंगो ।	२०३
१३६	असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपइट्टउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे- भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	”	१४३ णवरि विसेसो सादावेद- णीयस्स मणजोगिभंगो ।	२०५
		”	१४४ ओरालियमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावर- णीय-असादावेदणीय-वारस- कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि- अरदि-सोग-भय-दुगुंछां-पंचि- दियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर- समच्चउरससंठाण-वण्ण-गंध-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	रस-फास-अगुरुअलहुव-उव-घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंच-तराइयाणं को बंधो को अबंधो ?		-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ?	२१३
१४५	मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	२०५	१५१ मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
१४६	णिहाणिहा-पयलापयला-थीण-गिद्धि-अणंताणुबंधिकोध माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्ख-गइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगो-वंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बी-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीत्वा-गोदाणं को बंधो को अबंधो ?	२०६	१५२ देवगइ वेउव्वियसरीर-वेउव्विय-सरीरअंगोवंग-देवगइपाओ-ग्गाणुपुब्बी-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ?	२१४
१४७	मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	१५३ असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	२१५
१४८	सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ?	२०९	१५४ वेउव्वियकायजोगीणं देवगइप-भंगो ।	"
१४९	मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी सजोगि-केवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	"	१५५ वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं देव-गइभंगो ।	२२२
१५०	मिच्छत्त-णउंसयवेद-तिरि-क्खाउ-मणुसाउ-चदुजादि-हुंड-संठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-भादाव-धावर-सुहुम-अपज्जत्त-	२१२	१५६ णवरि विसेसो वेट्टाणियासु तिरिक्खाउअं णत्थि मणु-स्साउअं णत्थि ।	२२९
			१५७ आहारकायजोगि-आहारमिस्स-कायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-चदुसंजलण-गुरिसवेद-हस्स-रदि-अरादि-सोग-भय-दुगुंछा-देवाउ-देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्विय-सरीरअंगोवंग-चण्ण-नांध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुब्बी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादु-स्सास-पसत्थविहायगइ-तस-यादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	बंधो को अबंधो ?	२२९	१६३	सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ?	२३८
१५८	पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	२३०	१६४	मिच्छाहट्ठी सासणसंम्माहट्ठी असंजदसंम्माहट्ठी सजोगि-केवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	२३९
१५९	कम्मइयकायजोगीसु पंचणाणा-वरणीय—छउदंसणावरणीय—असादावेदणीय—वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि—अरदि—सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ—पंचिंदियजादि—ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर—समचउरस—संडाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंधडण वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणु-पुब्बी-अगुरुवलहुव-उवघाद—परघादुसास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह—सुभग—सुस्सर-आदेज्ज—जसकित्ति—अजसकित्ति—णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	२३२	१६५	मिच्छत्त-णवुंसयवेद चउजादि-हुंडसंटाण-असंपत्तसेवट्टसंध-उण-आदाव-थावर-सुहुम-अप-ज्जत्तसाहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ?	२४०
१६०	मिच्छाहट्ठी सासणसंम्माहट्ठी असंजदसंम्माहट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	२३२	१६६	मिच्छाहट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	२४१
१६१	णिहाणिहा-पयलापयला-थोण-गिद्धि-अणंतणुबंधिकोध-भाण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्ख-गइ-चउसंडाण-चउसंधडण—तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्बि—उज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ—दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणं को बंधो को अबंधो ?	२३७	१६७	देवगइ-वेउव्वियसरीर—वेउ—व्वियसरीरअंगोवंग-देवगइ—पाओग्गाणुपुब्बि—तित्थयर—णामाणं को बंधो को अबंधो ?	२४१
१६२	मिच्छाहट्ठी सासणसंम्माहट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	२३७	१६८	असंजदसंम्माहट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	२४२
			१६९	वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिस-वेद-णवुंसयवेदपसु पंचणाणा-वरणीय—चउदंसणावरणीय—सादावेदणीय—चदुसंजलण—पुरिसवेद-जसकित्ति—उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	२४२
			१७०	मिच्छाहट्ठिप्पहुडि जाव अणि-यट्ठिउवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	२४५
			१७१	बेड्डाणी ओघं ।	२४८
			१७२	णिहा पयला य ओघं ।	२४९
			१७३	असादावेदणीयमोघं ।	२४९
			१७४	एकट्ठाणी ओघं ।	२४९

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१७५	अपञ्चकखाणावरणीयमोघं ।	२५१	१८६	लोभसंजलणस्स को बंधो को अवंधो ?	२६८
१७६	पञ्चकखाणावरणीयमोघं ।	२५४	१८७	अणियट्ठी उवसमा खवा बंधा । अणियट्ठिवादरद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	२६९
१७७	हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओघं ।	"	१८८	कसायाणुवादेण कोधकसाईसु पंचणाणावरणीय- [चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-] चदुसंजलण-जसकित्त-उच्चागोद-पंचराइयाणं को बंधो को अवंधो ?	"
१७८	अवगाद्वेदपसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जस-कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ?	२६४	१८९	मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठि त्ति उवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अवंधा णत्थि ।	२७०
१७९	अणियट्ठिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	"	१९०	वेट्ठाणी ओघं ।	२७२
१८०	सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ?	२६५	१९१	जाव पञ्चकखाणावरणीयमोघं ।	२७४
१८१	अणियट्ठिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	"	१९२	पुरिसवेदे ओघं ।	२७५
१८२	कोधसंजलणस्स को बंधो को अवंधो ?	२६६	१९३	हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओघं ।	"
१८३	अणियट्ठी उवसमा खवा बंधा । अणियट्ठिवादरद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	"	१९४	माणकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय सादावेदणीय-तिणिसंजलण-जस-कित्त-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ?	"
१८४	माण-मायासंजलणणं को बंधो को अवंधो ?	२६७	१९५	मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठी उवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अवंधा णत्थि ।	२७६
१८५	अणियट्ठी उवसमा खवा बंधा । अणियट्ठिवादरद्दाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	"	१९६	वेट्ठाणि जाव पुरिसवेद-कोध-संजलणणमोघं ।	"
			१९७	हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओघं ।	२७७
			१९८	मायकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-दोणिसंजलण-जस-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराहयाणं को बंधो को अबंधो ?	२७७	दियजादि-ओरालिय-वेउविय- तेजा-कम्मइयसररीर-पंचसंठाण- ओरालिय-वेउवियसररीरअंगो- चंग-पंचसंघडण वण्ण-गंध-रस- फास-तिरिक्खगइ-मणुसगइ- देवगइपाओगाणुपुव्वी-अगुदअ- लहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास- उज्जोव-दोविहायगइ-तस- बादर-पज्जत्त-पत्तियसररीर- थिराथिर-सुहासुह-सुभग- दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- अणदेज्ज-जसकित्ति-अजस- कित्ति-णिमिण-णीचुच्चागोद- पंचंतराहयाणं को बंधो को अबंधो ?	२८०
१९९	मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अणि- यट्ठी उवंसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	"		
२००	वेट्ठाणि जाव माणसंजलणे त्ति ओघं ।	"		
२०१	हस्स-रदि जाव तित्थयरे त्ति ओघं ।	२७८		
२०२	लोभकसाईसु पंचणाणावर- णीय-चउदंसणावरणीय-सादा- वेदणीय-जसकित्ति-उच्चागोद- पंचंतराहयाणं को बंधो को अबंधो ?	"		
२०३	मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सुहुम- सांपराइयउवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	"	२०८ मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	"
२०४	सेसं जाव तित्थयरे त्ति ओघं ।	"	२०९ एककट्ठाणी ओघं ।	२८५
२०५	अकसाईसु सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ?	"	२१० आभिणिधोहिय-सुद-ओहि- णाणीसु पंचणाणावरणीय-चउ- दंसणावरणीय-जसकित्ति-उच्चा- गोद-पंचंतराहयाणं को बंधो को अबंधो ?	२८६
२०६	उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था खीणकसायवीदरागछदुमत्था सजोगिकेवली बंधा । सजोगि- केवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	२७९	२११ असंजदसम्माइट्ठिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छि- ज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
२०७	णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि- सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु- पंचणाणावरणीय-णवदंसणा- वरणीय-सादासाद-सोलस- कसाय-अट्ठणोकसाय-तिरि- क्खलउ-मणुसाउ-देवाउ-तिरि- क्खलगइ-मणुसगइ-देवगइ-पंचि-		२१२ णिहा-पयला य ओघं ।	२८७
			२१३ सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ?	२८८

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	
२१४	असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव खीणकसायवीदरार्गीछट्टुमत्था बंधा । पदे बंधा, अवंधा णत्थि ।	२८८	२२४	सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो चोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	२९७
२१५	सेसमोघं जाव तित्थयरे त्ति । णवरि असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि त्ति भाणिद्वं ।	२८९	२२५	संजमाणुवादेण संजदेसु मण-पज्जवणाणिभंगो ।	२९८
२१६	मणपज्जवणाणीसु पंचणाणा-वरणीय-चउदंसणावरणीय — जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइ-याणं को बंधो को अवंधो ?	२९५	२२६	णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ?	”
२१७	पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सुहुम-सांपराइयउवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसंजदद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो चोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	”	२२७	पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलि-अद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो चोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	”
२१८	णिहा पयलाणं को बंधो को अवंधो ?	”	२२८	सामाइयछेदोवट्टावणसुद्धि—संजदेसु पंचणाणावरणीय—सादावेदणीय-लोभसंजलण—जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतरा-इयाणं को बंधो को अवंधो ?	”
२१९	पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्व-करणपइट्टुउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्दाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो चोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।	२९६	२२९	पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अणियट्टिउवसमा खवा बंधा । पदे बंधा, अवंधा णत्थि ।	३९९
२२०	सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ?	”	२३०	सेसं मणपज्जवणाणिभंगो ।	३००
२२१	पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीण-कसायवीयरायछट्टुमत्था बंधा । पदे बंधा, अवंधा णत्थि ।	”	२३१	परिहारसुद्धिसंजदेसु पंच-णाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय—चदुसंजुलण—पुरिसवेद-हस्स — रदि-भय — दुगुंळा देचगइ-पंचिंदियजादि-वेउविय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउविय—सरीरअंगोवंग-वण्ण गंध-रस-फास-देवाणुपुव्वि-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस यादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-	
२२२	सेसमोघं जाव तित्थयरे त्ति । णवरि पमत्तसंजदप्पहुडि त्ति भाणिद्वं ।	”			
२२३	केवलणाणीसु सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ?	२९७			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति— णिमिण तित्थयरुच्चागोद-पंचं- तराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	३०३	२४२ उचसंतकसायवीदरागल्लुमुत्था खीणकसायवीयरायल्लुमुत्था सजोगिकेवली बंधा । सजोग- केवलिअद्दाए चरिमसंमयं गंतूण [बंधो] वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३०९
२३२	पमत्त-अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	३०४		
२३३	असादावेदणीय-अरादि-सोग- अथिर-असुह-अजसकित्ति— णामाणं को बंधो को अबंधो ?	३०५	२४३ संजदासंजदेसु पंचणाणावर- णीय-छदंसणावरणीय-सादा— साद-अट्टकसाय-पुरिसवेद- हस्स-रदि-सोग-भय-दुगुल्ल- देचाउ देवगइ पंचिदियजादि— वेउन्वियतेजा-कम्मइयसरि- समचउरससंठाण-वेउन्विय- सरिअंगोवंग-वण-गंध-रस- फास-देवगइपाओग्गानुपुव्वी- अगुरुवल्लुव-उवचाद-परघाद- उस्सास-पसत्थविहायगइ-त्स- वादर-पज्जत्त-एत्तेयसरि- थिराथिर-सुहासुह-सुभग- सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति— अजसकित्ति-णिमिण-तित्थ- यरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	३१०
२३४	पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३०६		
२३५	देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ?	"		
२३६	पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तसंजदद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अव- सेसा अबंधा ।	३०७		
२३७	आहारसरि-आहारसरिरंगो- वंगणामाणं को बंधो को अबंधो ?	"		
२३८	अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	२४४ संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	"
२३९	सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणा— वरणीय-सादावेदणीय-जस- कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	३०८	२४५ असंजदेसु पंचणाणावरणीय- छदंसणावरणीय-सादासाद- बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स- रदि-अरादि-सोग-भय-दुगुल्ल- मणुसगइ-देवगइ-पंचिदिय- जादि-ओरालिय वेउन्वियतेजा- कम्मइयसरि-समचउरस- संठाण-ओरालिय वेउन्वियअंगो- वंग-वज्जरिसहसंधडण-वण- गंध-रस-फास-मणुसगइ-देवगइ-	
२४०	सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	"		
२४१	जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ?	३०९		

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	पाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ- उवघाद-परघाद-उस्सास- पसत्थविहायगइ-तस-बादर- पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर- सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज- जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणु- च्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	३१२	णीललेस्सिय-काउलेस्सियाणम- संजदभंगो ।	३१०
२४६	मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असं- जदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	”	२५१ तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु- पंचणाणावरणीय-छदंसणावर- णीय-सादावेदणीय-चउसंज- लण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय- दुगुच्छा-देवगइ-पंचिदियजादि- वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर- समच्चउरससंठाण-वेउव्विय- सरीरअंगोवंग-वणण-गंध-रस- फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी- अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादु- स्सास-पसत्थविहायगइ-तस- बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज- जसकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचं- तराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	३१३
२४७	वेट्ठणी ओघं ।	३१७	२६० मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अण्य- मत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	”
२४८	एकट्ठणी ओघं ।	”	२६१ वेट्ठणी ओघं ।	३३७
२४९	मणुस्साउ-देवाउआणं को बंधो को अबंधो ?	”	२६२ असादावेदणीयमोघं ।	३३९
२५०	मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३१८	२६३ मिच्छत्त-णत्तुंसयवेद-एईदिय- जादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्ठ- संधडण-आदाव-थावरणामाणं को बंधो को अबंधो ?	३४०
२५१	तित्थयरणामस्स को बंधो को अबंधो ?	”	२६४ मिच्छाइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	”
२५२	असंजदसम्माइट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	”	२६५ अपरुचक्खणावरणीयमोघं ।	३४१
२५३	दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि- अचक्खुदंसणीणमोघं णेदव्वं जाव तित्थयरे त्ति ।	”	२६६ परुचक्खणाचउक्कमोघं ।	३४३
२५४	णवरि विसेसो, सादावेदणी- यस्स को बंधो को अबंधो ?	३१९	२६७ मणुस्साउअस्स ओघभंगो ।	”
२५५	मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव खीण- कसायवीयरायछट्टुमत्था बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	”	२६८ देवाउअस्स ओघभंगो ।	३४४
२५६	ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ।	”		
२५७	केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ।	”		
२५८	लेस्साणुवादेण किणहलेस्सिय- उ व. ५३.			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
२६९	आहारसरीर-आहारसरीर-अंगो- वंगणामाण को बंधो को अबंधो? अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३४४	अणादेज्ज-जसकित्ति-अजस— कित्ति-णिमिण-णीत्तुच्चागोद— पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	३५९
२७०	तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो? असंजदसम्माइट्ठी जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३४५	२७७ सच्चे एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	”
२७१	पम्मलेस्सिएसु मिच्छत्तदंडओ णेरइयभंगो ।	३४६	२७८ सम्मत्ताणुवादेण सम्माइट्ठीसु खइयसम्माइट्ठीसु आभिणि बोहियणाणिभंगो ।	३६३
२७२	सुक्कलेस्सिएसु जाव तित्थयरे त्ति ओघभंगो ।	”	२७९ णवरि सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ?	३६४
२७३	णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ।	३५६	२८० असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । सजोगि- केवलिअद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	”
२७४	वेट्ठाणि-एक्कट्ठाणीणं णवगेवज्ज- विमाणवासियदेवाणं भंगो ।	”	२८१ वेदयसम्मादिट्ठीसु पंचणाणा- वरणीय छंदसणावरणीय-सादा- वेदणीय—चउसंजळण-पुरिस- वेद-हस्सरदि-भय दुगुछ-देव- गदि-पंचिदियजादि-वेउविय- तेजा कम्मइयसरीर समचउरस- संठाण-वेउवियअगोवंग वणण- गंध-रस-फास-देवगइपाओ— ग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उव- घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ- विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त- पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग- सुस्सर-आदेज्ज—जसकित्ति- णिमिण-तित्थयरच्चागोद-पंचं- तराइयाणं को बंधो को अबंधो ?	”
२७५	भवियाणुवादेण भवसिद्धियाण- मोघं ।	३५८	२८२ असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	३६५
२७६	अभवसिद्धिएसु पंचणाणावर- णीय-णवदंसणावरणीय सादा- साद-मिच्छत्त-सोलसकसाय- णवणोकसाय-चदुआउ-चदुगइ- पंचजादि-ओरालिय-वेउविय- तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण- ओरालिय—वेउवियअंगो— वंग-छसंधडण वणण गंध-रस- फास-चत्तारिआणुपुव्वी-अगुरुव- लहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास- आदाहुज्जोव-दोविहायगइ तस- बादर-थावर-सुहुम-पज्जत्त- अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर- थिराथिर-सुहासुह—सुभग— दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
२८३	असादावेदणीय अरादि-सोम- अथिर-असुह—अजसकित्ति— णामाणं को बंधो को अबंधो ?	३६७	२९३	उवसमसम्मादिट्टीसु पंचणाणा- चरणीय-चउदंसणावरणीय— जसकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराह- याणं को बंधो को अबंधो ?	३७२
२८४	असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३६८	२९४	असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराहयउवसमा बंधा । सुहुमसांपराहयउवसमद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छि- ज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३७२
२८५	अपच्चक्खाणावरणीयकोह— माण-माया-लोह मणुस्साउ- मणुसगह—ओरालियसरीर— ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरि- सहसंघडण-मणुसाणुपुव्वी— णामाणं को बंधो को अबंधो ?	३६९	२९५	णिहा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ?	३७४
२८६	असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३७०	२९६	असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणउवसमा बंधा । अपुव्वकरणउवसमद्दाए संखे- ज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अव- सेसा अबंधा ।	३७५
२८७	पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण- माया लोमाणं को बंधो को अबंधो ?	३७०	२९७	सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ?	३७५
२८८	असंजदसम्मादिट्टी संजदा- संजदा बंधा । एदे बंधा, अव- सेसा अबंधा ।	३७१	२९८	असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ।	३७५
२८९	देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ?	३७१	२९९	असादावेदणीय-अरादि-सोम- अथिर-असुह-अजसकित्ति— णामाणं को बंधो को अबंधो ?	३७६
२९०	असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव अपमत्तसंजदा बंधा । अप- मत्तद्दाए संखेजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३७२	३००	असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३७७
२९१	आहारसरीर-आहारसरीरगो- वंगणामाणं को बंधो को अबंधो ?	३७२	३०१	अपच्चक्खाणावरणीयमोहि— णाणिअंगो ।	३७७
२९२	अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३७२	३०२	णवरि आउवं णत्थि ।	३७७

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
३०३	पञ्चकलाणावरणचउक्कस्स को बंधो को अबंधो ?	३७७	३१३ देवगइ-पंचिन्द्रियजादि-वेउ- विय-तेजा-कम्मइयसरीर सम- चउरससंठाण-वेउवियअंगो- वंग वणण गंध रस-फास-देवाणु- पुंवी-अगुरुअलहुअ-उवघाद- परघाद-उस्सत्त पसत्थविहाय- गदि-त्तत्त वादर पज्जत्त-पत्तेय- सरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर- आदेज्ज-णिमिण तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ?	३७९
३०४	असंजदसम्मादिट्ठी संजदासंजदा [बंधा] । पदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	३१४ असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणउवसमा बंधा । अपुव्वकरणुवसमद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३८०
३०५	पुरिसवेद-कोधसंजलणानं को बंधो को अबंधो ?	"	३१५ आहारसरीर-आहारसरीरअंगो- वंगाणं को बंधो को अबंधो ?	"
३०६	असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठी उवसमा बंधा । अणि- यट्ठिउवसमद्दाए सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	३७८	३१६ अप्पमत्तापुव्वकरणउवसमा बंधा । अपुव्वकरणुवसमद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छि- ज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"
३०७	माण-मायसंजलणानं को बंधो को अबंधो ?	"	३१७ सासणसम्मादिट्ठी मदि- अण्णाणिभंगो ।	"
३०८	असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठी उवसमा बंधा । अणि- यट्ठिउवसमद्दाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अव- सेसा अबंधा ।	"	३१८ सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदभंगो ।	३८३
३०९	लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ?	"	३१९ मिच्छाइट्ठीणमभवसिद्धियभंगो ।	३८६
३१०	असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठी उवसमा बंधा । अणि- यट्ठिउवसमद्दाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	३२० सण्णियाणुवादेण सण्णीसु जाव तित्थयेरे त्ति ओघभंगो ।	"
३११	हस्सरदि-भय-दुग्गुछाणं को बंधो को अबंधो ?	३७९	३२१ णवरि विसेसो साद्दावेद- णियस्स चक्खुदंसणिभंगो ।	३८७
३१२	असंजदसम्मादिट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणउवसमा बंधा । अपुव्वकरणुवसमद्दाए चरिम- समयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।	"	३२२ असण्णीसु अभवसिद्धियभंगो ।	"
		"	३२३ आहाराणुवादेण आहारएसु ओघं ।	३९०
		"	३२४ अणाहारएसु कम्मइयभंगो ।	३९१

२ अवंतरण-गाथा-सूची

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ अन्यत्र कहाँ	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ अन्यत्र कहाँ
१६	अगुरुअलहु उवघादं	१७	२२	पणवणणा इर वणणा	२४
२४	आगमचक्रवृत्त साहू	२६४ प्र. सा. ३-३४	९	पणरस कसाया विणु	१२
१७	इत्थि-णउंसयवेदा	१८	१८	पंचासुहसंघडणा	१८
२१	उवरिल्लपंचए पुण	२४ गो. क. ७८८	१०	पुव्वुत्तवसेसाओ	१३
२०	अदुपच्चइगो वंधो	” ” ७८७	१	बंधेण य संजोगो	३
१५	णाणंतरायदंसयं	१७	३	बंधोदय पुव्वं वा	८
१२	णाणंतरायदंसण	१५	५	” ” ”	”
११	तित्थयर-णिरय-देवाउअ	१४	२	बंधो बंधविही पुण	”
१३	दस अट्टारस दसयं	२८ गो. क. ७१२	८	मिच्छत्त-भय-दुगुंछा	१२
६	दस अदुरिगि सत्तारस	११ ” २६३	१३	सत्तावीसेदाओ	१५
७	देवाउ-देवचउक्काहार	”	१४	सत्तेताल धुवाओ	१६
४	पच्चयसामित्तविही	८	१९	सांतरणिरंतरेण य	१९

३ न्यायोक्तियां

क्रम संख्या	न्याय	पृष्ठ	क्रम संख्या	न्याय	पृष्ठ
१	'जहा उहेसो तथा णिहेसो' त्ति जाणावणट्टमोघेणे त्ति उत्तं ।		४	इति दो वि णए अविलंबिऊण द्विद्वेगमणयस्स भावाभावववहार-विरोहाभावादो ।	६
२	'यदस्ति न तद् द्यमतिच्छं वरत्तं'				

४ ग्रन्थौल्लेख

१ कसायपाहुड

कसायपाहुडसुत्तेणेदं सुत्तं विरुज्झदि त्ति उत्ते सच्चं विरुज्झइ किंतु .. । ५६

२ चूर्णिसूत्र

चुणिसुत्तकत्ताराणमुवपसेण पचण्णं पयडीणमुदयवोच्छेदो, चतुजादि-
थावरारणं सासणसम्मादिट्ठिभिह उदयवोच्छेदव्भुवगमादो । ९

३ महाकर्मप्रकृतिप्राभृत

मिच्छत्त-पईदिय-बीईदिय-तीईदिय-च उरिंदियजादि-आदाव-यावर-सुहुम-
अपज्जन्त-साहारणाणं दसण्हं पयडीणं मिच्छाइट्ठिस्स चारिमसमयम्मि उदयवोच्छेदो ।
एसो महाकम्मपयडिपाहुडउवपसो । ९

४ व्याकरणसूत्र

‘एए छच्च सामणा’ त्ति सुत्तेण आदिबुद्धीए कयअकारत्तादो । ९०

५ सूत्र पुस्तक

अपमत्तद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु देवाउअस्स बंधो वोच्छिज्जदि त्ति
केसु वि सुत्तपोत्थपसु उवलम्भइ । ६५

५ पारिभाषिक शब्दसूची

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अ		अज्ञानमिध्यात्व	२०
		अतिचार	८२
अगतिसंयुक्त	८	अध्वान	८, ३१
अगुरुलघु	१०	अधुव	८
अचक्षुदर्शनी	३१८	अनन्तानुबन्धी	९

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अनापित	६	अष्टस्थानिक	२०५
अनादिक	८	असंख्यातवर्षायुष्क	११६
अनादेय	९	असंज्ञी	३८७
अनाहारक	३९१	असंप्राप्तस्युपाटिकासंहनन	१०
अनिवृत्तिकरण	४	असंयत	३१२
अनुभाग बन्ध	२	असंयतसम्यग्दष्टि	४
अनेकान्त	१४५	असंयम	२, १९
अन्तर	६३	असंयम प्रत्यय	२५
अन्तरकरण	५३	असातादण्डक	२४२, २७४
अन्तराय	१०	अस्थिर	१०
अपगतवेद्	२६५, २६६		
अपर्याप्त	९	आ	
अपूर्वकरण	४	आचार्य	७२, ७३
अष्कायिक	१९२	आताप	९, २००
अप्रत्यय	८	आदेय	११
अप्रत्याख्यानावरणदण्डक	२५१, २७४	आदेश	९३
अप्रमत्तसंयत	४	आनुपूर्वी	९
अभव्यसिद्धिक	३५९	आभिनवोधिकजानी	२८६
अभिधेय	१	आभ्यन्तर तप	८६
अभीक्षण-अभीक्षणज्ञानोपयोगयुक्ता	७९, ९१	आवश्यक	८४
अयशकीर्ति	९	आवश्यकपरिहीनता	७२, ८३
अयोगिकेवली	४	आहारक	३९०
अरति	१०	आहारककाययोगी	२२९
अरहन्त	८९	आहारकमिश्रकाययोगी	"
अरहन्तभक्ति	७९, ८९	आहारकशरीरद्विक	९
अर्चना	९२		
अर्थापत्ति	२७४	इ	
अर्धनाराचसंहनन	१०	इन्द्रियासंयम	३१
अर्पणासूत्र	१९२, १९९, २००		
अर्पित	५	उ	
अवधि	२६४	उच्चगोत्र	११
अवधिज्ञानी	२८६	उच्छ्रवांस	१०
अवधिदर्शनी	३१२	उत्तरप्रकृतिबन्ध	२
अव्वागाढमूलप्रकृतिबंध	२	उत्तर प्रत्यय	२०
अशुभ	१०	उद्योत	९, २००
		उपघात	१०

शब्द -	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
उपशमक	२६५	क्षपक	२६५
उपशमसम्यग्दृष्टि	३७२	क्षायिकसम्यग्दृष्टि	३६३
उपशान्तकषाय	४	क्षीणकषाय	४
उपसंहार	५७		
		ग	
ए		गतिसंयुक्त	८
एक-एक-मूलप्रकृतित्रन्ध	२	गंध	१०
एकस्थानदण्डक	२७४		
एकस्थानिक	२४९	च	
यकान्तमिथ्यात्व	२०	चक्षुदशीनी	३१८
एकैन्द्रिय	९	चतुरिन्द्रिय	९
		चारित्रविनय	८०, ८१
ऐ		चूर्णिसूत्र	९
ऐन्द्रध्वज	९२		
		ज	
औ		जीवसमास	४
औदारिककाययोगी	२०३	जीवस्थान	५
औदारिकमिश्रकाययोगी	२०५	जुगुप्सा	१०
औदारिकशरीर	१०	ज्ञानविनय	८०
औदारिकशरीरांगोपांग	"	ज्ञानावरणीय	१०
		ज्योतिषी	१४६
क			
कल्पवृक्ष	९२	तिर्थगायु	९
कषाय	२, १९	तिर्यग्गति	"
कषायप्रत्यय	२१, २५	तिर्यंच	१९२
कापोतलेइया	३२०, ३३२	तीर्थ	९२
कार्मणकाययोगी	२३२	तीर्थकर	११, ७२, ७३
कार्मणशरीर	१०	तीर्थकरनामगोत्रकर्म	७६, ७८
कीलितसंहनन	"	तीर्थकरसन्तकर्मिक	३३२
कृति	२	तेज	२००
कृष्णलेइया	३२०	तेजकायिक	१९२
केवल	२६४	तेजोलेइया	३३३
केवलज्ञानी	२९६	तेजसशरीर	१०
केवलदर्शनी	३१९	त्रस	११
क्षण-लवप्रतिबोधनता	७९, ८५	त्रीन्द्रिय	९

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
		निरन्तरबन्धप्रकृति	१७
दर्शनचिन्तय	८०	निर्माण	१०
दर्शनविशुद्धता	७९	नीचगोत्र	९
दर्शनावरणीय	१०	नीललेइया	३२०, ३३१
दुर्भग	९	नैगमनय	६
दुस्वर	१०		
देवगति	९		
देवायु	"	पद्मलेइया	३३३, ३४५
देशवती	२५५, ३११	परघात	१०
द्रव्यश्रुत	९१	परिहारशुद्धिसंयत	३०३
द्रव्यार्थिकनय	३	परोदय	७
द्विस्थानदण्डक	२७४	पर्याप्त	११
द्विस्थानी	२४५, २७२	पर्याय	५, ६
द्वीन्द्रिय	९	पर्यायार्थिकनय	३, ७८
		पंचेन्द्रियजाति	११
		पंचेन्द्रियतिर्यंच	११२
धर्म	९२	पंचेन्द्रियतिर्यंचअपर्याप्त	१२७
ध्रुव	८	पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त	११२
ध्रुवबन्ध	१७	पंचेन्द्रियतिर्यंचयोनिमती	"
ध्रुवबन्धप्रकृति	"	पुरुषवेद	१०
ध्रुवबन्धी	"	पुरुषवेददण्डक	२७५
		पृथिवीकायिक	१९२
		प्रकृतिबन्ध	२, ७
नपुंसकवेद	१०	प्रकृतिबन्धव्युत्प्लेद	५
नमोलन	९२	प्रकृतिसमुत्कीर्तना	७
नरकगति	९	प्रकृतिस्थानबन्ध	२
नारकायु	"	प्रचला	१०
नाराचसंहनन	१०	प्रचलाप्रचला	९
निगोदजीव	१९२	प्रतिक्रमण	८३, ८४
निद्रा	१०	प्रत्यक्षज्ञानी	५७
निद्रादण्डक	२७४	प्रत्ययविधि	८
निद्रानिद्रा	९	प्रत्याख्यान	८३, ८५
निरतिचारता	८२	प्रत्याख्यानदण्डक	२७४
निरन्तर	८	प्रत्याख्यानावरण	९
निरन्तरबन्ध	१७	प्रत्यासत्ति	६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
प्रत्येकशरीर	१०	म	
प्रदेशबन्ध	२	मतिअज्ञानी	२७९
प्रमत्तसंयत	४	मनःपर्ययज्ञानी	२९५
प्रमोक्ष	३	मनुष्यअपर्याप्त	१३०
प्रयोजन	१	मनुष्यगति	११
प्रवचन	७२, ७३, ९०	मनुष्यनी	१३०
प्रवचनप्रभावना	७९, ९१	मनुष्यपर्याप्त	"
प्रवचनभक्ति	७९, ९०	मनुष्यायु	११
प्रवचनवत्सलता	"	महाकर्मप्रकृतिप्राभृत	९
प्राण्यसंयम	२१	महामह	१२
प्राशुकपरित्यागता	७२, ८७	महाव्रती	२५५, २५६
व		मानदण्डक	२७५
वन्ध	२, ३, ८	मार्गणास्थान	८
वन्धक	२	मिथ्यात्व	२, ९, १९
वन्धन	"	मिथ्यादृष्टि	४, ३८६
वन्धनीय	"	मूलप्रकृतिवन्ध	२
वन्धविधान	"	मूलप्रत्यय	२०
वन्धविधि	८	य	
वन्धव्युच्छेद	५	यथाख्यातसंयत	३०९
वन्धस्वामित्वविचय	३	यथाशक्तितप	७९, ८६
वन्धाध्वान	८	यशकीर्ति	११
बहुश्रुत	७२, ७३, ८९	योग	२, २०
बहुश्रुतभक्ति	७९, ८९	योगप्रत्यय	२१
बादर	११	र	
बाह्यतप	८६	रति	१०
भ		रस	"
भय	१०	ल	
भवनवासी	१४६	लब्धि	८६
मन्यसिद्धिक	३५८	लब्धिसंवेगसम्पन्नता	७९, ८६
भंग	१७१	लेइया	३५६
भावश्रुत	९१	लोभदण्डक	२७५
भुजगारबन्ध	२		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वज्रनाराचसंहनन	१०	श्रुतश्रवणी	२७२
वज्रवृषभनाराचसंहनन	"	श्रुतकेवली	५७
वनस्पतिकायिक	१९२	श्रुतज्ञानी	२८६
वन्दना	८३, ८४, ९२		
वर्गणा	२	स	
वर्ण	१०	समता	८३, ८४
चान्दव्यन्तर	१४६	समाधि	८८
चायुकायिक	१९२	सम्बन्ध	१, २
विग्रहगति	१६०	सम्यग्दृष्टि	३६३
विनय	८०	सम्यगिमध्यादृष्टि	४, ३८३
विनयसम्पन्नता	७९, ८०	सयोगकेवली	४
विपरीतमिध्यात्व	२०	सर्वतोभद्र	९२
विभंगज्ञानी	२७९	संख्यातवर्षायुष्क	११६
विरति	८२	संज्ञी	३८६
विहायोगति	१०	संज्वलन	१०
वेदकसम्यक्त्व	"	संयत	२९८
वेदकसम्यग्दृष्टि	३६४	संयतासंयत	४, ३१०
वेदना	२	संवेग	८६
वेदनीय	११	संस्थान	१०
वैक्रियिककाययोगी	२१५, २२२	सादिक	८
वैक्रियिकशरीर	९	साधारण	९
वैक्रियिकशरीरांगोपांग	"	साधु	८७, २६४
वैनयिकमिध्यात्व	२०	साधुसमाधि	७९, ८८
वैयात्रत्य	८८	सान्तर	७
वैयात्रत्ययोगयुक्तता	७९, ८८	सान्तर-निरन्तर	८
व्यभिचार	३०८	सान्तरबन्धप्रकृति	१७
व्युत्सर्ग	८३, ८५	सामायिकछेदोपस्थापनशुद्धिसंयत	२९८
व्रत	८३	सासादनसम्यग्दृष्टि	४, ३८०
		सांशयिकमिध्यात्व	२०
श		सुभग	११
शील	८२	सुस्वर	१०
शीलव्रतेषु निरतिचारता	७९, ८२	सूक्ष्म	९
शुक्लेक्ष्या	३४६	सूक्ष्मसाम्परायिक	४
शुभ	१०	सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत	३०८
शोक	"	सूत्र	५७

(२८)

परिशिष्ट

शब्द	पृष्ठ	अक्षर	पृष्ठ
स्तव	८३, ८४	स्वप्रत्यय	८
स्त्यानगृद्धि	९	स्वामित्व	"
स्त्रीवेद	१०	स्त्रोदय	७
स्थावर	९	स्त्रोदय-परोदय	"
स्थितियन्ध	३		
स्थिर	१०		६
स्पर्श	"	दास्य	१०



